

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

॥ श्रीः ॥

काशी संस्कृत ग्रन्थमाला

१६८

वाल्मीकिरामायणकोशः

(वाल्मीकिरामायणस्य नाम्नां विषयाणां च
व्याख्यात्मिका अनुक्रमणिका)

रामकुमाररायः



चौखम्बा संस्कृतं सीरीज आफिस, वाराणसी-१


१९६५

प्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी-१

संस्करण - प्रथम, वि. सं. २०२१

मूल्य



© Chowkhamba Sanskrit Series Office,

P. O. Box 8, Varanasi.

(INDIA)

-Phone : 3145-

SG 28-10
R-165 V
8/1009

THE

KASHI SANSKRIT SERIES


168

VĀLMĪKI-RĀMĀYAṆA KOSHA

(Descriptive Index to the Names and Subjects
of Rāmāyaṇa)

BY

RAMKUMAR RAI



THE

CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

Post Box 8.

Varanasi-1, (India)

Phone : 3145.

1965




लेखक

श्रीलक्ष्मीजन्म-कश्मीरराज्य-विधिपति


१९५५.००

महामहिम श्रीकर्णसिंह जी सदस्येरियास्त



कर्णसिंह

कश्मीरदेशाधिप कर्णसिंह कर्णोपमोदार समर्पयेऽहम् ।
धात्मोद्दिशामायणशब्दकोष निर्माय ते रामकुमारराय ॥
दाग्नेऽव वीक्ष्य समुल्लसन्त नहि त्वदन्य परिलक्षयेऽत ।
सत्सतीभूपतिना त्वयेतद् धाष्ट्रं मदीय ननु मर्पणीयम् ॥



प्राक्कथनम्

संस्कृतवाङ्मयस्य विस्तरः, तस्य च विविधानामहानामुपाह्वानां च स्वरकीयं वैशिष्ट्यम् (अस्य वैशिष्ट्यस्य छिष्टता दुर्हृता च केवलम् एकः पक्षो वर्तते) तथा प्रायशः ग्रन्थानां केवलं मूलरूपेणोपलब्धिः कस्यचनापि शोधनकर्तुः कार्यं निरतिशयं जटिलं सम्पादयति, यतो भारत्या नानाविधेषु क्षेत्रेषु तदनुसन्धानकर्तारः संस्कृतभाषातोऽपि परिचिता भवेयुरिति तु न, एवंविधकाठिन्यस्य निवारणार्थम् एकतो यत्र मूलग्रन्थानां हिन्दीभाषानुवादस्यावश्यकताऽस्ति, तत्रैव परतः प्रमुखग्रन्थानामेवंविधाना व्याख्यात्मककोशानामपि, यत्र कस्यचन ग्रन्थविशेषस्य निखिलताम्रयाः सारांशस्तथा पूर्णसन्दर्भसंकेतोऽपि समुपलब्धो भवेत् ।

ईदृशाः कोशा न केवलं तेषां कृते एव उपयोगिनः सन्ति, येषां संस्कृतसम्बन्धिभाषाज्ञानं नास्ति, अपि तु, तानपि निरर्थकप्रमतो दूरीकृत्य लाभान्वितान् कुर्वन्ति, ये संस्कृतभाषातः पूर्णरूपेण परिचिताः सन्ति । अतोऽस्यां दिशि किञ्चित् कार्यं कर्तुं कामेन मया 'महाभारत-कोशस्य' निर्माणकार्यं प्रारब्धम्, तस्य च प्रथमो भागः पाठकानां

सेवार्थं पुरैव प्रस्तूय समुपस्थापितोऽपि । यदाऽहं कार्यं कुर्वन्नास तदाऽयं
 विचारोऽपि मनसि प्रादुर्भूतः, यद्, वाल्मीकिरामायणमन्तरेण नहि
 मदीयस्य महाकाव्यसाहित्यस्य कार्यं पूर्णं स्याद् अनेनैवोद्देशेन सहैव
 प्रस्तुतस्यास्य कोशस्यापि यत् निर्माणकार्यं कुर्वन्नासम्, तदेवाधुना
 सुसम्पन्न भूत्वा प्रस्तुतं वर्त्तते । यद्यप्याभ्यामुभाभ्यां कोशाभ्यामेकस्या
 न्यूनतायां परिमार्जनां परिपूर्णा जाता, सम्भवतोऽत्र मदल्पज्ञता-
 जन्यास्तुम् किं वा न्यूनता भवितुमर्हेयुः, तथापि अधुनाऽपि एक
 महत्त्वपूर्णं क्षेत्रं, पुराणसाहित्यमपि बहुशतं असंख्यमेव वर्त्तते । अतः
 परमहं समेषामष्टादशपुराणानामपि ईदृग्निर्माणकार्यं सम्पादये-
 यम् यत् शीघ्रमेव सुसम्पन्नम् सद् भवतां पुरं समुपस्थापितं स्यात् ।

वाल्मीकिरामायणस्य कोशनिर्माणे महाभारतापेक्षया एकं विशेषतः
 काठिन्यं वर्त्तते यत् सम्पूर्णाऽयं ग्रन्थः भगवत् श्रीरामचन्द्रस्येतिवृत्तेन
 सह सम्बद्धोऽस्ति, अपि च यान्यथ्यन्यानि पात्राण्यत्र सन्ति, तानि
 सर्वाणि श्रीरामस्य क्रियाकलापस्य पूरकाणि तथा सहायकमात्राण्येव
 सन्ति । फलस्वरूपेण श्रीरामस्य नाम ग्रन्थेऽस्मिन् प्रायशः सर्वत्र विद्यते ।
 तदनु लक्ष्मणोऽपि ऐहिकलीलायां प्रायः सदैव श्रीरामस्य सहचारिरूपेण
 दृश्यते । श्रीरामो यत्रैव याति, यथा, विश्वामित्रेण सह किं वा वने,
 तत्रैव लक्ष्मणश्चायासदृशस्तत्सहचर एव । अतः श्रीरामलक्ष्मण
 योर्नाम्नोरावृत्ते पूर्णनिर्देशः, यत्र प्रायः सपूर्णग्रन्थोद्धृतिस्तुन्यं स्यात्,
 तत्रैव ततः कश्चन लाभो नासीत् एतदर्थमेव मया अनयोर्द्वयोर्नाम्नो-
 रन्तर्गता, तत्संबद्धा मुख्यमुख्या घटना एव गृहीता, अपि च,
 यत्र च कश्चन सर्गः केनचन एवेन द्वाभ्यां वा पूर्णतः संबद्धो वर्त्तते
 तत्र पूर्णसर्गस्य सारांशं निर्दिश्य तत्संबद्धायां ममुल्लेखं वृत्तं, एव
 रीत्या सीताऽपि त्रिगहादारभ्य रात्रणद्वारा अपहृतिपर्यन्तं मन्त्रैव
 श्रीरामेण सह वर्त्तमाना विद्यते । अतः अस्यां नाम्नोऽन्तर्गता अप्येव

तत्सर्गाणां सर्गाशानां वा सारांशप्रदानपुरःसरं तत्संख्याया अपि निर्देशः कृतोऽत्र । एवंविधायाः प्रणाल्या आश्रयग्रहणमेतदर्थ-
मप्यावश्यकमासीत् । यत्, अनेके सर्गाः प्रायशः पूर्णत एतत्संबद्धायाः
कस्याश्चनैकस्या घटनाया उल्लेखं कुर्वन्ति, यथा—सीताया अपहरणा-
नन्तरं बहुषु सर्गेषु तत्कृते श्रीरामविलापवर्णनं वर्त्तते । एवदिवेषु
सर्गेषु अन्यानि यानि नामानि प्रसङ्गवशातः समागतानि, तेषां तु
तदन्तर्गतश्लोकानुसारेण उल्लेखः सन्दर्भसंकेतश्च प्रदत्तौ, किन्तु श्रीरामस्य
अन्तर्गतः केवलं तद्विलापस्यैवोल्लेखः कृतः, लक्ष्मणस्य सीतायाश्च
कृतेऽपि अस्या एव पद्धत्या अनुसरणं कृतम् ।

प्रस्तुतस्य कोशस्य कृते मुख्यरूपेण 'चौखम्बाविद्याभवन-वाराणसी'
संबद्धं संस्करणमाधारीकृतमस्ति, यद्यपि, 'गीताप्रेस' संबद्धं संस्करण-
मपि पुरः स्थापितमस्ति । यत्रोभयोः संस्करणयोः परस्परं वैभिन्न्यं
वर्त्तते, अथवा यदि कश्चन श्लोकः केवलं 'गीताप्रेस' संबद्धे संस्करणे
एव उल्लिखितो वर्त्तते, तत्र तदनुसारेण निर्देशः कृतो विद्यते ।

कोशस्य मूलविषयसमाप्त्यनन्तरं परिशिष्टत्रयमपि वृत्तम्, यत्र
क्रमशः वाल्मीकिरामायणे समुल्लिखितानां पशूनां पक्षिणां च, तर्हणां
वीरुवाञ्च, अस्त्राणां शस्त्राणाञ्च नामानि तथा तेषामेकैकशः सन्दर्भाणां
संकेता अपि प्रदत्ताः सन्ति ।

ग्रन्थे मुद्रणसंबन्धिन्यः काश्चन साधारण्यलुदितस्यः सन्ति, यत्तां
कृतेऽहं नाठकान् प्राति क्षमां प्रार्थये । ग्रन्थस्य शीघ्रप्रकाशनं तथा
सर्वतोभावेन सौन्दर्यदृष्टयोत्कृष्टतां विधाय प्रस्तुतं कर्तुं 'चौखम्बा
संस्कृत सीरीज' सञ्चालकगणः सविशेषधन्यवादपात्रतामर्हति । अहं
यत् किमपि कार्यं कर्तुमशकम्, तद् अधिकांशतः उक्तसंचालकगणस्य
निर्वायसहयोगस्यैव परिणामः ।

जन्मू-करमीरराज्यस्य 'सदरे रियासत' पदवीधारिणि श्रीमद्भिर्महा-
राजकर्णसिंहमहोदयैरमु प्रन्थ स्वस्मै ममर्पित कर्तुमनुमतिं प्रदाय मह्य
यदादरप्रदान कृतं तत्कृतेऽह तथा प्रन्थप्रकाशक उभात्रप्याजीवनमनु-
गृहीती भवेव । इति शम् ।

रामकुमार रायः

प्राक्कथन

संस्कृत वाङ्मय का विस्तार, उसके विविध अङ्गो-उपाङ्गो की अपनी विशिष्टता—क्रिष्टता और दुरुहता इस विशिष्टता का केवल एक पक्ष है,—तथा अधिकांश ग्रन्थों का केवल मूलरूप में ही उपलब्ध होना, किसी भी शोधकर्ता का कार्य अत्यन्त जटिल बना देते हैं क्योंकि भारती के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसन्धानकर्ता संस्कृत भाषा से भी परिचित हो ऐसी बात नहीं। इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक ओर जहाँ मूलग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद की आवश्यकता है, वही दूसरी ओर, प्रमुख ग्रन्थों के ऐसे व्याख्यानमय कोशों की भी, जिनमें किसी ग्रन्थ विशेष की समस्त सामग्रियों का सारांश तथा पूर्ण सन्दर्भ-संकलन उपलब्ध हो। ऐसे कोश न केवल उन लोगों के लिये ही उपयोगी है जिन्हें संस्कृत का भाषा-ज्ञान नहीं वरन् उन लोगों को भी अनावश्यक श्रम से बचाकर लाभान्वित करते हैं जो संस्कृत से भली-भाँति परिचित हैं। अतः इस दिशा में कुछ कार्य करने की दृष्टि में मैंने 'महाभारत कोश' का निर्माण आरम्भ किया और उसका प्रथम भाग पाठकों की सेवा में प्रस्तुत भी कर चुका हूँ। अब वह कार्य कर रहा था तभी यह विचार भी मन में उठा कि बिना 'बालमीकिसंस्कृतकोश' के हमारे महाकाव्य-साहित्य का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य से साथ ही साथ यह कोश भी बनाता रहा जो अब पूर्ण होकर प्रस्तुत हो रहा है। यद्यपि इन दो कोशों से एक कमी तो पूरी ही रही है—मेरी अल्पज्ञताशून्य श्रुतियाँ या कथियाँ इनमें हो सकती हैं—तथापि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, पुराण-

साहित्य, अभी भी बहुत सीमा तक अछूता है। अतः अब आगे मैं समस्त अष्टादश पुराणों के भी इसी प्रकार के कोश बना रहा हूँ जो शीघ्र ही प्रस्तुत होने लगेंगे।

वाल्मीकिरामायण के कोश-निर्माण में महाभारत की अपेक्षा एक विशेष कठिनाई है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ भगवान् श्रीराम के आद्योपान्त जीवन से सम्बद्ध है और जो भी अन्य पात्र इसमें हैं वे सब श्रीराम के क्रिया-कलापों के पूरक तथा सहायकमात्र हैं। फलस्वरूप श्रीराम का नाम ग्रन्थ में प्रायः सर्वत्र है। इनके बाद लक्ष्मण भी जन्म के बाद से प्रायः सदैव श्रीराम के साथ ही रहते हैं। श्रीराम जहाँ भी जाते हैं जैसे विश्वामित्र के साय या वन में, लक्ष्मण छाया की भाँति उनके साथ हैं। अतः श्रीराम और लक्ष्मण के नामों की आवृत्ति का पूर्ण निर्देश जहाँ प्रायः सम्पूर्ण ग्रन्थ को उद्धृत करने के समान होता, वहाँ इससे कोई लाभ भी नहीं था। इसीलिये मैंने इन दोनों नामों के अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध मुख्य मुख्य घटनाओं को ही लिया है और जहाँ कोई सर्ग किसी एक या दोनों से पूर्णतः सम्बद्ध है वहाँ पूर्ण सर्ग का सारांश देकर उसकी सख्या का उल्लेख कर दिया है। इसी प्रकार सीता भी, विवाह के बाद से रावण द्वारा अपहरण होने तक, सदैव श्रीराम के साथ हैं। अतः इनके नाम के अन्तर्गत इनसे सम्बद्ध प्रायः सम्पूर्ण सर्गों या मार्गों का सारांश देकर उनकी सख्या का निर्देश मिलेगा। इस प्रणाली का आश्रय लेना इसलिये भी आवश्यक था कि अनेक सर्गों प्रायः पूर्णतः इनसे सम्बद्ध किसी एक घटना का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण के त्रिये, सीता का अपहरण हो जाने पर श्रीराम कई सर्गों में उनके लिये विलाप करते हैं। ऐसे सर्गों में अन्य जो नाम प्रसंगवश आ गये हैं उनका तो उनके अन्तर्गत इल्लोहानुसार उल्लेख और सन्दर्भ-संकेत दिया गया है, किन्तु श्रीराम के नाम के अन्तर्गत केवल उनके विलाप का उल्लेख करके सम्पूर्ण सर्ग का ही उल्लेख किया गया है। लक्ष्मण और सीता के त्रिये भी इसी पद्धति का अनुसरण किया गया है।

प्रस्तुत कोश के लिये मुख्यरूप से 'चीन्मबा विद्याभवन वाराणसी' के संस्करण को आधार माना गया है, यद्यपि गीताप्रेस-संस्करण भी सामने रखता गया है। जहाँ दोनों संस्करणों में भिन्नता है, अथवा यदि कोई श्लोक केवल 'गीता प्रेस संस्करण' में ही है, वहाँ चन्द्रनुसाह दिर्देश कर दिया गया है।

कोश के मूल विषय की समाप्ति के पश्चात् तीन परिशिष्ट भी दिये गये हैं जिनमें ऋषयः बान्मीकि-रामायण में मिलनेवाले पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों, तथा अस्त्र-शस्त्रों के नाम और उनके एक-एक सन्दर्भ-संकेत दिये गये हैं।

ग्रन्थ में मुद्रण-सम्बन्धी कुछ साधारण असुद्धियाँ हैं जिनके लिये मैं पाठकों से क्षमा-प्रार्थी हूँ।

ग्रन्थ के, शीघ्र प्रकाशन, तथा इसे भेट-अप की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाकर प्रस्तुत करने के लिये चीन्मबा संस्कृत-सीरीज के संचालक-वर्ग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। मैं जो कुछ भी कार्य कर सका हूँ वह बहुत कुछ इन लोगों के मुक्त सहयोग का ही परिणाम है।

जम्मू और कश्मीर के सदरे रियासत, श्री महाराज कर्णसिंह जी ने ग्रन्थ को अपने को समर्पित किये जाने की स्वीकृति देकर हमें जो आदर प्रदान किया उसके लिये मैं तथा ग्रन्थ के प्रकाशक जीवन-पर्यन्त आभारी रहेंगे।

रामकुमारराय



विषय-सूची

भूमिका

बाल्मीकिरामायण कोश

३-४२२

परिशिष्ट-१ :

४२५-२६

बाल्मीकिरामायण में मिलनेवाले पशु-पक्षियों के नाम

परिशिष्ट-२ :

४२७-२८

- बाल्मीकिरामायण में मिलनेवाले पेड़-पौधों के नाम

परिशिष्ट-३ :

४२९-३१

बाल्मीकिरामायण में मिलनेवाले अन्न-शब्दों के नाम



वाल्मीकीय रामायण-कोश

(वाल्मीकीय रामायण के नामों और विषयों की
व्याख्यात्मक अनुक्रमणिका)



[अंशुधान]

[अंशुमान्]

अंशुधान, एक ग्राम का नाम है जिसके निकट गङ्गा को पार करना दुस्तर जानकर भरत प्राग्जट नानक नगर में आ गये (२ ७१, ९) ।

अंशुमान्, सगर के पौत्र और असमञ्ज के पुत्र का नाम है (१ ३८, २२; ७०, ३८) । यह अत्यन्त पराक्रमी, मृदुभाषी तथा सर्वप्रिय थे । (१ ३८, २३) । राजा सगर की याज्ञा से यज्ञ-अश्व की रक्षा का उत्तरदायित्व सुदृढ़ और धनुर्धर महारथी अशुरान् ने स्वीकार किया (१ ३९, ६) । "राजा सगर ने अपने पौत्र अशुमान से इस प्रकार कहा 'तुम शूरवीर, विद्वान् तथा अपने पूर्वजों के समान ही तेजस्वी हो । तुम अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करते हुये उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ-अश्व का अपहरण किया है ।' अपने पितामह की इस आज्ञा से अशुमान् ने अपने चाचाओं द्वारा पृथिवी के भीतर बनाये गये मार्ग का अनुसरण किया । वहाँ इन्हें एक हाथी दिमाई पडा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग आदि पूजा कर रहे थे । अशुमान् ने उस हाथी से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुरानेवाले का पता पूछा । हाथी का आशीर्वाद प्राप्त करके अशुमान् उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके चाचा (सगर-पुत्र) रात के ठेर हुये पड़े थे । इन्होंने अपने यज्ञ-अश्व को भी समीप ही विचरण करते देखा । गन्ध के परामर्श के अनुसार इन्होंने गङ्गा के जल से अपने चाचाओं का तपन किया और तदुपरान्त अपने यज्ञ अश्व को लेकर यज्ञ पूर्ण करने के लिये पितामह सगर के पास लौट आये (१ ४१) ।" 'सुर्ययन्त्राद्यः', (१ ४१, १४) । 'महानेजा', (१ ४१, १५) । 'शूरश्वं ह्यनुविद्यस्व पूर्वस्तुन्योऽग्निं तेजसा', (१ ४१, २) । 'वीर्यवान् महातपा', (१ ४१, २२) । "सगर की मृत्यु के पश्चात् प्रजाजनो ने परम धर्मात्मा अशुमान् को राजा बनाया । अशुमान् अत्यन्त प्रजापी राजा

हुये । इनके पुत्र का नाम दिलीप था । अशुमान् अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर रमणीय हिमवत् पर्वत शिखर पर चले गये, और वहाँ वत्सीस सहस्र वर्षों तक कठिन तपस्या की (१ ४२, १-४) । 'सुधागिवः, (१ ४२, १) । 'तपोधनः', (१ ४२, ४) । 'तयैवाशुमता वत्सलोकेऽप्रतिमतेजसा', (१ ४४, ९), 'राजविणा गुणवता महविषमतेजसा । मत्तुल्यतपसा चैव क्षत्रधर्मस्थितेन च ॥' (१ ४४, १०) ।

अकम्पन, एक राक्षस का नाम है जिसने लङ्का में जाकर रावण को राक्षसपुरी, जनस्थान, के विनाश का समाचार दिया था (३ ३१, १-२) । "रावण ने जब इससे इस प्रकार राक्षसी का विनाश करनेवाले का नाम पूछा तो इसने रावण से अभय की याचना करते हुए राम के शारीरिक बल और पराक्रम का वर्णन किया । अन्त में राम के बच के एकमात्र उपाय के रूप में इसने रावण को सीता का अपहरण करने का परामर्श दिया (३ ३१, ३९ १२-१४ २१ २२) ।" "बालिपुत्र अङ्गद के हाथ से ध्वजदण्ड की मृत्यु के पश्चात् रावण ने अकम्पन को सेनापति बनाते हुये बड़ा अकम्पन सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है । उन्हें युद्ध सदा ही प्रिय है और वे सवदा मेरी उन्नति चाहते हैं । वे राम और लक्ष्मण, तथा महाबली सुग्रीव को भी परास्त करते हुये नि सन्देह ही अन्य भयानक वानरो का भी सहार करेंगे ।" (६ ५५, १-४) । 'रथमास्थाय विपुल तप्तकाञ्चन भूषणम् । मेषाभो मेघवर्णश्च मेघस्वर्णमहास्वन ।', (६ ५५, ७) । 'नहि कम्पयितुं शक्य सुरैरपि भद्रामृये । अकम्पनस्ततस्तेषामा-दित्य इव तेजसा ॥', (६ ५५, ९) । 'स त्विहोपचिनस्वन्ध शार्दूलसमविभ्रम । तानुत्पातानचिन्त्यैव निजंगाम रणाजिरम् ॥', (६ ५५, १२) । जिस समय यह अन्य राक्षसों के साथ लङ्का से निकला उस समय ऐसा महान् बोलाहल हुआ मानो समुद्र में हलचल मच गई और वानरों की विशाल सेना भी भयभीत हो गई (६ ५५, १३-१५) । इसने वानर सेना का भयानक सहार किया (६ ५५, २८) । वानरों द्वारा अनेक राक्षसों का वध कर दिये जाने पर अकम्पन अपने रथ को उन्हीं वानरों के बीच से गया और उन पर टूट पड़ा (६ ५६, १-८) । 'रविनां वर', (६ ५६, ६) । पर्वत के समान विशालकाय हनुमान् को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर अकम्पन उन पर बाणों की वर्षा करने लगा (६ ५६, ११) । जब हनुमान् ने एत पर्वत उखाट कर उमगे अकम्पन पर आक्रमण किया तब अकम्पन ने अर्ध चन्द्राकार बाणों से उस पर्वत को विदीर्ण कर दिया (६ ५५, १७ १८) । "अपने पर्वत के विदीर्ण हो जाने पर जब श्रेष्ठ में भर कर हनुमान् राक्षसों का सहार करने लगे तब हीन अकम्पन ने उन्हें देना और देह को विदीर्ण कर देनेवाले शीघ्र ही बाणों से हनुमान् को आहत

कर दिया । इस प्रकार आहत हनुमान् ने एक वृक्ष उखाड़ कर उससे अकम्पन के मस्तक पर प्रहार किया । इस भीषण प्रहार से अकम्पन भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु होगई । (६ १६, २९, ३१) ।" योजनी गजस्कन्धगतो महारत्ना नवोदिताकौपमताद्भवत् । सकम्पयन्नावशिरोऽभ्युपैति ह्यकम्पन त्वेनमवेहि राजन् ॥', (६ १९, १४) । यह सुमालिन् और कतुमती का पुत्र था (७ ५, ३८ ४०) । यह सुमाली और रावण के साथ देवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये भी गया था (७ २७, २८) ।

अकोप, महाराज दशरथ के एक मन्त्री का नाम है (१ ७, ३) ।

अक्ष, रावण के पुत्र, एक राक्षस का नाम है जिस पर हनुमान् ने लङ्का में प्रहार किया था (१ १ ७५) । रावण की आज्ञा से यह हनुमान् से युद्ध करने के लिये गया और अन्त में हनुमान् ने इसका वध कर दिया (५ ४७ १-३६) । 'निरुम्य रात्रा समरोद्धोलोन्मुख कुमारमश प्रसमीक्षताश्रत', (५ ४७, १) । 'प्रतापबान्काश्वरविचरामुक', (५ ४७, २) । 'ततो वीर्यवान् नैह्यंषंभ', (५ ४७, ३) । 'अमरतुल्यविक्रम', (५ ४७, ६) । 'हरीदणो', (५ ४७, ८) । 'सनाहितात्मा', (५ ४७, १०) । 'आशुपराक्रम', (५ ४७, १२) । 'स तस्य वीर सुमुत्तान् पतत्रिणा सुवर्णपुङ्खाम्सविपानिवीरगान् । समाधिसयोगविमोक्षणत्वविकृञ्चरानय श्रीन् कपिमूर्ध्व्यंताडयत् ॥', (५ ४७, १४) । 'कपिस्तास्त रमनण्डविक्रम प्रहृदतेजोबलवीर्यंतामचन्', (५ ४७, १९) । 'वीर्यंदापित क्षनत्रोपमेक्षण', (५ ४७, २०) । 'तनुत्पन्त समभिद्रवद् बली स राक्षसाना प्रवर प्रतापवान् । रयी रयश्रेष्ठतर किरञ्चरै पयोधर शैलमिवा-श्मदृष्टिभि ॥', (५ ४७, २२) ।

अगस्त्य, एक ऋषि का नाम है जो अपने भ्राताओं सहित दण्डकारण्य में निवास करते थे (१ १, ४२) । वनवास के समय श्रीराम ने इनका दर्शन किया तथा इनके ही कहने से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किये (१. १, ४३) । महर्षि वाल्मीकि ने दण्डकारण्य में आकर राम द्वारा अगस्त्य का दर्शन करने की घटना का पूवदर्शन कर लिया था (१ ३, १९ 'दर्शनं चाप्यगस्त्यस्य घनुषो ग्रहण तथा' ।) । 'अगस्त्य ने साथ देकर ताटकापनि मुन्द को मार डाला । उसकी मृत्यु हो जाने पर ताटका तथा उसके पुत्र मारीच ने अगस्त्य पर आक्रमण किया किन्तु अगस्त्य ने इन दोनों को राक्षस बना दिया । (१ २५, १०-१३) ।" "वनवास के ठीक पूर्व श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा 'अगस्त्य और विश्वामित्र, दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी रत्नों द्वारा पूजा करो । जिस प्रकार भेष जल की वर्षा से कृषि को वृत्त करता है, उसी प्रकार तुम इन ब्राह्मणों को सहस्रो गावों, सुवर्णमुद्राओं, रजतद्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा उन्मुष्ट करो ।'

(२ ३२, १३-१४) । " अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तम ॥ वसतीति मया नित्यं कथा वचयता श्रुतम् ।" (३ ११, ३०-३१) । 'महर्षेस्तस्य धीमत', (३ ११, ३२) । अगस्त्य ने समस्त लोको के हित की कामना से मृत्यु-स्वरूप वातापि और इल्वल का वेगपूर्वक दमन करके दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया (३ ११, ५३-५४) । "देवनाओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य ने श्राद्ध में शाकरूपधारी महान् असुर वातापि का जान-बूझ कर भक्षण कर लिया । तदनन्तर 'श्राद्धकर्म सम्पन्न हो गया', ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अग्नेजन का जल दे कर इल्वल ने अपने भ्राता वानापि का नाम लेकर पुकारा । इस पर उस ब्राह्मणघाती असुर से बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने हँसकर कहा 'जिम जीवशाकरूपधारी तेरे भ्राता राक्षस को मैंने भक्षण करके पचा लिया है वह अब यमलोक में जा पहुँचा है ।' मुनि के वचन को सुनकर इल्वल ने उनका वध करना चाहा, किन्तु उसने ज्योही अगस्त्य पर आक्रमण किया, अगस्त्य ने अपनी अग्नि तुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर दिया जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई । (३ ११, ६१-६७) ।" इनके आश्रम का वर्णन किया गया है (३ ११, ७३-७६ ७९-८० ८६. ८९-९३) । इन्होंने राक्षसों का वध करके दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया (३ ११, ८१-८४) । एक बार पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्य सूर्य का मार्ग रोकने के उद्देश्य से दबने लगा था किन्तु महर्षि अगस्त्य के बहने पर नम्र हो गया (३ ११, ८५) । 'पुण्यकर्मा', (३ ११, ८१) । 'अथ दीर्घायुपस्तस्य लोके विश्रुतकर्मण । अगस्त्यस्याथम श्रीमान् विनीतमृगसेविन ॥', (३ ११, ८६) । 'एष लोकाचित् साधुहिते नित्यं रत सनाम् । अस्मान्निगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ॥', (३ ११, ८७) । इनके आश्रम में प्रवेश करके लक्ष्मण ने अगस्त्य के शिष्य से भेंट की और उससे अगस्त्य जी को राम के आगमन का संदेश देने के लिये कहा (३ १२, १-४) । लक्ष्मण की बात सुनकर उन शिष्य ने महर्षि अगस्त्य को समाचार देने के लिये उनकी अग्निशाला में प्रवेश किया, और दूमरो के लिये दुर्जय, मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य को राम के आगमन का समाचार दिया (३ १२, ५-९) । श्रीराम, सीता, तथा लक्ष्मण के आगमन का समाचार सुनकर अगस्त्य ने उन लोगों को तत्काल अपने पास लाने के लिये शिष्य को आज्ञा दी (३ १२, ९-१२) । श्रीराम, सीता, तथा लक्ष्मण के आश्रम में प्रवेश करते ही अपने शिष्यों से घिरे हुये मुनिवर अगस्त्य अग्निशाला से बाहर निकले (३ १२, २१) । 'आम्बर वा दानि धरते ही श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा 'अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं । ये तपस्या के निधि हैं । इनके विचित्र तेज के अधिपय से ही मुझे पता चला है कि ये अगस्त्य जी ही हैं ।'

(३ १२, २३) ।" इस प्रकार वचन कहने के पश्चात् श्रीराम ने अगस्त्य के दोनों चरण पकड़ लिये (३ १२, २४) । "महर्षि अगस्त्य ने श्रीराम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल देकर उनका सत्कार किया, तदुपरान्त कुशल-समाचार पूछकर उनसे बैठने के लिये कहा (३ १२, २६) ।" "धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे फिर धर्मज्ञ श्रीराम हाथ जोड़ कर आसन पर विराजमान हुये । अगस्त्य ने श्रीराम को सम्बोधित करते हुये इस प्रकार कहा 'आप सम्पूर्ण लोक के राजा, महारथी, और धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं । आप मेरे प्रिय अतिथि व ह्य मे इस आश्रम पर पधारें हैं, अतएव आप हम लोगों के माननीय एवं पूजनीय हैं (३. १२, २८-३०) ।" इस प्रकार वचन के बाद महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, पुष्प, तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार श्रीराम का पूजन किया और उन्हें अनेक दिव्यास्त्र अर्पित किये (३ १२, ३१-३७) । अगस्त्य ने सीता के स्त्रियोचिन गुणों तथा पतिपरायणता और लक्ष्मण के भ्रातृनिष्ठा की प्रशंसा की (३ १३, १-८) । 'महर्षि दीप्तमिवामलम्', (३ १३, ९) । "श्रीराम ने मुनि अगस्त्य से पूछा - 'अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइये जहाँ सघन वन हो, जल की भी सुविधा हो, तथा जहाँ मैं आश्रम बना कर निवास कर सकूँ' । राम के इस कथन को सुनकर अगस्त्य ने थोड़ा विचार करने के पश्चात् पञ्चवटी नामक स्थान पर आश्रम बनाने का परामर्श देते हुए वहाँ तक पहुँचने के मार्ग का विस्तृत वर्णन किया (३ १३, ११-२२) ।" महर्षि के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्रीराम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से पञ्चवटी जाने की आज्ञा माँगी, और प्रस्थान किया (३ १३, २३-२४) । 'यथाभ्यातमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना', (३ १५, १२) । शर का वध कर देने पर अनेक राजपुत्रों तथा महर्षियों सहित अगस्त्य ने भी राम का सत्कार करते हुये कहा - 'पाकशासन, पुरन्दर इन्द्र, शरभङ्ग मुनि के पवित्र आश्रम पर आये थे और इती कार्य की सिद्धि के लिये महर्षि ने विरोध उपाय करके आपकी पञ्चवटी के इस प्रदेश में पहुँचाया था । आपने हम लोगों का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर दिया है । अब बड़े-बड़े ऋषि मुनि दण्डकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर धर्म का अनुष्ठान करेंगे ।' (३ ३०, ३४-३७) ।" अगस्त्य द्वारा वातापि के वध का उल्लेख (३ ४३, ४२-४४) । "दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुये सुग्रीव ने चानरो से कहा 'तुम लोग मलयपर्वत के शिखर पर बैठे, सूर्य के समान महान् तेज स सम्पन्न मुनिश्रेष्ठ आत्म्य का दर्शन करना और इसके बाद उन प्रसन्नचित्त महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहो ने सेविन महानदी ताम्रपर्णी को पार करना ।' (४ ४१, १५-१६) ।" महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक

सुन्दर सुवर्णमय पर्वत की स्थापना की जो महेन्द्र गिरि के नाम से विख्यात है (४ ४१, २०) । "सुग्रीव ने अगदादि वानरो से कहा 'तुम्हें कुञ्जर नामक पर्वत दिखायी देगा जिसके ऊपर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित महर्षि अगस्त्य का एक सुन्दर भवन है । अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है । उसका विस्तार एक योजन तथा षेण्चार्द्ध दस योजन है ।' (४ ४१, ३४-३५) ।" 'ताराङ्गदादिसहित प्लवग पवनारमज', (४ ४५, ५) । 'अगस्त्याचरितामाशा दक्षिणा हरियूषप', (४ ४५, ६) । "रावण के साथ युद्ध करते हुये जब श्रीराम थके और चिन्तित थे तब अगस्त्य ने उन्हें 'अक्षित्प-हृदय' नामक स्तोत्र बताया जिसके जप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती थी । अगस्त्य ने श्रीराम से कहा कि वे रावण के साथ युद्ध करने के पूर्व तीन बार इस स्तोत्र का जप करें । (६ १०५, १-२७) ।" "श्री राम ने सीता से कहा 'जिस प्रकार तपस्या से भावित अन्न करणवाले महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण दिशा पर विजय प्रति की थी, उसी प्रकार मैंने भी रावण को विजित किया' (६ ११५, १४) ।" राक्षसों का सहार करने के पश्चात् जब श्रीराम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया तो अनेक महर्षियों सहित अगस्त्य भी राम का अभिनन्दन करने के लिये अयोध्या आये (७ १, ३) । उस समय मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने राम को अपने आगमन की सूचना देने के लिये द्वारपाल को आज्ञा दी जिसका द्वारपाल ने पालन किया (६ १, ८-९) । राम ने अगस्त्य से इन्द्रजित् के जीवन वृत्तान्त का वर्णन करने का आग्रह किया (७ १, २९-३६) । अगस्त्य ने इन्द्रजित् का वृत्तान्त सुनाना आरम्भ किया (७ २, १) । 'कुम्भयोनिमंहातेजा', (७ २, १) । 'ततः शिरः कम्पयित्वा त्रेताप्रिसमविग्रहम् । तमगस्त्यं भृहस्पृष्ट्वा स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥', (७ ४, २) । मुनिवर विश्रवा के पूर्व भी लंका में राक्षसों के निवास के सम्बन्ध में श्रीराम ने अगस्त्य से प्रश्न किया (७ ४, १-७) । राम के इस प्रश्न के उत्तर में अगस्त्य ने लंका में बसने वाले आरम्भिक राक्षस वंश का वर्णन किया (७ ४, ८) । राम के पूछने पर अगस्त्य ने रावण इत्यादि की तपस्या तथा वर-प्राप्ति का वर्णन किया (७ १०, २-४९) । अगस्त्य ने राम से धूर्पणखा तथा रावण आदि तीनों भ्राताओं के विवाह, और मेघनाद के जन्म का वर्णन किया (७ १२) । इन्होंने राम से रावण द्वारा वनवासे शयनागार में कुम्भकर्ण के सोने, रावण के अत्याचार, कुबेर द्वारा दून भेजकर रावण को समझाने, तथा कुपित रावण द्वारा उस दून के वध का वर्णन किया (७ १३) । इन्होंने राम से रावण द्वारा यशों पर आक्रमण तथा यशों की पराजय का वर्णन किया (७ १४) । इन्होंने मणिमद्र तथा कुबेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक दिमान के अपहरण

वरुण के तेज से युक्त कुम्भ से दो तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुये जो ऋषियों में श्रेष्ठ थे। सर्वप्रथम उस कुम्भ से महर्षि भगवान् अगस्त्य उत्पन्न हुये और मित्र से यह कहकर कि वे उनके (मित्र के) पुत्र नहीं है, वहाँ से अन्यत्र चले गये। (७ ५७, ४-५)। "श्रीराम द्वारा शम्बूक का वध कर दिये जाने पर देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। तदुपरान्त श्रीराम अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गये (७ ७६, १६)। देवताओं सहित श्रीराम को अपने आश्रम पर आया देखकर अगस्त्य ने उन सबका सत्कार किया (७ ७६, २१ २३ २५) और ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर देने के लिये राम को धन्यवाद दिया (७ ७६, २७)। श्रीराम के यह पूछने पर कि क्षत्रिय ब्राह्मण द्वारा दिये गये दान को कैसे ग्रहण कर सकता है, अगस्त्य ने सत्ययुग की एक कथा का वर्णन किया (७ ७६, ३६-४५)। 'श्रीराम ने अगस्त्य द्वारा दिये उम मूर्य के समान दीक्षिमान, दिव्य, विचित्र और उत्तम आभूषण को ग्रहण करते हुये अगस्त्य से यह जानना चाहा कि उन्होंने (अगस्त्य ने) उसे किस प्रकार प्राप्त किया। राम को उत्तर देने हुये अगस्त्यजी ने वेतायुग में एक स्वर्गीय पुरुष द्वारा शवभक्षण करने का प्रसंग सुनाया।' (७ ७७, १-२०)। राजा इधेन के दुःखद वृत्तान्त (७ ७८, १-२५) को सुनकर अगस्त्य अत्यन्त द्रवित हुये और उनका दान ग्रहण करके उनके स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया (७ ७८, २६-२९)। राम के आग्रह पर अगस्त्य ने राजा दण्ड की कथा का वर्णन किया (७ ७९)। 'एतदाख्याय रामाय महर्षि कुम्भसम्भव । अस्यामेवापर वाक्य कथायामुपच- प्रमे ॥', (७ ८०, १)। सन्ध्या होने पर अगस्त्य ने श्रीराम से सन्ध्योपासना करने के लिये कहा (७ ८१, २१-२२)। अगस्त्य को 'धर्मनेत्र' कहा गया है (७ ८२, ८)। राम के निवेदन करने पर अगस्त्य ने उन्हें विदा होने की अनुमति दी और श्रीराम ने विदा होने हुये सन्यसील महर्षि अगस्त्य को प्रणाम किया (७ ८२, ५-१४)।

अगस्त्य-भ्राता का निवासस्थान मुनीश्वर के आश्रम में चार योजन दक्षिण में स्थित था (३ ११, ३७)। राम ने इनके आश्रम का वर्णन किया (३ ११, ४७ ५३)। अगस्त्याश्रम की ओर जाते हुए श्रीराम इत्यादि न इनके आश्रम पर भी एक रात्रि व्यतीत की और दूसरे दिन पानकाल इनकी अनुमति से अगस्त्याश्रम की ओर प्रस्थान किया (७ ११, ६९-७३)।

अग्नि—ब्रह्मा की इच्छा से इन्होंने नील को उत्पन्न किया (१ १७, १३)। जब बलि ने रामस्त देवताओं को पराजित कर दिया तब वे विष्णु की तंत्रा में उत्पन्न हुये (१ २९, ६)। देवताओं के निवेदन करने पर इन्होंने महादेव के तेज को अपने भीतर रस लिया (१ ३६, १८)। जब महादेव तपस्या कर रहे थे,

उस समय इन्द्र और अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता अपने लिये सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा के समीप गये और उन्हें प्रणाम करके अपना मनोरथ कहा (१ ३७, १-२) । ब्रह्मा ने कहा कि शक्र के तेज को उमा की बड़ी बहन आकाशगंगा के गर्भ में स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं का समर्थ सेनापति होगा (१ ३७, ७) । ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर सम्पूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य पर नियुक्त और उनसे रुद्र के महात् तेज को गंगा में स्थापित करने का निवेदन किया (१ ३७, १०-११ 'हुताशन') । देवताओं को अपनी सहमति देने के पश्चात् अग्नि (पायक) ने गंगा के निकट आकर उनसे गर्भ धारण करने के लिये कहा (१ ३७, १२) । "अग्नि की बात सुनकर गंगा ने दिव्य रूप धारण कर लिया । उस रूप की महिमा को देखकर अग्नि ने गङ्गा को पृथ्वी और से उस रुद्र तज द्वारा अभिषिक्त कर दिया जिमने गङ्गा के सोन उससे परिपूर्ण हो गये (१ ३७, १३-१४) ।" तदुपरान्त गंगा ने तेज को धारण करने में अग्नि से अपनी असमर्थता प्रकट की, किन्तु अग्नि के परामर्श से उस गर्भ को हिमवान् पर्वत के पार्व भाग में स्थापित कर दिया (१ ३७, १५-१६ 'सर्वदेव हुताशन') । अग्नि सहित सम्पूर्ण देवताओं ने मिल कर महादेवस्वी स्वन्द का देवसेनापति के पद पर अभिषेक किया (१ ३७, ३०) । अण्डकोप से रहित होकर इन्द्र अत्यन्त भयभीत हो गये और उसे पुन प्राप्त कराने के लिये उन्होंने अग्नि आदि देवताओं से प्रार्थना की (१ ४९, १) । इन्द्र का वचन सुनकर मरुतो सहित अग्नि आदि समस्त देवता पितृदेवों के पास गये (१ ४९, ५) । जब विश्वामित्र वसिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने के लिये उद्यत हुये तब अग्नि आदि अत्यन्त भयभीत हो गये (१ ५६, १४) । राम के वनवास-नामन के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने अग्नि का आवाहन किया था (२ २५, २४) । जब माण्डवर्णि ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुये दस सहस्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की तो अग्नि आदि समस्त देवता अत्यन्त व्यथित हो उठे और उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिये पाँच अप्सराओं को भेजा (३ ११, १३-१५) । श्रीराम ने अगस्त्याश्रम में स्थित अग्नि के मन्दिर को देखा (३ १२, १७) । राम के दूत के रूप में हनुमान् के उपस्थित होने पर तक वितर्क करती हुई सीता ने अन्य देवताओं सहित अग्नि को भी नमस्कार किया (५ ३२, १४) । हनुमान् की रक्षा करने के लिये सीता ने अग्नि का आवाहन किया (५ ५३, २५-२८) । अग्नि (कृष्णवर्मन्) ने कृष्ण नामक दानव यूथपति को एक गन्धर्व-कन्या से उत्पन्न किया था (६ २७, २०) । सीता की अग्नि परीक्षा के समय अग्निदेव सीता को गोद में

लेकर चिता से ऊपर उठे और राम को समर्पित करने हुये उनकी पवित्रता को प्रमाणित किया, जिसके पश्चात् राम ने सीता को सहर्ष स्वीकार कर लिया (६ १८, ११-१०) । 'अब्रवीत् तु नदा राम साक्षी लोकस्य पात्रक । एषा ते राम वैदेही पापमस्या न विद्यते ॥', (६ ११८, ५) । लवणामुर का वध (७ ६९, ३६) कर देने पर वर देने के लिये अग्निदेव दानुष्ण के सम्मुख उपस्थित हुये (७ ७०, १-३), और वर देने के बाद ही अन्तर्धान हो गये (७ ७०, ६-७) । शम्बूक का वध कर देने पर अग्नि ने राम को धन्यवाद दिया (७ ७६, ५-६) । वृत्तामुर का वध कर देने के पश्चात् इन्द्र जब ब्रह्म-हत्या क भय से भाग गये तब अग्नि आदि देवता विष्णु की स्तुति करने लगे (७ ८५, १५-१७) ।

अग्नि-कैतु, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के साथ युद्ध करने के लिये रावण के दरबार में अम्त्र-गस्त्रो महिन सन्नद्ध होकर उपस्थित था (६ ९, २) । इसने श्रीराम के साथ युद्ध किया (६ ४३, ११) । श्रीराम ने इस दुर्धर्ष राक्षस का वध किया (६ ४३, २६-२७) ।

अग्नि-वर्ण, मुदर्सन का पुत्र और शीघ्रग का पिता था (१ ७०, ४०-४१) ।

अङ्ग, एक देश का नाम है जिस पर रोमवाद का शासन था (१ ९, ८) । यह भयकर अनावृष्टि से ग्रसित हुआ था (१ ९, ९) । महादेव के कोप से दाय कन्दर्प ने इसी स्थान पर अपने शरीर (अर्गों) का त्याग किया था, जिसके कारण ही इसका 'अङ्ग' नाम पडा (१ २३, १०-१४) । कैंकेयी का शोष शान्ति करने के लिये राजा दशरथ ने अङ्गादि देशों की किसी भी वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया (२ १०, ३७-३८) । मुश्रीव ने सीता की खोज करने के लिये विनन को इस देश में भी जाने के लिये कहा (४ ४०, २२) ।

१ अङ्गद, एक राजकुमार का नाम है जो बालिन् और तारा के पुत्र थे, जब यह वन में भ्रमण कर रहे थे तो गुप्तचरों ने इन्हें मुश्रीव और श्रीराम की मित्रो का समाचार दिया, इन्होंने तारा को यह समाचार सुनाया (४ १५, १५-१८) । 'न चारिमानमह शोचे न तारा नापि बाण्यदान् । यथा पुत्र गुणज्येष्ठमङ्गद कनकाङ्गदम् ॥', (४ १८, ५०) । 'वालरवाहृतवृद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रिय । तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाजल ॥', (४ १८, ५२) । मृत्युनाम्ना पर पडे बालिन् ने श्रीराम से अङ्गद की रक्षा करने का निवेदन किया (४ १८, ५०-५३) । 'ललितश्चाङ्गदो वीर मुहुमार सुखोचिन । बाम्यने कामवस्था मे विवृये प्रोषनूच्छिते ॥', (४ २०, १७) । 'किमङ्गद साङ्गदवीरवाहो विहाय यानोऽसि चिर प्रवासम् । न युक्तं च गुणसनिवृष्ट

विहाय पुत्र प्रियचाक्षेवम् ॥', (४ २०, २४) । वाल्मि ने सुग्रीव से अङ्गद की रक्षा करने के लिये कहा (४ २२, ८-१५) । 'सुग्रीवस्य तुल्यपराक्रम । तेजस्वी तरुणोऽङ्गद ॥', (४ २२, ११-१२) । मृत्यु शय्या पर पड़े वाल्मि ने इनसे सुग्रीव की आज्ञा का पालन करते रहने के लिये कहा (४ २२, २०-२३) । माता के कहने पर इन्होंने अपने मृग पिता का चार बार नाम लेते हुये चरण-स्पर्श किया (४ २३, २२-२५) । 'सुत सुलभ्य सुजन सुवश्या कुनस्तु पुत्र सः सोऽङ्गदेन । न चापि विद्वेष न वीर देशो यस्मिन् भवेत् सोदरसन्निवर्ष ॥ अथाङ्गदो वीरवरो न जीवेज्जीवेत भाना पत्न्यालनाशम् । विना तु पुत्र परितापदीना सा नैव जीवेदिति निश्चिन मे ॥', (४ २४, २०-२१) । वाल्मि की मृत्यु के बाद धीराम ने अङ्गद को सान्त्वना दी और अङ्गद ने वाल्मि का दाह-संस्कार किया (४ २५, १ १३ १५ १६ २८ ३३ ४९.५२) । 'वृत्तज्ञो वृत्तसम्पन्नमुदारवल् विक्रमम् । इममप्यङ्गद वीर योवराज्येऽभिषेक्य ॥', (४ २६, १२) । 'ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठ सदृशो विक्रमेण च । अङ्गदोऽयमदीनारमा योवराज्यस्य भाजनम् ॥', (४ २६, १३) । राम की आज्ञा से सुग्रीव ने अङ्गद को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया (४ २६, ३८) । लक्ष्मण को त्रोध में भरे अपने ओर आते देखकर यह घबरा गये (४ ३१, ३१) । लक्ष्मण के आदेश पर शीघ्रतापूर्वक सुग्रीव को उनके आगमन का समाचार देने के लिये गये (४ ३१, ३२-३५) । "लक्ष्मण की कठोर बाणी से अङ्गद के मन में अत्यन्त घबराहट हुई । उनके मुख पर अत्यन्त दीनता छा गई । अतः इन बेमराली कुमार ने वहाँ से निकल कर सर्वप्रथम वानरराज सुग्रीव के तथा उनके बाद तारा और राम के चरणों में प्रणाम किया (४ ३१, ३६-३७) ।" लक्ष्मण ने राजमार्ग पर स्थित अङ्गद का रमणीय भवन देखा (४ ३३, ९) । अपने पिता के समान ही पराक्रमी युवराज अङ्गद एक सहस्र पन्न और सौ शकु वानर सेना लेकर सुग्रीव के पास आये (४ ३९, २९-३०) । सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने अङ्गद आदि को दक्षिण दिशा की ओर भेजा (४ ४५, ६) । अङ्गद के साथ हनुमान् ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया (४ ४८, १) । अङ्गदादि वानरों ने विन्ध्य पर्वत पर सीता की निष्फल खोज की (४ ४८, २-६) । एक ऐसे क्षेत्र में, जहाँ न वृक्ष थे और न जल, इन्होंने एक बलवान् असुर का वध किया (४ ४८, ७-२३) । 'अथाङ्गदस्तदा सर्वान् वानरमिदमब्रवीत् । परिश्रान्तो महाप्राज्ञ समाश्वास्य सर्वैश्च ॥', (४ ४९, १) । इन्होंने अपने साथ के निहत्साहित वीर श्रान्त वानरों से सुग्रीव तथा राम के भय से एक बार पुनः दक्षिण दिशा में सीता को ढूँढने के लिये कहा (४ ४९, १-१०) । अत्यन्त श्रान्त हो जाने तक इन लीलों ने विन्ध्य क्षेत्र के वनी तथा रजत

पर्वत पर एक धार पुन सीता की निष्फल खोज की (४ ४९, १५-२३) । विन्ध्य क्षेत्र में सीता को ढूँढने हुये जल की खोज में इन्होंने ऋक्ष विल नामक गुफा में प्रवेश किया (४ ५०, १-८) । 'स तु सिंहवृषस्कन्ध पीनायत-भुज कपि । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदोवाक्यमब्रवीत् ॥', (४ ५३, ७) । ऋक्ष-विल से बाहर आते समय जब इन्होंने देखा कि सीता को ढूँढने की सुग्रीव द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त हो गई तब सागर तट पर निराहार रहकर अपना प्राण त्याग देने का निश्चय किया क्योंकि असफल लौटने पर सुग्रीव इन्हे कदाचित्त ही क्षमा करते (४ ५३, ७-१९) । 'बुद्ध्या ह्यष्टाङ्गयायुक्त चतुर्बलसमन्वितम् । चतुर्दशगुण मेने हनूमान् वालिन सुतम् ॥ आपूर्यमाण शश्वच्च तेजोबलपरा-क्रमै । शशिन शुक्लपक्षादौ वर्धमानमिव धिया ॥ बृहस्पतिसम बुद्ध्या विभ्रमे सदृश पितु । शुभ्रपमाण तारस्य पुत्रस्येव पुरन्दरम् ॥', (४ ५४, २-४) । सुग्रीव के दोषों का उल्लेख करते हुये अपने साथियों सहित इन्होंने निराहार रहकर प्राण दे देने का निश्चय किया (४ ५५, १-२३) । सम्पाति को अपनी ओर आता देखकर आमरण अनशन कर रहे वानरो सहित अद्भुत ने अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए जटायु की रामभक्ति का उल्लेख किया (४ ५६, ६-१६) । सम्पाति के पूछने पर इन्होंने अपना परिचय देते हुये जटायु की मृत्यु का समाचार तथा वानरो के आमरण उपवास का कारण बताया (४ ५७, ४-१९) । परम बुद्धिमान् युवराज अद्भुत ने सम्पाति से रावण के निवासस्थान का पता पूछा (४ ५८, ८-१०) । गर्जन करते हुये महासागर को देखते ही समस्त वानर-सेना को विपाद-ग्रस्त देखकर अद्भुत ने उन्हे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया (४ ६४, ८-१०) । "दूसरे दिन अद्भुत ने वानरो के साथ पुन परामर्श करने के पश्चात् इस प्रकार कहा 'तुम लोगों में कौन ऐसा महानैजस्वी वीर है जो इस समुद्र को लाँघ कर शत्रुदमन सुग्रीव को सत्यप्रतिज्ञ बनायेगा ? कौन इस समुद्र को लाँघ कर इन समस्त यूपपति वानरो को महान् मय से मुक्त कर देगा ? जिसमें यह सामर्थ्य हो वह आगे आकर दीर्घ ही हम सबको परम पवित्र अमय-दान दे' (४ ६४, ११-१९) ।" अद्भुत का वचन सुनकर जब सब चुप रहे तो उन्होंने उनसे पुन बोलने के लिये कहा (४ ६४, २०-२२) । अद्भुत की बात सुनकर सभी वानर अपनी अपनी शक्ति का परिचय देने लगे (४ ६५, १) । स्वयं अद्भुत ने बताया कि वे उस महासागर की सौ योजन की विशाल दूरी को लाँघने में समर्थ हैं किन्तु लोट भी सर्वेण या नही यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते (४ ६५, १८-१९) । 'सत्यविभ्रम परन्तर', (४ ६५, २६) । जाम्बवान ने कहा कि पहले अद्भुत को स्वयं समुद्र का लहान न कर अपने सेवकों में से ही किसी को इस कार्य के लिये

नियुक्त करना चाहिये (४ ६५, २०-२७) । जाम्बवान की बात सुनकर कहा ' यदि मैं नहीं जाऊँगा, और दूसरा कोई भी जाने को तैयार न होगा तब हम लोगो को पुन मरणान्त उपवास ही करना होगा, क्योंकि सीता का पना लगाये बिना हम घर नहीं लौट सकते ।' (४ ६५, २८-३२) । हनुमान् के लड्डू से सकुशल लौट आने पर इन्होंने उनकी अत्यन्त प्रशंसा की (५ ५७, ४४-४८) । तत्पश्चात् समस्त वानरो सहित अङ्गद सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिये महेंद्रपर्वत पर हनुमान् की चारो ओर से घेर कर बैठ गये (५ ५७, ६९-५३) । हनुमान् का वचन (५ ५९, १-३२) सुनने के पश्चात् अङ्गद ने राम और सुग्रीव को सूचित किये बिना ही समस्त राक्षसो को मार कर सीता को मुक्त करा लेने का प्रस्ताव किया (५ ६०, १-१३) । जाम्बवान के प्रस्ताव (५ ६०, १४-२०) को मानकर अङ्गद घर लौटने के लिये तैयार हो गये (५ ६१, १-२) । हर्ष से भरे समस्त वानरो ने जब मधु-वन में मधुपान की इच्छा प्रकट की तो अङ्गद ने उन्हें रवीकृति प्रदान की (५ ६१, ११-१२) । 'ति निसृष्टा कुनारेण धीमता वालि सुतुना । हरय समपयन्त द्रुमान् मधुकराकुलान् ॥', (५. ६१, १३) । वानरो को इच्छानुसार मधुपान करने की अनुमति दे दी (५ ६२, २-४) । दधिमुक्त से सुग्रीव का समाचार (५ ६४, १-१२) सुनकर अङ्गद ने तत्काल ही सुग्रीव के पास लौटने का प्रस्ताव किया (५ ६४, १२-१७) । सभी वानरो ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया (५ ६४, १८-२२) । अङ्गद आकाश-मार्ग से सुग्रीव के पास आये, तथा अन्य वानरो ने भी उनका अनुगमन किया (५ ६४, २३-२६) । वानरो सहित सुग्रीव के पास जाकर अङ्गद ने श्रीराम तथा सुग्रीव के चरणो में प्रणाम किया (५ ६४, ४०-४१) । लड्डू विनय के लिये दक्षिण-यात्रा करते समय अङ्गद लक्ष्मण को अपने कन्वो पर बैठा कर चले (६ ४, १९) । श्रीराम के पूछने पर (६ १७, ३१-३३) अङ्गद ने पद्मार्जुन दिया कि विभीषण को अङ्गीकार करने के पूर्व उसका भली प्रकार परीक्षण कर लेना चाहिये (६ १७, ३८-४२) । युद्ध को दूत नहीं बरन् एक गुप्तचर जानकर अङ्गद ने उसे बन्दी बना लेने का प्रस्ताव किया (६ २०, २९-३०) । राम की आज्ञा से अङ्गद विशाल वानरी सेना के हृदय (उरसि) के स्थान पर स्थित हुये (६ २४, १४) । 'गिरिशृङ्गप्रतीकाश पद्मकिञ्जल्कसनिभः', (६ २६, १५) । अङ्गद को इन्द्र का नाती कहा गया है ('नताशक्रस्य दुर्घयो बलवानङ्गदो मुवा', ६ ३०, २५) । श्रीराम ने कहा कि विशाल बाहिनी को संयुक्त कर वालिकुमार अङ्गद दक्षिण द्वार की रक्षा करनेवाले महापार्श्व और महोदर के मुद्द का सञ्चालन करें (६ ३७, २७) । राम की आज्ञा का पालन

करने के लिये अङ्गद एव ही मृहृतं मे परकोटे को लाँघ कर रावण के राज-भवन मे जा पहुँचे और अपना परिचय देने के पश्चात् रामचन्द्रजी की कही हुई समस्त बातें ज्यो की त्यो सुना दी (६ ४१, ७३-८१) । 'प्राह्यामाम तारेय स्वयमात्मानानममवान् । बल दर्शयितु वीरो यानुषानगणे तदा ॥', (६ ४१, ८५) । रोप से भरे रावण के वचन (६ ४१, ८२-८३) को सुनकर अङ्गद ने अपने को राक्षसों से पकडवा दिया, किन्तु जब राक्षसों ने इन्हे बन्दी बना लिया तब ये उन सब राक्षसों को लिये-दिये ही ऊपर उठले और रावण के भवन के शिखर को भङ्ग करते हुये आकाश मार्ग ने अपने सिविर मे लौट आये (६ ४१, ८४-९१) । बालि-पुत्र अङ्गद के साथ महानेजस्वी राक्षस इन्द्रजित् उसी प्रकार युद्ध करने लगा जिस प्रकार त्रिनेत्रधारी महादेव के साथ अन्धकामुर ने युद्ध किया था (६ ४३, ६) । अङ्गद ने अपनी गदा से इन्द्रजित् के रथ को घूर घूर कर डाला (६, ४३, १८-१९) । इन्द्रजित् के रथ और सारथि को विनष्ट करके उसे रथ से नीचे उतार देने के इनके पराक्रम की देवी और ऋषियों ने अत्यन्त सराहना की (६ ४४, २८-३०) । श्रीराम की आज्ञा से (६ ४५, १-३) ये इन्द्रजित् का पता लगाने के लिये गये किन्तु इन्द्रजित् ने इन्हें रोक दिया (६ ४५, ४-९) । राम और लक्ष्मण को मूर्च्छित देखकर अन्य वानरों आदि के साथ अङ्गद भी शोक करने लगे (६ ४६, ३) । इन्द्रजित् ने अङ्गद को आहूत कर दिया । (६ ४६, २१) । इन्होंने सतकंठापूर्वक वानरसेना की रक्षा की (६ ४७, २) । सुग्रीव के पूछने पर (६ ५०, १) अङ्गद ने बताया कि श्रीराम और लक्ष्मण की दशा को देखकर ही वानरसेना ने पलायन किया (६ ५०, २-३) । यह देखकर कि वज्रदंष्ट्र के नेतृत्व मे राक्षस वानर सेना को व्रत कर रहे हैं, अङ्गद ने भी राक्षसों का वध करना आरम्भ किया (६ ५३, २७-३२) । वज्रदंष्ट्र के द्वारा वानर सेना को पराजित होता देखकर अङ्गद ने वज्रदंष्ट्र के साथ घोर युद्ध किया जिसमे इन्होंने उसको रथविहीन करके विभिन्न आयुधों से उस समय तक युद्ध किया जब तक उसका वध नहीं कर दिया (६ ५४, १६-३७) । अङ्गद ने कुम्भकर्ण का वध किया (६ ५८, २३) । राम की आज्ञा से अङ्गद आदि पर्वतशिखर लिये हुये लङ्का के द्वार पर डट गये (६ ६१, ३८) । कुम्भकर्ण को देखकर वानर सेना जब भयभीत हो गई (६ ६६, ३) तब अङ्गद ने एक उत्साहवर्धक भाषण करके वानरों में पुन साहम का सञ्चार किया (६ ६६, ४-७) । वानर-सेना को पलायन करता देखकर अङ्गद ने एक बार पुन उत्साहवर्धक वचन से वानरों को रोका (६ ६६, १८-३२) । कुम्भकर्ण के साथ युद्ध करते हुये अङ्गद ने उसे मूर्च्छित किया किन्तु अन्त में कुम्भकर्ण के प्रहार से स्वयं भी

मूर्च्छित हो गये (६ ६७, ४२-४९) । सुग्रीव की आज्ञा (६ ६९, ८१-८२) का पालन करते हुये नरान्तक नामक राक्षस के साथ युद्ध करके उसके अश्व सहित उसका वध कर दिया (६ ६९, ८२-९४) । नरान्तक का वध कर देने पर देवताओं ने इनकी सराहना की जिससे ये पुनः युद्ध के लिये हर्ष तथा उत्साह से भर गये (६ ६९, ९५-९६) । देवान्तक, विशिरा और महोदर नामक राक्षसों ने एक साथ ही इन पर आक्रमण किया (६ ७०, १-४) । इन राक्षसों के विरुद्ध इन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया, किन्तु अन्त में नील और हनुमान् भी इनकी सहायता के लिये आ गये (६ ७०, ५-२०) । इन्द्रजित ने इन्हें आहत किया (६ ७१, ४५) । कम्पन के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसका वध कर दिया (६ ७६, १-३) । शोणिताक्ष के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसके धनुष आदि को तोड़ दिया और उसके बाद उसी का सङ्ग छोड़ कर उसे गम्भीर रूप से आहत किया (६ ७६, ४-१०) । प्रजङ्ग, वृषाज, और शोणिताक्ष आदि राक्षसों से अकेले ही युद्ध किया (६ ७६ १४-१५) । युद्ध में प्रजङ्ग का वध किया (६ ७६ १८-२७) । कुम्भ के साथ युद्ध किया जिसमें स्वयं बुरी तरह आहत हो गये (६ ७६, ४६-५५) । इन्द्रगिष् के विरुद्ध युद्ध में इन्होंने लक्ष्मण की सहायता की (६ ८५, ३५) । अब वादर सेना पराजित हो रही थी तब इन्होंने महापाश्वं नामक राक्षस के साथ युद्ध करके उसका वध किया (६ ९८, १-२२) । रावण की मृत्यु हो जाने पर राम का अभिवादन किया (६ १०८, ३३) । अपने राज्याभिषेक के समय श्रीराम ने अङ्गद को दो रत्नजटित अङ्गद (बाजूबन्द) भेंट किये (६ १२८, ७७) । श्रीराम ने हनुमान् और अङ्गद को अपने गोद में बैठकर सुग्रीव से इनकी प्रशंसा की (७ ३९, १६-१९) । सुग्रीव ने श्रीराम को बताया कि वे किष्किन्धा में अङ्गद का राज्याभिषेक करके आये हैं (७ १०८, २३) ।

२. अङ्गद, लक्ष्मण के पुत्र का नाम है । 'इमी कुमारो सीमिते तव धर्म-विस्तारयो । अङ्गदश्चन्द्रकेतुश्च राज्यार्थे लढविजयो ॥', (७ १०२, २) । इन्हे कारुण्य का राजा बनाया गया (७ १०२, ५-७ ११-१३) ।

अङ्गदीया, कारुण्य नामक प्रदेश की राजधानी का नाम है जहाँ लक्ष्मण-पुत्र अङ्गद का शासन था । इसे श्रीराम ने अङ्गद के लिये बसाया था (७ १०२, ८-१३) ।

अ-त्रेपा, पश्चिम दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता को ढूँढने के लिये सुग्रीव ने सुपेण इत्यादि जो भेजा था (४ ४२, १४) ।

अङ्गारक, दक्षिण-समुद्र में निवास करने वाली एक राक्षसी का नाम

२ वा० को०

है जो छाया पकड़ कर प्राणियों की सींच लेती थी (४ ४१, २६) ।

अन्निरस, एग प्रजापति का नाम है जो पुलस्त्य के बाद हुये थे (३ १४, ८) । इनके वंशजों ने अपने आधम में विघ्न उत्पन्न करने पर हनुमान् को शाप दिया था (७ ३६ ३२-३४) । राजा निमि ने इन्हे अपने यज्ञ मंत्र में आमन्त्रित किया था (७ ५५, ९) ।

अज, नाभाग के पुत्र और दगरथ के पिता का नाम है (१ ७०, ४३) ।

१. अञ्जन, एक पर्वत का नाम है जहाँ निवास करने वाले वानरों को आमन्त्रित करने के लिये सुग्रीव ने हनुमान् को आदेश दिया, इस पर्वत पर रहने वाले वानर काजल और भेष के समान काले थे (४ ३७, ५) । सुग्रीव की आज्ञा पा कर यहाँ से तीन करोड़ वानर आये (४ ३७, २०) ।

२. अञ्जना, एक हाथी का नाम है (७ ३१, ३६) ।

अञ्जना, कपियोनि में अवतीर्ण पुञ्जिकस्थला नामक अप्सरा का नाम है 'अप्सराऽप्सरसा श्रेष्ठा विद्याता पुञ्जिकस्थला । अञ्जनेति परिख्याता पत्नी कैसरिणो हरे ॥ विद्याता त्रिपु लोकेषु स्तेषाप्रतिमा भुवि ।' (४ ६६ ८-९) । 'पुञ्जिकस्थला नाम से विद्याता समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य थी । एक समय शापवश यह कपियोनि में अवतीर्ण हुई । उस समय यह वानरराज महामनसवी कुञ्जर की पुत्री हुई और इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी । इस भूतल पर इसके रूप की समानता करने वाली अन्य कोई स्त्री नहीं थी । इसी का नाम अञ्जना पड़ा और यह वानरराज कैसरी की पत्नी हुई । एक दिन जब यह मानवी स्त्री का शरीर धारण करके पर्वत शिखर पर विचरण कर रही थी तब वायु देवता ने इसके रसन का हरण कर लिया और अभ्यक्त रूप से इसका आलिङ्गन करते हुये इसके साथ मानसिक सङ्कल्प से समागम किया जिसके फलस्वरूप इसने एक गुफा में हनुमान् को जन्म दिया (४ ६६, ८-२०) । ब्रह्मा के भवन की ओर जाते समय रावण ने इसके (पुञ्जिकस्थला के) साथ बलात्कार किया (६ १३, ११-१२) । इस बलात्कार करने के कारण इनने रावण को शाप दिया (६ ६०, ११-१२) ।

अतिकाय, एक राक्षस का नाम है जिमकी काया अत्यन्त विशाल थी और जो रावण के साथ युद्धभूमि में आया था 'यश्चैष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पो यन्वी रथस्थो निरथोऽतिवीर । विस्फारयश्चापमनुल्यमान आम्नातिकायोऽति-विवृद्धवाम ॥', (६ ५९, १६) । यह रावण का पुत्र और कुम्भकर्ण का भतीजा था और इसीलिये कुम्भकर्ण की मृत्यु पर अत्यन्त शोकाकुल हो उठा (६ ६८, ७) । त्रिशिरा के राज्ञी (६ ६९, १-७) को मुनकर युद्धभूमि

मे जाने के लिये उत्थान हुआ (६ ६९ ९) । इमे 'सकृत्पराक्रम, वीर, अन्तरिक्षगत', भायाविशारद, पिदासदर्पण, समरदुर्मद, सुवलसम्पन्न विलीर्ण-कीर्ति, कमी न पराजित होनेवाला, अखवित्, युद्धविशारद, प्रवरविज्ञान, लब्धवरः, धनुचलादेग, भास्करतुल्यदर्शन, आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है (६ ६९, १०-१४) । रावण को जाना लेकर यह रावण पुत्र युद्ध-भूमि में गया (६ ६९, १७-१९) । "राक्षसराज रावण का अत्यन्त तेजस्वी पुत्र, अतिकाय, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था । वह एक ऐसे उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध-भूमि की ओर चला जो विविध प्रकार के आयुधों से युक्त था । उस रथ पर वह श्रेष्ठ निशाचरों से घिर कर बैठा हुआ यक्षपाणि इन्द्र के समान शोभा पा रहा था (६ ६९, २५-२८) ।" 'बुकोप च महातेजा ब्रह्मदत्तवरो युनि । अतिकायोऽद्रिसकासो देवदानवदर्पहा ॥' (६ ७१, ३) । जब इसके साथ के राक्षस युद्ध में मारे गये तब इसने कुपित होकर वानरों पर तीव्र आक्रमण किये जिससे वानर-सेना भाग खड़ी हुई (६ ७१, १-९) । यह एक ऐसे रथ पर बैठा था जिसमें एक सहस्र अश्वसज्ज थे (६ ७१, १२) । इसका रथ विविध प्रकार के आयुधों से सुरक्षित था और यह स्वयं अपने हाथ में एक विशाल धनुष तथा अपने दोनों पाशवों में बटे-बटे सज्ज धारण किये हुये था (६ ७१, १२-२४) इते इन् श्लोको मे 'रक्तकण्ठगुण, धीर और महापर्वतसन्निभ' आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है) । 'तस्यासीद् घोषंवाल् पुत्रो रावणप्रतिमो बले । वृद्धसेवी ध्रुतबल सर्वास्त्रविदुषा वर ॥ अश्वपृष्ठे नागपृष्ठे सङ्घे धनुषि कर्पणे । भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च समत ॥' (६ ७१, २५-२९) । यह घाव्यमालिन् से उत्पन्न रावण का पुत्र था (६ ७१, ३०) । इनने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को इतना अधिक प्रसन्न किया कि उन्होंने इसे देवताओं और अमुरों से अवध्य होने का वरदान देते हुये दिव्य ऋच, तथा मूर्य के समान तेजस्वी रथ भी दिया (६ ७१, ३१-३२) । इसने इन्द्र और वरुण, तथा सँकडों अन्य देवताओं और दानवों को पराजित किया था (६ ७१, ३३-३४) । "अपनी धनुष की टकार करते हुये इसने वानर-सेना में प्रवेश कर के द्विविद, मेन्द्र, और कुमुद आदि योरो को पराजित किया और तदनन्तर अहंकार मुक्त वाणी में इस प्रकार बोला 'मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूँ । किसी नाधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है । जिसमें शक्ति, साहस, और उरसाह हो वह शीघ्र यहाँ आकर मुझसे युद्ध करे ।' (६ ७१, ३७-४५) ।" 'लक्ष्मण को अपने सम्मुख युद्ध के लिये उत्स्थान देख कर इसने उनसे व्यगूर्वक इस प्रकार कहा 'सुमित्राकुमार ! तुम अभी बालक हो; पराक्रम में कुशल नहीं हो, अत लौट

जाओ ।' फिर भी जब लक्ष्मण नहीं हटे तब इनके उन पर दण-प्रहार करने की धमकी दी । (६. ७१, ४६-५६) ।" इनके लक्ष्मण के साथ घोर युद्ध किया किन्तु अन्त में लक्ष्मण ने इनका बध कर दिया (६. ७१, ६६-११०. ११६) । यह देवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सुमाली के साथ युद्ध-भूमि में गया था (७. २७, ३१) ।

१. अग्नि, एक ऋषि का नाम है : वनवास के समय जब लक्ष्मण तथा सीता सहित श्रीराम इनके आश्रम पर पधारे तब इन्होंने इन लोगों को अपने पुत्र की भाँति स्नेहपूर्वक अपनाया, अपने आश्रम पर इन लोगों के सत्कार की स्वयं व्यवस्था की, लक्ष्मण और सीता को भी सत्कारपूर्वक सतुष्ट किया, और अपनी पत्नी अनसूया से सीता की देख-रेख करने के लिये कहा (२. ११७, ५-७) । इन्हें 'वर्मज्ञः सर्वभूतहिते रत' और 'ऋषिमत्तम' कहा गया है (२. ११७, ७-८) । अपनी पत्नी अनसूया की अत्यधिक प्रशंसा करते हुये इन्होंने उनका राम से परिचय कराया और सीता ने उनके पास जाने के लिये कहा (२. ११७, ९-१३) । 'अग्नि कुम्भनियंत्र सूर्यवैश्वानरोपम । अग्निन्देसे महाकायो विराधो निहतो मया ॥', (६. १२३, ४९) । अयोध्या लौटने पर श्रीराम का अभिवादन करने के लिये दक्षिण दिशा के अन्य ऋषियों के साथ ये भी उपस्थित हुये थे (७. १, ३) । एक यज्ञ-मंत्र में राजा निमि ने अपने ऋषिज का कार्य करने के लिये इन्हे आमन्त्रित किया था (७. ५५, ९) ।

२. अग्नि, उत्तर दिशा में निवास करनेवाले एक ऋषि का नाम है जो वसिष्ठादि ऋषियों के साथ राम का अभिवादन करने के लिये अयोध्या पधारे थे (७. १, ५) ।

अदिति, एक देवी का नाम है जो इन्द्र (वज्रराजि) की माता थीं (१. १८, ११) । मिथ्यामय का पूर्ववृत्तान्त सुनाने हुये विश्वामित्र ने श्रीराम को बताया कि महर्षि बशस्प अपनी पत्नी अदिति के साथ सहस्र दिव्य वर्षों का व्रत समाप्त करके दश आश्रम पर पधारे थे (१. १९, १०-११) । भगवान् विष्णु अदिति के गर्भ से ही प्रकट होकर वामन रूप में विरोचन-कुमार बलि के पाम गये थे (१. २९, १९) । देवों को इनका ही पुत्र कहा गया है (१. ४५. ३८) । असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे इन्द्र की सफलता के लिये इन्होंने मङ्गलकामना की थी (२. २५, ३४) । वे प्रजापति दश की पुत्री थीं, तिनका वाशस्प के साथ विवाह हुआ (३. १४, ११) । अपने पति की अनुश्रवण से ये ३३ वैदिक देवताओं की माता हुईं (३. १४, १३-१४) ।

इनकी भगिनी का नाम दिधि था, और ये दोनों ही प्रजापति कश्यप की पत्नियों थी (७ ११, १५) ।

अनरण्य, वाण के पुत्र और पृथु के पिता का नाम है (१ ७०, २३) । रावण ने बताया 'पूर्वकाल में इन्द्राकुवशी राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते हुये कहा था कि इन्द्राकुवश में ही एक श्रेष्ठ पुरुष (राम) उत्पन्न होगा जो मुझे, पुत्र, मन्त्री, सेना, अश्व और सारथि सहित समराङ्गण में मार डालेगा', (६ ६०, ८-१०) । रावण की ललकार मुररु इन्होंने उससे युद्ध किया किन्तु अन्त में रावण के हाथों इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय ही इन्होंने रावण को उक्त शाप दिया (७ १९, ७ ९ १४ १९ २५-३२) ।

अनल, विभीषण के अनुचर, एक राक्षस का नाम है जिसने पत्नी का रूप धारण करके अन्य राक्षसों के साथ लङ्का में जाकर रावण की रक्षा-व्यवस्था तथा सैन्यशक्ति का पता लगाया था (६ ३७, ७) । यह माली और वसुदा का पुत्र था (७ ५, ४२ ४४) ।

१. अनला, दस की पुत्री और कश्यप की पत्नी का नाम है (३ १४ ११) । इनने पवित्र फलवाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया (३ १४, ३१) ।

२. अनला, एक राक्षसी का नाम है जो मात्यवान् और सुन्दरी की पुत्री थी (७ ५, ३६-३७) । यह विश्वावसु की पत्नी और कुम्भीनस की माता हुई (७ ६१, १७) ।

अनंग, अग्नि (हुतासन) के पुत्र, एक बानर-प्रमुख का नाम है जिसे सीता को ढूँढने के लिये सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर भेजा (४ ४१, ४) ।

अनन्तदेव, जातरूपशिल पर्वत पर निवास करनेवाले एक महात्मा का नाम है 'जातरूपशिलो नाम महाकनकपर्वण ॥ सत्र चन्द्रप्रतीकाद्य पद्मग धरणीररम् । पद्मत्रयितालाज तानो द्रव्यव मानरा ॥ आसीन पर्वतस्पात्रे सर्वदेवतमस्तुतम् । सहस्रशिरस देवमन्त नीलवाससम् ॥', (४ ४०, ४८-५०) इस पर्वत पर इनकी ताड़ के चिह्न से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती थी जिसकी तीन शिखारें थी (४ ४०, ५१) ।

अनिल, एक राक्षस का नाम है जो माली और वसुदा का पुत्र तथा विभीषण का धामाथ था (७ ५, ४२-४४) ।

अतसूया, ऋषि अत्रि की पत्नी का नाम है (२ ११७, ७) । वाल्मीकि ने पहले ही अनुमान कर लिया था कि सीता के साथ इनका वार्तालाप होगा और यह सीता को अनूयणादि का उपहार बेंगी (१ ३, १८) । महाभागा, तापसी और धर्मचारिणी अपनी इन स्त्री से अत्रि ने सीता को अपने पास ले जाने के लिये कहा (२ ११७, ८) । "अत्रि ने श्रीराम से इनका परिचय देने हुये

बताया कि एक समय दस वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब समस्त जगत् निरन्तर दग्ध होने लगा तब अनसूया ने अपने उग्र तप से आश्रम में फल मूल उत्पन्न किये और मन्दाकिनी की पवित्र धारा बहाई। इन्होंने १०००० वर्षों तक घोर तपस्या करते हुये ऋषियों के विघ्नो का निवारण किया और देवताओं के कार्य के लिये एक रात्रि को ही दस रात्रियों के बराबर कर दिया। (२ ११७, ९-१२)। 'तामिमा सर्वभूताना नमस्कार्या तपस्विनीम्। अभिगच्छतु वैदेही वृद्धामशोधना सदा ॥ अनसूयेति या लोके कर्मभि र्यातिमागता।', (२ ११७, १२)। शिथिला बलिना वृद्धा जरापाण्डुरमूर्धजाम्। सतत वेपमानाङ्गी प्रवाते कदलीमिव ॥ सा तु सीता महाभागामनसूया पतिव्रताम्। अभ्यवादयदध्यग्रा स्व नाम समुदाहरत् ॥', (२ ११७, १६-१७)। इन्होंने सीता का सत्कार करते हुये उनके प्रत्येक परिस्थिति में पति के ही साथ रहने के घर्मानुकूल आचरण की सराहना की (२ ११७, २६-२७)। इनके वचनों को सुनकर सीता ने इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की (२ ११८, १)। सीता की घर्म और कर्त्तव्यानष्टा से अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की (२ ११८, १३-१५)। सीता की निर्लोभता से अत्यधिक प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें दिव्य माला, अङ्गराग और बहुमूल्य अनुलेप आदि प्रदान किये (२ ११८, १७-२०)। जब सीता ने इनकी अत्यधिक प्रशंसा आरम्भ की तब प्रसन्न को बदलने के लिये इन्होंने (दृढव्रता) उनसे (सीता से) अपने विवाह का वृत्तान्त सुनाने के लिये कहा (२ ११८, २३-२५)। सीता-स्वयंवर के वृत्तान्त को सुनकर यह अत्यन्त प्रसन्न हुई और सन्ध्या समय सीता को श्रीराम के पास जाने की अनुमति देने हुये उनसे उन्हीं वस्त्रो और अनुलेपनो आदि को धारण करने के लिये कहा जो इन्होंने उन्हें दिया था (२ ११९, १-११)। इनके पास से जाने के पूर्व सीता ने इन्हें नमस्कार किया (२ ११९, १२)।

अनुहाद, एक दानव का नाम है जिसने छलपूर्वक शची का अपहरण कर लिया था, और जिसका इस अपराध के कारण इंद्र ने वध किया (४ ३९, ६-७)।

अग्ध्र, दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक प्रदेश का नाम है जहाँ सीता को दूकने के लिए मुरीच ने अङ्गद को भेजा था (४ ४१, १२)।

अन्धक, एक दैत्य का नाम है जिसका रुद्र ने श्वेतारण्य में वध किया था (३ ३०, २७, ६ ४३, ६)।

अपर पर्वत, एक पर्वत का नाम है। केकय से लौटते समय भरत हमपर से होकर आय थे (२ ७१, ३)।

अप्सरस्—नन्दन कानन में शीड़ा बरने वाली अप्सराओं को भी रावण ने स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया (१ १५, २३)। जब विष्णु ने भूतल पर अवतार लेने का वचन दे दिया तब देवी आदि के साथ अप्सराओं ने भी उनका स्तवन किया (१ १५, ३२)। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि वे सब अप्सराओं आदि के गर्भ, से वानर-रूप में अपने समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें (१ १७, ५ २४)। राजा दशरथ के पुत्रों के जन्म के अवसर पर अप्सराओं ने नृत्य किया (१ १८, १७)। अन्य लोगों के साथ अप्सरायें भी राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा के साथ साथ चल रही थी (१ ४३, ३२)। समुद्र-मंथन के समय समुद्र से छ करोड़ अप्सरायें प्रकट हुईं, किन्तु देवों या दानवों में से किसी ने भी इन्हें अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया जिससे वे सब गामान्या (साधारणा) मानी गईं (१ ४५ ३२-३५)। मग्यन करने से ही 'अप' में उरके रम से वे सुन्दर स्त्रियाँ उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका 'अप्सरस्' नाम पडा (१ ४५, ३३)। अहल्या के सापमुक्त होने पर अप्सराओं ने उत्सव मनाया (१ ४९, १९)। राम के विवाह के अवसर पर अप्सराओं ने नृत्य किया (१. ७३, ३८)। राम और परशुराम के सपर्य का अनुपम दृश्य देखने के लिए अप्सरायें भी उपस्थित हुई थी (१. ७६, १०)। भरद्वाज की आज्ञा से अप्सराओं ने भरत की सेना का सत्कार किया (२ ९१, १६. २६)। भरद्वाज के आवाहन पर नन्दनकानन से बीस सहस्र अप्सरायें आईं (२ ९१, ४५)। ऋषि माण्डक्यि की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिये देवताओं ने पाँच प्रमुख अप्सराओं को नियुक्त किया (३ ११, १५)। इन पाँच अप्सराओं ने महर्षि माण्डक्यि को मोहित कर लिया और उनकी पत्नियों के रूप में पश्चात्पार सरोवर के भीतर बने भवन में निवास करने लगीं (३. ११, १६-१९)। रावण ने समुद्र-तटवर्ती प्रदेश की शोभा का शब्दचित्र करते हुये देखा कि दिव्य धामूपगो और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली और शीड़ा-विहार की विधि को जानने वाली सहस्रो दिव्य-रुचिणी अप्सरायें वहाँ सब ओर विचरण कर रही हैं (३. ३५, १६)। 'स्वर्गोऽपि पद्मामलपद्मनेत्र समेत्य सम्प्रेक्ष्य च मामपश्यन् । न ह्येव उच्चावच-ताम्रबूडा विविधवेदाप्सरसोऽभजिष्यन् ॥', (४. २४, ३४)। सुदर्शन सरोवर पर जल-विहार के लिए अप्सरायें भी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक आती रहती थी (४. ४०, ४६)। अप्सराओं आदि की उपस्थिति से महेंद्रपर्वत की शोभा में और वृद्धि हो जाती है (४. ४१, २१)। वैलास पर्वत पर कुबेर के भवन के समीप स्थित सरोवर में अप्सरायें जल-शीड़ा करती हैं (४. ४३, २२)। शीरोद सागर को अप्सराओं का नित्य-निवासस्थान कहा गया है (४. ४६,

१५) । इन्द्रजित् की मृत्यु पर अप्सराओं ने भी हर्षपूर्वक आकाश म नृत्य किया (६ ९०, ७५-८५) । राम और रावण के अद्भुत युद्ध को देखने के लिये अप्सरायें भी वहाँ उपस्थित हुईं (६ १०७-५१) । राम के राज्याभिषेक के समय अप्सराओं ने नृत्य किया (६ १२८, ७१) । पुलस्त्य मुनि सर्वत्र तपस्या में लगे रहते थे, किन्तु क्रीडा करती हुई अप्सरायें उनके आश्रम में आकर उनकी तपस्या में विघ्न डालती थी (७ २, ९) । किन्तु एक दिन मुनि द्वारा शाप की घमटी देने पर इन्होंने उनके आश्रम में आना बन्द कर दिया (७ २ १३-१४) । कैनाम पवन पर मन्दाकिनी नदी के तट पर विचरण करना अप्सराओं को अत्यन्त प्रिय था (७ ११, ४३) । कुदेर के मदन में अप्सराओं के गायन की मधुर ध्वनि सर्व सुनाई पड़ती थी (७ २६, ९) । जब इंद्र रावण के साथ युद्ध करने के लिये निकले तब अप्सराओं का समूह नृत्य करने लगा (७ २८, २६) । देवता, दानव और गंधर्व आदि अपनी अपनी स्त्रियो तथा अप्सराओं के साथ विन्ध्य गिरि पर क्रीडा करते थे (७ ३१, १६) । जब लवणासुर के प्रहार से शत्रुघ्न मूर्च्छित होकर गिर पड़े तब अप्सराओं आदि म महान् हाहाकार मच गया (७ ६९, १३) । जब शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करने के लिये एक अमोघ बाण निकाला तब देवता, असुर, गंधर्व और अप्सराओं, इत्यादि के साथ समस्त जगत् अस्वस्थ होकर ब्रह्मा जी की शरण में गया (७ ६९ १६-२१) । लवणासुर का वध कर देने पर अप्सराओं ने शत्रुघ्न की प्रशंसा की (७ ६९, ४०) । लक्ष्मण पर पुष्पो की वर्षा की (७ १०६, १६) । जब श्रीराम परमधाम पधारने के लिये सरयू-तट पर आये तब वहाँ अत्यधिक अप्सरायें आदि एकत्र हो गईं (७ ११० ७) । श्रीराम के विष्णु रूप में स्थित हो जाने पर अप्सरायें भी उनका गुणगान करने लगीं (७ ११० १४) ।

अभिकाल, एक ग्राम का नाम है जो केकय देश को जाते समय वसिष्ठ के दूतों के मार्ग में पड़ा था (२ ६८, १७) ।

अमरावती, इन्द्र की पुरी का नाम है (३ ४८, १०) ।

अमृत, उस पेय का नाम है जिसे देवताओं ने अजर और अमर होने के लिये प्राप्त करने का निश्चय किया (१ ४५ १६) । क्षीरोद सागर के मथन से इसे प्राप्त किया गया (१ ४५ १७-१८ ३८) । अमृत के सागर से प्रन्ट प्राप्त ही देवताओं और दानवों में उम प्राप्त करने के लिये मर्ष्य हुआ (१ ४५, ४०) । इस युद्ध के पञ्चस्वहय देवताओं और दानवों का समस्त समूह क्षीण होना लगा, किन्तु विष्णु ने अपनी माहिनी माया का आश्रय लेकर उम अमृत का अपहरण कर लिया (१ ४५, ४२) । सम्पानि ने बताया कि अमृतमथन की

घटना उन्होंने देखी थी (४ ५८, १३) । अमृत को सुरभि के दूध से उलटा बनाया गया है (७ २३, २३) ।

अम्बरीष, अयोध्या के राजा का नाम है । इंद्र द्वारा इनके यज्ञारव का अपहरण कर लेने में इनका यज्ञ भंग हो गया था (१ ६१, ५-६) । तब इनके पुरोहित ने खोये अश्व के स्थान पर किसी पुरुष को ही जाने के लिये कहा (१ ६१, ७-८) । पुरोहित की बात सुनकर महाबुद्धिमान, पुरुष-श्रेष्ठ राजा अम्बरीष ने सखी गाथी के मूल्य पर भी एक पुरुष को प्राप्त करने के लिये यज्ञ-सत्र अन्वेषण किया (१. ६१, ९-१०) । अन्ततोगत्वा इन्होंने भृगुतुङ्ग पर अपनी पत्नी तथा तीन पुत्रों के साथ निवास कर रहे ऋचीरु मुनि का दर्शन किया (१. ६१, ११-१५) । इन्होंने मुनि से उनके एक पुत्र को क्रय करने की इच्छा प्रकट की किन्तु मुनि तथा मुनि-पत्नी द्वारा क्रमशः अपने ज्येष्ठ और वनिष्ठ पुत्रों को बेचना अस्वीकृत कर देने पर मजले पुत्र, दूत शेष को, उसकी इच्छा से ही, प्रचुर सुवर्ण मुद्रायें देकर क्रय कर लिया (१ ६१, १६-२३) । 'अम्बरीषस्तु राजर्षी रघमारोप्य सत्वर' । शुन शेष महातेज जगामाशु महामसा ॥' (१. ६१, २३) । शुन शेष को लेकर अयोध्या लौटते समय इन्होंने घोषहर के समय पुष्कर तीर्थ में विभ्रान किया (१ ६२, १) । 'शुन शेषो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहित । त्वरया राजसिंह तमम्बरीषमुवाच ह ॥' (१. ६२, २१) । शुन शेष के आग्रह पर शीघ्र ही यज्ञ-स्थल पर आकर इन्होंने इन्द्र की कृपा से यज्ञ सम्पन्न किया (१. ६२, २३-२७) । ये प्रशुभ्रक के पुत्र तथा नहुष के पिता थे (१ ७०, ४१. ४२) ।

अयोध्या—वाल्मीकि मुनि की यक्षोप में रामचरित्र सुनाते हुये नारद ने बताया कि रावण-वध के पश्चात् राम देवताओं से पर पाकर और मृत वातरों को जीवित कराकर अपने साथियों सहित पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या गये (१. १, ८६) । अयोध्यापुरी का विस्तृत वर्णन (१ ५, ६-२३) । दशरथ के शासन काल में अयोध्या, उसके नागरिकों, तथा वहाँ की उत्तम सुरदा-व्यवस्था का वर्णन (१ ६, ५-२८) । जब राजा दशरथ ने ऋश्यशृंग को लेकर अयोध्या में प्रवेश किया तब नगरवासियों ने इन लोगों का भव्य स्वागत किया (१ ११, २५-२७) । राम इत्यादि दशरथ-पुत्रों के जन्म के अवसर पर इस नगर में अर्जुन उत्सव मनाया गया (१. १८, १८-२०) । राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिये प्रस्थित हुये (१. ६८, १) । जब दशरथ के राजकुमारों ने अपनी-अपनी वधुओं सहित अयोध्या में प्रवेश किया तब पुरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया (१. ७७, ६-८) । राम के अभिषेक के समय सम्पूर्ण अयोध्या नगरी को मली-भानि सजाया गया था

(२ ५, १५-२१, ६, ११-१९) । श्री राम के वनगमन से समस्त नगर शोकाकुल हो उठा (२ ४१, १३-२१) । भरत ने देखा कि अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी और भीतरी भाग सूना हो गया है, उसके बाजार इत्यादि भी बन्द हैं, इत्यादि (२ ४२, २३-२४) । वनवास के समय तमसा नदी के तट पर निवास करते हुये श्री राम ने अयोध्या नगरी की दशा का स्मरण किया (२ ४६, ४) । राम के वनगमन के पश्चात् यह नगरी दोभ्रा-बिहीन हो गई (२ ४७, १७-१८, ४८, ३४-३७) । कोसल देश की सीमा को पार करते समय राम ने अयोध्या की ओर मुख कर के उतने विदा ली (२ ५०, १-३) । लक्ष्मण ने निपादराज गुह्य में कहा कि जिसने राम के अनुरागी मनुष्य निवास करते हैं, और जो सदैव सुखकर तथा प्रिय वस्तुओं को प्राप्त करानेवाली रही है, वह अयोध्यानगरी राजा दशरथ के निधन के दुःख से युक्त होकर नष्ट हो जायगी (२ ५१, १६) । इस नगर का वर्णन (२ ५१ २१-२३) । सुमन्त्र ने अयोध्या की शोकाकुल स्थिति और दुरवस्था का वर्णन किया (२ ५९, १०-१६) । भरत ने अपने सारथि से अयोध्या के नीरम और निस्तब्ध स्थिति का वर्णन किया (२ ७१, १८-२९ ३७-४३) । नगर की रक्षा का कोई प्रबन्ध न होते हुए भी यह राम के पराक्रम के कारण सुरक्षित था (२ ८८, २३-२५) । राम ने भरत से अयोध्यापुरी की स्थिति के सम्बन्ध में पूछा (२ १००, ४०-४२) । भरत जी चित्रकूट से अयोध्या लौटे (२ ११३, २३) । भरत द्वारा अयोध्या की दुरवस्था का दर्शन करके दुःखी होना (२ ११४) । सीता विरह से विलाप करते हुये श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, 'तुम मुझे वन में छोड़कर सुन्दर अयोध्यापुरी को लौट जाओ', (३ ६२, १५) । मुरीन का राज्याभियेक करने के पश्चात् माल्यवान् पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुये श्री राम ने अयोध्या का स्मरण किया (४ २८ ५६) । रावण वध के पश्चात् राम अयोध्या लौटे, उस समय मानरो तथा राक्षसों ने भी अयोध्या को प्रणाम करके अत्यन्त उल्लासपूर्वक उत्तरी दोभा का दर्शन किया (६ १२३, ५५-५७) । रामायण के उपसंहार में यह कहा गया है कि धीराम के परमवाम सिधारने के पश्चात् रमणीय अयोध्यापुरी अनेक वर्षों तक सूनी रहेगी, और फिर ऋषभ के समय पुनः बसगी (७ १११-१०)

अयोमुख, दक्षिण दिशा में स्थित एक पर्वत का नाम है, जहाँ सीता को बँडन के लिये सुपीव ने अङ्गद को भेजा था 'अयोमुखश्च गतव्य पर्वतो धानुमण्डितः विचित्रसिन्धु श्रीपारिचित्रपुण्ड्रितकानन ॥ सुष-दनवन्दोद्देशे माणित्यो महागिरिः', (४ ४१, १३-१६) ।

अयोमुखी, एक राक्षसी का नाम है जो विकराल मुखवाली, छोटे-छोटे जन्तुओं को भय देनेवाली, अत्यन्त घृणास्पद और लम्बोदरी, इत्यादि, थी : 'ददर्शतुमंहास्वपा राक्षसी विकृताननाम् ॥ भयदामल्पसत्त्वाना बीमत्सा रौद्र-दर्शनाम् । लम्बोदरी तीक्ष्णदष्ट्रा कराली परपत्वपम् ॥ रक्षयन्ती मृगान् भीमान् विक्टा मुत्तमूर्धजम् ।', (३ ६९, ११-१३) । श्रीराम और लक्ष्मण ने इसे मतङ्ग के आश्रम के निकट देखा (३ ६९, १३) । लक्ष्मण ने इसकी नाक और कान को काट लिया (३ ६९, १३-१८) ।

अरजा, उषाना भार्गव की पुत्री का नाम है जो अप्रतिम रूपवती और उत्तम बर्णा थी (७ ८०, ४-५) । इसने दण्ड के आग्रह को अस्वीकार कर दिया (७ ८०, ८-९), और दण्ड को अपने पिता से मिलने के लिये कहा (७ ८०, ८-१२) । दण्ड ने इसके साथ बलात्कार किया (७ ८०, १३-१७) । इसने अपने पिता के लौटने तक भयभीत होकर विलाप करते हुये आश्रम के निकट ही प्रतीक्षा की (७ ८०, १८) । अपने पिता की इच्छा के अनुसार इसने जीवन-पर्यन्त अपने अपराध को निवृत्ति के समय की प्रतीक्षा करना स्वीकार कर लिया (७ ८१, १३-१६) ।

अरिष्ट, लङ्का में स्थित एक पर्वत का नाम है (५ ५६, २६-३७) । लङ्का से लौटते समय हनुमान् समुद्र लांघने के लिये इसके ऊपर चढ़ गये (५ ५६, ३८) । जब हनुमान् ने इस पर से छलांग भारी तब उनके भार से यह पर्वत हिल उठा और विभिन्न प्रकार के प्राणियों सहित धरती में धँस गया (५ ५६, ४२-५०) । यह पर्वत विस्तार में दम योजन और ऊँचाई में तीस योजन था (५ ५६, ५०) ।

अरिष्टनेमि, राजा शगर की छोटी रानी सुमति के पिता का नाम है (१ ३८, ४) । यह विवस्वान् के बाद सोलहवें प्रजापति हुये थे (३ १४, ९) । बुध ने इला के सम्बन्ध में इनसे भी परामर्श किया था (७ ९०, ५०) । देखिये ४. ६६, ४ भी ।

अरुण, विनता के पुत्र और मरुद के भ्राता का नाम है (३ १४, ३२) । ये जटायु तथा सम्पाति के पिता थे (३ १४, ३३) ।

अरुन्धती, महर्षि वसिष्ठ की पतिप्रता स्त्री का नाम है जिसने नक्षत्रपद प्राप्त कर लिया था (५ २४, १०, ३३, ८) । अगस्त्य ने सीता की प्रशंसा करते हुये उनकी अरुन्धती के साथ तुलना की (३ १३, ७) ।

अर्क, एक वानर सूर्यपति का नाम है जो राम की सेना के दक्षिण-गमन के समय उसके एक पार्श्व की रक्षा कर रहा था (६ ४, ३३) ।

अर्चिष्मान्, एक वानर यूयपति का नाम है जिसे सीता को ढूँढने के लिये सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर भेजा था (४ ४२, ३) ।

अर्चिमाल्यस्, एक महाबली वानर यूयपति का नाम है, जिसे सीता को ढूँढने के लिये सुग्रीव ने पश्चिम की ओर भेजा था (४ ४२, ४) ।

अर्जुन (कार्तवीर्य), एक राजा का नाम है जिसने परशुराम के पिता जमदग्नि का वध किया था (१ ७५, २३) । विष्णु ने इसका वध किया (७ ६, ३५) । "एक बार जब रावण महिष्मती नगर में पहुँचा तो वहाँ अर्जुन कार्तवीर्य शासन कर रहा था । जिस दिन रावण वहाँ पहुँचा उस दिन यह बलवान् हैहयराज अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जलक्रीडा करने के लिये गया था (७ ३१, ७-१०) ।" इसे अग्नि के समान तेजस्वी कहा गया है और इसके राज्यकाल में कुशास्तरण से युक्त अग्निकुण्ड में सदैव अग्नि-देवता निवास करते थे (७ ३१, ८) । "नर्मदा के तट पर जहाँ रावण महादेवजी को पुष्पहार अर्पित कर रहा था वही से धोड़ी ही दूर पर वीरो में श्रेष्ठ महिष्मती का यह राजा अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर क्रीडा कर रहा था । इसके एक सहस्र भुजायें थी जिनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिये इसने नर्मदा के वेग को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप नर्मदा का जल उलटी गति से बहते हुये उस स्थान पर पहुँचा जहाँ रावण शिव को पुष्पाहार समर्पित कर रहा था, और रावण के समस्त पुष्पहारों को अपने साथ बहा ले गया (७ ३२, १-७) ।" रावण के मन्त्रियों के साथ अपने सेना के सभ्य तथा सेना की पराजय का समाचार सुनकर अपनी स्त्रियों को धर्म बंधाने के पश्चात् युद्धभूमि में गया और प्रहस्त को आहूत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप रावण के अन्य मन्त्रिगण युद्धभूमि से भाग खड़े हुये (७ ३२, ३७-४८) । तदुपरान्त इसने रावण के साथ युद्ध करके उसे बन्दी बनाया और अपने साथ राजधानी ले आया (७ ३२, ४९-७३) । इसने पुलस्त्य का स्वागत किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिये उनसे आज्ञा देने का निवेदन किया (७ ३३, ५-१२) । पुलस्त्य के निवेदन पर बहुमूल्य उपहार आदि देकर रावण को मुक्त कर दिया और अग्नि को साक्षी करके उसके साथ मित्रता का सम्यन्ध स्थापित किया (७ ३३, १३-१८) ।

अर्थसाधक, भरत के एक मन्त्री का नाम है जो श्रीराम के वनवास से अयोध्या लौटने के समय उनके स्वागतार्थ गया था (६ १२७, ११) ।

अर्चमा—श्रीराम के वन जाने के समय वीसल्या ने वन में उनकी रक्षा करने के लिये अर्चमा का भी आवाहन किया था (२ २५, ८) ।

अलक्षित, पश्चिम दिशा के एक वन का नाम है जहाँ सीता को हूँदने के लिये सुग्रीव ने सुपेन इत्यादि को भेजा था (४. ४२, १४) ।

अलम्बुषा, इक्ष्वाकु की पत्नी और विशाल की माता का नाम है (१. ४७, ११-१२) । भरत की सेवा के सत्कार के लिए भरद्वाज ने इनकी सहायता भी माँगी थी (२. ९१, १७) । भरद्वाज की आज्ञा पर इन्होंने भी भरत के सम्मुख नृत्य किया (२. ९१, ४७) ।

अलर्क, कँकेयी द्वारा उल्लिखित एक राजा का नाम है जिसने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये एक ब्राह्मण को अपने नेत्र दे दिये थे (२. १२, ४३) । 'तथा ह्यलर्कस्तैजस्वी ब्राह्मणे वेदपारणे । याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्वा-विमना ददौ ॥', (२. १४, ५) ।

१. अयन्ति, दक्षिण दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता को हूँदने के लिये सुग्रीव ने अङ्गद को भेजा था (४. ४१, १०) ।

२. अयन्ती, पश्चिम दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता को हूँदने के लिये सुग्रीव ने सुपेन इत्यादि को भेजा था (४. ४२, १४) ।

अदिन्ध्य, रावण के एक प्रिय मन्त्री का नाम है : 'अदिन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान् राक्षसपुङ्गवः । धृतिमाञ्छीलघान् वृद्धो रावणस्य सुसम्मत ॥', (५. ३७, १२) । सीता को मुक्त कर देने के इसके परामर्श को रावण ने अस्वीकृत कर दिया था (५. ३७, १३) ।

अशनिप्रभ, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसने द्विविद के साथ युद्ध किया था (६. ४३, १२) । द्विविद ने इनका वध कर दिया (६. ४३, ३२-३४) ।

अशोक, एक दूत का नाम है जिन्हें वसिष्ठ ने दशरथ की मृत्यु के पश्चात् भरत को बुलाने के लिये भेजा था (२. ६८, ५) । यह केकय नगर में पहुँचे (२. ७०, १) । केकय-राज तथा राजकुमार ने इनका भली प्रकार स्वागत सत्कार किया, जिसके बाद इन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें वसिष्ठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया (२. ७०, २-५) । भरत के प्रश्नों का उत्तर देने हुये इन्होंने भरत से सीघ्रतापूर्वक अयोध्या चलने के लिये कहा (२. ७०, ११-१२) । वनवास से लौटने पर श्रीराम के स्वागत के लिये यह भी गये (६. १२७, ११) नागरिकों को राम के स्वागत के लिये तैयार रहने का आदेश देकर ये राम का स्वागत करने के लिये गये (६. १२८, २४-२६) ।

अशोकवाटिका—सीता का अपहरण करके रावण ने उन्हें यहीं बन्दी बनाकर रखा था (३. ५६, ३२) । यह वाटिका समस्त कामनाओं को

फल-रूप में प्रदान करनेवाले कल्पवृक्षों तथा भाँति भाँति के फल पुष्पोवाले अनेक अन्य वृक्षों से परिपूर्ण थी और सदैव मदमत्त रहनेवाले पक्षी इसमें निवास करते थे (३ ५६, ३३) । लड्का आकर सीता को कहीं न पाने पर चिन्तित हनुमान् की इस विशाल और बड़े-बड़े वृक्षों से परिपूर्ण वाटिका पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने इसमें ही सीता को ढूँढने का निश्चय किया (५. १३, ५५-६०) । 'अशोकवनिका पुण्या सर्वसस्कारसस्कृता', (५. १३, ६२) । 'स तु सहस्रप्रसर्वाङ्ग प्रकारस्यो महाकपि । पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् ह्रमान् ॥', (५ १४, २) । 'सालानशोकान् भव्याश्च चम्पकाश्च मुपुष्पितान् । उद्दालकान् नागवृक्षाश्चूतान् कपिमुखानपि ॥ तथाऽम्रवणसम्पन्नाल्लताशनसमावृतान् । ज्यामुक्त इव नाराच पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम् ॥', (५ १४, ३-४) । 'स प्रविश्य विचित्रा ता विहंगरभिनादिताम् । रात्रतै-काश्चनैश्चैव पादपं सर्वतोवृताम् ॥ विहंगमृंगसर्पैश्च विचित्रा चित्रकाननाम् । उदितादित्यसकाशा ददर्श हनुमान्कपि ॥ वृता नागविधैर्वृक्षै पुष्पोपगफलोपमै । कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेविताम् ॥ प्रहृष्टमनुजे काले मृगपक्षिमदाकुलान् । मत्तवशिषसघुटा नानाद्विजगणायुताम् ॥', (५ १४, ५-८) । यह वाटिका सरोवर, सीलो और नदियों से परिपूर्ण थी (५ १४, २२-२६) । इसकी पृष्ठभूमि में एक विस्तृत मेघवण पर्वत था जिस पर अनेकानेक वृक्ष उगे हुये थे, इस पर्वत पर अनेक गुफायें थी और इस पर से एक नदी भी निकली थी जिसके तटवर्ती वृक्षों की डालियाँ उसके जल का स्पर्श कर रही थी (५ २४, २७-३१) । निकट ही एक झील थी जिसके तट पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक सुन्दर भवन स्थित थे (५ १४, ३२-३४) । इसकी भूमि कल्पवृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से मुशोभित, दिव्य-गन्ध तथा दिव्य-रस से परिपूर्ण, और सब ओर से सुबलवृत्त थी (५ १५, २) । मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर इसकी भूमि नन्दनवन के समान शोभित, अट्टालिकाओं तथा राजभवनों में युक्त, तथा कोकिल-ममूहों के कूजन से बोलाहलपूर्ण बावलियाँ इसकी शोभा में वृद्धि कर रही थी (५ १५, ३) । सुवर्णमय उत्पलायें और कमलों से परिपूर्ण बावलियाँ इसकी शोभा में वृद्धि कर रही थीं (५ १५, ४) । सभी ऋतुओं में पृष्णित होनेवाले तथा फलों से लदे रमणीय वृक्ष इसकी भूमि को विभूषित कर रहे थे (५ १५, ५) । इसकी शोभा का और विस्तृत वर्णन (५ १५, ६-१५) । इसके मध्य में सहस्र स्तम्भोवाला एक चैत्यप्रासाद था (५ १५, १६-१८) । राजा के अशोकवाटिका में आगमन के समय इसकी शोभा का वर्णन (५ १८, ६-९) । 'प्रमादवनम्', (५ १८, २७) । 'इदमस्य नृपसस्य नन्दनोपममुत्तमम् । वन नैत्रमन बान्त नानाद्रुमनायुतम् ॥',

(५ ४१, १०) । हनुमान् ने इसका विध्वंस किया (५ ४१, १४-२०) ।

अश्व, एक ऋषि का नाम है जिनके आश्रम पर ही राक्षसों से पत्न्य जास्थान के ऋषियों ने आश्रम लिया था (२ ११६, २०) ।

अश्वमीच, कश्यप और दनु के पुत्र का नाम है (३ १४, १६) ।

अश्वपति, भरत के मामा का नाम है । इन्होंने भरत के कुरुक्षेत्र के समय उनके प्रति अपने पुत्र के समान ही स्नेह रक्खा था (२ १ २) । इन्होंने वसिष्ठ के दूतों का सत्कार किया (२ ७०, २) । इन्होंने भरत को लयोध्या के लिये विदा करते हुये उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार आदि दिये (२ ७०, २२-२४) । इन्होंने भरत को विदा किया (२ ७०, २८) । भरत के अयोध्या पहुँचने पर उनकी माता कौशल्या ने इनके कुशल-समाचार को भी पूछा (२ ७२, ६) । इन्हें धर्मराज के रगान कहा गया है (२ ७४, ९) ।

अश्विन (द्वय)—ब्रह्मा के कहने पर अश्विनोक्तुमारों ने मन्द और द्विविद नामक दो बानर युवपतियों को उत्पन्न किया (१ १७, १४) । ये कश्यप और अदिति के पुत्र थे और इन्हें भी ३३ वैदिक देवों के अन्तर्गत माना गया है (३ १४, १४-१५) । जब रावण ने इन्द्रपुरी पर आक्रमण किया तब अन्य देवों के साथ ये भी उससे युद्ध करने के लिये निकले (७ २७, २२) । रावण के विरुद्ध युद्ध करते समय ये भी इन्द्र के साथ थे (७ २८, २७) ।

अद्रम, रसानल में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ कालकैयगण निवास करते थे, इस पर रावण ने अधिकार कर लिया था (७ २३, १७-१९) ।

अष्टाद्यक्ष ने अपने घर्माला पिता कहोळ को मुक्ति दिलाई थी (६ ११९, १७) ।

असमञ्ज, राजा सगर और केशिनी के पुत्र का नाम है (१ ३८, १६, १, ७०, ३८) । "यह नगर के बालकों को पकड़ कर सरयू के जल में फेंक देते थे और जब वे बालक डूबने लगते थे तब उन्हें देख-देख कर हँसा करते थे । इनकी इस दुष्ट प्रकृति के कारण इनके पिता मगर ने इन्हें नगर से बाहर निकाल दिया (१ ३८, २१-२२) ।" सिद्धार्थ ने इनकी इस दुष्ट प्रकृति तथा सगर द्वारा इनके निष्कासन का विस्तार से उल्लेख किया (२ ३६, १९-३०) ।

असित, भरत के पुत्र का नाम है । ईहय, तालजङ्घ, और सशबिन्दु आदि लोग इनके शत्रु थे (१ ७०, २७-२८) । इन शत्रुओं से पराजित होकर ये अपनी दो पत्नियों को लेकर हिमालय में निवास करने लगे, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई (१ ७० २९-३०) । इनकी मृत्यु के समय इनकी

दोनो रानियाँ गर्भवती थी, जिनमें से कालिन्दी नामक रानी ने च्यवन ऋषि की कृपा से सगर को जन्म दिया (१ ७०, ३०-३७) ।

असुर—दांडकारण्य ने ऋषियो ने राम से वहाँ के असुरों का वध करने के लिये कहा (१ १, ४४) । रावण इनसे भी बलवान था जिसके कारण वह ऋषियो, यक्षो, गन्धर्वों सहित इन्हें भी अत्यन्त पीड़ित करता था (१ १५, ९) । “प्रजापति ददा की दो कन्याओ, जया और सुप्रभा न एक ही परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्र, तथा जया ने पचास रूपरहित श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया । इन पुत्रों ने उक्त अस्त्र शस्त्रों से असुरों का वध किया (१ २१, १३-१७) ।” ये जनक के धनुष को झुकाने में असफल रहे (१ ३१, ९) । राजा सगर के पुत्रों के आशुघो से आहत होकर ये आतंताद करने लगे (१ ३९, २०) । सगर-पुत्री से इन प्रकार वस्त होकर ये ब्रह्मा की शरण में गये (१ ३९, २३-२६) । ‘ब्राह्मणाना सहस्राणि तैरेव क'मल्पानि । विनाशितानि सहस्र नित्यञ्च विशिताशने ॥’, (३ ११, ६१) । ‘विप्रगतिन’, (३ ११, ६४) । सीता को दूँने के लिये पूर्व दिशा में वानरो को भेजने समय मुग्धिव ने बताया कि वहाँ इन्द्रस के समुद्र में अनेक विशाङ्काय असुर निवास करते हैं जो छाया पकड़कर ही प्राणियों की अपनी ओर खींच लेते हैं, और इसके लिये उन्हें ब्रह्मा से अनुमति मिल चुकी है (४ ४०, ३७) । अङ्गद ने विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में जल और वृक्ष-विहीन क्षेत्र में एक असुर का वध किया (४ ४८, १७-२१) । सम्पाति ने बताया कि उन्होंने देवों और असुरों के सग्राम को देखा था (४ ५८ १३) । ‘त्वमिहामुरमहाना देवराजा महात्मना । पातालनिलयाना हि परिष सनिवेधित ॥’, (५ १, ९३) । मान्दवान ने रावण को थीराम से मन्थि करने के लिये समझाते हुये बताया कि ब्रह्मा ने सुर और असुर दो ही पक्षों की सृष्टि की है जिनमें सुरों का पक्ष धर्म और असुरों का पक्ष अधर्म कहा गया है (६ ३५, १२-१३) । जब हनुमान् ने रावण पर प्रहार किया तब ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ५९, ६४) । हनुमान् के प्रहार से जब रावण मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पडा तब ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ५९ ११७) । इन्होंने राम के विजय की कामना की (६ १०२, ४५) । जब वायु न अपनी गति रोक दी तब ये भी ब्रह्मा की शरण में गये (७ ३५, ५३) । जब शत्रुघ्न ने लवणामुर के वध के लिये दिव्य बाण का सन्धान किया तब अप्सविन घबराकर ये ब्रह्मा की शरण में गये (७ ६९, १६-२१) ।

अमूर्त-रजस, बुध और वैदर्भी के पुत्र का नाम है (१ ३२, १३) । इन्हें धर्मनिष्ठ, सत्तवादी और बडिमान कहा गया है, और इन्होंने अपने

रिना की आजा ने घर्मांग्य नामक ग्गर बताया था (१. ३२, ३-७) ।

अहल्या, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है जिसके साथ रहकर उन्होंने मिथिला के निकट बनेक वर्ष तक तप किया था (१. ४८, १६) । इन्द्र ने गौतम का वेश बनाकर अहल्या के मनीष का अपहरण किया (१. ४८, १७-१९) । रति के परवात अहल्या ने गौतम के भय से इन्द्र को तरकाल ही आश्रम से बचने जाने के लिये कहा (१. ४८, २०-२२) । "आश्रम लौट कर गौतम ने सब कुछ जान लिया और अहल्या को क्षाप देते हुये कहा 'दुःखारिणी ! तू यहाँ कई सहस्र वर्षों तक केवल वायु पीकर वा उपवास करके कष्ट उठानी हुई राख न पड़ी रहेगी । समस्त प्राणियों से अदृश्य रह कर इस आश्रम में निवास करेगी । जब श्री राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उसी समय तू पवित्र होगी । श्री राम का आतिथ्य-सत्कार करने से तेरे पाप धुल जायेंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुँच कर अपना पूर्व-शरीर धारण कर लेगी ।' (१. ४८, २९-३२) ।" इसे 'दुर्वृत्ता,' और 'दुःखारिणी' जादि कहा गया है (१. ४८, ३२-३३) । 'तारयिता महाभागमहल्या देवरूपिणीम्,' (१. ४९, ११) । जब श्री राम ने विद्याभिन को आश्रम कर कर के गौतम के आश्रम-क्षेत्र में प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि महासीभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से देशोपमान हो रही है, इस लोक के मनुष्य तथा देवता और अमुर भी वहाँ आकर उसे देख नहीं सकते, वह पृथ से घिरी हुई प्रखलित अग्निशिला सी प्रतीत हो रही है, ओले और बादलों से ढँकी हुई पूर्ण चन्द्रमा की प्रभा-सी दिशाई पड रही है, तथा जल के भीतर उद्भासित होनेवाली सूर्य की दुर्घर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर हो रही है (१. ४९, १३-१५) । श्री राम का दर्शन प्राप्त हो जाने से अहल्या के पाप का अन्त हो गया और वह सब को दृष्टिगत होने लगी (१. ४९, १६) । अहल्या ने श्री राम और लक्ष्मण का आतिथ्य-सत्कार किया (१. ४९, १८-१८) । यह जब गौतम से पुन जाकर मिल गई तब देवी ने हमको साधुवाद दिया (१. ४९, २०) । "ब्रह्मा ने बताया कि उन्होंने एक नारी की मृष्टि की ओर प्रजाओं के प्रत्येक अङ्ग में जो जो अद्भुत विशिष्टता और सारभूत सौन्दर्य था उसे उस नारी के अंगों में प्रकट किया । उन्होंने यह भी बताया कि उसी नारी का नाम अहल्या था । उन्होंने घरोहर के रूप में उस कन्या को महर्षि गौतम को सौंप दिया । बहुत दिनों तक अपने साथ रखने के पश्चात् गौतम ने उस कन्या को ब्रह्मा को लौटा दिया । गौतम के इन महान दृष्टिय मय तथा तपस्या-विषयक सिद्धि को देख कर ब्रह्मा ने उस कन्या, --हल्या, को पुन गौतम को ही पत्नी के रूप में दे दिया । (७. ३०, २१-२७) ।" ब्रह्मा ने अहल्या के सतीत्व-

भ्रष्ट होने तथा राम के द्वारा पुनः पापमुक्त होने के वृत्तान्त का उल्लेख किया (७ ३०, २८-४६) ।

आ

आदित्य-गण—आदित्यों की सत्या वारह बनाई गई है और इन्हें भी ३३ वैदिक देवों के अन्तर्गत रखा गया है। ये लोग कश्यप और अश्विन के पुत्र हैं (३ १४, १४) । इन्द्र के निवेदन पर ये लोग भी रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सन्नद्ध हो गये (७ २७, ४-५) । नवदन्तर ये लोग भी अन्य देवों के साथ ही रावण के विरुद्ध युद्ध के लिये अमरावती पुरी के बाहर निकले (७ २७, २२) । ये लोग भी इन्द्र के साथ ही रावण के विरुद्ध युद्ध के लिये निकले (७ २८, २७) । सीता के शपथ-ग्रहण समारोह को देखने के लिये ये लोग भी श्री राम के दरबार में पधारे (७ १७, ७) ।

आद्रवन्ती, दक्षिण क्षेत्र के एक नगर का नाम है जहाँ सीता को दूबने के लिये सुग्रीव ने अङ्गद को भेजा था (४ ४१, १०) ।

आभीर, उत्तर की एक जंगली जाति का नाम है जो समुद्र तट पर स्थित द्रुम-कुन्ध देश में निवास करती थी (६ २२, ३२) । इनके रूप और कर्म को भयानक तथा इन्हे खुटेरे आदि कहा गया है (६ २२, ३३) ।

आयु, पुरूरवा और उर्वशी के पुत्र तथा नहुष के पिता का नाम है : इन्हें महाबली कहा गया है (७ ५६, २७) ।

इ

इक्षु (सागर), एक अत्यन्त भयंकर सागर का नाम है : 'तत समुद्रद्वीपश्च सुभीमान्द्रुमहंय । ऊर्मिमन्त महारोद्र श्रोतन्तमनिशेदतम् ॥', (४ ४०, ३४) । 'त कालमेघप्रनिम महोरगनिपेकितम् । अभिगम्य महानाद तीर्थं नैव महोदधिम् ॥', (४ ४०, ३६) । इस सागर में अनेक भयंकर द्वीप थे जिनमें ब्रह्मा की अनुमति से ऐसे अमुर निवास करने थे जो प्राणियों की छाया को पकड़ कर उन्हें अपनी ओर खींच लेते थे। सुग्रीव ने 'वितत से इन्हीं द्वीपों में सीता को ढूँढने के लिये कहा (४ ४०, ३४-३६) ।

१. **इक्षुमती**, एक नदी का नाम है जिनके तट पर साङ्काश्य नामक नगर स्थित था (१ ७०, ३) ।

२. **इक्षुमती**, एक नदी का नाम है जिनमें वसिष्ठ के दूतों ने वेदों का देना जाने समय पार किया था। इक्षुमती का मूल निवास-स्थान इन्दी के तट पर स्थित था (२ ६८, १७) ।

इक्ष्वाकु, श्रीराम के वध प्रवर्तक राजा का नाम है (१ १ ८) । इक्ष्वाकु-वंशी महात्मा राजाओं की कुल परम्परा के वर्णन के लिये ही रामायण नाम से विख्यात काव्य की अवतारणा हुई (१ १, ३) । महाराज दशरथ इन कुल के एक अतिरथी वीर थे (१ ६ २) । श्री भीमरथ ने ब्रह्म से यह प्रार्थना की कि इक्ष्वाकु वंश की परम्परा विच्छिन्न न हो, और ब्रह्मा ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया (१ ४२ २०-२२) । महाराज इक्ष्वाकु ने अलम्बुषा के गर्भ में विशाल नामक एक पुत्र उत्पन्न किया (१ ४७, ११-१२) । प्रथम प्रजापति मनु से ही इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुये जो अयोध्या के प्रथम राजा बन (१ ७०, २१) । इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षि था (१ ७०, २२) । बनवास के समय स्यन्दिका नामक नदी को पार करने के पश्चात् श्री राम ने घन धान्य से सम्पन्न उस भूमि का दर्शन किया जिसे पूर्वकाल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था (२ ४९, १३) । इक्ष्वाकुओं को पृथिवी का अधिपति कहा गया है (४ १८, ६) । इक्ष्वाकुनन्दन राजर्षि निमि ने अपने पिता, मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिये सर्व-प्रथम ब्राह्मण शिरोमणि वशिष्ठ का वरण किया (७ ५५, ८) । वशिष्ठ के जन्म ग्रहण करते ही राजा इक्ष्वाकु ने अपने कुल के हित के लिये उनका राज-पुरोहित के पद के लिये वरण किया (७ ५७, ८) । "अपने पिता मनु की मृत्यु के बाद इक्ष्वाकु ने एक सौ पुत्र उत्पन्न किये जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम दण्ड था । इसे मूर्ख और विद्याविहीन देखकर इक्ष्वाकु ने विन्ध्य और दौवल पर्वतों के बीच के क्षेत्र का शासक बना दिया (७. ७९. १२-१६) ।"

इन्द्र—ये वर्षा के देवता हैं (१ ९, १८, १०, २९) । इन्होंने (सहस्राब्द) स्वर्गलोक में काश्यप ना सावजनिक स्वागत किया (१. ११, २८) । दशरथ ने अपने अश्वमेध के समय इन्हे विधिपूर्वक हविष्य अर्पित किया (१, १४, ६) । दशरथ के अश्वमेध के समय ऋष्यशृङ्ग आदि महर्षियों ने इनका आवाहन किया (१ १४, ८) । रावण पराक्रम में इनसे भी बड़ जाना चाहता था (१ १५, ८) । महाराज दशरथ की रातियों के गर्भवती होने के समाचार को सुन कर इन्हे प्रसन्नता हुई (१ १६, ३२) । ब्रह्मा की इच्छा से इन्होंने वालिन् को उत्पन्न किया (१ १७, १०) । यह (वज्रपाणि) अदिति के पुत्र थे (१ १८, १२) । इन्होंने ही वृषामुर का वध किया था (१ २४, १८) । ऋषियों ने इन्हें ब्रह्म-रूपा के पाप से शुद्ध और मुक्त किया (१ २४, १९-२१) । मलद और कश्यप देशों ने इनके शरीर के मल और कश्यप को ग्रहण किया जिसके कारण इन्होंने इन देशों को समृद्धि का वरदान दिया (१ २४, २२-२३) । पूर्वकाल में विरोचन की पुत्री मन्वरा ने जब समस्त पृथिवी का

नाश कर डालने की इच्छा की तब इन्होंने उमका वध कर डाला (१ २५-२०) । जब श्रीराम ने ताटका का वध कर दिया तब इन्होंने राम को बघाई दी (१ २६, २७) । विरोचन कुमार राजा बलि ने इन्हे पराजित कर के इनके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया (१ २९, ५) । विष्णु ने कश्यप से इन्द्र के अनुज के रूप में जन्म लेने के लिए कहा (१ २९, १७) । वामन ने इन्हे पुनः त्रिलोकी का शासक बनाया (१ २९, २१) । एक देव-सेनापति की सोज में अन्य देवताओं के साथ ये भी ब्रह्मा की शरण में गये (१ ३७, १-२) । अन्य देवताओं सहित इन्होंने नवजात शिशु (स्वन्द) को दूध पिलाने के लिए कृत्तिकाओं को नियुक्त किया (१ ३७, २३) । एक राक्षस का वेश बना कर इन्होंने राजा मगर के यज्ञशय्य का अपहरण कर लिया (१ ३९, ७-८) । विश्वामित्र ने विशाला के इतिहास को सर्वप्रथम इन्हीं से सुना था (१ ४५, १४) । इन्होंने दैत्यों का वध करने के पश्चात् त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया (१ ४५, ४५) । जब दिति ने कुशप्लव नामक तपोवन में तपस्या की तब सहस्रलोचन इन्द्र आदि उनकी सेवा करने लगे (१ ४६, ९-११) । "जब सहस्रवर्ष पूर्ण होने में केवल दस वर्ष सोप रह गये तब दिति ने अत्यन्त हर्ष में भर कर सहस्रलोचन इन्द्र से कहा 'अब केवल दस वर्ष के भीतर ही तुम अपने होनेवाले भ्राता को देखोगे । मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी वह अब तुम्हें विजित करने के लिए उत्सुक होगा तब मैं उसे शान्त कर के तुम्हारे प्रति उसे वैर-भाव से रहित और भ्रातृ-स्नेह से युक्त बना दूंगी ।' (१ ४६, १२-१४) ।" मध्याह्न के समय जब दिति एक अनुचित आसन में निद्रा मग्न हो गई तब उन्हें अपवित्र हुई जानकर इन्द्र ने उनके उदर में प्रवेश करके उसमें स्थित गर्भ के अपने वज्र से सात टुकड़े कर दिये (१ ४६, १६-१८) । इस प्रकार आह्न चिये जाने पर गर्भ ने जब क्रन्दन आरम्भ किया (१ ४६, १९) तब इन्द्र ने उसे चुप रहने का आदेश देते हुए उसके टुकड़े कर ही डाले (१ ४६, २०) । उसी समय दिति की निद्रा भंग हो गई और उन्होंने इन्द्र से बाहर आने के लिए कहा, और इन्द्र ने भी माता के वचन की मर्यादा के लिए बाट्टर आकर उनसे क्षमा मांगी (१ ४६ २१-२३) । दिति के विनय करने पर इन्द्र इस बात के लिए सहमत हो गए कि गर्भ के सात टुकड़े सात मरुद्गण के रूप में जन्म लेकर अन्नरिक्ष के सात वात-रक्षकों के अधिपति हों (१ ४७, १-९) । इन्होंने (शचीपति ने) गौतम-पत्नी अहल्या के साथ दलास्तार किया और इस अपराध के कारण गौतम के शायर में इन्हें (देवराज को) अण्डकोश-विहीन होना पड़ा (१ ४८, १७-२८) । इस प्रसंग में इन्हें 'गुरभेष्ट', (१ ४८, २०) 'गुरपति' (१ ४८ २५),

‘दुर्वृत्ति’ (१ ४८, २६), ‘दुर्मति’ (१ ४८, २७) आदि भी कहा गया है। इन्होंने अपने अण्डकोश की प्राप्ति के लिए देवों से प्रार्थना की (१ ४९, २-४)। देवों के अत्यन्त आग्रह पर पितृदेवों ने इन्हें भेड़े के अण्डकोश लगा दिए (१ ४९, ५-८)। इसी समय से गौतम के तपस्या जनित प्रभाव के कारण इन्द्र ‘भेषकृषण’ बने (१ ४९, १०)। इन्होंने त्रिशकु को स्वर्ग में पहुँचा देखकर उसे वहाँ से लौटाते हुए कहा ‘तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः अधोमुख होकर पृथिवी पर गिर जा’, (१ ६०, १६-१८)। इस प्रसंग में इन्हें ‘पाकशामन’ (१ ६०, १६) और ‘महेन्द्र’ (१ ६०, १८) कहा गया है। इन्होंने अम्बरीष के यज्ञ पशु का अपहरण कर लिया (१ ६१, ६)। ‘सदस्य की अनुमति लेकर राजा अम्बरीष ने शुन शोष को कुश के पवित्रपाश से बाँध कर उसे पशु के लक्षण से सम्पन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहिना कर यूप में बाँध दिया। वंधे हुए मुनिपुत्र शुन शोष ने उत्तम वाणी द्वारा इन्द्र और उपेन्द्र इन दोनों देवताओं की यथावत् स्तुति की। उस रहस्यमूर्त स्तुति से सतुष्ट होकर सहस्र नैनधारी इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुन शोष को दीर्घायु प्रदान की। अम्बरीष ने भी देवराज इन्द्र की कृपा से उस यज्ञ का बहु गुणमम्पन्न उत्तम फल प्राप्त किया (१ ६२, २४-२७)।” इन्द्र ने रम्भा से विश्वामित्र को काम और मोह के वशीभूत कर देने के लिए कहा (१ ६४, १)। इन्द्र ने रम्भा को विश्वामित्र को तपस्या से विचलित कर देने की आज्ञा दी (१ ६४, ५-७)। इन्होंने ब्राह्मण के वेश में आकर विश्वामित्र से उनका संयार अन्न ले लिया (१ ६५, ५-६)। ‘शानन्तु’, (१ ६९, ११)। इनकी दिए गए अपने वचन के अनुसार परशुराम ने अपने अस्त्र का परित्याग कर दिया था (१ ७५, ७)। असुरक्षेष्ठ शम्बर के विरुद्ध युद्ध में दशरथ ने इनकी सहायता की थी (२ ९, ११)। जब कंकेशी को बर देने के लिये दशरथ न तपश्पूर्वक प्रतिज्ञा की तब उसने इन्द्र आदि देवताओं का माक्षी बनने के लिये आवाहन किया (२ ११, १३-१५)। ‘वञ्चित्’, (२ २३, ३२)। श्रीराम की पतनयात्रा में उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इन्द्र आदि सभस्त्र लोकपालों का आवाहन किया था (२. २५, ९)। वृत्रामुर का नाश करने के निमित्त इनको मङ्गलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था (२ २५, ३२)। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का सहार करने वाले धनुधारी इन्द्र के लिये माता आदिति ने मङ्गलमय आशीर्वाद दिया था (२ २५, ३४)। दशरथ द्वारा मारे गये अत्रे मुनि-दम्पती के एकलौते पुत्र को ये स्वर्ग लोक ले गये (२. ६४ ४७)। “मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जीतने से थके हुये अपने दोनों पुत्रों को देखकर रोती हुई सुरभि के दो

अश्रुविन्दु नीचे से आते हुये इन्द्र के शरीर पर आ गिरे । तब इन्द्र ने आकाश में स्थित सुरभि पर दृष्टि डाली और हाथ जोड़कर उसके रोने का कारण पूछने लगे (२ ७४, १५-२०) ।" पुत्रशोक से रोती हुई कामधेनु को देखकर इन्होंने यह माना कि पुत्र से बढकर और कोई नहीं है । इन्होंने सुरभि के पवित्र गन्धवाले अश्रुपात को देखकर सुरभि को जगत् में सर्वश्रेष्ठ माना (२ ७४, २५-२६) । भरद्वाज मुनि ने भरत का आतिथ्य-सत्कार करने के लिये इनका आवाहन किया (२ ९१, १३) । इन्द्र की सभा में उपस्थित होने वाली अप्सराओं का भरद्वाज मुनि ने भरत के आतिथ्य सत्कार में सहायता प्रदान करने के लिये आवाहन किया (२ ९, १८) । "श्रीराम ने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुये, अद्भूत वैभव से युक्त, और गन्धर्व, देवता तथा सिद्धों से सेवित देवराज इन्द्र को महर्षि शरभङ्ग के साथ वार्तालाप करते हुये देखा । उस समय इन्द्र की अङ्गशान्ति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित थी, उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे, उनके मस्तक पर श्वेत मेघों के समान उज्ज्वल, चन्द्रमण्डल के समान कान्तिमान तथा विचित्र पुष्प-मालाओं से सुसोभित छत्र था । उनके रथ में दिव्य अश्व विराजमान थे (३ ५, ५-१४) ।" "श्री राम को निवट आने देखकर शचीपति इन्द्र ने शरभङ्ग मुनि से विदा ली और देवताओं से इस प्रकार कहा 'श्रीराम जब रावण पर विजय प्राप्त करके अपना कर्त्तव्य पूर्ण कर लेंगे तब मैं उनका दर्शन करूँगा ।' इस प्रकार कह कर वज्रधारी, शत्रुदमन इन्द्र ने शरभङ्ग का सत्कार किया और उनकी अनुमति से रथ पर बैठकर स्वर्ग लोक चले गये । सहस्र नेत्रधारी इन्द्र के चले जाने पर श्रीरामचन्द्र अपनी पत्नी और भ्राता के साथ शरभङ्ग मुनि के पास गये (३ ५, २१-२५) ।" इन्द्र ने सुनीक्ष्ण मुनि को राम के वनवास का समाचार पहले ही दे दिया था (३ ७, १०) । "एक सत्यवादी और पवित्र तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालने के लिये शचीपति इन्द्र ने उम तपस्वी को धरोहर के रूप में अपना उत्तम खड्ग दे दिया । (३ ९, १७-१८) ।" अगस्त्य-आश्रम में इन्द्र के भी स्थान का उन्नेम्य है जहाँ श्रीराम पधारे थे (३ १२, १८) । 'पावसासन', (३ १९, १७) । नमुचि का वध किया (३. २८, ३) । वृत्र, नमुचि, और यल का वध किया (३ ३०, २८) । इन्होंने श्रीराम को एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण दिया जो दूसरे ब्रह्मदण्ड के समान मरकर था (३ ३०, २४-२५) । सर-द्रूपण आदि चौदह हजार राक्षसों का वध कर देने पर श्रीराम से अगस्त्य आदि महर्षि प्रसन्न हो कर बोले 'हे रघुनन्दन ! इमीलिये महानेत्रस्वी पावसासन पुण्डर इन्द्र शरभङ्ग मुनि के पवित्र आश्रम पर आये थे और इन्हीं

कार्य की सिद्धि के लिये महर्षियो ने विशेष उपाय करके आप को पचवटी के इस प्रदेश में पहुँचाया था। मुनियो के शत्रु रूप इन पापाचारी राक्षसों के वध के लिये ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था।' (३ ३०, ३४-३६)। इनके द्वारा गची के अपहरण का उल्लेख (३ ४०, २२)। इन्द्र आदि समस्त देवता रावण के भय से काँप उठने से (३ ४८, ७)। 'वज्रधर', (३ ४८ २४)। 'ब्रह्माजी की आज्ञा से देवराज इन्द्र निद्रा की साथ लेकर लफापुरी में आये। वहाँ आकर उन्होंने निद्रा को राक्षसों को मोहिन करने की आज्ञा दी। इसके बाद महत्त नेत्रधारी शचीपति देवराज इन्द्र अशोक-वाटिका में बँठी हुई सीता के पास गये और इस प्रकार बोले 'हे देवि ! मैं आपके उद्धारकार्य की सिद्धि के लिए श्यीरधुनायजी की सहायता करूँगा, अब आप शोक न करें। व मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र पार करेंगे। मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है तथा यह हविष्यान्न लेकर निद्रा के साथ मैं आपके पास आया हूँ। यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लेंगी तो आपको हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सनयिगी।' इन्द्र के ऐसा कहने पर सीता ने इनके देवराज इन्द्र होने पर सङ्का प्रकट की जिसका इन्होंने देवोचित लक्षणों को दिखाकर निवारण कर दिया (३ ५६क, ८-१९)। सीता द्वारा हविष्यान्न का भक्षण कर लेने पर ये प्रसन्न होकर अपने निवासस्थान, देवलोक, को चले गये (३ ५६क, २६)। "गितामह ब्रह्माजी के द्वारा वीधंजीवी होने का वर प्राप्त करके कवच ने देवराज पर आज्ञा प्रकृत किया। उस समय इन्द्र ने उस पर सौ धारों दाते वज्र का प्रहार किया जिससे उसकी जाँघें और मस्तक उसके शरीर में घुस गये। तब कवच ने कहा 'देवराज आपने अपने वज्र की मार से मेरी जाँघें, मस्तक, और मुँह तोड़ डाले हैं। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूँगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूँगा ?' उसके ऐसा कहने पर इन्द्र ने उसकी भुजाओं एक एक मोहन लम्बी कर दी तथा तत्काल ही कवच के पेट में सीने दाते वाला एक मुख बना दिया। इन्द्र ने कवच को यह भी बनाया कि जब लक्ष्मण सहित श्रीगम उसकी भुजाओं काट देंगे तो उस समय वह स्वर्गलोक चला जायगा (३ ७१, ८-१६)। इन्होंने नमुचि को युद्ध का अग्रसर दिया था (४ ११, २२)। 'महेन्द्रमिव दुर्धर्षम्', (४ १७, १०)। वालिनू की युद्धकला से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उसको सुपर्ण-माला प्रदान की थी (४ २३, २८)। त्वष्टा के पुत्र वृथागुर का वध करने से ये पाप के भागी हुये और इनके इस पाप को पुष्यिनी, जल, वृक्ष, और स्त्रियो ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था (४ २४, १३-१४)। वानरराज मुषीव के

प्रासाद में इन्द्र के दिये हुये दिव्य फल-फूलों से सम्पन्न मनोरम वृक्ष लगाये गये थे (४ ३३, १६) । सची का अपहरण करने के कारण इन्होंने पुलोम और अनुह्लाद का वध कर दिया (४ ३९, ६-७) । सहस्र नेत्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्व के दिन महेन्द्र पर्वत पर पशार्पण करते थे (४ ४१, २३) । मेघगिरि नामक पर्वत पर देवताओं ने हरिश्चन्द्र के अश्व वाले पात्रशासन इन्द्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था (४ ४२, ३५) । मयासुर का हेमा नामक अप्सरा के साथ सम्पर्क हो जाने के कारण इन्द्र ने वज्र से मयासुर का वध कर दिया (४ ५१, १४-१५) । जब हनुमान् सूर्य को पकड़ने के लिये अन्तरिक्ष में पहुँच गये तब इन्द्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया जिससे उनकी हनु (ठोड़ी) का बायाँ भाग सङ्कट हो गया (४ ६६, २३-२४) । वज्र के प्रहार से भी हनुमान् को पीड़ित हुआ न देखकर सहस्र नेत्रधारी इन्द्र ने उन्हें उनकी इच्छा के अधीन ही मृत्यु होने का वर दिया (४ ६६, २८-२९) । हनुमान् ने समुद्र-लङ्घन के पूर्व इन्द्र को प्रणाम किया (५ १, ८) । इन्होंने मैनाक पर्वत को समुद्र में पातालवासी अमुरमण्डलों के निरालने के मार्ग को रोکنे के लिये परिषद्-रूप से स्थापित किया था (५ १, ९२) । "शतक्रतु इन्द्र ने अपने वज्र से लाखों उठनेवाले पर्वतों के पक्ष काट डाले । जब ये मैनाक के पक्ष बाटने लगे तो वायु ने सहसा उसे समुद्र में गिरा दिया (५ १, १२४-१२६) ।" हनुमान् को विश्राम का अवसर देने के पल्लस्वरूप मैनाक की इन्द्र ने प्रशंसा की (५ १, १३७-१४२) । इन्होंने हिरण्यकशिपु की कीर्ति का अपहरण कर लिया (५ २०, २८) । जब रामदूत श्री हनुमान् सीता के समीप गये तो इन्होंने इन्द्र को प्रणाम किया (५ ३२, १४) । जब हनुमान् ने अश्व का वध कर दिया तो उस पर इन्द्र सहित देवताओं ने वहाँ एकाग्र होकर विस्मय के साथ हनुमान् का दर्शन किया (५ ४७, ३७) । जनक से प्रसन्न होकर धीमान् शक्र ने उन्हें एक जल से प्रकट हुई मणि दी (५ ६५, ५) । इन्द्रजित् ने इंद्र को बन्दी बनाकर लकापुरी में बन्द कर दिया था, परन्तु ब्रह्मा के कहने से उन्हें मुक्त किया (६ ७, २२-२३) । धानरो के पितामह सनादन से विभी रामय इन्द्र का भी मुँह हुआ था, (६ २७, १९) । बुम्भवर्ण ने बँवस्वन यम और इन्द्र को भी पराजित किया था (६, ६१, ९) । 'जन्म लेने ही जब बुम्भवर्ण ने भूय से पीड़ित होकर मर्त्यों प्रजाजनों का भक्षण कर लिया तब पीड़ित प्रजाजनों के अनुरोध पर देवराज इन्द्र ने क्रुद्ध होकर अपने वज्र से बुम्भवर्ण को जाहत कर दिया । वज्र के प्रहार से आहत होकर भुय बुम्भवर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुख में एक दान टंगा कर उमी में देवेन्द्र के शिर पर प्रहार किया जिससे पीड़ित होकर इन्द्र प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा के स्थान पर गये

(६ ६१, १३-१८) ।" वज्रधारी वातशत्रु इन्द्र ने पीरप द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या करने के पश्चात् प्रायश्चित्त किया था (६ ८३, २९) । इन्द्रजित् के साथ युद्ध करते हुए लक्ष्मण की ऋषि, पितर आदि सहित इन्द्र ने भी रक्षा की (६ ९०, ६३) । इन्द्रजित् का वध हो जाने पर सम्पूर्ण महर्षियों सहित इन्द्र की भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई (६ ९०, ८४) । "रावण के साथ युद्ध के समय जब श्रीराम भूमि पर खड़े दृष्टे तब आकाश में स्थित देवता, किन्नर और गन्धर्व यह कहते लगे कि यह युद्ध बराबरी का नहीं है । इन लोगों की बात सुनकर इन्द्र ने मानसि से कहा 'तुम मेरा रथ ले जाकर श्रीराम से कहो कि इन्द्र ने यह अपना रथ भेजा है जिस पर बैठकर आप रावण के साथ युद्ध करें ।' (६ १०२, ५-७) ।' सीता की उपेक्षा करने पर अन्य देवताओं सहित इन्द्र ने भी लका में उपस्थित होकर श्रीराम को समझाने का प्रयास किया (६ ११७ २-९) । इन्होंने श्रीराम को वरदान देने की इच्छा प्रगट की (६ १२०, १-२) । श्रीराम के अनुरोध से इन्द्र ने मृत वानरों को जीवित कर दिया (६ १२०, ११-१६) । कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी इन्द्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर वरदान देने के लिये गये (७ ३, १३) । "मरुत के मग्न के समय रावण को उपस्थित देवदत्त भयभीत देवता तिर्यग्योनि में प्रवेश कर गये । उस समय इन्द्र मोर बन गये थे (७ १८, ४-५) ।" रावण के प्रस्थान के पश्चात् इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता पुन अपने स्वरूप में प्रगट हो गये और उन-उन प्राणियों को वरदान देने लगे जिनका उन्होंने रूप ग्रहण किया था, इन्द्र ने उस समय मोरों को वरदान दिया (७ १८, २०-२३) । "सेना सहित जब रावण ने इन्द्रलोक पर आक्रमण किया तब इन्द्र ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना की । उस समय विष्णु ने भविष्य में रावण-वध की प्रतिज्ञा करके इन्द्र को लौटाया (७ २७, १-१३) ।" जब मेघनाद के भय से देवगण पलायन करने लगे तब इन्द्र ने उन्हें पुन एकत्र करके अपने पुत्र जयन्त को उनका नेता बनाया (७ २८, ४-६) । अपने पुत्र के पराजित हो जाने पर इन्द्र ने रद्री, वसुओ, आदित्यो इत्यादि के साथ अपने रथ पर बैठकर मेघनाद से युद्ध किया (७ २८, २३-२८) । 'रावण जब देवमेता का सहार करने के लिये उनके बीच से निकला तब उनकी इच्छा को जानकर इन्द्र ने देवताओं से उसे बन्दी बना लेने के लिये कहा । तदनन्तर अपनी विशाल सेना की रावण के हाथों नष्ट होते देख इन्द्रने बिना किसी घबड़ाहट के रावण का सामना किया और उसे चारों ओर से घेरकर युद्ध से विमुक्त कर दिया । रावण को इस प्रकार इन्द्र के चंगुल में फसा हुआ देखकर दानवी तथा राक्षसों ने आर्तनाद किया (७ २९,

४-१९) ।" मेघनाद के बाण से मातलि के आहत हो जाने पर जब इन्द्र के ऐरावत पर आरूढ़ होकर युद्ध आरम्भ किया तब मेघनाद ने उन्हें अपनी माया से व्याकुल करके बन्दी बना लिया (७ २९, २६-२९) । जब इन्द्रजित् ने इन्द्र को मुक्त कर दिया तब इन्द्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया और ब दुखी और चिन्तित होकर अपनी पराजय के कारण पर विचार करने लगे (७ ३०, १६-१७) । ब्रह्मा के परामर्श के अनुमार इन्द्र ने वैष्णवयज्ञ करके पुन स्वर्गलोक प्राप्त किया और देवताओं पर सामन करने लगे (७ ३०, ४७-५०) । "हनुमान् ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तब वह क्रोध में भरकर इन्द्र के पास गया । राहु की बात सुनकर इन्द्र व्यग्र हो उठे और अपन ऐरावत पर बैठकर तथा राहु को आगे करके सूर्यदेव के स्थान पर गये (७ ३५, ३१-३८) ।" इन्द्र ने राहु की सहायता करने का वचन दिया (७ ३५, ४३) । हनुमान् को ऐरावत की ओर आता हुआ देखकर इन्द्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया (७ ३५, ४६) । ब्रह्मा के कहने पर इन्द्र ने हनुमान को जीवित करके उन्हें कमल-पुष्पो का एक हार देते हुये कहा कि उम दिन से हनुमान् इन्द्र के वज्र से भी मारे नहीं जा सकेंगे (७ ३६, ७-१२) । स्त्री के रूप में परिणत ऋक्षराट् से इन्होंने वाल्मिन् की उत्पन्न किया (७ ३७ क, ३१-३७) । निमि के साथ साथ इन्होंने भी एक यज्ञ किया जिसमें वसिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया (७ ५५, १०-११) । "जब पूर्वकाल में मान्धाना ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने का उद्योग आरम्भ किया तब देवताओं सहित इन्द्र भयभीत हुये । उम समय मान्धाना के अभिप्राय को जानकर इन्द्र ने उसके पास जाकर कहा 'पहले तुम समस्त पृथिवी को अपने अधिकार में कर लो, उसके बाद देवलोक पर राज्य करना ।' इन्द्र की बात सुनकर मान्धाना ने यह पूछने पर कि उसके आदेश की पृथिवी पर कहीं अवहेलना हो रही है, इन्द्र ने मधुवन में मधुपुत्र रुवणामुर का उन्मेष करते हुये कहा कि वह मान्धाना की अवज्ञा करता है (७ ६७, ५-१३) ।" रुवणामुर के वध पर प्रसन्न होकर इन्द्र ने शत्रुघ्न के सम्भ्रत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उगदने पश्चान् अन्तर्धान हो गये (७ ६९, ३६, ७०, १-३ ६-७) । शत्रुघ्न की मृत्यु पर इन्द्र ने श्रीराम को बधाई दी (७ ७६, ५-६) । जब रुवणामुर ने घोर तपस्या आरम्भ की तब इन्होंने उसके विरुद्ध निकायन करते हुये विष्णु से उसके विनाश का आग्रह किया (७ ८४, ९-१८) । "देवताओं के आग्रह पर विष्णु ने अपने तेज को तीन भाग में विभक्त करके एक को इन्द्र में, दूसरे को इन्द्र के यज्ञ में, और तीसरे को मूलोत्त में प्रवेश करा दिया । इस प्रकार सर्पटित होकर

इन्द्र ने वृत्रासुर के मस्तक पर अपने वज्र से प्रहार करके उसका वध कर दिया । वृत्रवध से प्रकट हुई ब्रह्महत्या द्वारा ग्रथित होकर इन्द्र अन्धकारमय पाताल प्रदेश में चले गये । इन्द्र के इस प्रकार अदृश्य हो जाने पर जब देवताओं ने विष्णु की स्तुति की तब उन्होंने इन्द्र के उद्धार का उपाय बताया (७ ८५, १०-१७ २०-२२) । "इन्द्र के अदृश्य हो जाने से समस्त सत्कार ध्वाङ्गुल हो उठा, धरती की आर्द्रता नष्ट हो गई और समस्त वन्य-प्रवेश, नदियाँ, तथा सरोवर सूख गये (७ ८६, २-५) ।" विष्णु के आदेश के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके इन्द्र पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित हुये जिसने सम्पूर्ण जगत् में शान्ति ज्वालित हो गई (७ ८६, ९-१९) । उन्होंने लक्ष्मण पर पुण्यवर्षों की (७ १०६, १६) । लक्ष्मण को ये ससरीर अपने साथ स्वर्गलोक ले गये (७ १०६ १७) । विष्णुरूप में म्रियत हुये श्रीराम का देवताओं सहित इन्होंने भी पूजन किया (७ ११०, १३) ।

इन्द्रजातु, एक वानर प्रधान का नाम है जो सुग्रीव के आवाहन पर म्यारह बरोड वानरो को लेकर उनके पास आया था (४ ३९, ३१-३२) । श्रीराम ने इसका आदर-सत्कार किया (७ ३९, २२) ।

इन्द्रशत्रु, एक राक्षसपति का नाम है जो अस्त्र-सस्त्रों से युक्त होकर राम के वध के लिये रावण के दरबार में सन्नद्ध खड़ा था (६, ९, २) ।

इन्द्रशिरा, एक देस का नाम है जो अपने ऐरावतवंशी गजराजों के लिये प्रसिद्ध था (२ ७०, २३) ।

इल, पूर्वकाल के प्रजापति ऋषभ के पुत्र, बाल्मिकि देस के एक धर्मात्मा राजा का नाम है जो देवता, दैत्य, नाग, राक्षस, गन्धर्व और महामनस्वी दक्ष द्वारा पूजित थे (७ ८७, ३-६) । अत्यन्त प्रभावशाली होने पर भी राजा इल धर्म और पराक्रम में दृष्टानुपूर्वक स्थिर रहते थे, तथा इनकी बुद्धि भी स्थिर थी (७ ८७, ७) । एक बार ये निकार करते हुये उस स्थान पर पहुँचे जहाँ महाभय का जन्म हुआ था (७ ८७, ८-१०) । "उस स्थान पर पहुँच कर इल ने देखा कि उस वन का समस्त प्राणि-मनुष्य स्त्रीरूप ही है, और उसी समय उन्होंने सेवकी सहित अपने को भी स्त्री-रूप में परिणत हुआ देखा । शिव की इच्छा से यह परिवर्तन हुआ जानकर इल भयभीत हो उठे और अपने सेवकी सहित वे शिव की शरण में गये (७ ८७, १४-१८) ।" जब शिव ने इन्हें इनका पूर्व-रूप प्रदान करना अस्वीकार कर दिया, तब ये उमा की शरण में गये (७ ८७, १९-२३) । "जब उमा ने इनसे बताया कि वे केवल आधा बरदान ही दे सकती हैं, तब इन्होंने उनसे यह वर माँगा 'मैं एक मास तक स्त्री और एक मास तक पुरुष रहा करूँ ।' उमा से यह वर प्राप्त करके ये

एक मास तक पुरुष और एक मास तक रूपवती स्त्री रहकर जीवन व्यतीत करने लगे (७ ८७, २४-२९) । 'तदनन्तर उस प्रथम मास में इल विभुवनमुन्दरी नारी होकर वन में विचरण करने लगी । इस प्रकार विचरण करती हुई इला ने एक सरोवर में तपस्या कर रहे बुध को देखा (७ ८८, ४-११) ।' "इला के सौन्दर्य पर मोहित होकर बुध जल से बाहर बाये और इला तथा उनकी सतियो से उनका समाधार जानकर उन्हें किंपुरुषी नाम से प्रसिद्ध होकर उसी पर्वत पर निवास करने की आज्ञा प्रदान की (७ ८८, १३-२४) ।" "बुध द्वारा समागम के प्रस्ताव को स्वीकृत करके यह उनके साथ रहने लगी । किन्तु एक मास तक स्त्री रूप में बुध के साथ रहने के पश्चात् एक दिन प्रातः काल इसने अपना पूर्व रूप ग्रहण कर लिया और बुध से अपनी सेना तथा अनुचरो आदि के सम्बन्ध में प्रश्न किया (७ ८९, ५-११) ।" "बुध ने इससे उस स्थान पर कुछ समय तक रहने का आग्रह किया परन्तु इसने पहले उसे अस्वीकार कर दिया । फिर भी, बहुत अधिक आग्रह पर एक वर्ष तक उनके पास रहना स्वीकार कर लिया । वर्ष के अन्त में उसने पुरुरवा नामक एक पुत्र को जन्म देकर उसे बुध को सौंप दिया । वर्ष पूरा होने में जितने मास सौंप थे उतने समय जब जब राजा पुरुष होते थे तब-तब बुध धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे (७ ८९, १२-२५) ।" "अन्त में इन्होंने अश्वमेध के अनुष्ठान द्वारा जिव में पुनः पुरुषत्व प्राप्त कर लिया । तदनन्तर इन्होंने वाल्मिक देश को छोड़कर मध्यदेश में प्रनिष्ठानपुर नामक नगर बसाया और वहाँ के शासक बने (७ ९०, १८-२२) ।"

इत्थल, वण्डकारण्य के एक अमुर का नाम है जो अपन भ्राता, वातापि, की सहायता से महर्षी निर्दोष ब्राह्मणों का वध करता रहता था । अगस्त्य मुनि ने इसे भस्म कर दिया (३, ११, ५५-६६) ।

उ

उच्चैःश्रवा, उस उत्कृष्टतम अश्व का नाम है जो समुद्र मन्थन के समय मागर से निकला था (१ ४५, ३९) । यह सूर्य का वाहक है (७ २३८, ५) ।

उज्जिहाना, एव नगर का नाम है जहाँ प्रियक नामक वृशो की प्रचुरता थी । अयोध्या आते समय भरत ने यहीं अपने अश्वों को बदला था (२ ७१, १२-१३) ।

उत्कल, दक्षिण के एक प्रदेश का नाम है जहाँ मुषीक ने सीता की खोज करने के लिये अङ्गद को भेजा था (४, ४१, ९) ।

उदयाचल, पूव के पर्वतों का नाम है जहाँ के वानरो को आमन्त्रित

करने के लिये सुग्रीव ने हनुमान् से कहा था (४ ३७, ४)। हिममयः श्रीमानुदयपर्वत', (४ ४०, ५२)। "इस पर्वत का गगनचुम्बी शिखर सौ योजन लम्बा था, जिस पर रिषत साल, ताल, तमाल, पुष्पो से परिपूर्ण कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय थे (४ ४०, ५३-५५)।" वालिन् के भय से भागते हुये सुग्रीव इस पर्वत पर भी जाये थे (४ ४६, १५)।

उदावसु, जनक के पुत्र और नन्दिवरुण के पिता का नाम है (१ ७१, ५)।

उनमत्त, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जो मात्यवान् तथा सुन्दरी का पुत्र था (७ ५, ३५-३७)।

उपेन्द्र (= विष्णु) 'उपेन्द्रमिव दुःसहम्', (४ १७, १०)।

उमा, हिमवान् और मेना की द्वितीय पुत्री का नाम है इसके रूप की मूल पर कोई समता नहीं कर सकता था (१ ३५, १४-१६)। "यह उत्तम एव कठोर वन का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। गिरिराज ने उग्र तपस्या में सलग्न हुई अपनी इन विश्ववन्दिता पुत्री उमा का, अनुपम प्रभाव-शाली रुद्र से, विवाह कर दिया (१ ३५, २०-२१)।" उमादेवी को महादेव के साथ शीघ्रा विहार करते सौ दिव्यवर्ष बीत गये किन्तु उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ (१ ३६, ६-७)। ब्रह्मा आदि देवताओं के, शीघ्रा से निवृत्त हो उमा देवी के साथ तप करने की प्रार्थना पर (१ ३६, ८-११), शिव ने बताया कि वे दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे (१ ३६ १२-१३)। "महादेव के यह पृष्ठने पर कि यदि उनका यह सर्वोत्तम तेज (वीर्य) क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्तलित हो गया तो उसे कौन धारण करेगा ? देवताओं ने शिव से कहा : 'भगवन् ! आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा, उसे यह पृथिवी देवी धारण करेगी।' देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनो सहित यह ममस्त पृथिवी ज्वाल हो गई (१ ३६, १४-१६)।" देवताओं ने इनका पूजन किया (१ ३६, १९)। उन्होंने देवताओं तथा पृथिवी को शाप दे दिया क्योंकि उन्होंने उमा को पुत्र-प्राप्त करने से रोक दिया था (१ ३६, २०-२४)। रावण ने इनके शाप का स्मरण किया (६ ६०, ११)। रोने हुये राक्षस-कुमार, सुकेस की दशमीय दशा पर दृष्टिपात करके इनके हृदय में करुणा का स्रोत उमड पडा (७ ४, २८) और इन्होंने यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियाँ जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के ही समान अवस्था का हो जायगा (७ ४, ३०-३१)। जब रावण ने कैलास पर्वत के

निचले भाग में अपनी भुजायें लगाई और उसे क्षीघ्र उठा लेने का प्रयत्न किया तब पर्वत के हिलने से उमा विचलित हो उठी और भगवान शंकर से लिपट गई (७ १६, २६) । कार्तिकेय के जन्म-स्थान पर शिव अपने समस्त सेतुको वे नाम रहकर उमा का मनोरञ्जन करने थे (७ ८७, ११) । "स्त्री रूप दृष्टे राजा इत् ने इनसे पुष्टत्व-प्राप्ति की प्रार्थना की (७ ८७, २०-२३), जिस पर इन्होंने कहा 'राजन् ! तुम पुष्टत्व-प्राप्ति के लिये जो वर चाहते हो, उसके आधे भाग के दाना तो महादेव हैं और आधा वर मैं तुम्हें दे सकती हूँ । इमत्रिये तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करके जितने-जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहो, उसे मेरे सामने कहो ।' (७ ८७, २४-२५) ।" इन्होंने राजा इल की एक मास तक स्त्री और एक मास तक पुरुष रहने की इच्छा को स्वीकार कर लिया (७ ८७, २६-२७) । उमा ने इल से कहा 'राजन् ! जब तुम पुरुष रूप में रहोगे, उस समय तुम्हें अपने स्त्री-जीवन का और स्त्री रूप में पुरुष जीवन का स्मरण नहीं होगा ।' (७ ८७, २७-२९) ।

उर्मिला, जनक के अनुज कुशध्वज की पुत्री का नाम है । जनक ने लक्ष्मण के साथ इनके पाणिग्रहण की प्रतिज्ञा की (१ ७१, २१-२२) । यशस्विनी उर्मिला को पति माताओं (सामो) ने सवारी से उतारा और घर में ले गई (१ ७७, १०-१२) । इन्होंने देवमन्दिरों में देवताओं का पूजन तथा सास ममुर आदि के चरणों में प्रणाम किया (१ ७७, १३) । ये पति के साथ एकान्त में रहकर आनन्द से समय व्यतीत करने लगी (१ ७७, १४) ।

उर्वशी—रावण ने कहा कि पुरूरवा को ठुकराकर उर्वशी को अत्यन्त पश्चानाप हुआ था (३ ४८, १८) । अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों के साथ जलत्रोटा के लिये गमुद के पास गई (७ ५६, १३) । उस समय वरुण के मन में उर्वशी के लिये अत्यन्त उल्लास प्रगट हुआ और उसने उस सुन्दरी अप्सरा को समागम के लिये आमन्त्रित किया (७ ५६, १४-१५) । उर्वशी ने वरुण को बताया कि मित्र देवता ने पहले से ही उसका वरण कर लिया है (७ ५६, १६) । देव निर्मित कुम्भ में अपने धीर्य का परित्याग कर देने के वरुण के प्रस्ताव को उर्वशी ने सहर्ष स्वीकार किया तथा साथ ही मित्र द्वारा उसके शरीर पर दृष्टे अधिकार पर रोद प्रबट किया (७ ५६, १९-२०) । "उर्वशी की स्वीकृति पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रदानाशान अपने तेज (धीर्य) को उग कुम्भ में डाल दिया । तदनन्तर उर्वशी मित्र देवता के पास गई । कुपित दृष्टे मित्र के साथ के कारण वह सुष के पुत्र राजपि पुरूरवा की पत्नी हो गई (७ ५६, २१-२६) ।" मनोहर दंत और मुन्दर नेत्रवाली

उर्वशी मित्र के दिये हुये शार का धम होने पर इन्द्रमभा में चली गई (७ ५६, २९) ।

उल्का-मुच, एक वानर प्रमुख का नाम है जो हताशन का पुत्र था । सुग्रीव ने इसे सीता की खोज में दक्षिण-दिशा में जाने की अनुमति दी (४ ४१, ४) ।

उशीरवीज, एक पर्वत का नाम है जहाँ प्रमायि नामक वानर सूयपति रहता था (६ २७, २७) । राजा भरत ने इसी स्थान पर अपने यज्ञ का अनुष्ठान किया (७ १८, २) ।

ऋ

ऋक्ष, एक गुफा का नाम है । शिन्ध्यशेत्र में सीता की खोज करते हुये वानर-प्रधानों, हनुमान् तथा अङ्गद आदि ने इसे देखा था (४. ५०, ७) । यह गुफा ऋक्षधिल के नाम से विख्यात तथा एक वानर द्वारा रक्षित थी (४. ५०, ८) । इसके सुगन्धित तथा दुर्लभ होने का उल्लेख (४ ५०, १०) । यह नाना प्रकार के जन्तुओं से भरी हुई तथा देवराजों के निवास-स्थान, पाताल के नमान, नयक प्रतीत होती थी (४ ५०, १२) । 'दुर्दंशमिव घोर च दुर्विगाह्य च सर्वत्र', (४ ५०, १३) । यह अन्धकार से परिपूर्ण थी, इसमें चन्द्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी (४ ५०, १७-१८) । 'नानापादप-सन्तुल', (४ ५०, २१) । इसमें मय के दिव्य-भवनो, सुन्दर उद्यानो और सरोवर इत्यादि का वर्णन किया गया है (४ ५०, २५-३७) ।

ऋक्षराज (ऋक्षराट्), वालिन् और सुग्रीव के पिता का नाम है । ये सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे । चिरकाल तक शासन करने के पश्चात् इनकी मृत्यु हो गई (७ ३६, ३६-३७) । "ब्रह्मा के अश्रु-दिन्दु से इनकी उत्पत्ति हुई, जिसके पश्चात् ये कुछ समय तक कन्द-मूल और फल खाकर मेरु पर्वत पर निवास करते रहे । ज्यों ही ये अपनी छाया से युद्ध करने के लिये एक सरोवर के जल में कूदे त्यों ही एक सुन्दर स्त्री के रूप में परिणत हो गये (७ ३७क, ८-३०) । इन्द्र से वालिन् तथा सूर्य से सुग्रीव को उत्पन्न करने के पश्चात् ये पुन पुरुष-रूप में परिणत हो गये । इन सिंगुओं के साथ ब्रह्मा के सम्मुख उपस्थित हुये (७ ३७क, ३१-४५) । ब्रह्मा ने इन्हें किटिन्धा में निवास करनेपाले वानरों का शासक नियुक्त किया (७ ३७ग, ४५-५७) ।

ऋक्षवान्, एक पर्वत का नाम है जिस पर सहस्रो वानर-सूयपति निवास करते थे (१ १७, ३१) । नर्मदा नदी के निकट स्थित एक पर्वत का नाम है जहाँ ऋक्षराज धूम निवास करता था (६ २७, ९) ।

१. ऋचीक, एक मुनि का नाम है जिनका विश्वामित्र की ज्येष्ठ बहिन के साथ पाणिग्रहण हुआ था (१ ३४, ७)। इनका भृगुमुनि पर्वत पर अपनी पत्नी तथा तीन पुत्रों के साथ निवास (१ ६१, ११)। राजपि अम्बरीष ने इनके पुत्र को यज्ञ-पशु बनाने की प्रार्थना की, ऋचीक ने इन कार्य के लिये अपने ज्येष्ठ पुत्र को वेचना बस्वीकार कर दिया (१ ६१, १२-१६)।

२. ऋचीक—भृगुवशी ऋचीक मुनि को विष्णु ने वैष्णव धनुष प्रदान किया, जिसे इन्होंने अपने पुत्र जमदग्नि को समर्पित कर दिया (१ ७५, २२-२३)।

२. ऋषभ, एक महान् श्वेतवर्ण पर्वत का नाम है जो क्षीरसागर के मध्य में स्थित था। मुनीव ने बिनत से सीता की खोज में यहाँ जाने के लिये कहा (४ ४०, ४२)। 'दिव्यगन्धं कुसमितैराचितंश्च नगैर्वृतं', (४, ४०, ४२)।

२. ऋषभ, दक्षिण समुद्र में स्थित एक पर्वतश्रेणी का नाम है, जो सम्पूर्ण रत्नों से भरा हुआ है तथा जहाँ गोशीपंक, पद्मक, हरिश्चाम आदि नामों वाला दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है। रोहित नामवाले गन्धर्व इसी रक्षा तथा यहाँ सूर्य के समान कान्तिमान् पुष्पकर्मा पौत्र गन्धर्वराज निवास करते हैं (४ ४१, ४०-४३)।

३. ऋषभ, एक राजा का नाम है जिनके समय में यथोष्यापुरी श्रीराम के परमधाम पधारने के पश्चात् पुन आबाद होगी (७ १११, १०)।

४. ऋषभ, एक वानर प्रमुख का नाम है जिसने समुद्र-लंघने के अङ्गद के प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि वह चालीस योजन तक एक छलाग में चला जायगा (४ ६५, ५)। श्रीराम ने वानर शिरोमणि ऋषभ की वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुये चलने की आज्ञा दी (६ ४, १६)। युद्ध के लिये प्रस्थान करती हुई वानर-सेना के लिये मार्ग ठीक करनेवालों में एक यह भी थे (६ ४, ३०)। इनको वानर-कवियों से घिरे रहकर वानर-बाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहने की आज्ञा दी गई (६ २४, १५)। इन्होंने अङ्गद के सरक्षण में दक्षिण-द्वार पर युद्ध किया (६ ४१, ३९ ४०)। राम की आज्ञानुसार ये अन्य वानर यूथपतियों के साथ इन्द्रजित् का अनुगन्धान करने के लिये गये किन्तु राक्ष दिये गये (६ ४५, १-५)। वानरसेना का सावधानी के साथ सरक्षण करने हैं (६ ४७, ३-४)। इन्होंने पर्वत शिखरों को उखाड़ कर रावण पर आक्रमण किया किन्तु रावण ने इनके प्रहारों को व्यर्थ कर दिया (६ ५९, ४२-४३)। 'इन्होंने कुम्भकर्ण पर आक्रमण किया। कुम्भकर्ण ने इन्हें अपनी दोनों भुजाओं में दबा दिया जिससे इनके मुँह से रक्त निकलने लगा और वे पृथिवी पर गिर पड़े (६ ६७, २४-२७)।' मत्त के

साथ युद्ध करने हुये इन्होंने उसका वध कर दिया (६ ७०, ४९-६०) । इन्द्रजिन् द्वारा घायल हुये (६ ७३, ४८) । राम के राज्याभिषेक के अवसर पर ये दक्षिण-समुद्र से शीघ्र ही एक सोने का घट भर लाये (६ १२८, ५४) ।

ऋषभ-स्कन्ध, एक वानर-यूथपति का नाम है जो अन्य वानर यूथपतियों के साथ राम की आज्ञा द्वारा इन्द्रजिन् की सौज करने के लिये गया (६ ४५, १-३), किन्तु इसे रोक दिया गया (६ ४५, ४-५) ।

ऋषि-पुत्र (वृह०), उन वानर-यूथपतियों के लिये प्रयुक्त हुआ है जिन्हे सीता की सौज करने के लिये मुग्रीव ने पश्चिम दिशा में भेजने का प्रस्ताव किया था (४ ४२, ५) ।

ऋषिक, दक्षिण दिशा के एक देश का नाम है जहाँ मुग्रीव ने सीता की सौज के लिये अङ्गद को भेजा था (४ ४१, १०) ।

ऋष्यमूक, एक पर्वत का नाम है जहाँ श्रीराम के पधारने की वात्मीकि ने पूर्वकल्पना कर ली थी (१ ३, २३) । चार अन्य वानरों के साथ मुग्रीव ने यही निर्वाचन जीवन व्यतीत किया था (३ ७२, १२) । कबन्ध ने श्रीराम की सौज ही इस पर्वत पर जाने का परामर्श दिया (३ ७२, २१) । "यह पम्पासरोवर के पूर्वभाग में स्थित था । यहाँ के वृद्ध पुष्पो से तुशोभित थे और इसकी पूर्वचाल में साक्षान् द्रुहा ने मृष्टि की थी । इस पर्वत के शिखर पर सोमा हुआ पुष्प स्वप्न में जिम मग्गति को देवता है उसे जागने पर प्राप्त कर लेता है । जो पापकर्मों तथा विषम-व्यवहारी गुरूप इस पर्वत पर चढ़ना है उसे इस पर सो जाने पर राक्षस उठाकर ऊपर से प्रहार करते हैं । इस पर्वत पर हाथी तथा रुष्-मृग निवास करते हैं । (३ ७३, ३१-३९) । यह पम्पा सरोवर के तट पर स्थित है (३, ७५, २५-२६) । यह पम्पा के दक्षिण-भाग में स्थित है (४ १, ७३) । 'घातुनि विभूषेन', (४ १, ७४) । "गिरिवर', (४ १०, २८) । वालिन् यहाँ मन्त्र के श्राप के भय से नहीं जा सकते थे (४ ११, ६४) । 'शीलमुग्य', (४ २४, ७) । मुग्रीव ने वालिन् के क्रोध से बचने के लिये इसी पर्वत पर शरण ली थी (४ ४६, २३) । राम का विमान इसके ऊपर से होकर गया (६ १२३, ३८-४०) ।

ऋष्यशृङ्ग, विभाण्डक के पुत्र और कश्यप के पौत्र का नाम है (१ ९, ३) । इनने पिता ने वन में ही इनका छात्र-पालन किया था (१ ९, ४) । सबा पिता के साथ ही वन में रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृङ्ग अन्य किराँतों से परिचित नहीं होंगे (१ ९, ४) । ये सदैव दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे (१ ९, ५) । "वन में रहते हुये इनका समय अग्नि तथा यज्ञस्वी पिता

की सेवा में ही व्यतीत होगा (१ ९, ६) । ये वेदों के पारंगामी विद्वान हैं (१ ९, १३) । “अङ्गराज इन्हें वेश्याओं की सहायता से अपने राज्य में बुलायेंगे और इनके आते ही इन्द्र अङ्ग देश में वर्षा आरम्भ कर देंगे । अङ्गराज अपनी पुत्री शान्ता को इन्हें समर्पित कर देंगे । ये दशरथ को पुत्र प्राप्त करानेवाले यज्ञ-कर्म का सम्पादन करेंगे (१ ९, १८-१९) । “ऋष्यशृङ्ग मदैव वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में रत रहते थे । ये स्थियों को पहचानने तक नहीं और विषयो के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ थे (१ १०, ३) ।” “वेश्याओं द्वारा मोहित होकर ये अङ्गदेश में आये, जिससे वहाँ की जनवृष्टि समाप्त हुई । अङ्गराज की पुत्री शान्ता से विवाह करने के पश्चात् ये अङ्गदेश में ही सुख-वैभव में रहने लग (१ १०, ७-३३) ।” मुमुन्त ने सनत्कुमार की भविष्यवाणी को दुहराया (१ ११, १-१२) । ‘द्विजश्रेष्ठम्’, (१ ११, १५) । ‘दीप्यमानमिवानलम्’, (१ ११, १६) । “राजा रोमपाद ने इनका दशरथ से परिचय कराते हुये इन्हें अयोध्या जान की स्वीकृति प्रदान की । ये अपनी पत्नी, शान्ता, के साथ अयोध्या आये और वहाँ दशरथ के अतिथि के रूप में रहे (१ ११, १७-३१) ।” महाराज दशरथ द्वारा निवेदन करने पर इन्होंने उनके लिये अश्वमेध यज्ञ करना स्वीकार कर लिया (१ १२, २-४) । इन्होंने दशरथ से यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करने के लिये कहा (१ १३ ३९) । वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ द्विजा ने यज्ञमण्डप में ऋष्यशृङ्ग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञकर्म का आरम्भ किया (१ १३, ४०, १४, २) । ऋष्यशृङ्ग आदि महर्षियों ने इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया (१ १४, ८) । इन्होंने वसिष्ठ के साथ अन्य ऋत्विजों को दक्षिणा वांटी (१ १४, ५२) । इन्होंने दशरथ को चार पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया (१ १४, ५९) । “ऋष्यशृङ्ग अत्यन्त मेघावी और वेदज्ञ थे । इन्होंने राजा दशरथ से कहा ‘नि आपकी पुत्रप्राप्ति कराने के हेतु अथर्व-वेद के मन्त्रों से पुत्रप्राप्ति-यज्ञ करूँगा । वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यह यज्ञ अवश्य सफल होता है ।’ इस प्रकार कहकर इन तेजस्वी मुनि ने पुत्रप्राप्ति-यज्ञ आरम्भ किया । (१. १५, १-३) ।” राजा दशरथ द्वारा अत्यन्त सम्मानित होकर ऋष्यशृङ्ग मुनि ने अपनी पत्नी सहित उनसे विदा ली (१ १८, ६) ।

ए

एकजटा, सीता के रक्षक के रूप में निपुण एक राक्षसी का नाम है, जिसने रावण को अस्वीकृत कर देने पर सीता के प्रति क्रोध प्रकट किया था (५ २३, ५-९) ।

एकसाल, उस ग्राम का नाम है जिसके निकट केकय से लौटते समय भरत ने स्याणुमती नदी को पार किया था (२ ७१, १६) ।

ऐ

ऐरावत, इरावती के पुत्र, महान गजराज का नाम है (३ १४, २४) । 'देवराजमपि क्रुद्धो मर्त्तरावतगामिनम्', (३ २३, २४) । 'देवामुरविमर्देषु बन्धाशनिक्लवणम् । ऐरावतविपाणायैरुत्कृष्टकिणवक्षसम् ॥' (३ ३२, ७) । 'सिधितान्गत्रिधिशायामैरावतसमान्मुधि', (५ ६, ३२) । युद्धकाल में रावण की भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दाँतों के अग्रभाग से जो प्रहार किये गये थे उनके आघात के चिह्न रावण की भुजा पर वर्तमान थे (५. १०, १६) । जब हनुमान् समुद्र को पार करने लगे तो ऐरावत हाथी वहाँ महान् द्वीप के समान प्रतीत होना था (५ ५७, ३) । 'तत कैलासकूटाम चतुर्दन्त मदत्नवम् । शृङ्गारधारिण प्राणु स्वर्णपश्याट्टहामितम् ॥ इन्द्र करीन्द्रमारुह्य राहु कृत्वा पुर नरम् । प्रायाद्यत्राभवत् सूर्य सहानेन हतमता ॥', (७ ३५, ३७-३८) ।

ऐलघान, एक स्थान का नाम है जहाँ केकय देस से लौटते समय भरत ने एक नदी को पार किया था (२ ७१, ३) ।

ओ

ओङ्कार—युध ने इन्द्रा को पुरुषत्व प्राप्त कराने के लिये जब विभिन्न महर्षियों से परामर्श आरम्भ किया तो पुलस्त्य आदि के साथ महातेजस्वी ओङ्कार भी उनके आश्रम पर आये (७ ९०, ९) । श्रीराम के परमधाम जाते समय ओङ्कार भी भक्तिपूर्वक उनका अनुसरण कर रहे थे (७ १०९, ८) ।

ओपधि पर्वत—“जाम्बवान् ने हनुमान् को बताया कि ऋषभ और कैलास पर्वतों के शिखरों के बीच ओपधियों का पर्वत स्थित है । इसी ओपधियों के पर्वत से जाम्बवान् ने हनुमान् से ऐसी ओपधियों को लाने के लिये कहा जिनसे बानरो को प्राणदान मिल सनता था (६ ७४, २९-३४) ।” जब रावण ने लक्ष्मण को अपनी शक्ति से युद्ध में बराबारी कर दिया तो सुपेण ने हनुमान् से एक बार पुन इसी पर्वत से ओपधियाँ लाने के लिये कहा (६ १०१, २९-३२) ।

क

ककुत्स्थ, भगीरथ के पुत्र तथा रघु के पिता का नाम है (१. ७०, ३९) ।

१. कण्डु, उस ऋषि का नाम है जो अग्ने वित्ता की आज्ञा से गायो का वध करता था (२ २१, ३१) ।

२. कण्डु—“दक्षिण दिशा में सीता की खोज में गये हुए वानर एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ महाभाग, सत्यवादी, और तपस्या के धनी महर्षि कण्डु निवास करते थे । ये महर्षि अत्यन्त अमर्षशील थे । शीघ्र-मनोप आदि नियमों का पालन करने के कारण इन्हें कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था । उसी वन में इनके एक दस-वर्षीय पुत्र की किसी कारणवत्ता मृत्यु हो गई जिससे कुपित होकर इन्होंने उम वन को शाप दिया जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम, तथा पशु-पक्षियों से रहित हो गया । (४ ४८, ११-१४) ।”

कण्ड, पूर्वदिशा के एक महर्षि का नाम है जो राम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये पधारे थे (७ १, २) ।

कद्रु, कश्यप तथा भ्रोगवशा की पुत्री का नाम है (३ १४, २२) । यह नागों की माता हुई (३ १४, २८) । यह मुरसा की वहन थी (३ १४, ३१) । उसने एक सहस्र नागों को जन्म दिया जो पृथिवी को धारण करने हैं (३ १४, ३२) ।

कनखल, उम स्थान का नाम है जहाँ एक निर्धन ब्राह्मण ने अपनी खोई गायों को पा लिया था (७ ५३, ११) ।

कन्दर्प—जब एक दिन समाधि से उठकर देवेदार महादेव महद्गणों के साथ बड़ी जा रहे थे तब कन्दर्प (काम) ने उनपर आक्रमण कर दिया (१ २३, १०-११) । “उम समग्र भगवान् एव (महादेव) ने क्रोध में आकर उमे भस्म कर दिया । इस प्रकार शिव द्वारा अगहीन हो जाने के कारण काम उसी समय से ‘अनङ्ग’ के नाम से विख्यात हुआ (१ २३, १२-१४) ।” मेतका नामक अप्सरा को देखकर विश्वामित्र कन्दर्प के वन में ही गये ‘कन्दर्पदं-वगणोमुनिन्नामिदमब्रवीत् । अप्सरं म्नागतं तेऽस्तु वगं चेह ममाश्रमे ॥’, (१ ६३, ६) । रम्भा से इन्द्र ने कहा कि बैशाख मास में, जब कि प्रत्येक वृष नवपल्लवों से क्षोभित होने है, तब कोकिल और कन्दर्प के साथ वे भी उगरे पाम रहेंगे (१ ६४, ६) । मुनि के महानग से रम्भा जब पापाण-प्रतिमा बन गई तब कन्दर्प और इन्द्र वहाँ से विगक गये (१ ६४, १५) । निव द्वारा इनके (मन्मथ के) भस्म कर दिये जाने का उल्लेख (३ ५६, १०) ।

कपट, एक गशम-प्रमुख का नाम है जिसने भजन में हनुमान् पधारे थे (५ ६, २४) ।

कपिल, विष्णु के एक अवतार हैं जो निरन्तर इस पृथिवी को धारण करते हैं। ब्रह्मा ने इनकी कोपान्नि स सगर-पुत्रों के भावी विनाश की सूचना दी (१ ४०, ३)। सगर-पुत्रों ने इनके मंत्र में विष्णु टापा जिसपर घुड़ होकर इन्होंने उन सब राजकुमारों को भस्म कर दिया (१ ४०, २४-३०)। गरुड ने इनके द्वारा सगर पुत्रों के पिनाश का उल्लेख किया (१ ४१, १८)। पश्चिमी समुद्र में रावण ने जब इन पर आक्रमण किया तो इन्होंने उसे सरलनापूर्वक पराभूत कर दिया और तदनन्तर पाताल में प्रवेश कर गये (७ २३ (घ), ३-३२)।

कपीवती, एक नदी का नाम है जिसे केकय देश से लौटते समय भरत ने पार किया था (२ ७१ १५)।

कवच, शरीर से निकृत तथा भयकर दिखाई पड़नेवाले एक राक्षस का नाम है जिसे मत्स्य ऋषि के आश्रम के निकट श्रीराम ने मार कर उसका पाह-सस्कार भी किया था। स्वर्ग जाते समय इसने राम से धर्मचारिणी सबरी से आश्रम पर जाने के लिये कहा (१ १, ५५-५६)। बाल्मीकि ने इस समस्त घटना का पूर्व-दर्शन कर लिया था (१ ३, २१)। "नटायु को जलाज्जलि देने के परधान् सीता की खोज में श्रीराम और लक्ष्मण, मत्स्य मुनि के आश्रम के निकट पहुँचे। भयकर वन में जब दोनों भ्रान्त सीता की खोज कर रहे थे तो उन्हें एक भयकर शब्द सुनाई पड़ा। हाथ में खड्ग लेकर अपने भ्रान्त सहित जब राम उस शब्द का पता लगाने के लिये प्रस्तुत होनेवाले ही थे कि उन्हें एक चौड़ी छातीवाला विशालनाय राक्षस दिखाई दिया। वह देखने में अत्यन्त विशाल था किन्तु उसके न मस्तक था और न शरीर। कवच ही उगता स्वर्ण था और उसके पट में ही मुँह बना हुआ था। उसके समस्त शरीर में पैर और सीसे रोंपे थे, वह महान् पर्वत के समान ऊँचा था, उसकी आकृति भयङ्कर थी, वह नील मेघ के समान काला और मेघ के ही समान गम्भीर स्वर में गजन करता था। उसकी छाती में ललाट था और ललाट में एक ही बहुत बड़ा तथा अग्नि की ज्वाला के समान रहस्यमय हुआ भयङ्कर नेत्र। उस नेत्र का रंग भूरा और उसके पलक अत्यन्त विशाल थे। उस राक्षस की दाढ़ें अत्यन्त विशाल थी तथा वह अपनी ललाटाती जिह्वा में अपने विशाल मुख को बार-बार चाट रहा था। अपनी एक एक योजन लम्बी दोनों भयङ्कर नुजाओ को दूर तक फैलाकर उनसे अनेक प्रकार के मालू, पशु-भक्षी तथा मृगों को पकड़कर भक्षण के लिये खींच लेता था। जब राम और लक्ष्मण उसके निकट पहुँचे तब उसने उनका रास्ता रोक दिया। उस समय वह एक चौस लम्बा जान पड़ता था। उसकी आकृति केवल

कवन्ध (घड) के ही रूप में थी इसलिये वह कवन्ध कहलाता था । वह विशाल, हिसा-नरायण, भयकर, दो बड़ी-बड़ी भुजाओं से युक्त और देखने में अत्यन्त घोर प्रतीत होता था । उस राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं से रघुवन्शी राजकुमारों को बलपूर्वक पीटा देते हुये एक साथ ही पकड़ लिया । उस समय राम और लक्ष्मण अत्यन्त विवशता का अनुभव करने लगे । उस क्रूर-हृदय महाबाहु कवन्ध ने राम और लक्ष्मण से कहा - 'तुम दोनों कौन हो ? इस वन में क्यों आये हो ? मैं भूल से पीड़ित हूँ, अतः तुम दोनों का जीवित रहना अब कठिन है ।' (३ ६९, २६-४६) । "अपने बाहुपाश में आबद्ध राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कवन्ध ने कहा 'देव ने मेरे भोजन के लिये ही तुम्हें यहाँ भेजा है ।' उस समय लक्ष्मण ने श्रीराम से उस राक्षस की दोनों भुजाओं को तलवार से काट डालने के लिये कहा । लक्ष्मण की बातें सुनकर राक्षस अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और अपना भयकर मुख फैलाकर उनका भक्षण करने के लिये उद्यत हो गया । इतने ही में राम और लक्ष्मण ने अत्यन्त हर्ष में भर कर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजायें कन्धों से काट दीं । भुजायें कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुँजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा । अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ उस दानव ने दीनवाणी में पूछा 'धीरो ! तुम दोनों कौन हो ?' लक्ष्मण ने उसको तब श्रीराम का और अपना परिचय देते हुये उस राक्षस से पूछा 'तुम कौन हो ? कवन्ध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो ?' लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कवन्ध को इन्द्र की बात का स्मरण हो आया और उसने दोनों राजकुमारों का स्वागत करते हुये अपना परिचय देना आरम्भ किया । (३ ७०, १-१९) । "अपनी आत्मकथा कहते हुये कवन्ध ने बताया कि किस प्रकार कवन्ध का रूप धारण करके ऋषियों को डराने के कारण उसे ऋषि स्यूलगिरा के शाप से वह रूप प्राप्त हुआ । उसने यह भी बताया कि पूर्वकाल में ब्रह्मा को सन्तुष्ट करके उगने दीर्घजीवी होने का वरदान प्राप्त करने के बाद इन्द्र पर आक्रमण कर दिया । उस समय इन्द्र के वज्र के प्रहार से ही उसकी जायें और मस्तक उसके शरीर में घुम गये । देवराज ने ही उसे यह वरदान दिया कि राम के हाथ मृत्यु प्राप्त कर लेने पर उसे मुक्ति मिल जायगी और राम ही उसका दाह-संस्कार करेंगे । कवन्ध की कथा सुनकर राम ने उससे रावण के पन्जे से सीता को मुक्त कराने का उपाय पूछा । कवन्ध ने बताया कि जब तक उसका विधिवत् दाह-संस्कार नहीं हो जाता, वह श्रीराम की कोई सहायता नहीं कर सकता (३ ७१, १-३४) । "राम और लक्ष्मण द्वारा विधिवत् दाह-संस्कार कर

दिये जाने पर, यह महाबली कवच्य दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पो का हार धारण किये हुये वेगपूर्वक बिना से ऊपर उठा और एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा । हृष्टो से सन्नद्ध उन विमान पर बैठे हुये कवच्य ने अन्तरिक्ष में स्थिर हो राम से कहा 'लोक में ऐसी छ युक्तियाँ हैं जिनसे राजा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं । जाप सुग्रीव को अपना मित्र बनाईए जो अपने भ्राता बालिन के क्रोध के कारण निर्वासित होकर ऋष्यमूक पर्वत पर चार अन्य वानरो के साथ निवाम कर रहे हैं । केवल सुग्रीव ही आपको राक्षसों के पजे से सीता को मुक्त कराने में सहायता कर सकते हैं ।' (३ ७२, १-२७) ।

'तदनन्तर कवच्य ने पम्पा मरौवर के तट पर स्थित ऋष्यमूक पर्वत तथा उसकी उस गुफा तक जानेवाले गुफा मार्ग का विस्तृत वर्णन किया जहाँ सुग्रीव निवाम कर रहे थे । एक बार पुन सुग्रीव के साथ मित्रता का परामर्श देने के पश्चात् उसने राम और लक्ष्मण से विदा ली (३ ७३, १-४६) ।

'लक्ष्मण ने श्रीराम को सुग्रीव से मित्रता करने के कवच्य के अन्तिम संदेश का स्मरण दिलाया (४ ४, १५-१६) ।'

कम्पन, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसको रावण ने कुम्भ और निकुम्भ के साथ मुद्गभूमि में जाने के लिये कहा था (६ ७५, ४६) । इसका अगद ने बध किया (६ ७६, १-३) ।

करवीराक्ष, सर के एक सेनापति का नाम है जो राम से युद्ध करने के लिये गया (३ २३, २३) । इन महावीर बलाघ्नक्ष ने सर के आदेश पर अपनी सेना सहित राम पर आक्रमण किया (३ २६ २६-२८) ।

कराल, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये थे (५ ६, २६) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी थी (५ ५४, १४) ।

करूप, को इसलिये इन नाम से पुकारा जाना है क्योंकि वृष का बध कर देने के पश्चात् इसने इन्द्र के करूप (भूव) को ग्रहण कर लिया था । पूर्व समय में यह एक सम्पन्न नगर था परन्तु ताडका तथा उसके पुत्र मारीच ने इसे नष्ट कर दिया । किसी की इससे होकर जाने का साहस नहीं होता था (१- २४, १७-३२) ।

कर्दम, प्रजापतियों में से प्रथम का नाम है (३ १४, ७) । ये राजा इल के पिता थे (७ ८७, ३) । जब इल को पुरुषरत्न प्राप्त कराने के लिये मर्त्य दुष्प अपने मित्रों से परामर्श कर रहे थे तथा ये भी दुष्प के आश्रम पर उपस्थित हुये (७ ९०, ८) । इन्होंने यह प्रस्ताव किया कि इल के लिये अश्वमेधयज्ञ करके भगवान् सगर को प्रसन्न किया जाय (७ ९०, ११-१२) ।

कला, विभीषण की ज्येष्ठ-पुत्री का नाम है जिमने अपनी माता की

आज्ञा से सीता को यह सूचना दी कि उसके पिता विभीषण के सीता को श्रीराम को लौटा देने के प्रस्ताव को रावण ने ठुकरा दिया है (७ ३७, ९-११) ।

१ कलिङ्ग, विस्तृत सालवन के निम्न स्थित एक नगर का नाम है जहाँ केकय से लौटते समय भरत प्यारे थे (२ ७१, १६) ।

२. कलिङ्ग—सुग्रीव ने इस देश में सीता को खोजने के लिये अगद से कहा था (४ ४१, ११)

कल्माषपाद, रघु के तेजस्वी पुत्र का नाम है जो एक शाप के परिणाम स्वरूप राक्षस हो गये थे, य शङ्खण के पिता थे (१ ७०, ३९-४०) ।

कवच-गण, दैत्यों के एक वर्ग का नाम है जो मणिमयीपुरी में निवास करते थे । जब रावण ने इनके नगर पर आक्रमण किया तो ये लोग एक वर्ष तक उसके साथ युद्ध करते रहे और अन्त में ब्रह्मा की मध्यस्थता से उसके साथ संधि की (७ २३, ६-१४) ।

कवच, पश्चिम दिशा के एक महर्षि का नाम है जो राम के अयोध्या लौटन पर उनका अभिनन्दन करने के लिये प्यारे थे (७ १, ४) ।

१ करयप (काश्यप भी), दशरथ के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५) । दशरथ के आमन्त्रित करने पर ये अश्वमेध यज्ञ कराने के लिये अयोध्या आय (१ ८, ६) । मिथिला जाते समय इनका वाहन दशरथ के आगे-आगे चल रहा था (१ ६९, ४-५) । दशरथ की मृत्यु के पश्चात् दूसरे दिन प्रातः काल इन्होंने सभा में उपस्थित होकर वसिष्ठ को तत्काल नये राजा की नियुक्ति कर देने का परामर्श दिया (२ ६७, ३-८) । राम के अभियेक में इन्होंने वसिष्ठ की सहायता की (६ १२८, ६१) । राम के बुलाने पर अन्य घ्राहणों के साथ इन्होंने भी राजसभा में प्रवेश किया जहाँ राम ने अभिवादन के पश्चात् इन्हें उत्तम आसन पर बैठाया (७ ७४, ४-५) । अश्वमेध यज्ञ आरम्भ करने के पूर्व राम ने इनमें परामर्श लिया (७ ९१, २) । राम की सभा में सीता के शपथ ग्रहण सत्कार के समय य भी साक्षी थे (७ ९६, २) ।

२. काश्यप का द्वाद न स्वर्गलोक में सार्वजनिक स्वागत किया (१ ११, २८) । इन्होंने एक महत् वर्ष तक तपस्या करके विष्णु को प्रसन्न किया (१ २९, १०-११) । इन्होंने देवों के कष्ट का निवारण करने के लिये अपनी पत्नी अदिती के गर्भ में विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान माँगा (१ २९ १५-१७) । ये मरीचि के पुत्र थे (१ २९, १५) । इन्होंने शिव का यह वरदान दिया कि यदि वह एक सहस्र वर्ष तक पवित्र रहनी तो

उसे ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इन्द्र का वध कर सकेगा (१. ४६, ४-७) । मरीचि के पुत्र और विवस्वान के पिता (१ ७०, २०) । इन्होंने परशुराम से पृथिवी का दान प्राप्त किया था (१ ७५, ८ २५) । परशुराम ने बताया कि पूर्वकाल में जब उन्होंने कश्यप को पृथ्वी दान कर दी तब कश्यप ने उनसे अपने राज्य में न रहने के लिये कहा था (१ ७६, १३) । ये अन्तिम प्रजापति थे (३ १४, ९) । इन्होंने दक्ष की आठ कन्याओं से विवाह किया था (३ १४, ११-१२) । इन्होंने अपनी पत्नियों को यह वरदान दिया कि ये इन्हीं के समान प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त करेंगी (३ १४, १२-१३) । राम के अयोध्या छोड़ने पर उनका अभिनन्दन करने के लिये ये उत्तर दिशा से पधारे थे (७ १, ५) । ये देवी और दैत्यों के पूर्वज हैं (७ ११, १५) ।

कहोल, एक धर्मात्मा ब्राह्मण का नाम है जिसे अष्टावक्र ने मुक्ति दिलाई थी (६ ११९, १६) ।

काकुस्थ, विशाला नगरी के राजवरा में सोमदत्त के पुत्र का नाम है (१ ४७, १६) । इनके पुत्र का नाम सुमति था (१ ४७, १७) ।

१. काञ्चन, एक पर्वत का नाम है, जहाँ वानर-यूयपति केसरी निवास करता था (६. २७, ३७) । इसका वर्णन (६ २७, ३४-३७) ।

२. काञ्चन, सत्रुघ्न के पुरोहित का नाम है, जो आमन्त्रित होकर अपने प्रतिपालक की राजसभा में उपस्थित हुये थे (१० १०८, ८) ।

कात्यायन, दशरथ के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५) । अश्वमेध यज्ञ करने के लिये आमन्त्रित किये जाने पर ये भी अयोध्या पधारे थे (१ ८, ६) । मिथिला जाते समय इनका रथ दशरथ के आगे-आगे चल रहा था (१ ६९, ३-६) । दशरथ की मृत्यु के पश्चात् दूसरे दिन प्रातः काल राजसभा में उपस्थित होकर इन्होंने भी तत्काल एक नये राजा की नियुक्ति के लिये वसिष्ठ को परामर्श दिया (२ ६७, ३-८) । श्रीराम के अभिषेक में इन्होंने वसिष्ठ की महायता की (६ १२८, ६१) । राम के डुलाने पर ये उनकी राजसभा में पधारे, जहाँ राम ने अभिवादन के पश्चात् इन्हें आसन पर बैठाया (७. ७४, ४-५) ।

काम, बँलाम के निकट स्थित एक पर्वत-माला का नाम है । यह वृक्षों से रहित तथा भूतो, देवताओं और राजसों के लिये वाग्न्य है । सुग्रीव ने शतबल से इस पर्वत की गुफाओं आदि में सीता की खोज करने के लिये कहा । (४ ४३ २८-२९) ।

काम्पिल्य, एक नगर का नाम है जहाँ राजा ब्रह्मदत्त शासन करते थे (१. ३३, १९) ।

काम्योज, एक देश का नाम है जो अश्वो के लिये प्रसिद्ध था (१ ६, २२) । सुग्रीव ने शतवल् से यहाँ भी सीता की खोज करने के लिये कहा (४ ४३, १२) ।

काम्योज-गण, विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिये वसिष्ठ की गाय द्वाग उत्पन्न किये गये यवन सैनिकों के माय इनका भी उल्लेख है (१ ५४, २१) । विश्वामित्र के प्रहार से ये लोग व्याकुल हो उठे (१ ५४, २३) । वसिष्ठ की गाय की हुकार से इनकी उत्पत्ति हुई जो सूर्य के समान तेजस्वी थे (१ ५५, २) ।

कारुपथ, एक रमणीय निरामय देश का नाम है (७ १०२, ५) ।

कार्तवीर्य,—श्रीराम के मतानुसार लक्ष्मण, कार्तवीर्य से भी श्रेष्ठ थे क्योंकि वे (लक्ष्मण) एक समय में ५०० द्वाग चलते थे (६ ४९, २१) ।

कार्तिकेय—“अग्नि से व्याप्त होने पर शिव का तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया । साथ ही, वहाँ दिव्य सरकण्डो का वन भी प्रकट हुआ । उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ । (१ ३६, १८-१९) ।” गङ्गा द्वारा हिमवत् पर्वत पर स्थापित गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई (१ ३७, १८) । देवताओं ने इनके पोषण के लिये कृत्तिकाओं की नियुक्ति की (१ ३७, २४) । इसी कारण देवताओं ने इनका कार्तिकेय नाम रखते हुए इनकी महानता की भविष्यवाणी की (१ ३७, २६) । कृत्तिकाओं ने इन्हें स्नान कराया (१ ३७, २७) । गर्भलाय काल में स्कन्दित होने के कारण अग्नितुल्य महाबाहु कार्तिकेय को देवताओं ने स्कन्द कहकर पुकारा (१ ३७, २८) । इन्होंने छ मुष्ट प्रकट कर के छहों कृत्तिकाओं का एक साथ ही स्तनपान किया (१ ३७, २९) । एक दिन दूध पीकर इस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सम्पूर्ण सेना पर विजय प्राप्त कर ली (१ ३७, ३०) । देवों ने मिल कर इन महातेजस्वी स्कन्द का देव-सेनापति के पद पर अभियेक किया (१ ३७, ३१) । जो व्यक्ति इस पृथिवी पर कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु प्राप्त करता है, और पुत्र-पौत्रों से सम्पन्न होकर मृत्यु के पश्चात् स्कन्द के लोक में जाता है (१ ३७, ३३) । श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया था (२ २५, ११) । अथर्व्य के आश्रम में श्रीराम उनके मन्दिर में भी पधारें थे (३ १२, २०) । मरकण्डो के वन में रोने हुए सिन्धु का उल्लेख (७ ३५, २२) । राजा इल इनके जन्मस्थान पर पधारें थे (७ ८७, १०) ।

१. कास्य, उत्तर में सोमाश्रम की एक पर्वतमाला का नाम है जिसके गिम्बर अत्यन्त ऊँचे थे । सुग्रीव ने शतवल् को इस पर्वत तथा इसकी शालाओं

की गुफाओं आदि में सीता को खोजने के लिये कहा (४ ४३, १४-१५) ।
 'शैलेन्द्र हेमगर्भ महागिरिम्', (४ ४३, १६) ।

२. काल ने तपस्वी के देश में जाकर लक्ष्मण से कहा कि वह श्रीराम से मिलना चाहता है (७ १०३ १-२) । 'तपसा भास्करप्रभ', (७ १०३ ५) ।
 'ज्वलन्तमिव तैजोमि प्रदहन्तमिवाशुमि', (७ १०३, ७) । लक्ष्मण द्वारा राम के पास ले जाये जाने पर इसने राम का अभिवादन किया (७ १०३, ७-८) । राम के कहने पर आसन ग्रहण किया (७ १०३, ९) । राम के पूछने पर बताया कि यत उत्तका कार्यं गुप्त है अतः वह केवल एकान्त में ही उनसे वार्ता करेगा । इसने राम से यह भी घोषित करने के लिये कहा कि जो कोई दोनों को वार्ता करते देख अथवा सुन ले वह राम के हाथों मारा जाय । (७ १०३ ११-१३) । इसने राम से कहा 'पूर्वादिभ्यां मे, अर्थात् हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिये आपका पुत्र हूँ । मुझे भवमहारकारी काल कहते हैं ।' तदनन्तर इसने राम को ब्रह्मा का यह संदेश सुनाया कि उनकी (राम की) जीवन-अवधि समाप्त हो गई है, अतः उन्हें अब स्वर्गलोक चले जाना चाहिये (७ १०४, १-१५) । 'सर्वमहार', (७ १०४, १६) ।

कालक, कश्यप तथा कालका के पुत्र का नाम है (३ १४, १६) ।

कालका, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्नी का नाम है (३ १४, १०-११) । अपने पति की अनुकम्पा से इसने नरक और कालक नामक दो पुत्रों को जन्म दिया (३ १४, १६) ।

कालकार्मुक, सार के एक सेनापति का नाम है जो राम से युद्ध करने गया था (३ २३, ३२) । इस महावीर बलाध्यक्ष ने सार के आदेश पर अपनी सेना-सहित राम पर आक्रमण किया (३ २६, २७-२८) ।

कालकेय-गण, इंद्रियों के एक वर्ग का नाम है जो अश्व नगरी में निवास करते थे । रावण ने इन्हें पराजित और पराभूत किया था (७ २३, १७-१९) ।

कालनेमि को पराजित करके विष्णु ने वध किया था (७ ६, ३४) ।

कालमहो, पर्वत और घनों से सुशोभित एक नदी का नाम है जहाँ सुप्रोव ने सीता को खोजने के लिये दिनत को भेजा था (४ ४०, २२) ।

कालिकामुख, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जो सुगालिन् और केतुमती का पुत्र था (७ ५, ३८-३९) ।

१. कालिन्दी, असिड की पत्नियों में से एक का नाम है । अपने पराजित पति के साथ यह भी हिमालय में चली गई थी । असिड की मृत्यु के समय यह तथा इसकी सहपत्नियां गर्भवती थी । इनका गर्भपात करा देने के लिये

अन्य सत्पत्नियो ने इन्हे विप दे दिया किन्तु मर्हिपि च्यवन की कृपा से इन्होंने सगर को जन्म दिया (१ ७०, २९-३६) ।

२ कालिन्दी, एक नदी का नाम है जहाँ सीता को खोजने के लिये सुग्रीव ने बिनत को भेजा था (४, ४०, २१) ।

कालिय, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनोविनोद करने के लिये उनके साथ रहता था (४ ४३, २) ।

कावेरी, दक्षिण दिशा की एक नदी का नाम है जहाँ सीता की खोज करने के लिये सुग्रीव ने अङ्गद से कहा था 'ततस्तामापणा दिव्या प्रसन्न-सलिलाशयाम् । तत्र द्रक्ष्यथ कावेरी विह्वतामप्सरोगर्णं ॥', (४ ४१, १४-१५) ।

काशी—दशरथ ने अपने अश्वमेध यज्ञ में काशिराज को भी यामग्रिन बिया था (१ १३, २३) । कँकेयी के क्रोध को शान्त करने के लिये दशरथ ने इस देश में उत्पन्न होनेवाली वस्तुयें भी प्रस्तुत करने कालिये कहा (२ १०, ३७-३८) । सुग्रीव ने इस देश में सीता को खोजने के लिये बिनत को भेजा था (४ ४०, २२) । 'तत्भवानथ काशेय पुरो वाराणसी ध्रज । रमणीया त्वया गुप्ता सुप्रावारा सुनोरणाम् ॥ .राषवेण वृत्तानुज काशेयो ह्यकुतोभय । वाराणसी ययी तूर्णं राषवेण विमजित ॥', (७ ३८, १७-१९) ।

काश्यप, एक हास्यकार का नाम है जो राम के मनोरंजन के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २) ।

किन्नर—“ब्रह्मा ने किन्नरियो से वानर-पुत्र उत्पन्न करने की देवी को आज्ञा दी (१ १७, ६) । देवनायो आदि के साथ ये भी राजा भगीरथ के रथ के पीछे गङ्गा जी के साथ-साथ चर रहे थे (१ ४३, ३२) । कुछ किन्नर बदिष्ठ के आश्रम में निवास करते थे । (१ ५१, २४) । राम और परशुराम के इन्द्र मुद्ग को देखने के लिये एकत्र हुये थे (१, ७६, १०) । चित्रकूट पर्वत पर इनके वावाम का उल्लेख (२ ९३, ११) । राम ने सीता को भ्रमण करते हुये किन्नरो के जोडो को दिखामा (२ ९४, ११) । किन्नरो के खड्ग वृक्षो की डालियो म लटक रहे थे (२ ९४, १२) । रावण ने उन कुञ्जो को देखा जो किन्नरो से भेवित थे (३ ३५, १४) । दण्डकारण्य में राम के आश्रम में किन्नरगण भी आते रहते थे (३ ४३, १२) । ये जनन्याय में रहते थे (३ ६७, ६) । राम ने पम्पा शंख में भी कुछ किन्नरो को भ्रमण करते देखा (४ १, ६१) । ये श्रीष्ठा के लिये मुदसंन मरोवर पर भी जाते थे (४. ४०, ४४) । मंदाक पर्वत पर किन्नर आदि भी, जो इच्छाऽनुसार रूप धारण कर लेते थे, निवाम करने थे (५ १, ६-९७) । ये अरिष्ट पर्वत पर निवाम करते थे (५ ५६, ३६) । जब हनुमान् के भार से

सैनाक पर्वत धंस गया तो उस पर रहनेवाले विन्नर आदि पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गये (५-५६, ४८) । राम और मकराक्ष के द्वन्द्व को देखने के लिये अन्नरिल में एकत्र हुये (६ ७९, २५) । जब रथ पर बँटे हुये रावण से राम पैदल ही युद्ध करने के लिये उचन हुये तब विन्नरो ने भी कहा कि ऐसी दशा में दोनों का युद्ध बराबर नहीं है (६ १०२, ५) । जब श्रीराम रावण के साथ युद्ध करने लगे तब इन लोगो ने गाँवों और ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिये प्रायंता की (६ १०७, ४८-४९) । ये भन्दाकिनी के तट पर भी आते रहते थे (७ ११, ४३) । कैआस पर्वत पर मधुर ऋषवाले कामार्त विन्नर अपनी कामिनियों के साथ रागयुक्त गीत गाया करते थे (७ २६, ७) । ये लोग अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ विन्ध्य पर्वत पर शीड़ा कर रहे थे (७ ३१, १६) । दुष ने इला की सखियों को किपुम्पी (विन्नरो) बना दिया (७ ८८, २१-२४) ।

किरात, वसिष्ठ की माय के रोमरूपों से प्रकट हुये थे । अन्य के साथ इन लोगो न भी विश्वामित्र की समस्त सेना का सहार कर डाला (१ १५, ३-४) ।

किष्किन्धा, एक पर्वतीय गुफा का नाम है जहाँ सुग्रीव का बालिन् के साथ द्वन्द्व हुआ था (१ १, ६९) । एक नगर का नाम है जिसके मुखद्वार के पास मायाविन् ने बालिन् को ललकारा था (४ ९, ५) । बालिन् को मृत जानकर सुग्रीव यहाँ लौट आये (४ ९, १९) । 'किष्किन्धामतुलप्रभाम्', (४ ११, २१) । बालिन् का नगर (४ ११, २४) । महाबली दुन्दुभि किष्किन्धा पुरी के द्वार पर आकर भूमि को प्रक्षम्पित करता हुआ जोर-जोर से बर्जन करने लगा, मानो दुन्दुभि का गम्भीर नाद हो रहा हो (४ ११, २६) । राम इत्यादि को साथ लेकर सुग्रीव किष्किन्धा की ओर बढे (४ १२, १३-१४) । श्रीराम के वचन से आश्चस्त होकर सुग्रीव राम के साथ पुन किष्किन्धापुरी में जा पहुँचे (४ १२, ४२) । 'किष्किन्धा बालिविन्दमपालिताम्', (४ १३, १) । 'दुराधर्षा किष्किन्धा बालिपालिताम्', (४ १३, २९) । 'सुरेशात्मजवीर्यपालिता', (४ १३, ३०) । 'दृष्ट्वा राम क्रियादस सुग्रीवो वाक्यमप्रवीत् । हरिवागुरया व्याप्ता तप्तकाञ्चनतोरणाम् ॥ प्राप्ता स्म ध्वजयन्त्राटथा किष्किन्धा बालिन पुरीम् । प्रतिज्ञा या कृता वीर त्वया बालिवधे पुरा ॥', (४ १४, ४-६) । यह नगरी दुर्गों से सुरक्षित थी (४ १९, १५) । 'पुरी रम्या किष्किन्धा बालिपालिताम्', (४ २६, १८) । 'हृष्टपृष्ठनाकीर्णा पताकाप्यञ्जोन्निता । वभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिमह्वरे ॥', (४ २६, ४१) । यह नगर प्रसवण गिरि के निचट स्थित था (४ २७, २६) ।

'तामपश्याद् बलाकीर्णा हरिराजमहापुरीम् । दुर्गामिध्वाकुशादूल किष्किन्धा जिग्मिकटे ॥', (४ ३१, १६) । 'ततस्तं कपिभिर्व्याप्तां द्रुमहस्तैर्महावलं । अपश्यन्लक्ष्मण क्रुद्ध किष्किन्धा ता दुरासदाम् ॥', (४ ३१, २६) । इस नगर के चारो ओर प्राकार और खाई बनी थी । (४ ३१, २७) । "लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा कि किष्किन्धापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई थी । यह नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण होने के कारण अत्यन्त शोभा-सम्पन्न थी । यहाँ के वन-उपवन पुष्पो से सुशोभित थे । हर्म्यों और प्रासादों से यह पुरी अत्यन्त सघन दिखाई पड़ती थी । यहाँ दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जो देवों और गन्धर्वों के पुत्र तथा इच्छानुमार रूप ग्रहण करनेवाले थे, निवास करते थे । चन्दन, अगर और कमलपुष्पो की सुगन्ध से समस्त पुरी व्याप्त थी । इसमें विन्ध्याचल तथा मेरु के समान ऊँचे ऊँचे महल थे । इत्यादि । (४ ३३, ४-८) ।' यह पर्वत की गुफा में बसी थी, जिगसे इसमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन था (६ २८, ३०) । लड़ा से लौटते समय राम का पुष्पक विमान इस नगर पर से होकर आया था (६ १२३, २४) । 'सान्त्वयित्वा तत-पश्चाद्देवदूतमथादिशन् । गच्छ मद्बचनाद्दूत किष्किन्धा नाम वै शुभाम् ॥ सा ह्यस्य गुणसम्पन्नामहती च पुरी शुभा । तत्र वानरयूयानि सुबहूनि वसन्ति च ॥ बहूरत्नममाकीर्णा वानरैः कामरूपिभिः पुण्या पुण्यवती दुर्गा चातुरर्ण्यपुरस्तृता ॥ विश्वकमकृतादिभ्या मन्त्रियोगच्च शोभना । तत्रशंरजस इष्ट्वा सुपुत्र वानर-वंशम् ॥', (७ ३७ क, ४६-४९) ।

कीर्तिरथ, प्रतीन्धक के पुत्र तथा देवमीठ के पिता, एक घमतिमा राजा का नाम है (१ ७१, ९-१०) ।

कीर्तिरात, महीधक के पुत्र तथा महारोमा के पिता का नाम है (१ ७१, ११) ।

१. कुत्ति, एक राजा का नाम है, जो इक्ष्वाकु के पुत्र तथा विबुक्षि के पिता थे (१ ७०, २२) ।

२. कुत्ति, पश्चिम दिशा के एक देश का नाम है, जो पुत्राग, षकुल और उहालक आदि वृशों से परिपूर्ण था । सुग्रीव ने गुपेण आदि वानरों को सीता की खोज के लिये यहाँ भेजा था (४ ४२, ७) ।

१. कुञ्जर, "एव पर्वतमाला का नाम है जो वैद्युत पर्वत के समीप स्थित था । यह नेत्रों और मन को अत्यन्त प्रिय लगनेवाला था । कुञ्जर पर्वत पर विश्वकर्मा ने अगस्त्य के लिये एक दिव्यभवन का निर्माण किया । इसी पर्वत पर गर्वों की निवासभूता एव भोगवती नामक नगरी थी (४ ४१, ३४-३६) ।"

यहाँ पर सुग्रीव ने अङ्गद आदि वानरों को सीता की खोज के लिये भेजा (४ ४१, ३८) ।

२. कुञ्जर, एक वानर-प्रमुख का नाम है जिसकी पुत्री अञ्जना हनुमान् की माता थी (४ ६६, १०) ।

कुटिका, एक नदी का नाम है जिसको भरत ने केकय ने लौटने समय पार किया था (२ ७१, १५) ।

कुटिकोष्ठिका, एक नदी का नाम है जिसको भरत ने केकय देश से लौटने समय मार्ग में पार किया था (२ ७१, १०) ।

कुमुद, एक वानर-प्रधान का नाम है । लक्ष्मण ने किष्किन्वा में इनके मन्त्रों को देखा (४ ३३, ११) । ये वानर-सेना के साथ रामा ठीक करते हुये आगे आगे चल रहे थे (६ ४, ३०) । ये गोमती के तट पर स्थित नाना प्रकार के वृक्षों में युक्त सरोचन नामक पर्वत के चारों ओर पहाड़ों में ही विचरण और वही अपने वाणर-राज्य का शासन करते थे (६ २६, २७-२८) । ये दम करोड वानरों के साथ लङ्का के पूर्व द्वार को घेर कर सड़ते हो गये (६ ४२, २३) । श्रीराम और लक्ष्मण को मूर्च्छित देखकर इन्होंने शोक प्रकट किया (६ ४६, ३) । इन्होंने बही मावधानी के साथ वानर-सेना का संरक्षण किया (६ ४७, २-४) । इन्होंने कुपित होकर राक्षस सेना का भयङ्कर संहार किया (६ ५५, ३०-३१) । इन्होंने अनिर्णय पर आक्रमण किया किन्तु उसकी वाणवर्षा से आहत होकर उसका सामना करने में असमर्थ हो गये (६ ७१, ३९-४२) । ये इन्द्रजित् द्वारा पराजित हुये (६ ७३, ५९) । श्रीराम ने इनका स्वागत और सम्मान किया (७ ३९, २०) ।

कुम्भ, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके घर में हनुमान् ने आग लगायी थी (५ ५४, १५) । "इसका रूप मेघ के समान काला तथा इसका वक्षस्थल उभरा हुआ, चौड़ा और सुन्दर था । इसकी ध्वजा पर नाग राज वासुकि का चिह्न बना था । यह अपनी घनुष को टकारता और शीघ्रता हुआ युद्ध के लिये रावण के साथ चला (६ ५९, २०) ।" यह नुम्भनर्ग का पुत्र था जिसे रावण ने युद्ध के लिये भेजा (६ ७५, ४५-४६) । इस तेजस्वी जीर वीर्यवान् श्रेष्ठ घनुषर्ष ने बारी-बारी से द्विविद, मैन्द और अङ्गद से युद्ध करते हुये इन सबको आहत किया (६ ७६, ३६-५६) । अपने वाण समूहों द्वारा जाम्बवान् इत्यादि को रोक दिया (६ ७६, ६०-६२) । यह अपने पिता के ही समान वीर था (६ ७६, ७३) । 'घनुषीन्द्रजित्पुत्रस्य प्रनाये रावणस्य च । त्वमद्य रक्षता लोके श्रेष्ठोऽसि बलवीर्यतः ॥', (६ ७६, ७८) । इनने सुग्रीव के साथ द्वन्द्व युद्ध किया जिसमें इसका घनुष टूट गया,

इसे समुद्र में फेंक दिया गया, और अन्तत इसका वन हो गया (६ ७६ ६३-९३) ।

कुम्भरुण, एक राक्षस का नाम है जिमकी मृत्यु का वाल्मीकि ने पूर्ववर्षान्त किया था (१ ३, ३६) । यह—प्रवृद्धनिद्र, महाबला—शूर्पगाया का भ्राता था (३ १७, २३) । हनुमान् इसके भवन में गये थे (५ ६, १८) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगायी (५ ५४, १४) । यह—महाबल सर्वशस्त्रभृतामुग्र्य—एक बार में छ महीनों तक सोता रहता था (६ १२ ११) । सीता के प्रति रावण की आसक्ति को सुनकर पहुँचे तो इसने रावण को सीताहरण के लिये बहुत फटकारा, किंतु वाद में समस्त क्षत्रियों के वय का स्वयं ही उत्तरदायित्व ले लिया जिससे रावण निर्विघ्न रूप से सीता के साथ आनन्द कर सके (६ १२, ७-४०) । “विभीषण ने कहा ‘रावणान्नरो भ्राता भ्रम ज्येष्ठश्च वीरवान् । कुम्भकर्णो महातेजा शक्रप्रतिबलो युधि ॥’ (६ १९, १०) । रावण ने कहा ‘स चाप्रतिमगाग्भीषो देवदानवदर्पहा । ब्रह्माणापाम्भूतस्तु कुम्भकर्णो विबोध्यताम् ॥ निद्रावशसमाविष्ट कुम्भकर्णो विबोध्यताम् ॥ मुख स्वपिति निश्चिन्त कामोपहतचेतन । नवसप्तदशाष्टौ च मामान्स्वपितिराक्षस ॥ मन्त्र कृत्वा प्रमुसोऽप्यमिनस्तु नवमेऽहनि । त तु बोधयत क्षिप्र कुम्भकर्णं महाबलम् ॥’, (६ ६०, १३ १५-१७) । ‘ग्राम्यमुत्तरत’, (६ ६०, १९) । ‘कुम्भकर्णो विबोधिते’, (६ ६०, २०) । ‘कुम्भकर्णगुरो रम्या पुण्यगन्धप्रवाहिनीम्’, (६ ६०, २४) । ‘कुम्भकर्णस्य त्रिश्यामादवधूना महाबला’, (६ ६०, २५) । ‘ते तु त विवृत्त मुत्त विवीर्णमिव पर्वतम् । कुम्भकर्णं महानिद्र समेता प्रत्यबोधयन् ॥’, (६ ६०, २७) । ‘भीमनासापुट त तु पातालविपुलाननम् । शयने न्यस्तसर्वाङ्ग मेदोऽधिरगन्धिनम् ॥’, (६ ६०, २९) । “रावण द्वारा कुम्भकर्ण को जगाने के लिये भेजे गये राक्षसों ने देखा कि भुजाओं में घाजूबन्द और मस्तक पर ऐजस्वी किरीट धारण किये हुये कुम्भकर्ण सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है । उन राक्षसों ने कुम्भकर्ण के सामने अनेक प्राणी, पशु, रक्त से भरे कुम्भ तथा मांस आदि रख दिये । तदनन्तर राक्षसों ने उमने वज्रों पर चन्दन का लेप किया और फिर अनेक प्रहार की घृति करने लगे । इस पर भी जब वह नहीं उठा तब राक्षसों ने उमने विभिन्न अंगों को खूब हिलाया और पर्वतसिंहारों, मुसलों, गदाओं, मुद्गरों इत्यादि से प्रहार किया । इस प्रकार विविध विधियों से अन्तत जगाये जाने पर कुम्भकर्ण ने इस असमय में ही जगा दिये जाने का कारण पूछा । यूगाक्ष से समाचार जानकर यह इतना विचलित हो उठा कि आश्रमकों को नष्ट कर देने के लिये सीधे मुद्गभूमि में जाने के लिये उत्थन हो गया । फिर

भी, वह जानकर कि रावण इनसे मिलना चाहता है, इसने स्नानादि करके भोजन और मदिरा पान किया। तदन्तर मुरग राजमार्ग से होकर रावण के महल की ओर चला। (६ ६०, इस अध्याय में 'कुम्भकर्ण' इन श्लोकों में आया है ३१ ३४ ३७ ४१ ५६ ७२ ७९ ८४ ८७ ८९. ९१ ९४ ९५)। 'महावाय कुम्भकर्णम्', (६ ६१, १)। 'पर्वणाकारदर्शनम्', (६ ६१, २)। 'प्रकृत्या ह्येव तज्जन्वी कुम्भकर्णो महाबल', (६ ६१, ६२)। "कुम्भकर्णं वा परिचयं पूछने पर विभीषण ने राम को बताया कुम्भकर्ण, विश्वका का पतापी पुत्र है और दत्ते बुद्ध में वैवस्वत यम तथा देवराज इन्द्र को भी पराजित किया था। इन महाबाय राक्षस ने जंगल सेते ही बाल्वावस्था में नृप से पीडित हो कई गरुड प्रजाजनों का भक्षण कर लिया था। इससे भयभीत प्रजाजनों इन्द्र की शरण में गये। इन्द्र ने शेष में आकर इसे अपने वज्र में आहन कर दिया जिस पर क्षुब्ध होकर इनसे इन्द्र के ऐरावत के मुँह से एक दाँत लबाड कर उसी से देवेन्द्र की छाती पर प्रहार किया। इसके प्रहार से व्याकुल इन्द्र प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा की शरण में गये। इन्द्रादि की यात सुनकर ब्रह्मा ने कुम्भकर्ण को यह शाप दिया कि वह सदा मृतक की भाँति सोना रहेगा। ब्रह्मा के इस शाप से अभिभूत होकर कुम्भकर्ण रावण के सामने ही गिर पड़ा। इसमें व्याकुल होकर रावण न ब्रह्मा से कुम्भकर्ण के सोने और जागने का समय निश्चित करने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा ने कहा कि यह छः मास तक सोना रहेगा और केवल एक दिन के लिये ही जागेगा। (६ ६१, इस अध्याय में 'कुम्भकर्ण' इन श्लोकों में आया है . ९. ११. १२. १५-१८ २२ २३ ३० ३०)। "निद्रा के मद से व्याकुल हो, परम दुर्जय कुम्भकर्ण राजमार्ग से होकर रावण के भवन की ओर जा रहा था। रावण के भवन में पहुँचने पर इसने अपने भ्राता, रावण, के चरणों में प्रणाम किया और अपने बुलाये जाने का कारण पूछा। आदर-सत्कार के पश्चात् रावण ने इरो राम तथा उनकी सेना के साथ बुद्ध करने के लिये प्रेरित किया (६ ६२; इन अध्याय में 'कुम्भकर्ण' इन श्लोकों में आया है ५ ७ ८. ९ १२)। 'कुम्भकर्ण ने रावण की उक्त कृत्यों के लिये भर्त्सना करते हुये बताया कि विभीषण की भविष्याणी अत्र सत्य सिद्ध होने वाली है। रावण के आग्रह करने पर इसने शत्रु सेना को नष्ट कर देने का आश्वासन दिया। (६ ६३)।" महोदर ने कुम्भकर्ण के प्रति आशेष करते हुये रावण को विना बुद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताया (६ ६४; इस अध्याय में 'कुम्भकर्ण' इन श्लोकों में आया है १-३. १९)। "महोदर के उक्त वचन कहने पर कुम्भकर्ण ने उसे डाँटते हुए रावण से कहा 'मैं आज ही

उम दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूँगा । यह देखो, अब मैं धनु को विजिन करने के लिये उद्यत होकर समरभूमि में जा रहा हूँ ।' रावण के आग्रह करने पर कुम्भकर्ण ने अपना तीक्ष्ण शूल हाथ में लेते हुये कहा 'मैं अवेला ही युद्ध के लिये जाऊँगा ।' रावण की सहायता से कुम्भकर्ण ने अपने आभूषणों तथा कवच आदि को धारण किया, और फिर भाई से विदा लेकर युद्ध-भूमि की ओर चला । उस समय हाथी, घोड़े, और मेघा की गर्जना के समान धरधराहट उत्पन्न करनेवाले रथों पर सवार होकर अनेकानेक महामनस्वी रथी वीर भी रथियों में श्रेष्ठ कुम्भकर्ण के साथ चले । कुम्भकर्ण उस समय छः सौ धनुषों के बराबर विस्तृत और सौ धनुषों के बराबर ऊँचा हो गया । उसकी बाँखें दो गाड़ी के पहियों के समान प्रतीत होती थी और वह स्वयं एक विशाल पर्वत के समान भयकर दिखायी पड़ता था । कुम्भकर्ण के रणभूमि की ओर अग्रसर होते ही चारों ओर घोर अपराकुन होने लगे, किन्तु उनकी कुठ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित वह युद्ध के लिये निकल पड़ा । कुम्भकर्ण पर्वत के समान ऊँचा था । उसने लका की चहार-दीवारी को दोनों पैरों से लाँघकर वानरसेना को देखा । उम पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर भयभीत होकर भागने लगे । उस समय कुम्भकर्ण भीषण गर्जना करने लगा जिसे सुनकर भयभीत वानर कटे हुये साल वृक्षों के समान पृथिवी पर गिर पड़े । (६ ६५, इस अध्याय में 'कुम्भकर्ण' इन श्लोकों में आया है १ ११ १६ २१ २२ २५ ३६ ४१ ४३ ४७ ४८ ५३ ५६ ५८) । 'लका के परकोटे को लाँघकर कुम्भकर्ण नगर से बाहर निकला और उच्च स्वर में गम्भीर नाद करने लगा । भयभीत वानरों को अगद ने पुनः प्रोत्साहित किया जिससे वे सब लोटकर कुम्भकर्ण पर शिलाओं, वृक्षों, आदि से प्रहार करने लगे, किन्तु कुम्भकर्ण उनसे लेशमात्र भी विचलित नहीं हुआ । कुम्भकर्ण ने भी वानर सेना का सहार करना आरम्भ किया जिससे वे सब व्याकुल होकर इधर-उधर भाग लड़े हुये । (६ ६६, इस अध्याय में 'कुम्भकर्ण' इन श्लोकों में आया है १. २८) । 'अङ्गद को प्रोत्साहित करने पर वानर-सेना ने पुनः सन्नद्ध होकर कुम्भकर्ण पर आक्रमण किया । परन्तु अत्यन्त श्रेष्ठ से भरा हुआ विजयसाली, महाकाय, कुम्भकर्ण अपनी गदा से वानरों का सहार करने लगा । वह एक-एक बार में अनेक वानरों का भक्षण कर जाता था । हनुमान् ने इस पर जिन वृक्षों और शिलाओं से प्रहार किया उनके भी श्मने अपने शूल से टुकड़े-टुकड़े कर दिये । एक पर्वत शिखर से हनुमान् ने जब इस पर प्रहार किया तो श्मने हनुमान् को भी आहत कर दिया । नील आदि ने इस पर जिन विशाल शिलाओं से प्रहार

किया उन्हें भी इतने डिल्ल भिन्न कर दिया । इसने आक्रमण करनेवाले पाँच वानर कूषपतिमा को आहत या उनका सहार कर डाला । इन प्रमुख वानरो के घराशापी हो जाने पर अनेक अन्य वानर इसे दाँतो से काटने, और नखों, मुक्को, और हाया से मारने लगे । फिर भी, कुम्भकर्ण वानर सेना का सहार करता रहा जिससे रत्न और व्याकुल होकर वानर श्रीराम की शरण में गये । कुम्भकर्ण ने तब अङ्गद से द्वन्द्व युद्ध करते हुये उन्हें मूर्च्छित कर दिया । अङ्गद के मूर्च्छित होने ही यह शूल लेकर सुग्रीव की ओर बढ़ा । युद्ध में इसके शूल को हनुमान् ने तोड़ दिया । फिर भी, इसने एक विशाल गोलशिखर के प्रहार से सुग्रीव को आहत करके बन्दी बना लिया और लक्ष्य लाया । जब यह लक्ष्य के राजमार्ग पर चल रहा था तो लावा और गन्धमुक्त जल की वर्षा द्वारा अभिषिक्त पथ की शीतलता से सुग्रीव को धीरे-धीरे होश आ गया । उस समय सुग्रीव ने अपने तीक्ष्ण नखों द्वारा इन्द्र दायु कुम्भकर्ण के दोनों कान मोच लिये, दाँतो से उसकी नाक काट ली, और पाँव के नखों से उसकी पसलियाँ विदीर्ण कर दी । इस प्रकार आहत हो जाने से कुम्भकर्ण का सारा शरीर रक्त रजित हो गया और वह क्रोध में आकर सुग्रीव को भूमि पर पटक कर उन्हें बिसत लागा । किन्तु उन्ही समय सुग्रीव गेदके समान उछल कर श्रीराम के पास चले आये । ऐसी दशा में क्रुद्ध होकर कुम्भकर्ण ने, जो रक्त में नहाकर और भयानक दिवाई पड़ रहा था, अपनी गदा लेकर पुनः युद्ध-भूमि में जाने का निश्चय किया । तदनन्तर वह राहसा लकापुरी से बाहर निकल कर प्रज्वलित अग्नि के समान उत भयकर वानर-सेना की अपना आहार बनाने लगा । उसने मोहवश वानरो और रीछों के साथ-साथ राक्षसों तथा पिशाचों का भी भक्षण आरम्भ किया । वह लक्ष्मण के द्वारा छोटे गये बाणों की बोई परवाह न करता हुआ लक्ष्मण से अपने शीर्ष और पराक्रम की प्रशस्ति करते हुये राम ने माप युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगा । उसकी बात सुनकर लक्ष्मण ने उसे श्रीराम को दिखा दिया । राम को देखते ही वह लक्ष्मण को छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ा । राम ने उस पर रौद्रास्त्र का प्रयोग किया जिसमें आहत होकर उसके मुँह से अङ्गार मिश्रित अग्नि की लपटें निकलने लगी । क्रोध में आकर वह वानरो और राक्षसों का भक्षण करने लगा । लक्ष्मण की आज्ञा से जो वानर उसने शरीर पर चढ़ गये थे उन्हें भी झकझोर कर गिरा दिया । तदनन्तर उसने राम के साथ भीषण द्वन्द्व-युद्ध किया जिसमें अन्ततः राम के हाथों उनकी मृत्यु हुई । (६ ६७, इस अध्याय में 'कुम्भकर्ण' इन श्लोकों में आया है : ४-६ १५ १६ १८ २१ २२ २६. २८. ३१ ३३ ३७ ३९ ४० ४२ ४३ ४५-४७ ५२-५८ ६० ६३ ६९.

७० ७३ ७६ ७८ ८३ ८८ ९० ९४ ९५ ९९ १०३ ११८ १२८
 १३३ १३५ १३८ १४८ १४९ १५३ १५४ १६० १६२ १७१ १७४
 १७७ १७९) ।" यह विश्रवा और कंकमी का द्वितीय पुत्र था (७ ९, ३४) ।
 "कुम्भकर्ण और उसके ज्येष्ठ भ्राता, दशग्रीव, दोनों ही लोको में उद्वेग उत्पन्न
 करनेवाले थे । कुम्भकर्ण तो भोजन से कभी भी तृप्त नहीं होता था, इसलिये
 तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों का भक्षण करता-फिरता था
 (७ ९, ३७-३८) ।" इमने १०,००० वर्षों तक अपनी इन्द्रियों को सयम में
 रखते हुये भीषण तपस्या की (७ १०, ३-५) । ब्रह्मा द्वारा दरदान माँगने
 का आग्रह करने पर इसने कहा 'मैं अनेकानेक वर्षों तक सोता रहूँ, यही मेरी
 इच्छा है ।' (७ १०, ३६ ३७ ४४ ४५) । इसने ब्रह्मा सहित देवताओं के
 चले जाने पर पश्चात्ताप किया (७ १०, ४६-४८) । इमने वज्रज्वाला से
 विवाह किया (७ १२, २३-२४) । "तदनन्तर कुछ काल के पश्चात् ब्रह्मा
 के द्वारा भेजी हुई मित्रा कुम्भकर्ण के भीतर प्रकट हुई । उस समय अपने
 अपने भ्राता रावण से शयन के लिये एक पृथक् भवन बनवाने का निवेदन
 किया । रावण द्वारा भवन बनवा दिये जाने पर यह उसमें सहस्रो वर्षों तक
 सोता रहा (७ १३, १-७) ।" इन्द्र के विरुद्ध जब रावण ने युद्ध किया तो
 कुम्भकर्ण ने रावण का साथ देते हुये मृत्यु के साथ युद्ध किया (७ २८,
 ३४-३६) ।

कुम्भहनु, प्रह्मन के एक मन्त्रि का नाम है जो प्रहरत के साथ युद्ध-
 भूमि में आया (६ ५७, ३१) । इसने निर्दयतापूर्वक वानरो का महार किया
 (६ ५८, १९) । शङ्खद ने इसका वध किया (६ ५८, २३) ।

कुम्भीनसी, रावण की बहन का नाम है (६ ७, ८) । यह सुमालिन्
 और वेतुमती की पुत्री थी (७ ५, ३८-४०) । मधु ने इसका अपहरण कर
 लिया था (७ २५, १९) । जब रावण ने इसके पति, मधु, पर आक्रमण
 किया तब इसने रावण से अपने पति को क्षमा कर देने का निवेदन किया और
 मधु तथा रावण में मित्रता भी करा दी (७ २५, ३९-४८) ।

कुरु, उत्तर दिशा में स्थित एक देश का नाम है जहाँ सीता को लोजने के
 लिये सुग्रीव ने सनवल को भेजा था (४ ४३, ११) ।

उत्तर कुरु--उत्तर कुरु वर्ष में कुयेर का चन्द्ररथ नामक दिव्य वन है
 जिसमें दिव्य वस्त्र और धाम्बूषण ही वृक्षों के पत्तों हैं और दिव्य नारिषी ही
 फल (२ ९१, १९) । इस वर्ष की नदियाँ और यन भरद्वाज मुनि के
 आश्रम में पहुँच गये (२ ९१, ८१) । यहाँ के वृक्ष मधु की घारा बहानेवाले
 हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं (३ ७३, ६) । "इत

प्रदेश में हरे-हरे कमल के पत्तों से सुशोभित नदियाँ बहती हैं। यहाँ के जलाशय लाल और सुनहरे कमल-भमूहों से मण्डित होकर प्रातःकालीन सूर्य के समान सुशोभित होने हैं। शट्टुत्तुप मणियों के समान पत्तों और सुवर्ण के समान कान्तिमान् केसरीवान्त नील कमल सब्रं मिलते हैं। नदियों के तट गोज-मोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और सुवर्ण से सम्पन्न हैं। यहाँ के वृक्षों में सदा ही फलफूल लगे रहते हैं। यहाँ सूर्य के समान कान्तिमान् गन्धर्व, कियर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा श्रौडा-विहार करते हैं। यहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता। यहाँ रहने में प्रतिदिन मनोरम गुणों की वृद्धि होती है (४ ४३, ३८-५२)। सुमीव ने सोना की खोज के लिये कुछ वानर-यूथपतियों को यहाँ भी भेजा था (४ ४३, ५८)।

कुचजाङ्गल, बसिष्ठ द्वारा केकय भेजे गये दूत इन भूभाग से होकर गये थे (२. ६८, १३)।

कुल, एक हास्मकार का नाम है जो राम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २)।

१. कुलिङ्ग, एक नगर का नाम है जो शरदण्ड और द्युमती के बीच स्थित था (२ ६८, १६)।

२. कुलिङ्ग, पर्वतों के बीच तीव्र गति से बहनेवाली एक मनोरम नदी का नाम है जिसे केकय से लौटते समय भरत ने पार किया था (२ ७१, ६)।

कुचेर—इन्होंने ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार गन्धमादन को उत्पन्न किया (१ १७, १२)। यह विद्यवा के पुत्र और रावण के भ्राता थे (१. २०, १८)। राम के वनवास के समय कौसल्या ने राम की रक्षा करने के लिये इनका भी आवाहन किया था (२ २५, २३)। भरद्वाज मुनि ने भरत की सेना का सत्कार करने के लिये उत्तरगुरु में स्थित इनके वन का आवाहन किया था (२. ९१, १९)। भरद्वाज के आवाहन के फलस्वरूप इन्होंने २०,००० दिव्य महिलाओं को भेजा था (२. ९१, ४४)। इन्होंने तुम्बुरु नामक गन्धर्व को, रम्भा के साथ उसकी अत्यधिक आसक्ति के कारण, शाप द्वारा विराय रूपी राक्षस बना दिया था। जब इनका श्लेष शान्त हुआ तो इन्होंने कहा कि राम के द्वारा मृत्यु प्राप्त कर लेने पर तुम्बुरु पुनः अपने रूप में आ जायगा (३ ४, १६-१९)। अगस्त्याश्रम में राम ने इनके मन्दिर का भी दर्शन किया था (३ १२, १८)। रावण ने इन्हें पराजित करके इनका पुष्पक विमान छीन लिया था (३ ३२, १४-१५)। ये रावण के भ्राता थे (३. ३५, ७; ४८, २)। रावण द्वारा पराजित होने पर ये कैलास पर्वत पर चले गये (३. ४८, ४-५)। कैलास पर विश्वकर्मा ने इनके सुन्दर भवन का

निर्माण किया (४ ४३, २१) । ये अपने भवन के निकट ही स्थित सरोवर के तट पर गृह्यको के साथ बिहार करते थे (४ ४३, २२-२३) । 'भूतेशो द्रविणाधिपतिर्यथा', (६ ४, २०) । 'घनद', (६ ७, ४) । महादेव जी के साथ अपनी मित्रता के कारण ये—लोकपाल महाबल—अत्यन्त गर्व करते थे (६ ७, ५) । राम के सम्मुख उपस्थित होकर इन्होंने सीता के प्रति दुर्व्यवहार करने के कारण राम की भर्त्सना की (६ ११७, २-९) । "ये विश्रवा और भरद्वाज की देववर्णिनी पुत्री के पुत्र थे । इन्हे वीर्य-सम्पन्न, परम अद्भुत और समस्त ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त कहा गया है (७ ३, १-६) । महर्षि पुलस्त्य ने इन्हे वैश्रवण कहा (७ ३, ६-८) । वन में जाकर इन्होंने सहस्रों वर्षों तक तपस्या की (७ ३, ९-१२) । ब्रह्मा द्वारा वर मांगने का आग्रह करने पर इन्होंने लोकपाल वनमें था वर मांगा (७ ३, १३-१५) । 'घनेश प्रयतात्मवान्', (७ ३, २२) । ब्रह्मा द्वारा लोकपाल के पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के पश्चात् इन्होंने अपने पिता से अपने रहने योग्य सुन्दर स्थान बताने का निवेदन किया (७ ३, २२-२३) । "अपने पिता के परामर्श पर इन्होंने लङ्का पर आधिपत्य स्थापित करके राक्षसों पर प्रसन्नतापूर्वक शासन आरम्भ किया । लङ्का से ये पुष्पक विमान पर बैठकर अपने मत्ता पिता के पास जाया करते थे (७ ३, २४-३५) ।" 'घनद वित्तपाल', (७ ११, २६) । 'सर्वशस्त्रभृतावर', (७ ११, २७) । 'वाक्यविदावरः', (७ ११, ३०) । "प्रहस्त के लङ्का को लौटा देने का निवेदन करने पर इन्होंने कहा कि ये अपने भ्राता रावण को लङ्का लौटा देने के लिये सदैव प्रस्तुत हैं । तदनन्तर इन्होंने अपने पिता की आज्ञानुसार रावण को लङ्का दे दी और स्वयं कैलास पर्वत पर जाकर रहने लगे (७ ११, २५-५०) ।" रावण के अत्याचारों का समाचार सुनकर इन्होंने उसे चेतावनी देने के लिये एक दूत भेजा (७ १३, ८-१२) । "जब ये हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तब उमा पर सहसा दृष्टि पड़ जाने के कारण इनकी बायीं आँख नष्ट हो गई । तदनन्तर अन्य स्थान पर जाकर इन्होंने ८०० वर्षों तक तपस्या की और महादेव के मित्र बन गये । उन्नीसवें वर्ष में इनका 'एकाशपिङ्गली' नाम पड़ गया (७ १३, २१-३१) ।" यक्षों के पराजित हो जाने पर इन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये अन्य महाबली यक्षों को भेजा (७ १४, २०) । यक्षों के पराजित हो जाने पर इन्होंने मणिमद्र को युद्ध के लिये भेजा (७ १५, १-२) । "मणिमद्र के पराजित हो जाने पर गदा हाथ में लेकर इन्होंने स्वयं रावण को फटकारते हुये उसका सामना किया और उस समय तक युद्ध करने रहे जब तक रावण की माया से अभिभूत होकर बुरी तरह ब्राह्मण नहीं हो गये । इन्होंने उपचार के

लिये नन्दनवन में ले जाया गया (७ १५, १६-३४) ।" ये राजा मरुत के यज्ञसत्र में उपस्थित तो हुये परन्तु रावण के भय से इन्होंने कृकलास का रूप धारण कर रक्ता था (७ १८, ४-५) । रावण के चले जाने पर इन्होंने अपने रूप में प्रकट होकर 'कृकलासो को धरदान दिया (७ १८, ३४) । ब्रह्मा के आग्रह पर इन्होंने हनुमान् को अपनी गदा से अवध्य होने का धरदान दिया (७ ३६, ८-१७) ।

कुश—'पूर्वकाल में कुश नामक एक महातपस्वी राजा हो चुके थे जो ब्रह्मा के पुत्र थे । उनका प्रत्येक व्रत एक सन्त्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होता था । वे धर्म के ज्ञाता और सन्तुष्टि का आदर करनेवाले महान् पुरुष थे । उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न अपनी पत्नी वैदर्भी से चार पुत्र उत्पन्न किये जिनके नाम क्रमशः कुशम्ब, कुशनाभ, अमूर्तरजम् और धनु थे । इन्होंने अपने पुत्रों से प्रजापालन करने के लिये कहा (१ ३२, १-४) ।" कुशनाभ के पुत्रेष्टि यज्ञ में उपस्थित होकर इन्होंने उस एक पुत्र प्राप्त होने की भविष्यवाणी की (१ ३४, २-३) । तदनन्तर ये आकाश में प्रविष्ट होकर सनातन ब्रह्मलोक चले गये (१ ३४, ४) । इन्हें प्रजापति का पुत्र कहा गया है (१ ५१, १८) ।

१. कुशध्वज, जनक के कनिष्ठ भ्राता का नाम है जो महातेजस्वी, वीर्यवान् और अति धार्मिक थे (१ ७०, २) । 'ये इनुमती के तट पर स्थित साकाश्या नगरी में निवास करते थे । इन्हें जनक ने आमन्त्रित किया था (१ ७०, ३-६) ।" मिथिला आने पर इन्होंने जनक तथा सतानन्द को प्रणाम करने के पश्चात् आसन ग्रहण किया (१ ७०, ७-१०) । 'ये ह्रस्वरोमा के कनिष्ठ पुत्र थे । पिता के सन्ध्याम ले लेने पर य जनक के संरक्षण में रहने लगे (१ ७१, १४) ।" भ्रान्त देवसकाश स्नेहात्पश्यन्कुशाश्वजम्', (१ ७१, १५) । साकाश्य के सुधन्वन् का पराजय और मृत्यु हो जाने पर जनक ने इन्हें वहाँ के राज्य-सिंहासन पर बैठाया (१ ७१, १६) ।

२. कुशाश्वज, वेदवती ने बताया कि अग्नि तेजस्वी, ब्रह्मर्षि, बृहस्पति-पुत्र कुशाश्वज उसके पिता हैं । उसने यह भी बताया कि उसके वधस्क होने पर कुशाश्वज दिव्यु को अपना दामाद बनाना चाहे थे, परन्तु उनके इस अभिप्राय को जानकर दैत्यराज शम्भु ने रात में गोत्रे समय उनकी (कुशाश्वज की) हत्या कर दी (७ १७, ८-१४) ।

कुशनाभ, कुश और वैदर्भी के पुत्र का नाम है (१ ३२, २) । अपने पिता की इच्छा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन आरम्भ किया (१ ३२, ४) । इन धर्मात्मा महापुरुष ने महोदय नामक नगर की स्थापना

की (१ ३२, ५) । इन राजपि ने अपनी पत्नी घृताची से सौ पुत्रियाँ उत्पन्न की (१ ३२, १०) । अपनी पुत्रियों को विद्वताङ्ग देकर उमका वारण जानना चाहा (१ ३२, २३-२६) । 'कुशनाभस्य धीमन्', (१. ३३, १) । "अपनी कन्याओं की कथा को सुनकर इन्होंने धैर्य एवं धृग्गाभीलता का उपदेश करते हुए कन्याओं को अन्न पुर म जाने की आज्ञा दे दी । तदनन्तर मन्त्रणा के तत्त्व को जाननेवाले इन नरस ने मन्त्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरम्भ किया (१ ३३, ५-१०) ।" इन्होंने अपनी कन्याओं का ब्रह्मदत्त के माध्यम विवाह करने का निश्चय करके ब्रह्मदत्त को बुलाकर उन्हें कन्यायें सौंप दी (१ ३३, २०-२१) । "विवाह काल में कन्याओं के हाथ का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होने ही उन सबका दिव्यत्व समाप्त हो गया जिस पर कुशनाभ अत्यन्त प्रसन्न हुये । इन्होंने ब्रह्मदत्त तथा पुरोहितों के साथ कन्याओं को निदा किया । उस समय गन्धर्वों सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उमके योग्य विवाह मन्मन्थ को देखकर अपनी पुत्र पधुओं का यथोचित अभिनन्दन करते हुये महाराज कुशनाभ की सराहना की (१ ३३, २४-२६) ।" अपनी कन्याओं को विवाहित करने के पश्चात् पुत्र विहीन होने के कारण कुशनाभ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया (१ ३४, १) । इस अवसर पर इनके पिता ने उपस्थित होकर इन्हें गाधि नामक एक पुत्र प्राप्त होने की भविष्यवाणी की (१ ३४, २-३) । इसके कुछ दिन पश्चात् इन्हें गाधि नामक पुत्र प्राप्त हुआ (१ ३४, ५) । 'कुशस्य पुत्रो यत्नवान्कुशनाभ सुधामिक', (१ ५१, १८) । इनकी सौ कन्याओं के कुञ्जा हो जाने का इस प्रकार वर्णन मिलता है "कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से सौ उत्तम कन्याओं को जन्म दिया जो सुन्दर रूप लावण्य में सुशोभित थीं । एक दिन वस्त्राभूषणों से सुमञ्जित होकर ये कन्यायें उद्यान-भूमि में विचरण कर रह थीं । उस समय उत्तम गुणों से सम्पन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राज कन्याओं को देखकर वायु ने उनसे कहा 'मैं तुम सब को अपनी प्रियमी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः तुम सब मुझे अङ्गीकार करके अक्षय यौवन और अमरत्व प्राप्त करा ।' वायु के इस कथन को सुनकर कन्याओं ने अपनी अवहत्या का जिसने परिणामस्वरूप कृपित होकर वायु ने उन सबके भीतर प्रवेश करके उनके अङ्गों को विहृत कर दिया । इस प्रकार कुञ्जा प्राप्त करने के कन्यायें अत्यन्त व्यक्त हो उठीं । अपनी पुत्रियों की दयनीय दृश्य देखकर कुशनाभ ने उमका वारण पूछा (१ ३०) ।" 'कुशनाभ के पृष्ठ पर कन्याओं ने अपने कृञ्जत का कारण बताया और अन्न ब्रह्मदत्त के साथ विवाहित होने पर अपना रूप पुत्र प्राप्त करने के प्रतिगृह चली गई, जहाँ

ब्रह्मदत्त की माना सोमदा ने उनका हादिक स्वागत किया (१ ३३) ।”

कुशाख्य, उस स्थान का नाम है जहाँ दिनि ने एक सहस्र वर्ष तक तपस्या की थी । उस समय इन्द्र विनय आदि गुणों से युक्त होकर दिनि की सेवा कर रहे थे (१ ४६, ८-९) । यह स्थान वैशाली के निकट स्थित था (१ ४७ १०-११) ।

कुराम्य, कुश और वैदर्भी के पुत्र का नाम है (१. ३२, २) । इन्होंने अपने पिता की धारा के अनुसार क्षत्रियों का कर्त्तव्य पालन करना प्रारम्भ किया (१ ३२ ४) । इन महादेवकी राजा ने कौशाम्बी नगर की स्थापना की (१ ३२ ५) ।

कुशावती, कुश की राजधानी, एक रम्य नगरी का नाम है जिसे राम ने विष्व पर्वत के नीचे निर्मित कराया था (७ १०८, ४) ।

कुशाख्य, विशाला के राजवंश में सहदेव के पुत्र का नाम है (१ ४७, १५) । इनके पुत्र का नाम सोमदत्त था (१ ४७, १६) ।

कुशी—स्मरण करने पर यह वाल्मीकि के सम्मुख उपस्थित हुए (१ ४, ४) । ‘कुशीलवो तु पर्वतो राजपुत्रो यशस्विनो । भ्रातरो स्वस्वपत्नी ददर्शाश्रम-वामिनो ॥’, (१ ४, ५) । ‘स तु मेघादिनां दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितो’, (१ ४, ६) । ‘तो तु गा-पर्वतत्वशी स्थानमूर्च्छनकोविदो । भ्रातरो स्वस्वपत्नी गधर्वाचिव रुचिणो ॥’, (१ ४, १०) ‘रूपलक्षणसपत्नी मधुरस्वरभाषिणी । विम्बादि-कोरिणो विम्बो रामदेहातया परो ॥’, (१ ४, ११) । ‘तो राजपुत्रो काव्यमनिन्दितो’, (१ ४, १२) । ‘तन्वशी जगतु सुसमाहिती’, (१ ४, १३) ‘महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो’, (१ ४, १४) । इन्होंने अपने गायन से ऋषियों और मुनियों को इतना अधिक मुग्ध कर दिया कि उससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किये (१ ४, १६-२७) । ‘सर्वगोत्रिणु कोविदो’, (१ ४, २७) । श्रीराम ने इन्हें बुलाकर इनका यथोचित सम्मान किया (१ ४, २९-३०) । ‘रूपसम्पन्नो विनीतो भ्रातराबुधो’, (१ ४, ३१) । ‘दैनपर्वसो’, (१ ४, ३२) । इन्होंने राम की सना में रामायण का गायन किया (१ ४, ३३-३४) । ‘इमो मुनी पार्थिवलक्षणान्वितो कुशीलवो र्जन महातपस्विनो’, (१ ४, ३५) । ये वाल्मीकि के प्राथम में सीता के गर्भ से उत्पन्न हुये (७ ६६, १-११) । श्रीराम के जन के अवसर पर वाल्मीकि ने कुश और लव को रामायण के गायन का आदेश दिया (७ ९३, १-१६) । वाल्मीकि के आदेश को स्वीकार करके इन्होंने उत्कण्ठित हो वहाँ मुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की (७ ९३, १७-१९) । प्रातःकाल होने पर इन्होंने सम्पूर्ण रामायण का गायन किया (७ ९४, १) । कुशाख्य

द्वारा रामायण का गायन सुन कर श्रीराम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर सभासदों को एकत्रित करके इनको सभा में बुलावाकर बैठाया (७ ९४, १-९) । तब इन्होंने राम की सभा में रामायण का गायन किया (७ ९४, १०-१६) । राम द्वारा भेट की गई सुवर्ण-मुद्राओं को लेना इन्होंने अस्वीकृत कर दिया (७ ९४, १९-२०) । श्रीराम इनसे इस काव्य की उपलब्धि के बारे में जानने के लिये उत्सुक हुये (७ ९४, २२-२३) । "इन्होंने राम को बताया 'इस काव्य के रचयिता वाल्मीकि हैं जो इस यज्ञ-स्थल में पधारे हैं । इस महाकाव्य में २४००० श्लोक और एक सौ उपोख्यान तथा आदि में लेकर पाँच सौ सर्ग तथा ६ काण्ड हैं । इसके अतिरिक्त वाल्मीकि ने उत्तर-वाण्ड की भी रचना की है । इन्होंने ही आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है जिसमें आपके जीवन तक की समस्त वार्त्ता आ गई हैं ।' (७ ९४, २५-२८) ।" इतना कहकर ये वहाँ से चले गये (७ ९४, २९) । इन्होंने राम के कक्ष में विधाम किया (७ ९८, २७) । राम के आप्रह पर इन्होंने रामायण के उत्तरवाण्ड का गायन किया (७ ९९, १-२) । ये कोसल के राजा बनाये गये (७ १०७, १७-१९)

कृतिकार्ये—इन्द्र तथा महतो के कहने पर कृतिकाओं ने नवजात वार्त्तिकेय को अपना स्तनपान कराया (१ ३७, २३-२४) । छ कृतिकाओं के स्तनों का बालक वार्त्तिकेय ने छ मुखों से पान किया (१ ३७, २८) ।

कृशाश्व—प्राय सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं जिन्हें उन्होंने पूर्वकाल में विश्वामित्र को समर्पित कर दिया था । कृशाश्व के ये पुत्र दक्ष की पुत्रियों की सन्तान थे (१ २१, १३-१४) । देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र से निवेदन किया कि वे प्रजापति कृशाश्व के अस्त्ररूपधारी पुत्रों को श्रीराम को समर्पित कर दें (१ २६, २९) । महर्षि विश्वामित्र ने प्रजापति कृशाश्व के अस्त्ररूपी पुत्रों को श्रीराम को दे दिया (१ २८, ४-१०) ।

कृष्णगिरि, उस पर्वत का नाम है जहाँ रम्भ नामक वानर-भूषणनि निवास करता था (७ २६, ३१) ।

कृष्णवेणी, दक्षिण की एक नदी का नाम है जहाँ सीता की लोज करने के लिए सुग्रीव ने अङ्गद को भेजा था (४ ४१, ९) ।

केकय, एक देश का नाम है जहाँ के परम घामिक राजा, दशरथ के श्वशुर थे, इन्हें तथा इनके पुत्र को अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित किया गया था (१ १३, २४) । ये भरत को देवदर अम्बुत प्रगप्र हुये थे (१ ७७, २०) । समयमात्र के कारण राम के अभियेक के समय दशरथ इन्हें बुलाने के लिए किसी को भेज नहीं सके (२ १, ४७) । इनका नाम अश्वपति था (२ ९, २२) । "ब्रह्मा की कृपा से इन्होंने पशु-पत्नियों की भाषा को समझने

का ज्ञान प्राप्त किया था । एक दिन जब ये एक जूम्भ पत्नी की बान सुनकर हँसने लगे तब इनकी पत्नी ने इनके हँसने का कारण पूछा । परन्तु कारण बता देने से इनकी मृत्यु हो जाती इसलिये ये चुप रहे । इनकी पत्नी के, जो केकयी की माता थी, हट आग्रह करने पर भी इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया (२ ३५, १८-२६)।" दशरथ की मृत्यु के समय भरत और शत्रुघ्न केकय म ये (२ ६७, ७) । भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिये दूतों को केकय भेजा गया (२ ६८, १०) । देखिये अश्वपति भी ।

केतुमती, गन्धर्वा नर्मदा की द्वितीय पुत्री का नाम है जो सुमालिन् की विवाहित थी । यह अत्यन्त सुन्दर थी और इसका मुच पूरा चन्द्रमा के समान मनोहर था । इसके गर्भ से प्रह्लाद, अकम्पन आदि पुत्र उत्पन्न हुये (७ ५, ३७-४०) ।

कोरल, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने अङ्गद को भेजा था (४ ४१, १२) ।

१. केशिनी, विदर्भराज की पुत्री का नाम है जो सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी, यह अत्यन्त धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी (१ ३८, ३) । इसने अन्न पान तथा अन्य सह-पत्नियों के साथ हिमालय पर सौ वर्षों तक तपस्या की थी (१ ३८, ५-६) । मृत्यु के वरदान-स्वरूप इसने असमञ्ज नामक पुत्र को जन्म दिया (१ ३८, १६) । मगर के प्रति इसकी निष्ठा का उल्लेख (५ २४, १२) ।

२. केशिनी, एक नदी का नाम है जिनके तट पर लक्ष्मण और सुमन्त्र ने एक रात्रि व्रतों की थी (७ ५१, २९) । यह अयोध्या से जाने दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित थी (७ ५२, २) ।

केसरिन्, हनुमान् के पिता का नाम है जिन्होंने सुग्रीव के निवेदन पर अनेक सहस्र वानर भेजे थे (४ ३९, १८) । अञ्जना नामक शापव्रत अप्सरा से इनका विवाह हुआ था (४ ६६, ८-९) । हनुमान् इनके क्षेत्रज पुत्र थे (४ ६६, २८) । मलयवन पर्वत से गोरक्ष पर्वत पर जाने समय देवपियों की आज्ञा से इन्होंने समुद्रमंथ पर शम्भुमादन नामक अमुर का वन किया था (५ ३५, ८१-८२) । आने अनुचरों के साथ ये राम की सेना के दक्षिण भाग की रक्षा कर रहे थे (६ ४, ३४) । ये काश्वन पर्वत पर निवास करते थे (६ २७, ३४-३८) । ये बृहस्पति से उत्पन्न गद्गद के क्षेत्रज पुत्र थे (६ ३०, २२) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ५९) । ये मुमेरु पर्वत पर निवास करते थे (७ ३५, १९) । इन्होंने अञ्जना को अपनी पत्नी बनाया (७ ३५, २०) । राम ने इनका अभिनादन और सत्कार किया (७ ३९, २०) ।

कैकसी, सुमालिन् और केतुमती की शुचिस्मिता पुत्री का नाम है (७ ५, ३८-४१) । 'साक्षाद् श्रीरिव', (७ ९, ८) । अपन पिता की आज्ञा के अनुसार यह महर्षि विश्रवा के समीप जाकर सकोपपूर्वक खड़ी हो गई (७ ९, ६-१२) । 'सुश्रोणी पूणचन्द्रनिभानताम्', (७ ९, १६) । 'विश्रवा के पूछने पर इसने बताया कि यह अपनी पिता की आज्ञा से ही उनके (विश्रवा क) पास आई है और वे (विश्रवा) स्वयं अपने प्रभाव से इसका मनोभाव को समझ लें (७ ९, १८-२०) । 'मत्तमात्तगामिनी', (७ ९, २१) । विश्रवा की भविष्यवाणी को सुनकर इमन उस अपना निणय बदलने का निवेदन किया और कहा कि वह एसे क्रूर कमा पुत्र नहीं चाहती (७ ९, २१-२५) । कात्मान्तर म इसन रावण, कुम्भरूप, शूपणखा, और विभीषण का जन्म दिया (७ ९, २८ ३६) । कुबेर के वैभव को देख कर इमने अपने पुत्र दशग्रीव (रावण) से कुबेर के समान बनने के लिए कहा (७ ९, ४०-४३) ।

कैकेयी, दशरथ की पत्नियों में से एक का नाम है जिसने राम के अभिषेक का आयोजन होते देखकर दशरथ से अपने दो वरदान—राम को वनवास तथा भरत को राज्य—मगि (१ १, २१-२२) । इसके कुटिल अभिप्राय का वाल्मीकि ने पूर्वदशन कर लिया था (१ ३, १२) । अपने पुत्रेष्टि यज्ञ के अग्निकुण्ड से प्रगट प्राजापत्य पुरष द्वारा प्रदत्त खीर का चतुर्पास दशरथ ने कैकेयी को भी दिया (१ १६ २७) । शीघ्र ही इसने गर्भ धारण किया (१ १६, ३१) । इसने भरत को जन्म दिया (१ १८, १२) । इसके भ्रान्त युधाजित् इमे देवने आय (१ ७३, ४) । इसने पुत्रवधुओ का स्वागत किया (१ ७७, १०-१२) । राम के अभिषेक के समय मन्थरा ने अपने हिनो के प्रति चुप रहने के कारण हमकी भर्त्सना की (२ ७, १३-१५) । मन्थरा के अप्रसन्न होने का कारण पूछा (२ ७, १७) । राम के अभिषेक का समाचार सुनकर इसने मन्थरा को आभूषणादि का उपहार देकर बाद म और अधिक देने का वचन दिया (२ ७, ३१-३६) । मन्थरा के आक्षेपयुक्त वचन सुनकर भी इसने राम के गुणों की प्रशंसा करते हुये राम के युवराज बनन के अधिकार को स्वीकार किया और इस वान पर आश्चर्य प्रकट किया कि मन्थरा इस वान से इतनी अधिक अप्रसन्न क्यों है (२ ८, १३-१९) । अन्ततोगत्वा मन्थरा की कुटिल युक्तियों ने इसके मन पर वाञ्छित प्रभाव उत्पन्न कर दिया और क्रोध म आकर इसने मन्थरा से राम के निर्वासन और भरत को राज्य प्राप्त कराने का उपय पूछा (२ ९ १-३) । 'त्रिलोचिनी', (२. ९, ७) । मन्थरा के वचन को सुनकर इसने शय्या से कुछ उठकर भरत को राज्य-प्राप्ति और राम को उससे वञ्चित करने का उपाय पूछा (२ ९, ८-९) । पूर्वकाल

भे देवासुर मंत्राम के समय उन्ग्र की सहायता के लिये मुड करते समय इसने
 दशरथ की जीवन-रक्षा की थी जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने इससे दो वर
 मांगने के लिये कहा परन्तु इसने भविष्य में किसी समय उन वरों को मांगने
 की इच्छा व्यक्त की (२ ९, ११-१७) । यह अश्वपति की पुत्री थी
 (२. ९ २२) । यह दशरथ की प्रिय पत्नी थी जिसके लिये दशरथ अपने
 प्राण तक दे सकते थे (२. ९, २४-२५) । ऐसा बहुमूल्य परामर्श देने के लिये
 इस परम दर्शनीय ने मन्थरा की प्रशंसा की (२ ९, ३८-५२) । मन्थरा के
 परामर्श के अनुसार इसने अपने आभूषण आदि का परिहारा करके क्रोधागार
 में प्रवेश किया और भूमि पर लेट कर यह प्रण किया कि जब तक इसकी
 इच्छा पूर्ण नहीं हो जायगी यह अन नहीं ग्रहण करेगी (२ ९, ५५-५९) ।
 इसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति न हो जाने तक क्रुद्ध अवस्था में भूमि पर पड़े
 रहने का प्रण किया (२ ९, ६२-६६) । "पापिनी कुब्जा के कुटिल परामर्शों
 के कारण यह विपाक्त बाण में विद्ध हुई विद्यरी के समान धरती पर लोटने
 लगी । इसने मन्थरा से अपना समस्त मन्त्रव्य वत्ता दिया (२ १०, २) ।"
 अपनी मनोकामना को कार्यन्वित करने के उपायों पर विचार किया (२ १०,
 ३-४) । अपने कर्तव्य का भली भाँति निश्चय करके मुखमण्डल में स्थित
 भोहों को टेढ़ा किये हुये इसने अपने आभूषणों आदि को उतार कर फेंक दिया
 और धरती पर सो गई (२ १०, ६-७) । मलिन वस्त्र पहन कर और समस्त
 केशों को दुधतापूर्वक एक ही देशी में बाँधकर क्रोधागार में पड़ी हुई कैकेयी
 दलहीन अथवा अर्धत किन्नरी के समान प्रतीत हो रही थी (२. १०, ८-९) ।
 यह राजा दशरथ के आने के समय पहले कभी भी अपने भवन से अनुपस्थित
 नहीं रही (२ १०, १८-१९) । दशरथ ने इसे क्रोधागार में भूमि पर पड़े
 देखा (२ १०, २२-२३) । "स वृद्धस्तक्ष्णी भाया प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् ।
 अयाप पापसकल्पा ददसं धरणीतले ॥", (२ १०, २३) । "लतामिव
 विनिष्कृता पतिता देवतामिव । किन्नरीमिव निर्दूला च्युतामप्सरस यथा ॥",
 (२ १०, २४) । "भायामिव परिभ्रष्टा हरिणीमिव सयताम् । वरेणुमिव
 दिग्धेन विद्धा मृगयुता यने ॥", (२ १०, २५) । "कमलपत्राक्षो", (२ १०,
 २७) । "किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । तत्त्व मे ब्रूहि कैकेयि
 यतस्ते भयमागतम् ॥", (२. १०, ४१) । दशरथ ने इसे प्रसन्न करने का प्रयास
 किया (२ १०, २८-३९) । इसने दशरथ से कहा : 'न तो किसी ने मेरा
 अपकार किया है और न मैं किसी के द्वारा निन्दित अथवा अपमानित हुई हूँ ।
 मेरा अपना एक अन्निप्राय है जिसे यदि आप पूर्ण करना चाहते हों तो आप
 तदनुसार प्रतिज्ञा कीजिये ।' (२ ११, २-३) । दशरथ ने जब प्रतिज्ञा की

तब इसने ममस्त देवो को उसका साक्षी बनने के लिये कहा (२ ११, १३-१६) । तदनन्तर दशरथ को उन दो वरदानो का स्मरण दिलाया जिसे उन्होंने इसको देने का वचन दिया था और उन्हीं को पूर्ण करने के लिये दशरथ से राम को चोदह वर्ष का वनवास तथा भरत को राज गद्दी देने के लिये कहा (२ ११, १८-२९) । दशरथ ने कहा कि राम कैकेयी को अपनी माता के समान ही मानते हैं (२ १२, ८) । दशरथ ने यह भी बताया कि कैकेयी स्वयं भी राम को भरत के समान ही मानती है (२ १२, २१) । दशरथ के इस प्रकार समझाने तथा वर देने में किञ्चित्त सकोच प्रकट करने पर इसने उन पर आक्षेप किया और अपने आग्रह पर अटल रही (२ १२, ३८-५०) । कैकेयी ने दशरथ से कहा 'आप तो यह कहते थे कि मैं सत्यवादी और दृढप्रतिज्ञ हूँ, तब आप फिर मेरे इस वरदान को देने में क्यों सकोच कर रहे हैं' (२ १३, ४) । 'सुधोणी', (२ १३ २२) । 'असितापाङ्गा', (२ १३, २३) । 'गुह्योणी', (२ १३, २४) । 'दृष्टभावा, भर्तृनृशसा', (२ १३, २५) । 'प्रतिबूलभाषिणी', (२ १३, २६) । "दशरथ पुत्रशोक से पीडित हो पृथिवी पर अचेत पड़े वेदना से छटपटा रहे थे, परन्तु उन्हें इस अवस्था में देखकर भी पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली 'आपन भुज्ज वर देने की प्रतिज्ञा की थी परन्तु जब मैंने वरदान माँगा तब आप अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े । आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थित रहना चाहिये ।' इसके पश्चात् इसी शंभ्य, अलर्कं और समुद्र का दृष्टान्त देते हुये दशरथ से अपना प्रण पालने के लिये कहा । अन्यथा इसने आत्महत्या करने की भी धमकी दी (२ १४, २-१०) ।" दशरथ की मृत्यु हो जाने पर यह उनका तर्पण नहीं कर सकी, क्योंकि दशरथ ने मृत्यु के पूर्व इसका निषेध कर दिया था (२ १४, १४-१७) । 'तत पापसमाचारा कैकेयी पाथिव पुत्र । उवाच पश्य वाक्य वाक्यज्ञा रोप-मूर्च्छिता ॥', (२ १४, २०) । इसने अपने आग्रह पर अटल रहते हुये राजा दशरथ से राम के बुलाने के लिये कहा (२ १४, २१-२२) । 'मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रयुवाच', (२ १४, ५९) । इसने सुमन्त्र से राम को क्षीप्र बुलाने के लिये कहा (२ १४, ६०-६१) । महल में आकर राम ने पिता दशरथ को कैकेयी के गाय एक मुन्दर आसन पर बैठे देखा (२ १८, १) । राम ने कैकेयी का अभिवादन किया (२ १८, २) । राम द्वारा दशरथ के शोक का कारण पूछने पर इसने राम से कहा कि वह उसी दशा में दशरथ के शोक का कारण बनायेगी जब राम निःसकोच अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का प्रण करेंगे (२ १८, २०-२६) । 'तमाजवसामायुक्तमनार्या सत्यवादिनम् । उवाच

राम कंकेशी वचन मृगदाह्यम् ॥', (२ १८, ३१) । 'जब राम ने पिता की आज्ञा पालन करने का वचन दे दिया तब हमने उनमें कहा कि पिता के वचन का पालन करने के लिये उन्हें सोवह वर्ष के लिए दण्डकारण्य में बने जाना और वाने स्थान पर भरत की पृथिवी का सामरूप बनने देना चाहिए (२ १८, ३२-४०) । 'राम को तत्काल ही वन में भेज देने के अभिप्राय में हमने कहा कि भरत को तत्काल ही बुझाना और राम को भी विला त्रिम्व के ही वनवास के लिये प्रस्थान करना चाहिए । हमने यह भी कहा कि अग्निहोत्र होने के कारण दशरथ स्वयं यह बात कहने में सकोच बग रह रहे हैं और जब तक राम वन को नहीं चले जाते वे (दशरथ) स्थान अथवा भोजन नहीं करेंगे (२. १९ १२-१६) । 'तदभिमन्युनायामा वचन दारुणोदयम् । श्रुत्वा वनस्थो राम कंकेशी वाक्यमब्रवीत् ॥' (२ १९, १९) । 'न नून मयि वनस्थी किनिदाशसमे गुणान् । यदाजानमगोवस्त्व ममस्वरतग मती ॥' (२. १९, २४) । श्रीराम पिता दशरथ तथा माता अनाया कंकेशी के भरणाम प्रणाम करके अन्तपुर में बाहर निकले (२ १९, २८-२९) । 'पिग्वारेण कंकेशी समा वाप्ययवाऽवगं', (२ २०, ४२) 'कंकेश्या पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नानि-नापते', (२ २०, ४३) । 'कंकेश्या वदन द्रष्टुं पुत्र शश्यानि दुर्गता', (२ २०, ४४) । 'प्रीत्याहितोज कंकेश्या मन्तुष्टी यदि न पिता । अधिवसूतो निगङ्ग बध्मना वध्यतामपि ॥', (२ २१, १२) । 'दातुमिच्छति कंकेशी राज्य स्थितानिद तव', (२ २१, १४) । राम ने कहा कि जब वे वन में चले जायेंगे तभी कंकेशी के मन को सुख होगा (२ २२, १३) । राम ने कहा कि कंकेशी का विपरीत मनोभाव देव का ही विधान है (२ २२, १६) । राम ने लक्ष्मण को बताया कि कंकेशी उनके तथा अपने पुत्र भरत में कोई अन्तर नहीं रखती थी (२. २२, १७) । यदि यह एक देवी विधान ही न होता तो श्रेष्ठ गुणों में युक्त राजकुमारी कंकेशी साधारण स्त्री की भाँति अपने पति के समीप राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती (२ २२, १०) । राम ने लक्ष्मण से कहा कि केचय-राज अरवपति की पुत्री कंकेशी साधारण को प्राप्त करके अपनी सौतेले के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी (२ ३१, २३) । कंकेशी एतान् में दशरथ को श्रीराम को दरबार वन में भेजने के लिये बाध्य करती रही (२ ३४, ३०) । 'छन्नया सलिनस्त्वहिम मिश्रया भरमान्वित्पया', (२ ३४, ३६) । 'अनया वृत्तगादिन्या कंकेश्याभिप्रसोदित', (२ ३४, ३७) । दशरथ के मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ने पर भी हमका हृदय द्रवित नहीं हुआ (२ ३४, ६१) । 'पतिष्ठी त्वामह मय्ये कुलष्ठीमपि चान्तव', (२ ३५, ६) । 'पापदशिनी', (३ ३५ २७) । सुमन्त्र

ने इसको बहुत फटकारा, परन्तु इसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया (२ ३५, ४-३७)। इस भय से कि कहीं दशरथ श्रीराम को मुग्य वैभव की समस्त सामग्री प्रदान न कर दें इसने कहा कि भरत ऐसे राज्य के राजा होता स्वीकार नहीं करेंगे जिसका बोझ रिक्त हो (२ ३६, १-१२)। 'वैश्या मुक्तलज्जाया वदन्त्यामतिदारुणम् । राजा दशरथो वान्त्यमुवाचायतलोचनाम् ॥', (२ ३६, १३)। क्रोध में आकर इसने कहा कि सगर के ज्येष्ठ पुत्र असमञ्जस की भाँति ही राम को भी ताली हाथ शीघ्र ही निर्मातित कर देना चाहिये (२ ३६, १५-१६)। उस समय दशरथ के वचन को सुनकर अन्य सभी लोग तो लज्जा से गड़ गये परन्तु कैकेयी का हृदय उससे प्रभावित नहीं हुआ (२ ३६, १७)। इसने अपने हाथों ही राम को चौरादि लाकर दिया (२ ३७, ६)। वसिष्ठ ने इसको 'कुलपासिनी', 'शीलवर्जिता', और 'दुर्बला', इत्यादि कहकर बहुत फटकारा (२ ३७, २२-३६)। जब राम के चार जाने पर दशरथ मूर्च्छित हो गये तब इसने उनके बाये भाग में लठे होकर उन्हें सहारा दिया (२ ४२, ४)। उस समय दशरथ ने अपने अङ्गों का स्पर्श करने का निषेध करते हुये इससे अपने समस्त सम्बन्धों का परित्याग कर दिया (२ ४२, ६-८)। दशरथ ने दत्ते शाप दिया (२ ४२, २१)। कौसल्या इससे भयभीत हुई (२ ४३, २-५)। अयोध्या की स्त्रियों ने इसे निषूणा, अधर्मी और दुष्टचारिणी कहते हुये इसकी भत्तना की (२ ४८, २१-२५)। अयोध्यावासियों ने भी इसे नृशम, पापिनी और तीक्ष्णा इत्यादि कहकर शाप दिया (२ ४९ ५)। इस पापिनी के शासन के अधीन बन जाने के तथ्य पर मुमन्त्र ने खेद प्रकट किया (२ ५२, १९)। राम ने मुमन्त्र से इसके पाम अपना कुशल समाचार भेजा (२ ५२, ३०)। राम ने मुमन्त्र को इसलिए वापस अयोध्या भेजा कि कैकेयी को राम के वन चल जाने का विश्वास हो जाय और वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का सन्देह न करे (२ ५२, ६१-६२)। राम ने कैकेयी के कुटिल मनोरथों का स्मरण करते हुये उसे सौभाग्यमदमोहिता और दुष्टकर्मा कहा (२ ५३, ६-७ १४ १५ १८)। श्रीराम ने मुमन्त्र से अपनी माता कौसल्या के लिये यह सदेव भेजा कि वे अभिमान और मान को त्याग कर अन्य माताओं और विशेषकर कैकेयी के प्रति समान और सद्भावपूर्ण व्यवहार करें (२ ५८ १९)। 'कैश्या विनिपुक्तेन पात्राभिजनमावया', (२ ५९, १८)। मृत्यु के समय दशरथ ने इसे शाप दिया (२ ६४, ७६)। दशरथ की मृत्यु हो जाने पर यह भी शोक-गता होकर विकल्प करने लगी (२ ६५, २५)। दशरथ की मृत्यु हो जाने

पर कौमल्या ने नृसम, दुष्टचारिणी, त्यन्दलज्जा, आदि कहकर इसकी भर्त्सना की (२ ६६, ३-६) । अन्य सहपलियों तथा पुरवासियों ने इसकी भर्त्सना की (२ ६६, १९-२२ २९) । भरत ने इसे 'आत्मनामा सदा चण्डी कोपना प्राज्ञगानिनी', नटों हुये दूतों से इसका कुशल समाचार पूछा (२ ७०, १०) । भरत को घर आया देख कैकेयी हर्ष से मर गई और अपने आसन को छोड़कर लड़ी हा गई (२ ७२, २) । अपने यशस्वी पुत्र, भरत, को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनके नाना-नानी का कुशल-समाचार तथा यात्रा का वृत्तान्त पूछा (२ ७२, ४-६) । 'कैकेयी राज्यलोभेन मोहिता', (२ ७२, १४) । भरत द्वारा अपने पिता दशरथ के सम्बन्ध में पूछने पर इसने उनकी मृत्यु का समाचार सुनाया (२ ७२, ११-१५) । अपने शोक-सन्तप्त पुत्र, भरत की, सान्त्वना दी (२ ७२, २४-२५) । "भरत के पूछने पर इसने राजा दशरथ के अन्तिम शब्दों को दुहराते हुये कहा कि राम इत्यादि को उनके किसी अपराध के कारण नहीं वरन् उसी के (कैकेयी के) कहने पर वनवास दिया गया है । इतना कहकर इसने भरत से सिंहासन पर बैठने तथा पिता दशरथ का अन्तिम सस्कार करने के लिये कहा (२ ७२, ३४-५४) ।" दशरथ की मृत्यु तथा राम और लक्ष्मण के वनवास के लिये इसे दोषी बनाते हुये भरत ने इसे 'पुत्रगण्डिनी', 'साधुचारिष्विभ्रटा', आदि कहकर फटकारा (२ ७३, २-२७) । भरत ने इसकी भर्त्सना करते हुये 'राज्यकामुका दुष्टंसा पतिघातिनी', 'कुलद्रुपिणी', और 'पितृ कुलप्रध्वंसिनी', आदि कहकर इसे शाप दिया (२ ७४, २-१२) । भरत ने इससे अग्नि में प्रवेश करने, वन में चली जाने, अथवा आत्महत्या करने के लिये कहा (२ ७४, ३३) । 'क्रूर-कार्याया कैकेय्या', (२ ७५, ५) । जब सयुज्ज ने इनके प्रति क्रोध प्रकट किया तो यह भयभीत होकर अपन पुत्र भरत की कारण में चली गई (२ ७८, १९-२०) । इसने धीरे-धीरे सान्त्वना दी (२ ७८, २५) । राम को वन से लौटाने के लिये यह भी भरत के साथ गई (२ ८३, ६) । जब गृह की बात सुनकर भरत मुञ्चित हो गये तो यह उनकी सेवा के लिये उनके पास गई (२ ८७, ६) । भरत ने इसे तथा अन्य माताओं को वह कुश-समूह दिलाया जिस पर राम सोये थे (२ ८८, २) । गृह की यात्रा पर भरत आदि के साथ यह भी बैठी (२ ८९, १३) । अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों से निन्दित कैकेयी ने लज्जित होकर भरद्वाज मुनि के चरणों का स्पर्श किया और दीनचित्त हो भरत के पास आकर खड़ी हो गई (२ ९२, १७-१८) । भरत ने शोचना, हृत्पत्रा, दुष्टा, सुभगमानिनी, ऐश्वर्यकामा, अनार्या, आर्यरूपिणी, आदि बहते हुये इसका भरद्वाज से परिचय

कराया (२ ९२, २५-२७) । श्रीराम ने भरत से इसका कुशल समाचार पूछा (२ १००, १०) । इसके प्रति कटुवचन कहने पर श्रीराम ने भरत को मना किया (२ १०१, १७-२२) । भरत के साथ आये सब लोगो ने इसकी निन्दा की (२ १०३, ४६) । राम ने भरत को इसके प्रति आदर का भाव रखने के लिये कहा (२ ११२, १९ २७-२८) । 'दीर्घदर्शिनो', (३ २, १९) । लक्ष्मण ने इसकी निन्दा की जिस पर राम ने उन्हे पटथारा (३ १६, ३५-३८) । राम को वनवास दिलाने के कौकेयी के कुचक्र का सीता ने राम से वर्णन किया (३ ४७ ६-२२) । राम के अनुरोध पर दशरथ ने इसे समा कर दिया (६ ११९, २४-२६) । इमने शत्रुघ्न के अभिषेक मे सक्रिय सहयोग दिया (७ ६३, १६-१७) । इसकी मृत्यु (७ ९९, १६) ।

कैटभ, एक दैत्य का नाम है जिसका एक अदृश्य बाण से विष्णु ने वध किया था (७ ६३, २३, ६९, २७) । कैटभ और मधु के वस्थि-समूहो से पर्वतो सहित यह पृथिवी तरकाल प्रकट हुई (७ १०४, ६) ।

कैलास, एक पर्वत का नाम है जिस पर मानसरोवर स्थित है (१. २४, ८) । घातुओ से अलकृत कैलास पर्वत पर जाकर देवताओ ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य मे नियुक्त किया (१ ३७ १०) । कुबेर का निवासस्थान यही था, जिस पर रावण ने जात्रमण किया (३ ३२, १४) । मुषीव ने हनुमान से यहाँ निवास करनेवाले वानरों को भी बुलाने के लिये कहा (४ ३७ २) । यहाँ से १,००० करोड वानर आये (४ ३७, २२) । उत्तर मे एक निर्जन और दुर्गम प्रदेश के उस पार इसकी स्थिति बताते हुये मुषीव ने सीता की खोज के लिये शतबल को यहाँ भेजा (४ ४३, २०) । रावण के यहाँ आने का वर्णन (७ २५, ५२) ।

कौशल, एक जनपद का नाम है जो सरयू नदी के तट पर बसा और प्रचुर धन धान्य से सम्पन्न, सुखी, और समृद्धिशाली था (१ ५, ५) । यहाँ के राजा भानुमान थे (१ १३, २६) । कौकेयी के शोष को शान्त करने के लिये दशरथ ने यहाँ उत्पन्न पदाथों को भी प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया (२ १०, ३७-३९) । निर्वासित राम ने इसकी सीमाओ को पार किया (२ ४९, ८) । यहाँ के ग्राम अत्यन्त समृद्ध थे (२ ५०, ८-१०) । सीता की खोज करने के लिये मुषीव ने विनत को यहाँ भेजा (४, ४०, २२) । श्रीराम ने इसे दो भागो म विभक्त कर दिया जिसमे से कुश तो कौशल के वासन हुये और लव उत्तर कोशल के (७ १०७, १७) ।

कौशकार, अर्थात् रेशम उत्पन्न करनेवाले रयान का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये मुषीव ने विनत को भेजा था (४ ४०, २३) ।

कौशांबी, एक नगर का नाम है जिसकी कुश ने स्थापना की थी (१ ३२, ५) ।

१. कौशिक, पूर्व दिशा के एक ऋषि का नाम है जो राम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये पधारे थे (७ १, २) ।

२. कौशिक, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज करने के लिये सुग्रीव ने अङ्गद को भेजा था (४ ४१, ११) ।

कौशिकी—विश्वामित्र की ज्येष्ठ बहन सत्यवती ने अपने पति ऋचीक की मृत्यु के पश्चात् इस नदी के रूप में जन्म लिया (१ ३४, ७-८) । यह पुण्यसलिला दिव्य नदी जगत् के हित के लिये हिमालय का आश्रय लेकर प्रवाहित हुई (१ ३४, ९) । गरिताओ में श्रेष्ठ कौशिकी अपने कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है (१ ३४, २१) । गरिताओ में श्रेष्ठ इसी कौशिकी नदी के तट पर विश्वामित्र ने एक सहस्र वर्ष तक तपस्या की थी (१ ६३, १५) । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये विलत को यहाँ भेजा था (४ ४०, २०) ।

कौरोय, परिवस दिशा के एक ऋषि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनका अभिनन्दन करने के लिये पधारे थे (७ १, ४) ।

कौसल्या, श्रीराम की माता का नाम है (१ १, १७) । दशरथ ने इनके साथ अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली (१ १३, ४१) । इन्होंने यज्ञ के ऋष्य का विधिवत् सस्कार करके तीन तलवारों से उसका स्पर्श किया (१. १४, ३३) । तदनन्तर इन्होंने उस अश्व के निकट ही एक रात निवास किया (१ १४ ३४) । ऋत्विजों ने इनके हाथ का अश्व से स्पर्श कराया (१ १४, ३५) । दशरथ के पुत्रोत्पत्ति यज्ञ के अग्निकुण्ड से प्रकट प्राजापत्य पुरुष ने जो खीर प्रदान की थी उसका आधा भाग दशरथ ने इन्हें दिया (१. १६, २७) । तीघ्र ही इन्होंने गर्भ धारण किया (१ १६, ३१) । बारह मास तक गर्भ धारण करने के पश्चात् इन्होंने श्रीराम को जन्म दिया (१ १८, ८-१०) । जिस प्रकार यज्ञपाणि इन्द्र से देवमाता अदिति सुशोभित हुई थी उसी प्रकार अपने पुत्र, राम से, यह भी सुशोभित होने लगी (१. १८, १२) । इन्होंने अपनी पुत्रवधु, सीता का विधिवत् स्वागत किया (१ १७, १०-१२) । अपने पुत्र के तेज से यह भी उसी प्रकार प्रकाशित हो रही थी जिस प्रकार यज्ञपाणि इन्द्र से अदिति हुई थी (२ १, ८) । राम के अभिषेक का समाचार जाने वालों को इन्होंने सुवर्ण और गायो इत्यादि का दान किया (२ ३, ४७-४८) । जब लक्ष्मण और सुमित्रा इन्हें राम के अभिषेक का समाचार देने आये तो ये रेगमी वस्त्र पहने हुए मौन हो देव-मन्दिर में बैठी देवता की

आराधना कर रही थी (२ ४, ३०-३३) । श्रीराम द्वारा अभिषेक का समाचार सुनकर इन्होंने उन्हें (राम को) आशीर्वाद दिया (२ ४, ३८-४१) । कौसल्या ने दशरथ पर आक्षेप किया कि वे धर्म को तिलाञ्जलि देकर राम को राजगद्दी सौंपने के पश्चात् कौसल्या के साथ आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं (२ १२, ४५) । राम को वनवास देने का इन्हें कारण समझाने में दशरथ ने असमर्थता का अनुभव किया (२ १२, ६७) । दशरथ ने कहा कि प्रियवचन बोलने वाली कौसल्या जब-जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भाँति उनका प्रिय करने की इच्छा से उनकी सेवा में उपस्थित होती थी, तब-तब उनका उन्होंने (दशरथ ने) कौसल्या के कारण निरस्कार ही किया (२ १२, ६८-६९) । कौसल्या के भय से इन्होंने दशरथ के प्रति कभी प्रेम प्रकट नहीं किया (२ १२, ७०) । पुत्र और पति से विद्युत्त होने पर इनकी मृत्यु अवश्यम्भावी है (२ १२, ८९) । जब अपने वनवास का समाचार देने के लिये राम इनके समीप उपस्थित हुये तो उस समय ये—पुत्र हर्षपिणी, हृष्टा नित्य व्रतपरायणा, व्रतयोगेन कशिता, वरवणिनी—राम के ही कल्याण के लिये देवों में प्रार्थना कर रही थी (२ २०, १४-१९) । अपने पुत्र को प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देते हुये इन्होंने उन्हें आसन पर बैठा कर भोजन के लिये आमन्त्रित किया (२ २०, २०-२५) । राम से वनवास का समाचार सुनकर मूर्च्छित हो भूमि पर गिर पड़ी (२ २०, ३४) । राम ने इनकी सेवा की (२ २०, ३४) । “लक्ष्मण को सुनाते हुये इन्होंने राम से कहा ‘पति के प्रभुत्व काल में एक ज्वेष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिये वह पहले भुक्ते कभी नहीं मिला । बड़ी रानी होते हुये भी अब मुझे मौतों के अप्रिय वचन सुनने पडेगे—दससे बढ़कर महान् दुःख और क्या होगा । तुम्हारे चले जाने पर तो मेरी मृत्यु निश्चित है । मुझे इस बात पर ही आश्चर्य है कि इस समाचार को सुनने ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गये ।’ अन्त में कौसल्या ने स्वयं भी राम के साथ ही वन जाने के लिये कहा (२ २०, ३६-५५) ।” “लक्ष्मण द्वारा राम को वनवास दिये जाने पर रोष प्रकट कर चुकने के पश्चात् इन्होंने राम से कहा कि वे जो उचित समझें करें । इन्होंने यह कहते हुये कि एक माता को भी अपने पुत्र से सेवा प्राप्त करने का उतना ही अधिकार होता है जिसका पिता को, श्रीराम को बताया की उनका विषोग इनकी मृत्यु होगी और यदि वे इनकी सम्मति के बिना वन चले गये तो ये अन्न जल का परित्याग कर प्राण दे देंगी (२ २१, २०-२८) ।” जब राम चलने के लिये तैयार नहीं हुईं तो ये मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी (२ २१, ५१) । तदनन्तर राम को

सम्बोधित करते हुये इन्होंने मातृत्व के अधिकार की ओर उनका ध्यान दिलाया और कहा कि उनका विधोम इनके लिये मृत्यु होगा (२ २१, ५२-५३) । वन जाने के राम के दृढ निवचन को देखकर ये भी उनके साथ जाने के लिये प्रस्तुत हुई (२ २४, १-९) । राम क समझाने पर ये—गुमवर्शना—अयोध्या में ही रहने के लिये सहमत हो गई (२ २४, १४) । यह बताने हुये कि सीता के बीच जीवन दूभर हो जायगा, इन्होंने एक बार पुन वन में चलने का आग्रह किया (२ २४, १८-२०) । अन्ततोगत्या इन्होंने राम को वन जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उनका स्वस्त्ययन' मस्कार की व्यवस्था की (२ २४, ३२-३९) । स्वस्त्यन सस्कार करते हुये इन्होंने राम की श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया और उनकी रक्षा के लिये विभिन्न देवताओं का आवाहन किया (२ २५ १-४४) । 'कौमल्या वृद्धा मतापकथिता', (२ २६, ३१) । इन्हें अपने धार्मिकता का पालन करने के लिय एक सहस्र गाँव मिले थे (२ ३१, २२) । 'मत्स्विकी', (२ ३१, २३) । अपने वनवास के समय राम ने अपने माता के पास जाये ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के एक विलुप्त समुदाय को स्वर्ण-मुद्रायें देन के लिये कहा (२ ३२, २१-२२) । राजा दशरथ के दुलाने पर अन्य सपत्नियों के साथ ये भी राम को विदा करने के लिये दशरथ के भवन में गई (२ ३४, १३) । 'इय पानिक कौसल्या मम माना यशस्विनी । वृद्धा चाधुद्रशीला च न च त्वा देव गर्हते ॥', (२ ३८, १४) । सीता का प्रेमपूर्वक आलिङ्गन करते हुये इन्होंने उन्हें पातिव्रत धर्म पालन करने रहने का उपदेश दिया (२ ३९, १९-२५) । सीता का वचन सुनकर इनके नेत्रों में महसा दुःख और हर्ष के अश्रु बहने लगे (२ ३९, ३२) । सीता, राम, और लक्ष्मण ने इनको प्रणाम किया (२. ४०, २-३) । अयोध्यावासियों ने कहा कि इनका हृदय निश्चय ही लोहे का बना है क्योंकि तभी तो अपने पुत्र को वन जाने देस यह फट नहीं गया (२ ४०, २३) । जब राम का रथ उन लोगों को लेकर वन के लिये चला तो एक पागल स्त्री की भाँति यह भी पंदल ही विलाप करती हुई रथ के पीछे दौड़ पड़ी (२ ४०, ३९-४५) । जब दशरथ सूच्छिन हुये तो इन्होंने उनके दाहिने भाग को सहारा दिया (२ ४२, ४-१०) । राम के वन चले जाने पर दुःखित दशरथ ने द्वारपालों से अपने को कौसल्या के भवन में ले चलने के लिये कहा (२ ४२, २७-२९) । विलाप कर रहे राजा दशरथ ने समीप आकर ये भी व्यथित हो विलाप करने लगी (२ ४२, ३५) । अपने एकमात्र पुत्र के वन चले जाने पर ये दशरथ के सम्मुख धोर विलाप करने लगी (२ ४३, १-२१) । सुमित्रा के सान्त्वना भरे शब्दों से इन्हें कुछ शान्ति मिली (२ ४४, १-३१) । राम ने इनका स्मरण किया

(२ ४६, ६) । लक्ष्मण ने भी इनका स्मरण किया (२. ५१, १४-१५ १८) । राम ने सुमन्त्र से इनके पास अपना सन्देश भेजा (२ ५२, ३१) । राम ने, यह सोचकर कि कैकेयी उनकी माता कौसल्या को कष्ट पहुँचा रही होगी, दुःख भरे उद्गार प्रकट किये (२ ५३, १५-२४) । दशरथ की रािनियो ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि राम से वियुक्त हो कर भी ये कैसे जीवित हैं (२ ५७, २२) । सुमन्त्र द्वारा राम का सन्देश सुनकर दशरथ जब मूर्च्छित हो गये तब इन्होंने दशरथ को सहारा देते हुये उनसे कहा कि वे भयरहित होकर राम का समाचार पूछें (२ ५७, २८-३१) । इतना कह कर कौसल्या स्वयं मूर्च्छित हो गईं (२ ५७, ३२) । सुमन्त्र ने इनके लिये दिये गये राम के सन्देश को सुनाया (२ ५८, १७-१९) । दशरथ के विलाप करने हुये मूर्च्छित हो जाने पर इन को अत्यधिक भय हो गया (२ ५९, ३४) । धार धार, काँपते हुये कौसल्या भूमि पर गिर पड़ी और सुमन्त्र ने अपने को राम के पास ले चलने के लिये कहा (२ ६०, १-३) । सुमन्त्र ने इन्हे मानवना दी परन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ (२ ६०, ५-२३) । “मुख समृद्धि मे पले अपने दो पुत्रो और पुत्र वधू सीता को वनवास दे देने के लिये इन्होंने दशरथ की भर्त्सना और सीता के लिये चिन्ता प्रकट की । इन्होंने यह भी कहा कि एक बार भरत द्वारा सिंहासन का उपभोग कर लिये जाने पर राम उसे कदापि ग्रहण नहीं करेंगे । अन्त मे इन्होंने पति और पुत्र दोनों से वियुक्त हो जाने पर घोर विलाप किया (२ ६१, १-२६) । “किन्तु तत्काल यह अनुभव करके कि इन्होंने दशरथ का अपमान कर दिया है, ये—‘धर्मदरा नित्यम्’, ‘वत्सला परेषु अपि अनृशसा’,—शीघ्र दशरथ के पास गईं और उनके चरणो का स्पर्श कर कहा कि अत्यधिक दुःख-विह्वल हो जाने के कारण ही इनके मुख से ऐसे कटु शब्द निकल गये (२ ६२, ११-१८) । ‘सभायें हि गते रामे कौसल्या कोसलेश्वर । विवधुरमितापाङ्गी स्मृत्वा दुष्कृतमात्मन ॥’ (२ ६३, ३) । दशरथ की मृत्यु के समय ये उनके पास ही थी (२ ६४, ७६) । दशरथ की मृत्यु हो जाने पर पुत्रशोक से आत्रान्न कौसल्या मृतकी की भाँति श्रीहीन होकर पड़ी थी और प्रातःकाल समय से नहीं उठ सकी (२ ६५, १६-१७) । ये कर्कण वन्दन की तीव्र ध्वनि सुन कर उठी किन्तु फिर ‘हा नाथ !’ कह कर पुन पृथिवी पर गिर पड़ी (२ ६५, २१-२३) । छाती पीट-पीट कर घोर विलाप करने लगी (२ ६५, २९) । मृत राजा दशरथ के मस्तक की अपनी गोद मे रख कर इन्होंने कैकेयी के प्रति आशेषयुक्त वचन कहे और फिर स्वयं सती हो जाने का निश्चय प्रकट किया (२ ६६, २-१२) । मन्त्रियो ने इन्हे परिचारिकाओ द्वारा दशरथ के शव से दूर हटवा

दिया (२ ६६, १३)। भरत ने दूतो से 'आर्याधर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी', कौसल्या का समाचार पूछा (२ ७०, ८)। भरत ने कौंकेयी से कहा . 'कौसल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कौंकेयी को पाकर पुत्रशोक से पीड़ित हो गई, अतः अब उनका जीवित रहना अत्यन्त कठिन है।' (२ ७३, ८)। भरत ने कहा कि ये कौंकेयी को अपनी बहन के समान ही समझती थी (२. ७३, १०)। 'कौसल्या धर्मसयुक्ताम्', (२ ७४, १२)। 'एक पुत्रा च साध्वी', (२ ७४, २९)। भरत ने कौंकेयी को यह बताने का प्रयास किया कि उसने एकमात्र पुत्र को बन में भेज कर कौसल्या को किञ्चन कष्ट पहुँचाया है (२ ७४, १२-२९)। भरत की बाजी सुन कर इन्होंने उनमें मिलने की इच्छा प्रकट की (२ ७५, ५-६)। यह कांपते पैरों से भरत की ओर बढ़ी (२ ७५, ७)। भरत और शत्रुघ्न इनक गले से लग गये (२ ७५, ९)। अत्यन्त शोकविह्वल होकर इन्होंने भरत को निष्कण्ठक राज्य करने के लिये कहा (२ ७५, १०-१६)। 'भरत द्वारा द्रपथपूर्वक अपन को निर्दोष सिद्ध करने पर इन्होंने भरत से कहा 'तुम्हारे शत्रु पाने से मेरा दुःख और बढ़ रहा है। यह सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से सम्पन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतिष्ठ हो, अतः सुम्हें सन्मुखों का लोक प्राप्त हीगा।' इतना कहकर इन्होंने भरत को गोद में ले लिया और अत्यन्त दुःखी होकर पुनः फूट-फूट कर रोने लगी (२ ७५, ६०-६३)।' इन्होंने दशरथ के चिन्ता की परिष्कारा की (२ ७६, २०)। 'सानुक्रोशा वदाग्या च धर्मज्ञा च यस्तस्विनीम्। कौसल्या इरण याम् सा हि नोऽस्ति ध्रुवा गतिः ॥', (२ ७८, १५)। राम को लौटाने के लिये भरत के साथ यह भी बन गई (२ ८३, ६)। जब गुह की बातें सुन कर भरत मूर्च्छित हो गये तो। इन्होंने भी उनको सहारा दिया (२ ८७, ६)। इन्होंने भरत को अपनी गोद में धिपका लिया (२. ८७, ७)। 'तपस्विनी', (२. ८७, ८)। 'इन्होंने भरत से पूछा 'तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुँचा रहा है। मैं तुम्ही को देख कर जीवित हूँ। तुमने राम, लक्ष्मण और सीता के सम्बन्ध में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है।' (२ ८७, ९-११)।' भरत ने इन्हे सान्त्वना दी (२ ८७, १२)। भरत ने इन्हे भी यह कुत्त-समूह दिखाया जिस पर श्रीराम सोमे थे (२ ८८, २)। गुह की नाव पर भरत आदि के साथ यह भी बैठी (२ ९९, १३)। भरद्वाज के आश्रम से चलने के पूर्व इन्होंने सुमित्रा के हाथ का सहारा लेकर ऋषि को प्रणाम किया (२. ९२, १५-१६)। भरद्वाज से भरत ने इनका परिचय कराया ((२ ९२, २०-२२)। राम को देखने की आकांक्षा से यह प्रसन्नचित्त हो रथ पर बैठी (२ ९२, ३६)। राम ने भरत से इनका कुशल समाचार पूछा (२ १००, १०)। यमिष्ठ के साथ श्री

राम को देखने गई (२ १०४, १) : “मन्दाकिनी के तट पर राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देख कर इनकी आंखों से आसू की धारा बह चली । इन्होंने सुमित्रा से कहा कि लक्ष्मण इमी घाट में राम के लिये जल ले जाया करते होंगे । फिर भी, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण इन बनेसो के योग्य नहीं हैं (२ १०४ २-७) ।” “आगे चल कर इन्होंने राम द्वारा अपने पिता को दिये इगुर्दा फलों के पिण्ड को देखा जो दक्षिणाग्र कुण्ड पर रक्ता था । उस समय इन्होंने सुमित्रा आदि से कहा ‘दशरथ अनेक प्रकार के उत्तम भोग्य पदार्थों का भोग कर चुके हैं, अब उनके लिये इगुदी-फल का पिण्ड फेंके उपयुक्त हो सकता है । यह देख कर मुझे इस जनधुनि का स्मरण हो रहा है कि मनुष्य जो अप्र स्याता है, उसके देवता भी उमी जन्म को ग्रहण करते हैं ।’ (२ १०४, ८-१५) ।” राम को देख कर इनके नेत्रों से अध्रुओं की धारा बह निकली (२ १०४, १६-१७) । श्रीराम ने कौमत्या तथा अन्य माताओं को देखते ही उनके चरणों का स्पर्श किया, और कौसल्या आदि स्नेहवन् अपने हाथ से राम की पीठ से धूल पोछने लगी (२ १०४, १८-१९) । लक्ष्मण के प्रति भी इन्होंने वंसा ही व्यवहार किया (२. १०४, २०-२१) । सीता को अपने गने से लगाते हुये उनकी दशा पर अत्यन्त शोक प्रकट किया (२ १०४, २३-२६) । अत्यधिक शोकविक्षल होने के कारण ये राम के सम्मुख कुछ बोल नहीं सकीं, श्रीराम भी इन्हें तथा अन्य माताओं को प्रणाम करके रोते हुये अपनी कुटिया में चले गये (२ ११२, ३१) । सीताहरण के कारण विलाप करते हुये श्रीराम ने इनका स्मरण किया (४ १, ११२) । श्रीराम के अयोध्या लौटने पर ये रथ में बैठ कर उनके स्वागत के लिये आईं (६ १२७, १५) । इन्होंने वानर सिन्यो को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया (६ १२८, १८) । राघुध्न के राज्याभिषेक के समय उसमें सक्रिय सहयोग दिया (७ ६३, १६-१७) । इनकी मृत्यु (७ ९९, १५) ।

कौस्तुभ—एक मणि का नाम है जो सागर-मन्थन के समय सागर से प्रकट हुई थी (१ ४५, ३९) ।

क्रतु, मरीचि के बाद हुये एक प्रजापति का नाम है (३ १४, ८) । इल को पुरुषत्व प्राप्त कराने के सम्बन्ध में जब बुध अपने मित्रों से परामर्श कर रहे थे तो ये भी उनके आश्रय में उपस्थित हुये (७ ९०, ९) ।

क्रथन, इन्द्र के समान पराजयी और देवागूर सन्नाम के समय देवताओं की सहायता के लिये अग्नि देव द्वारा एक गन्धर्व-कन्या के गर्भ में उत्पन्न एक वानर मूषपति का नाम है । यह कुबेर के साथ ही बिहार परता हुआ उमी पर्वत पर रहता था जिस पर कुबेर का निवास था । यह अत्यन्त तेजस्वी और

बलवान या और आत्मप्रशंसा नहीं करता था (६ २७, २०-२३) ।

क्रोधन, रावण को युद्ध के लिये ललकारते रहनेवाले एक वानर वृषपति का नाम है जिसके पास ६० लाख वानर सैनिक थे (६ २६, ४२-४३) ।

क्रोधवशा, दक्ष की पुत्री का नाम है जो कश्यप को विवाहित थी (३ १४, १०-१२) । इसने कश्यप के पुत्र-सम्बन्धी वरदान को हृदय से ग्रहण नहीं किया (३ १४, १३) । इसने दस कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम इस प्रकार हैं मृगो, मृगमन्दा, हरि, भद्रमदा मातङ्गी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षणसम्पन्ना सुरसा, और वद्रुका (३ १४, २१-२२) ।

१. **क्रौञ्च**, एक वन का नाम है जो जनस्थान के दक्षिण तीन कोस की दूरी पर स्थित था (३ ६९, ४-५) । यह वन अनेक मैघों के समूह की भाँति श्याम तथा विभिन्न रंगों के सुन्दर पुष्पों से सुशोभित होने के कारण चारों ओर से हृषीकेशुल्ल प्रतीत होता था । इसके भीतर अनेक पशु-पक्षी निवास करते थे (३ ६९, ६) । सीता को सोजते हुये श्रीराम और लक्ष्मण इस वन में भी आये (३ ६९, ७-८) । शापग्रस्त यदु इसी वन में आकर रहने लगे (७ ५९, २०) ।

२. **क्रौञ्च**, एक पर्वत का नाम है जो कैलास के उस पार स्थित था । इसकी दुर्गम गुफाओं में देववरुण महर्षिगण निवास करते थे । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये शतवत्स तथा अन्य वानरों को यहाँ भेजा (४ ४३, २५-२७) । कानिश्येय ने अपनी शक्ति के प्रहार से इसमें एक छिद्र बना दिया था जिसमें से होकर पक्षी इस दुर्लभ पर्वत की पार करते थे (६ १२, ३३) ।

क्रौञ्ची, ताम्रा और करण्य की पुत्री का नाम है जिसने उत्तुओं को जन्म दिया (३ १४, १८) ।

चीरोद, क्षीर-सागर का नाम है जिसका अमृत प्राप्त करने के लिये देवों और असुरों ने मन्थन किया था (१ ४५, १७) । असह्य क्षात्र यहाँ से आये (४ ३७, २५) । बादलों की आभावाला यह समुद्र अपनी उठती हुई तरंगों से ऐसा प्रतीत होता था मानो मोतियों का हार पहन रक्खा है—सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये विन्न को यहाँ भेजा था (४ ४०, ४३-४४) । वात्सिन् के शोध से बचने के लिये आगते हुये सुग्रीव इसके समीप भी आये थे (४ ४६, १५) । सुरभि नामक गाय के दूध की धारा से ही इस सागर का निर्माण हुआ है (७ २३, २१) ।

ख

खर, जनस्थान के एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने वध किया था (१ १, ४७) । वात्सीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्व-दर्शन कर लिया था (१ ३, २०) । रण में प्रख्यात यह चीर राक्षस सूर्यपत्नी का भ्राता था

(३ १७, २२) । शूर्पणखा ने जनस्थान में श्रीराम आदि के आगमन का समाचार देते हुये इसे अपने क्रुम्प बना दिये जाने का कारण बताया (३ १८, २५-२६) । शूर्पणखा की बात सुन कर यह क्रोधोन्मत्त हो उठा और यह पूछते हुये कि किसने उसे इस प्रकार दुरूप बना दिया है, उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेन का वचन दिया (३ १९, १-१२) । इसने १४ राक्षसों को उन तीन व्यक्तियों का मृतक शरीर लाने के लिए भेजा जिनके शरीर के रक्त का शूर्पणखा पान करना चाहती थी (३ १९, २१-२६) । शूर्पणखा को अधिक विलाप करते देखकर इमने कारण पूछन हुये उसे सात्वना देन का प्रयास किया (३ २१, १-५) । शूर्पणखा ने इसे युद्ध के लिये उत्तेजित किया (३ २१, ६-२१) । शूर्पणखा के निरस्तार करने पर इमने राम और लक्ष्मण का वध करके उनका गरम गरम रक्त शूर्पणखा को देने का वचन दिया (३ २२ १-५) । इसके मुख से निकली हुई वान को मुनकर शूर्पणखा को अत्यन्त प्रसन्नता हुई और उमने राक्षसों में श्रेष्ठ अपने इम भ्राता की भूरि-भूरि प्रशंसा की (३ २२, ६) । शूर्पणखा की प्रशंसा से उत्साहित होकर इमने अपने सेनापति द्रुपण से अपनी १४,००० राक्षसों की शक्तिशाली सेना तथा अपने रथ को तैयार करने के लिये कहा (३ २२, ७-११) । जब इसका रथ तैयार हो गया तब उस पर आरूढ़ होकर इसने अपनी सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी (३ २२, १५-१६) । कुछ समय तक इसका रथ, सेना के पीछे पीछे चलता रहा (३ २२, २१) । तदनन्तर इमने अपने सारथि को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी (३ २२, २२-२४) । मार्ग में भयंकर अपराक्तियों को देख कर पहले तो यह कुछ विचलित हुआ, किन्तु बाद में उनकी परवाह न करते हुये इसने अपनी सेना के उत्साहवर्द्धन के निमित्त अपने शौर्य की चर्चा की (३ २३, १६-२५) । राम के समीप पहुँच कर इमने राम को युद्ध के लिये सम्रद्ध देखा (३ २५, १) । अपनी विशाल सेना से घिरे हुये इमने स्वयं राम पर आक्रमण किया (३ २५, २-६) । जब द्रुपण तथा उसके सैनिकों का वध हो गया तो इसने क्रोध में आकर अपने सेनापतियों को विविध प्रकार के आयुधों से राम पर आक्रमण करने के लिये कहा (३ २६ २३-२५) । ऐसा कहकर अपने सेनापतियों सहित यह श्रीराम की ओर बढ़ा (३ २६, २६-२८) । राम की भीषण संहार-शैली के कारण १४,००० राक्षसों में से केवल यह और त्रिशिरा ही बचे रह (३ २६, ३५-३७) । अनेक ही श्रीराम से युद्ध करने के लिये बढ़ा (३ २६, ३८) । जब त्रिशिरा ने स्वयं राम से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की तो इमने उसे आज्ञा दे दी (३ २७, ६) । त्रिशिरा की मृत्यु के बाद इसने अपने सैनिकों को एतन्न करके स्वयं आक्रमण

का नेतृत्व किया (३ २७, २०) । राम के पराक्रम को देखकर इसका हृदय भयभीत हो उठा (३ २८, १-३) । इसने विविध अस्त्रों से राम पर आक्रमण करते हुये अनेक प्रकार से अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया (३ २८, ४-५) । श्रीराम और इसके द्वारा छोड़े गये बाणों से आकाश आच्छादित हो गया (३ २८, ८-९) । इसने नालीक, नाराच, और विकर्णि आदि बाणों द्वारा राम पर आघात किया (३ २८, १०) । उस समय यह पाण्डवारी यमराज के समान भयकर प्रतीत हो रहा था (३ २८, ११) । राम को श्राव्य देखकर इसने उनका धनुष काट दिया और उसके बाद एक बाण से उनके हृदय को बीध कर हृषोल्लास से उछलने लगा (३ २८, १२-१७) । इसने राम के कवच को काट दिया (३ २८, १८) । राम ने इसका ध्वज काट कर गिरा दिया (३ २८, २२) । इसने श्रीराम की छाती में चार बाण मारे (३ २८, २४) । राम ने छ बाणों से इसे आहत किया (३ २८, २६-२७) । राम ने इसके सारणि, रण के घोड़ों, और रथ को भी काट गिराया (३ २८, २८-३१) । उस समय अपनी गदा लेकर यह धरती पर ही खड़ा होकर युद्ध के लिये उद्यत हुआ (३ २८, ३२) । राम द्वारा कठौन बाणों में सम्बोधित किये जाने पर (३ २९, २-१४) इसने उसकी उपेक्षा करते हुये द्रोघपूर्वक उन्हें युद्ध के लिये ललकारा (३ २९, १५-२४) । ऐसा कह कर इसने श्रीराम पर अपनी गदा फेंकी (३ २९, २५) । जब राम ने इसके कुट्टियों की चर्चा करते हुए इसे फटकारा तो इसने उनके शब्दों की उपेक्षा करते हुये उन पर एक विशाल साल-वृक्ष से प्रहार किया (३ ३०, १३-१८) । राम की भीषण बाण-वर्षा से इसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी (३ ३०, २०-२१) । यह राम की ओर क्षण (१ ३०, २२) । श्रीराम ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त एक बाण से इसके हृदय को बीध कर इसका वध कर दिया (३ ३०, २४-२८) । रावण ने इसे १४,००० राक्षसों की सहायता से दण्ड-कारण्य पर शासन करने के लिये निपुक्त किया था (७. २४, ३६-४२) ।

ग

गङ्गा, उत्तर भारत की प्रख्यात नदी का नाम है । शृङ्गवेरपुर नामक नगर इसके तटपर स्थित था (१ १, २९) । तमसा नदी इससे बहुत दूर नहीं थी (१ २, ३) । श्रीराम द्वारा इन नदी को पार करने की घटना का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, १५) । गङ्गा और सरयू नदी के सगम पर अनेक ऋषियों के आश्रम थे 'तो प्रयान्ती महावीर्यो दिव्या त्रिपथता नदीम् । दरदाते सतस्तत्र सरय्या सगमे शुभे ॥', (१ २३, ५-६) । पूर्वकाल में इसी स्थान पर भगवान् स्याणु (शिव) तपस्या करते थे (१ २३,

१०) । शिव ने यही कन्दर्प को भस्म कर के राख बना दिया था (१ २३, १०-१४) । राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र ने नौका द्वारा इम नदी को पार किया था (१ २४, ४) । राम और लक्ष्मण ने इसे प्रणाम किया (१ २४, १०) । यह विश्वामित्र के सिद्धाश्रम के उत्तर में स्थित थी (१ ३१, १५) । विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने मुनिसेवित, सरिताओ में श्रेष्ठ, हंसों और सारसों से सेविन, पुण्यमलिला जाह्नवी (गङ्गा) का दर्शन किया (१ ३५, ६-७) । "महर्षि विश्वामित्र ने इमी नदी के तट पर निवास करके विधिवन् स्नान तथा पितरो का तर्पण किया । तदनन्तर अग्निहोत्र करके इन्होंने हृदिव्य का भोजन किया और उनके बाद गङ्गा के तट पर महर्षियों के साथ बैठ गये (१ ३५, ८-१०) ।" राम के पूछने पर विश्वामित्र ने गङ्गा की उत्पत्ति की कथा का वर्णन किया (१ ३५, १०-१२) । गङ्गा हिमवान और मेना की ज्येष्ठ पुत्री थी, जिनके रूप की भूलतल पर कोई तुलना नहीं थी (१ ३५, १३-१६) । कुछ काल के पश्चात् देवकार्य की सिद्धि के लिये देवताओं ने गङ्गा को, जो आगे चलकर त्रिपयगा नदी के रूप में स्वर्ग से अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमवान् से माँगा (१ ३५, १७) । त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से हिमवान् ने स्वच्छन्द पथ पर विचरनेवाली अपनी लोहपावनी पुत्री गङ्गा को देवताओं को दे दिया (१ ३५, १८) । गङ्गा को प्राप्त करके देवता प्रसन्न हो चले गये (१ ३५, १९) । 'एते ते सैलराजस्य मुने लोदनमसृष्टे । गङ्गा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च राघव ॥', (१ ३५, २२) । 'मुरलोक समाह्वया विपाया जलवाहिनी', (१ ३५, २३) । 'कथं गङ्गा त्रिपयगा विश्रुता सरिद्रुत्तमा', (१ ३६, ४) । ब्रह्मा ने बताया कि देवों के सेनापति का जन्म गङ्गा के गर्भ से होगा (१ ३७, ७-८) । "अग्नि के अनुरोध पर इन्होंने शिव के तेज को धारण करना स्वीकार कर लिया । तदनन्तर जब इन्होंने दिव्य रूप धारण कर लिया तो अग्नि ने इनको सब ओर से उस द्रव-तेज से अभिषिक्त कर दिया जिससे इनके समस्त स्रोत परिपूर्ण हो गये (१ ३७, १२-१४) ।" उस समय इन्होंने अग्नि से कहा 'आपके द्वारा स्थापित किये गये इस तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ', (१ ३७, १५) । तदनन्तर अग्नि के आदेश पर इन्होंने अपने गर्भ को हिमवान् पर्वत के पार्श्वभाग में स्थापित कर दिया (१ ३७, १७-१८) । गरुड ने अगुमान् से उनके चाचाओं का गङ्गा के जल से तर्पण करने के लिये कहा जिसमें उन लोगों को स्वर्ग प्राप्त हो (१ ४१, १९-२०) । गङ्गा को भूल पर लाने का उपाय सोचने में मगर असमर्थ रहे (१. ४१, २५) । इन्हें भूल पर लाने के उद्देश्य से भगीरथ ने धीरे तपस्या की (१. ४२, १२) । भगीरथ ने ब्रह्मा से

यह वरदान माँगा कि मगर पुत्रों की भस्म गङ्गा के जल से सिंचित हो (१ ४२, १८-१९) । भगीरथ की बात सुनकर ब्रह्माजी ने उससे कहा कि गङ्गा के गिरने का वेग यह पृथिवी नहीं सहन कर सकेगी, अतः उन्हें शिव को गङ्गा को धारण करने के लिये तैयार करने का परामर्श दिया (१ ४२ २३-२४) । राजा भगीरथ से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने गङ्गा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिये कहा (१ ४२, २५) । ज्योंही शिव ने गङ्गा को अपने मस्तक पर धारण करने की स्वीकृति दे दी, त्यों ही सर्वलोक नमस्कृता हैमवती गङ्गा विशाल रूप धारण करके अत्यन्त दुःसह वेग के साथ आकाश से शिव के मस्तक पर गिर पड़ी (१ ४३, ३-५) । उस समय गङ्गा ने यह विचार किया था कि वे अपने दुर्घर्ष वेग से शकर को लेकर पाताल में प्रवेश कर जायेंगी (१ ४३, ६) । परन्तु इनके अनिष्टाय को जानकर शिव ने इन्हें अपने जटा जाल में ही वर्षों तक उलसा रक्खा (१ ४३, ७-९) । भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने गङ्गा को विन्दु-सरोवर में छोड़ दिया (१ ४३, १०-११) । वहाँ झूटते ही गङ्गा की मात धारण हो गई, जिनमें से ह्यादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर, तथा सुचक्षु, सीता और सिन्धु पश्चिम दिशा की ओर चली गईं, जब कि मातृवी धारा भगीरथ के पीछे-पीछे चलने लगी (१. ४३, १०-१४) । शिव के मस्तक से गङ्गा की वह जलराशि महान कल-कल नाद के साथ तीव्र गति से प्रदाहिन हुई (१ ४३, १६) । मत्स्य, रुच्छप, और शिशुमार शृण्ड के शृण्ड उसमें गिरने लगे (१ ४३, १७) । उन समय ऋषि, गन्धर्व, यक्ष, सिद्ध और देवता विभागों, घोड़ों और हाथियों पर बैठकर आकाश से पृथिवी पर आई हुई गङ्गा को देखने लगे (१ ४३, १८-२०) । गङ्गा की वह धारा कही तीव्र, कही टेढ़ी, और कही चौड़ी होकर, कही नीचे की ओर और कही ऊपर की ओर, तथा कही समतल भूमि से होकर बह रही थी (१ ४३, २३-२६) । उस समय भूतलवासी ऋषि और गन्धर्व भगवान शिव के मस्तक से गिरे उस जल को पवित्र समझ कर उसमें आचमन करने लगे (१ ४३, २७) । जो शापभ्रष्ट होकर आकाश में पृथिवी पर आ गये थे वे गङ्गा के जल में स्नान कर के निष्पाप हो पुनः अपने अपने लोकों को चले गये (१ ४३, २८-२९) । उस प्रवाशमान जल के सम्पर्क से आतन्द्रित हुये सम्पूर्ण जगत् को सदा के लिये प्रसन्नता हुई और सभी लोग गङ्गा में स्नान करके पापहीन हो गये (१ ४३, ३०) । "उस समय भगीरथ का रथ आगे-आगे चल रहा था, उसके पीछे गङ्गा थी, और देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, विन्नर, नाग, सर्प, तथा अम्बरार्यो गंगा के साथ चल रहे थे । सब प्रकार के

जल जन्तु भी गङ्गा की जलराशि के साथ सानन्द चल रहे थे (१ ४३, ३१-३३) ।" गङ्गा अपने जल प्रवाह से जल्लु के यज्ञ मण्डप को बहा ले गई जिस पर कुपित होकर उन्होंने गङ्गा के समस्त जल को पी लिया (१ ४३, ३४-३५) । जब देवताओं, गन्धर्वों, और ऋषियों ने गङ्गा को उनकी (जल्लु की) पुत्री बना उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने अपने कान के छिद्रों द्वारा गङ्गा को पुनः प्रकट कर दिया—इसीलिये गङ्गा का नाम जाह्नवी भी पडा (१ ४३, ३५-३८) । वहाँ से पुनः भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई गङ्गा ने सगर पुत्रों द्वारा खोदे गये रसातल के मार्ग में प्रवेश करके सगर पुत्रों की भस्म-राशि को आप्लावित कर दिया जिससे वे सभी राजकुमार निष्पाप हो कर स्वर्ग पहुँच गये (१ ४३, ३९-४३) । सगर पुत्रों की भस्म-राशि जब गङ्गा के जल से आप्लावित हो गई तब वहाँ भगीरथ के सम्मुख ब्रह्मा उपस्थित हुये (१ ४४, २) । ' ब्रह्मा ने गङ्गा को भगीरथ की ज्येष्ठ पुत्री कहते हुए उनका नाम भागीरथी रक्खा । ब्रह्मा ने कहा कि त्रिपयगा, दिव्या, और भागीरथी, इन तीनों नामों से गङ्गा की प्रसिद्धि होगी (१ ४४, ५-६) ।" 'गङ्गा पर्ययता', (१ ४४, ९) । 'गङ्गावतरणम्' (१ ४४, १३) । 'गङ्गा', (१ ४४, २०) । 'गङ्गावतरण शुभम्', (१ ४४, २२) । श्रीराम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने गङ्गा पार की (१ ४५, ९) । गङ्गा का वर्णन (२ ५०, १२-२६) । 'तराम जाह्नवी सौम्य शीघ्रगा सागरगमाम्', (२ ५२ ३) । सीता और लक्ष्मण ने इन्हें प्रणाम किया (२ ५२, ७९) । सीता ने गङ्गा से प्रार्थना की (२ ५२, ८३) । 'ततस्त्वा देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता । यद्ये प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी ॥', (२ ५२, ८५) । 'अनघा', (२ ५२, ९१) । निर्वासित राम, सीता, और लक्ष्मण ने ऋङ्गवेरपुर के निकट गङ्गा को पार किया (२ ५२, ९२) । 'महानदीम्', (२ ५२, १०१) । राम इत्यादि उस प्रदेश की ओर बड़े जहाँ गङ्गा और यमुना का सगम था (२ ५४, २) । गङ्गा और यमुना की धाराओं के मिलने से उत्पन्न शब्द को मुनकर श्रीराम ने यह जान लिया कि वे जोग भ्रम दोनों नदियों के सगम पर पहुँच गये हैं (२ ५४, ६) । सगम पर ही महर्षि भरद्वाज का आश्रम स्थित था (२ ५४, ८) । 'अवकाशो त्रिवक्तोऽय महानद्यो ममागम । पुण्यरश्च रमणीयश्च वमत्विह भवान् सुखम् ॥', (२ ५४ २२) । केकय देश को भेजे गये चमिष्ठ के दूतों ने हस्तिनापुर के निकट गङ्गा को पार किया (२ ६८, १३) । केकय से लौटते समय भरत गङ्गा और सरस्वती के सङ्गम से होकर आये थे (२ ७१, ५) । भरत ने प्राग्ध के निकट गङ्गा को पार किया (२ ७१, १०) । भरत द्वारा बनवाया गया राजमार्ग गङ्गा के तट से होकर गया था

(२ ८०, २१) । चित्रकूट जाने समय भरत ने गङ्गा के तट पर एक दिन विश्राम किया (२ ८३, २६) । भरत ने गुह की सहायता से गङ्गा को पार किया (२ ८९, २१) । चित्रकूट से लौटते समय भरत ने गङ्गा को पुन पार किया (२ ११३, २१-२२) । सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने विनन को गङ्गा के क्षेत्र में भेजा (४ ४०, २०) । जब श्रीराम के सम्मुख मूर्त्तिमान सागर उपस्थित हुआ तो उसके साथ गङ्गा आदि नदियाँ भी थी (६ २२, २२) । राम का पुण्यक विमान गङ्गा के ऊपर से होकर गया (६ १२३, ५१) । 'दशैव च सहस्राणि योजनाना तर्षव च । गङ्गा यत्र सरिच्छ्रेष्ठा नागा वै कुमुदादय ॥' (७ २३घ, ८) । 'गङ्गातोयेषु श्रोद्धन्ति पुण्य वर्षमिह सर्वज्ञः', (७ २३घ, ९) । 'अष्टम वायुमार्गं तु यत्र गङ्गा प्रतिष्ठिता आकाशागङ्गा विन्याता आदित्यपदसंस्थिता ॥', (७, २३घ, १४) । सीता को बन में छोड़ने के लिये ले जाते समय लक्ष्मण ने सीता के साथ गङ्गा को पार किया (७ ४६, ३३) ।

गज—इन्होंने सुग्रीव के अमिके में भाग लिया था (४ २६, ३५) । दिक्खिन्धा जाते समय लक्ष्मण ने मार्ग में इनके अत्यन्त सुन्दर भवन को देखा (४ ३३, ९) । इन बलवान बोर ने सुग्रीव के पास चीन बरोड वानर भेजे थे (४ ३९, २६) । सीता की खोज के लिये सुग्रीव इन्हें दक्षिण दिशा में भेजना चाहते थे (४ ४१, ३) । पानी की खोज में हनुमान् आदि ने साथ इन्होंने श्लक्षवित्र नामक गुफा में प्रवेश किया (४ ५०, ५-८) । जब अज्ञेय ने वानरो से समुद्र लांघने की उनकी शक्तियों के सम्बन्ध में पूछा तो इन्होंने अपनी शक्ति दस योजन बताया (४ ६५, २-३) । राम की वानरी सेना के एक भाग की रक्षा का भार इन पर भी था (६ ४, ३४) । इन्होंने अज्ञेय के नेतृत्व में दक्षिणी फाटक पर युद्ध किया (६ ४१, ३९-४०) । अपनी सेना की रक्षा करते हुये ये दायर से उधर दौट रहे थे (६ ४२, ३१) । इन महाबली ने तपन से द्वन्द्व युद्ध किया (६ ४३, ९) । ये वानर-सेना की अत्यन्त सतर्कतापूर्वक रक्षा कर रहे थे (६ ४७, २-४) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४४) । राम की सहायता के लिये ही देवनाभो ने इनकी सृष्टि की थी (७ ३६, ५०) ।

गन्धमादन, कृवेर-पुत्र एक तेजस्वी वानर का नाम है (१. १७, १२) । इमने सुग्रीव के राज्याभिषेक-समारोह में भाग लिया था (४ २६, ३४) । सुग्रीव के धामन्त्रण पर यह बरोडो वानरो को साथ लेकर आया (४ २९, २९) । सीता की खोज के लिये सुग्रीव इसे दक्षिण दिशा में भेजना चाहते थे (४ ४१, ४) । सीता की खोज के लिये एक बार पुन दक्षिणी क्षेत्रों में जाने

के अङ्गद के प्रस्ताव का इसने समर्थन किया (४ ४९, ११-१४) । इसने एक बार पुन विन्ध्य क्षेत्रों के वनों तथा रजन पर्वत पर सीता की उस समय तक खोज की जब तक भूल-प्यास से थस्त होकर थान्त नहीं हो गया (४ ४९, १५-२०) । जल की खोज से अन्य वानरों सहित इसने भी ऋक्ष बिल नामक गुफा में प्रवेश किया (४ ५०, १-८) । सागर-लङ्घन की शक्ति के सम्बन्ध में अङ्गद द्वारा पूछने पर इसने अपनी पचास योजन तक बूढ़ने की शक्ति बताई (४ ६५, ६) । इसे वानर-सेना के वाम भाग की रक्षा का भार सौंपा गया 'गन्धहस्तीव दुर्वपेस्तरस्वी गन्धमादन । यातु वानरवाहिन्या सय्य पार्श्वमविच्छिनः ॥' (६ ४, १८, देखिये ६ २४, १६ भी) । सेना की रक्षा करते हुये यह श्पर में उभर दौड़ रहा था (६ ४२, ३१) । इसने कुम्भवर्ण पर आक्रमण किया किन्तु स्वयं आहत हो गया (६ ६७, २४-२८) । इन्द्रजित् ने इसे आहत किया (६ ७३, ४३) । इसने अन्य तीन वानरों के साथ इन्द्रजित् के रथ के अश्वों को मार कर रथ को भी घबस्त कर दिया (६ ८९, ४८-५१) । राम ने इसका आदर सत्कार किया (७ ३९, २०) ।

गन्धर्व, (बहु०)—ये दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में उपस्थित हुये थे (१ १५, ४) । इन लोगों ने रावण के अत्याचारों के विरुद्ध ब्रह्मा से शिकायत की (१ १५, ६-११) । ब्रह्मा ने रावण को यह वरदान दे रक्खा था कि वह किसी गन्धर्व के द्वारा नहीं मारा जा सकता (१ १५, १३) । रावण ने इन पर भोषण अत्याचार किया (१ १५, २२) । जब ये लोग नन्दनवन में क्रीडा कर रहे थे तब रावण ने इन लोगों को स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया (१ १५, २३) । ये लोग विष्णु की गरण में गये (१ १५, २५) । इन लोगों ने विष्णु की स्तुति की (१ १५, ३२) । ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि वे गन्धर्व-कन्याओं से वानर-सन्तान उत्पन्न करें (१ १७, ५) । राम इत्यादि के जन्मोत्सव के समय इन लोगों ने भी प्रसन्न होकर गायन किया (१ १८, १७) । ये लोग जनक के धनुष की प्रत्यक्षा बदने में उत्तम रहे (१ ३१, ९) । नगर-पुत्रों के भूमि खोदने से भयभीत होकर देवताओं सहित इन लोगों ने भी ब्रह्मा के पास जाकर उनसे नगर-पुत्रों के विरुद्ध शिकायत की (१. ३९, २३-२६) । गङ्गावतरण के समय ये लोग भी उपस्थित थे (१ ४३, १७) । इन लोगों ने गङ्गा के पवित्र जल का स्पर्श किया (१, ४३, २५) । गङ्गा की धारा के साथ-साथ ये लोग भी बले (१ ४३, ३२) । अहम्या के शाप-मुक्त होने पर ये लोग भी प्रसन्न हुये (१ ४९, १९) । वनिष्ठ का आश्रम इन लोगों के निवास से सुशोभित हो रहा था (१ ५१, २४) । जब विश्वामित्र ने वनिष्ठ पर प्रहार करने के लिये ब्रह्मास्त्र का उन्धान किया

तो ये लोग अत्यन्त भयभीत हो उठे (१ ५६, १५) । इन लोगों ने ब्रह्मा के पास जाकर उनसे विश्वामित्र का भरोसा पूर्ण करने की प्रार्थना की (१. ६५, ९-१०) । राम के विदाहोत्सव के समय इन लोगों ने गायन किया (१. ७३, ३५) । राम और परशुराम के द्वन्द्व-युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी एकत्र हुये (१ ७६, १०) । जब दशरथ ने कौशिकी को बर देने की प्रतिज्ञा की तो उन्ने गन्धर्वों से भी साक्षी रहने के लिये कहा (२ ११, १४-१६) । भरत की सेना के मत्कार में भरद्वाज ने इन लोगों की सहायता का भी आवाहन किया था (२ ९१, १६) । भरद्वाज के आश्रम में इन लोगों ने गायन किया (२ ९१, २६) । दूसरे दिन प्रातःकाल महर्षि भरद्वाज से आज्ञा लेकर ये लोग अपने लोक चले गये (२ ९१, ८२) । ये लोग अगस्त्य के आश्रम को सुशोभित करते थे (३ ११, ९०) । सार के विरुद्ध युद्ध के समय इन लोगों ने श्रीराम की सफलता के लिये प्रार्थना की (३ २३, २७-२९) । सार और राम के अद्भुत युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (३ २४, १९-२३) । सार की सेना के प्रथम आक्रमण से आहन श्रीराम को देखकर इन लोगों को अत्यन्त दुःख हुआ (३ २५ १५-१६) । ये लोग रावण को युद्ध में पराजित नहीं कर सके थे (३ ३२, ६) । रावण को यह बरदान था कि उसनी गन्धर्वों के हाथ से मृत्यु नहीं हो सकेगी (३ ३२, १८-१९) । रावण उन कुञ्जों के निवृत्त थाया जिनमें गन्धर्व गण विहार करते थे (३ ३५, १४ २०) । ये लोग जनग्यान को सुशोभित करते थे (३ ६७, ६) । पश्चिमी समुद्र के बीच में स्थित पारियाय पर्वत पर चीवीस करोड़ गन्धर्व—तपस्विन, अग्निसकाशा, घोरा, पापकर्मण, पावकचिप्रतीकाशा—निवास करते थे (४. ४२, १९-२०) । 'दुरासदा हि ते वीरा सत्त्वन्तो महाबला ॥ फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमनिष्क्रमा ।', (४ ४२, २१-२२) । सोमाश्रम इन लोगों से सेवित था (४ ४३, १४) । ये उत्तर कुरु क्षेत्र में निवास करते थे (४ ४३, ४९) । जब हनुमान् समुद्र लांघने के लिये महेन्द्र गिरि पर स्थित हुये तो मधुपान के ससर्ग से उड़न चित्तवाले गन्धर्वों ने उस पर्वत को छोड़ दिया (४ ६७, ४५) । महेन्द्र गिरि इनसे सेवित था (५ १, ६) । जब हनुमान् समुद्र को लांघ रहे थे तो उस समय इन लोगों ने उन पर पुण्य-वर्षा की (५ १, ८४) । हनुमान् के बल-गराकाय की परीक्षा लेने के लिये इन लोगों ने सुरसा से हनुमान् का मार्ग अवरोध करने के लिये कहा (५. १, १४४-१४७) । ये लोग अन्तरिक्ष में विचरण करते थे (५ १, १७८) । हनुमान् के द्वारा लङ्का को भस्म हुई देखकर इन लोगों ने आश्चर्य किया (५ ५४, ५०) । लङ्का में हनुमान् की सफलता पर ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (५. ५४, ५२) ।

यें लोग अरिष्ट पर्वत पर निवास करते थे (५ ५६, ३५) । जब हनुमान् के भार से यह पर्वत घँसने लगा तो ये लोग उसपर मे हट गये (५ ५६, ४७) । इनकी आकाशरूपी समुद्र के कमल के साथ तुलना की गई है (५ ५७, १) । जब सागर पर पत्थरो का पुल बन गया तो ये लोग भी उभे देखने के लिये आये (६ २२, ७५) । जब राम ने कुम्भकर्ण का वध कर दिया तो ये लोग अत्यन्त हर्षित हुये (६ ६७, १७३) । मकराक्ष और राम के अद्भुत युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ ७९, २५) । जब इन्द्रजित् लक्ष्मण के साथ युद्ध करने लगा तो इन लोगो ने जगत् के कल्याण के लिये प्रार्थना की (६ ८९, ३८) । ये लोग इन्द्रजित् के विरुद्ध युद्ध कर रहे लक्ष्मण की रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६४) । इन्द्रजित् का वध हो जाने पर ये लोग अत्यन्त हर्षित हुये (६ ९०, ७६) । उस समय ये लोग हर्षित होकर नृत्य करने लगे (६ ९०, ८६) । इन्द्रजित् की मृत्यु हो जाने पर इन लोगो ने शान्ति की साँस ली (६ ९०, ८९) । इन लोगो ने श्रीराम के पराक्रम की सराहना की (६ ९३, ३६) । जब रथासीन रावण ने युद्ध करने के लिये श्रीराम पँदल खड़े हुये तो इन लोगो ने उभे बरावरी का युद्ध नहीं माना (६ १०२, ५) । जब रावण ने श्रीगण को सट्टो वाणो से पीड़ित कर दिया तब ये लोग अत्यन्त दुःखी हो उठे (६ १०२, ३१) । राम और रावण के अन्तिम युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ १०२, ४५, १०६, १८) । जब श्रीराम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो इन लोगो ने गायो और ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिये प्रार्थना की (६ १०७, ४८-४९) । इन लोगो ने राम और रावण के अन्तिम युद्ध को देखा (६ १०७, ५१) । रावण-वध का दृश्य देखने के पश्चात् उसी की शुभ चर्चा करते हुये ये लोग अपने विमानो से अपने स्थानों को लौट गये (६ ११२, १-४) । इन लोगों ने सीता के अभि मे प्रवेश के दृश्य को देखा (६ ११६, ३१ ३३) । श्रीराम के राज्याभिषेक के समय इन लोगो ने गायन किया (६ १२८, ७२) । जब विष्णु ने माल्यदान आदि राक्षसो का वध करने के लिये प्रस्थान किया तो इन लोगो ने विष्णु की स्तुति की (७ ६, ६७) । मन्दाकिनी का तट इनसे सेवित था (७ ११, ४३) । यशों और राक्षसों के युद्ध के समय ये भी उपस्थित थे (७ १५, ६) । यम और रावण के सपर्य को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (७ २२, १७) । जब इन्द्र रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये निकले तो ये लोग अनेक प्रकार के वाद्ययंत्र बजाने लगे (७ २८, २६) । अपनी स्त्रियों के साथ ये लोग विष्णु-भवन पर आये (७ ३१, १६) । जब वायु ने बहना बन्द कर दिया तो ये लोग ब्रह्मा की शरण मे गये (७ ३५, ५३) । वायु को

प्रसन्न करने के लिये ये लोग भी ब्रह्मा के साथ गये (७ ३५, ६४) । अपने आहत पुत्र को मोद में लिये हुये वायु को देखकर इन लोगों को उन पर अत्यन्त दया आई (७ ३५, ६५) । इन लोगों ने तारुद द्वारा यणित कथा को सुना (७ ३७घ, ६) । लवणामुर के प्रहार से शत्रुघ्न के गिरने पर इन लोगों में महान् ह्रादाकार मन गया (७ ६९, १७) । जब लवणामुर के वध के लिये शत्रुघ्न ने एक दिव्य बाण निकाला तो देवता, असुर, गन्धर्व, और मुनि आदि सहित समस्त जगत् अस्वस्थ होकर ब्रह्मा के पास गया (७ ६९, १६-२१) । देवता, दैत्य, गन्धर्व आदि सभी अत्यन्त भयभीत होकर सदा राजा इल का स्तुति-पूजन किया करते थे (७ ८७, ५-६) । सिन्धु नदी के दोनों तटों पर बसे गन्धर्वों की नगरी पर तीन करोड़ गन्धर्व शासन करते थे (७ १००, १०-१२) । "अपने देश की रक्षा के लिये इन लोगों ने भरत और युधाजित के विरुद्ध युद्ध किया । इस युद्ध में भरत आदि ने समस्त गन्धर्वों का सहार करके इनके देश पर अपना अधिकार कर लिया (७ १०१, २-९) ।" राम को स्वर्गाभिमुख जानकर अनेक गन्धर्व-बालक उनका (राम का) दर्शन करने के लिये आये (७ १०८, १९) । जब श्रीराम परमवाम जाने के लिये सरयू-तट पर आये तो ये लोग भी वहाँ उपस्थित हुये (७ ११०, ७) । विष्णु के लौटने पर इन लोगों ने हर्ष प्रकट किया (७ ११०, १४) ।

गन्धर्वों, शोधवना-पुत्री सुरभि की द्वितीय पुत्री का नाम है (३ १४, २७) । यह अश्वों की माता हुई (३, १४, २८) ।

गय, एक क्षत्रिशाही राजा का नाम है जिसने रावण की अधीनता स्वीकार कर ली थी (७ १९, ५) ।

गया, एक देश का नाम है जिसके राजा गय थे । गय ने इस देश में यज्ञ करते हुये पितरों के प्रति यह कथावत कही थी 'वेदा पुत्र नामक तरु के पिता का उद्धार करता है, इसीलिये उसे पुत्र कहते हैं । वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है । बहुत से गुणवान और बहुयुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिये । सम्भव है प्राप्त हुये इन्हीं पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे ।' (२ १०७, ११-१३) ।

गरुड—दशरथ का यज्ञकुण्ड एव त्रिभुज के आकार का बना था जो सुवर्ण-मय पक्षीवाले गरुड के समान प्रतीत हो रहा था (१ १४, २९) । वनतेय (गरुड) पर जाहूँ होकर विष्णु महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में पधारें (१ १५, १७) । सगर की दूमरी पत्नी का नाम सुमति था जो अरिष्टनेमि कश्यप की पुत्री और गरुड की बहन थी (१, ३८, ४) । पाताल प्रदेश में अशुमान ने वायु के समान वेगशाली पक्षिराज गरुड को देखा जो सगरपुत्रों के

मामा ये (१ ४१, १६) । इन्होंने अशुमान को गङ्गा के जल से ही अपने पूर्वजों का तर्पण करने का परामर्श दिया (१ ४१, १७-२१) । कौस्तुभ ने राम से कहा 'पूर्वकाल में विनता ने अमृत लाने की इच्छावाले अपने पुत्र गरुड के लिये जो मंगल कृत्य किया था वही मंगल तुम्हें प्राप्त हो ।' (२ २५, ३३) । अगस्त्याश्रम में राम ने इनके स्थान की भी देखा (३ १२, २०) । ये विनता के पुत्र थे (३ १४, ३२) । "सिन्धुराज के सागर-तट पर एक विशाल वरगद का वृक्ष था जिस पर एक रामय महाबली गरुड एक विशाल-काय हाथी और बछुये को लेकर उनका भक्षण करने के लिये आ बैठे । उस समय पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड ने वृक्ष की उम शाखा को अपने भार से तोड़ डाला । उस शाखा के नीचे अनेक बँखानम, माप, बालविल्य, आदि महर्षि एक साथ ही निवास करते थे । उन पर दया करके धर्मात्मा गरुड ने उस टटी हुई सौ योजन लम्बी शाखा को, तथा हाथी और बछुये को भी, वेग-पूर्वक एक ही पजे में पकड़ लिया और आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस का भक्षण करके उस शाखा से निपाद-देश का सहार कर डाला । उस समय उक्त महामुनियों को मृत्यु के सङ्कट से बचा लेने के कारण गरुड को अनुपम हर्ष हुआ । (३ ३५, २७-३३) ।" इस महान हर्ष से गरुड का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिये इन्द्रलोक में जाकर इन्द्र-भवन का विध्वंस करके अमृत का हरण कर लिया । (३ ३५, ३४-३५) । इनका भवन लोहित सागर के शाल्मली वृक्ष के नीचे स्थित और विश्वकर्मा ने स्वयं उसका निर्माण किया था (४ ४०, ३७-३८) । सम्पति ने अपने को गरुड का वंशज बताया (४ ५८, २६) । जाम्बवान् ने हनुमान् को समुद्ररङ्गन के लिये उत्साहित करते हुये उन्हें महाबली, तीव्रगामी, विख्यात और पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड के समान बताया (४ ६६, ४) । जाम्बवान् ने बताया कि उन्होंने गरुड को अनेक बार समुद्र में बड़े-बड़े सर्पों को पकड़ते देखा था (४ ६६, ५) । सीता ने बताया कि केवल तीन ही प्राणी—हनुमान, गरुड और वायु—समुद्र को लँघ सकते हैं (५ ५६, ९) । इन्द्रजित् द्वारा प्रपुत्र नागपाश में आवद्ध राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के बाद इन्होंने उन लोगों के शरीर को भी स्वस्थ कर दिया (६ ५०, ३६-४०) । राम ने इनकी प्रशंसा करते हुये इन्हें 'रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगनुनेपन । वसानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषित', कहा और इनसे इनका परिचय पूछा (६ ५०, ४१-४४) । "श्रीराम को उत्तर देते हुये इन्होंने अपने को उनका मित्र बताया और उस बठिन स्थिति का वर्णन किया जो राम के सम्मुख उपस्थित हो गई थी । तदन्तर इन्होंने बताया कि किन प्रकार राम और लक्ष्मण पाशमुक्त हुये । इसके बाद इन्होंने गम से कहा "

'समस्त राक्षस स्वभाव से ही कुटिल होने हैं, परन्तु शुद्ध स्वभाववाले आप जैसे क्षुरवीरो का सरलता ही बल है। अतः इसी दृष्टान्त को सामने रखकर आपको रणक्षेत्र में राक्षसों का विश्वास नहीं करना चाहिये।' ऐसा कहकर इन्होंने श्रीराम से विदा ली और वहाँ से चले गये (६ ५०, ४५-६०)। जब राम ने कुम्भकर्ण का वध कर दिया तो ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ६७, १७५)। इन्द्रजित् से युद्ध कर रहे लक्ष्मण को ये रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६३)। राम और रावण के अन्तिम युद्ध को देखन के लिये ये भी उपस्थित हुये (६ १०२, ४३)। जब विष्णु ने माल्यवान् से युद्ध किया तो इन्होंने विष्णु को अपनी पीठ पर वहन किया (७ ६, ६६)। मालिन् ने जब मदा के प्रहार से इनके मस्तक को जाहत कर दिया तो ये भी युद्ध करने लगे (७ ७, ३८-३९)। जब पराजित होकर राक्षसगण भागन लग तो इन्होंने उनका पीछा करते हुये अनेक का वध किया (७ ७, ४६-४८)। जब माल्यवान् ने विष्णु को आहत करने के पदवान् इन पर आक्रमण किया तो अपने पक्षों को तीव्र गति से हिलाते हुये ये विष्णु को दूर उड़ा ले गये (७ ८, १७-१८)। ये ऋषभ अन्तरिक्ष में निवास करते हैं (७ २३, १०-११)। हनुमान् को इनसे भी तीव्रगामी कहा गया है (७ ३५, २६)। सीता के शपथ ग्रहण की देखने के लिये ये भी राम की सभा में उपस्थित हुये (७ ९७, ९)। श्रीराम के वैष्णव तेज में प्रवेश करने पर यह भी भगवान् का गुणगान करने लगे (७ ११०, १४)।

गर्ग, एक ऋषि का नाम है जो सीता के शपथ ग्रहण की देखने के लिये राम की सभा में उपस्थित हुये थे (७ ९६, ४)।

गवय, एक वानर यूथपति का नाम है जिन्होंने सुग्रीव के राज्याभिषेक में भाग लिया था (४ २६, ३४)। क्रिष्णिन्धा जाते समय लक्ष्मण ने मार्ग में इनके सुन्दर भवन को भी देखा (४ ३३, ९)। इस 'काञ्चन शैलाम महावीर' वानर-यूथपति ने सुग्रीव को पाँच करोड़ वानर दिये (४ ३९, २३)। सीता की खोज के लिये सुग्रीव इन्हें दक्षिण दिशा में भेजना चाहते थे (४ ४१, ३)। जिन्ध्य क्षेत्रों के वनों में सीता को खोजते हुये हनुमान् आदि के साथ जल की खोज में इन्होंने भी ऋक्षरिल नामक गुफा में प्रवेश किया (४ ५०, १८)। इन्हें राम की सेना का एक नायक नियुक्त किया गया (६ ४, १६)। 'यस्तु गैरिक्वर्णाभिः वपुः पुष्यति वानरः । अवमत्य सदा सर्वान्वागरान्वल-दपिनान् ॥ गवयो नाम तेजस्वी स्वाः शीघ्रादभिवर्तते । एन शतसहस्राणिसप्तति पर्युपासते ॥', (६ २६ ४६-४७)। अङ्गद के नेतृत्व में इन्होंने दक्षिणी पाटक पर युद्ध किया (६ ४१, ३९-४०)। अपनी सेना की रक्षा करते हुये इधर से उधर दौड़ रहे थे (६ ४२, ३१)। इन्होंने रावण पर भारी शिलाओं से

आक्रमण किया किन्तु स्वयं आहत हुये (६ ५९, ४२-४३) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ५८) । राम के राज्याभिषेक के समय ये पश्चिमी समुद्र से जल लाये (६ १२८, ५६) । देवों ने राम की सहायता के लिये इनकी मृष्टि की थी (७ ३६, ५०) ।

गवाक्ष, एक वानर यूपपति का नाम है जिन्होंने मुषीव के राज्याभिषेक में भाग लिया था (४ २६, ३४) । किष्किन्या जाते समय मां में लक्ष्मण ने इनके भी मुसज्जित भवन को देखा (४ ३३, ९) । लङ्कूर जातिवाने भयकर पराक्रमी गवाक्ष दस अरब वानरों की सेना सहित मुषीव के पाम आये थे (४ ३९, १९) । सीता की खोज के लिये मुषीव इन्हें दक्षिण दिशा में भेजना चाहते थे (४ ४१, ३) । विन्ध्य क्षत्र के वनों में सीता को ढूँढते हुए हनुमान् आदि वानरों के साथ जल की खोज में इन्होंने भी ऋक्ष-विल में प्रवेश किया (४ ५०, १-८) । सागरलङ्घन की क्षमता के सम्बन्ध में अङ्गद के पूछने पर इन्होंने अपनी शक्ति बीस योजन बनाई (४ ६५, ३) । राम की आक्रमणकारी सेना का इन्हें भी एक नायक बनाया गया (६ ४, १६) । ये वाले मुखवाने महाबली लङ्कूर जाति के वानरों के नायक थे (६ २७, ३२-३३) । अङ्गद के साथ इन्होंने दक्षिणी फाटकपर युद्ध किया (६ ४१, ३९-४०) । लङ्कूर जाति के विशालकाय, महापराक्रमी वानर गवाक्ष, जो देखने में अत्यन्त भयङ्कर थे, एक करोड़ वानरों के साथ श्रीराम के बगल में खड़े हो गये (६ ४२, २८) । अपनी सेना की रक्षा करते हुये ये इधर-से-उधर दौड़ रहे थे (६ ४२, ३१) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत कर दिया (६ ४६, २१) । ये सतवन्तापूर्वक वानर-सेना की रक्षा कर रहे थे (६ ४७, २-४) । इन्होंने भारी तिलाओ से रावण पर आक्रमण किया, परन्तु स्वयं आहत हुये (६ ५९, ४२-४३) । राम के आदेश पर य फाटकों की सतवन्तापूर्वक रक्षा कर रहे थे (६ ६१, ३८) । इन्होंने कुम्भकर्ण पर आक्रमण किया, परन्तु स्वयं आहत हुये (६ ६७, २४-२८) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ५८) । महापाशवं ने इन्हें आहत किया (६ ९८, ११) । देवों ने राम की सहायता के लिये इनकी मृष्टि की थी (७ ३६, ५०) । श्रीराम ने इनका आदर-सन्धार किया (७ ३९, २१) ।

गाधि— इनका पुत्रेष्टियज्ञ करने से जन्म हुआ था (१ ३४, ५) । ये परम धार्मिक और विश्वामित्र के पिता थे (१ ३४, ६) । इनकी पुत्री का नाम सयवती था (१, ३४, ७) । ये कुसुनाम के पुत्र थे (१ ५१, १९) । इन्होंने रावण की अधीनता स्वीकार कर ली थी (७ १९, ५) ।

गान्धार, गन्धर्वों के देश का नाम है जिसे अपने पुत्रों के लिये भरत ने विजित किया था (७ १०१, १०-११) ।

गायत्री—राम ने अगस्त्य के आश्रम में इनके स्थान को भी देखा (३ १२, १९) । श्रीराम के परगघाम जाने के समय ये भी उनके साथ ही (७ १०८, ८) ।

गार्ग्य, पूर्व दिशा के एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये थे (७ १, २) । "ये अङ्गिरस-पुत्र और केकय-राज युष्माजित के पुरोहित थे । केकयराज ने अपने इन अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि पुरोहित को अनेक बहुमूल्य उपहारों के साथ श्रीराम के पास भेजा, और राम ने इनका आदरपूर्वक उत्कार किया (७ १००, १-५) ।" राम के पूछने पर इन्होंने केकयराज युष्माजित् का यह संदेश दिया कि उन्हें (राम को) गन्धर्व-देश को अपने अधीन कर लेना चाहिये (७ १००, ६-१३) । ये भरत की सेना के आगे-आगे चले (७ १००, २०) ।

गालव, पूर्व दिशा के एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये थे (७ १, २) । मध्यम्य वनकर इन्होंने रावण और मान्धाता के बीच शान्ति स्थापित की (७ २३८, ५५-५६) ।

१. गिरिव्रज, कुश के पुत्र, वसु द्वारा स्थापित एक नगर का नाम है, जिसे इसके सस्यारक के नाम पर वसुमती भी कहते थे । यह नगर पाँच पर्वतों से घिरा था । इसके बीच से सोन नदी बहती थी जिसे सुमागधी भी कहते हैं (१ ३२, ६-८) ।

२. गिरिव्रज—केवप देरा को भेजे गये वसिष्ठ के इत इस नगर से भी होकर गये थे (२ ६८, २१-२२) ।

गुह, निपादों के राजा का नाम है जिनसे वनवास के समय श्रीराम शृङ्गवेरपुर में मिले थे । ये श्रीराम के साथ सम्भवतः भारद्वाज-आश्रम तक गये (१. १, २९-३०) । वाल्मीकि ने श्रीराम से इनके मिलन का पूर्वदशन कर लिया था (१ ३, १४) । "य शृङ्गवेरपुर के राजा और श्रीराम के प्रिय सखा थे । इनका जन्म निपाद-कुल में हुआ था । ये शारीरिक शक्ति तथा सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान् थे (२ ५०, ३२) ।" ये अपने बन्धु-बान्धवों तथा वृद्ध मन्त्रियों आदि को लेकर पैदल ही श्रीराम के स्वागत के लिये आये (२ ५०, ३३) । इन्होंने श्रीराम को गले से लगाते हुये उन्हें अनेक प्रकार के भोजनार्थि दिये (२ ५०, ३५-३९) । श्रीराम ने इनका आलिङ्गन करते हुये इनकी प्रशंसा की (२ ५०, ४०-४६) । इन्होंने अपने सेपकों को श्रीराम के घोड़ों को भोजन और पानी आदि देने का आदेश दिया (२ ५०, ४७) । ये सारी रात लक्ष्मण और सुमन्त्र से बात करते हुये जाग

कर श्रीराम की रक्षा करते रहे (२ ५०, ५०) । इन्होंने श्रीराम की अपने सेवको सहित रक्षा करने का आश्वासन देते हुये लक्ष्मण से सोने के लिये कहा (२ ५१, २-७) । जब लक्ष्मण ने अपने तथा अपने भ्राता की कल्प दया सुनाई तो इनके नेत्रों से अश्रु छलक पड़े (२ ५१, २७) । जब लक्ष्मण ने इनसे श्रीराम की गङ्गा पार करने की इच्छा के सम्बन्ध में कहा तो इन्होंने अपने सेवको को नाव तैयार करने की आज्ञा दी (२ ५२, ४-६) । जब नाव आ गई तो इन्होंने गिना विलम्ब के ही श्रीराम से उस पर आरूढ़ होने के लिये कहा (२ ५२, ७-९) । राम के कहने पर न्यग्रोध वृक्ष का दूध लाये (२ ५२, ६९) । जब श्रीराम आदि नौका पर बैठ गये तो इन्होंने अपने सेवको को नौका खेन का आदेश दिया (२ ५२, ७७) । राम के गङ्गा पार कर लेने पर ये बहुत देरतक सुमन्त्र से वार्त्तालाप करते रहे (२ ५७, १) । इन्होंने सुमन्त्र को विदा किया (२ ५७, ३) । ये शृङ्गवेरपुर पर शासन करते थे (२ ८३, १९-२०) । 'भरत की विशाल सेना को देखकर इन्होंने राम के प्रति भरत के उद्देश्य पर मन्देह हुआ । अब इन्होंने अपने सैनिकों को गङ्गा के तट की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि यदि भरत का उद्देश्य पवित्र हो तो उन्हें सुरक्षित पार उतार दिया जाय (२ ८४, १-९) । ये उपहारों के साथ भरत के पास आये (२ ८४, १०) । भरत के सम्मुख उपस्थित किये जाने पर इन्होंने उनकी सेना का सत्कार करने का आग्रह किया (२ ८४, १५-१८) । इन्होंने राम के प्रति भरत के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया (२ ८५, ६-७) । इन्होंने भरत के हृदय की पवित्रता की प्रशंसा की (२ ८५, ११-१३) । जब भरत शोकग्रस्त हो गये तो इन्होंने उन्हें सान्त्वना दी (२ ८५, २२) । 'श्रीराम के प्रति लक्ष्मण की निष्ठा और सद्भाव की भरत से प्रशंसा करते हुये गृह ने बताया कि उनके कहने पर भी लक्ष्मण सोने को उद्यत नहीं हुये क्योंकि श्रीराम कुशों की शय्या पर लेटे हुये थे । तदनन्तर गृह ने बताया कि किस प्रकार उनके नेत्रों के सामने ही श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गये (२ ८६, १-२५) ।' गृह की बात सुनकर जब भरत को मूर्च्छा आ गई तो गृह की अत्यन्त शोक हुआ (२. ८७, ४) । भरत के पृष्ठने पर गृह ने उस कुश-सामूह को दिगाया जिस पर राम सोये थे, और तदनन्तर लक्ष्मण की सेवाओं का वर्णन किया (२ ८७, १४-२४) । दूसरे दिन प्रातःकाल इन्होंने भरत से मिलकर उनका कुशल-समाचार पूछते हुये यह जानना चाहा कि वे रात को मुखपूर्वक सोये या नहीं (२ ८९, ४-५) । भरत के कहने पर इन्होंने भरत तथा उनकी सेना को पार उतारने के लिये अपने बन्धु-बान्धवों से नौका की व्यवस्था करने के लिये कहा

(२ ८९, ८-९) । यह स्वयं एक स्वस्तिक नामक नौका लाये (२ ८९, १२) । भरत ने इनसे वन में जाकर श्रीराम के निवास-स्थान का पता लगाने के लिये कहा (२ ९८, ४) । ये भी भरत के साथ पैदल ही श्रीराम से मिलने गये (२ ९८, १८) श्रीराम और लक्ष्मण ने इनका आलिङ्गन किया (२ ९९, ४१) । श्रीराम ने शयोध्या लौटते समय हनुमान् के द्वारा निपादराज गुह्य को भी सन्देश भेजा क्योंकि ये राम के आत्मा के समान प्रिय सखा थे (६ १२५, ४-५) । श्रीराम के आदेशानुसार हनुमान् ने इन्हे श्रीराम के सङ्कुशल लौटने का समाचार दिया (६ १२५, २२-२४) ।

गुह्यक (वटु०) एक प्रकार के अर्धदेवताओं का नाम है जो कुवेर की सेवा में रहते थे । वंशमण्डल पर स्थित सरोवर के तटपर कुवेर इन लोगों के साथ विहार करता था (४ ४३, २३) । जब राम ने कुम्भकर्ण का वध कर दिया तो ये भी अत्यन्त हर्षित हुये (६ ६७, १७५) । लक्ष्मण और अनिकाय का द्वन्द्व युद्ध देखन के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ ७२, ६६) । वामु देवता को प्रसन्न करने के लिये ये लोग भी श्रद्धा के साथ गये (७ ३५, ६४) ।

गोकर्ण, उस स्थान का नाम है जहाँ भगौरथ ने तपस्या की थी (१ ४२, १३) । केसरी, माल्यवान् पर्वत से गोकर्ण पर गये (५ ३५, ८०) । रावण तथा उसके भ्राता ने यही तपस्या की थी (७ ९, ४६) ।

गोदावरी, एक नदी का नाम है जिसके तट पर पञ्चवटी नामक स्थान स्थित था (३ १३, १९) । 'इयमादित्यसकान् पत्नी सुरभिगन्धिभि । अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मप्रोभिता ॥ इय गोदावरी रम्या पुष्पितैस्तस्मिन्वृता ॥ ह्रस्वारण्डवादीर्णा चक्रवाकोपधोभिता ॥ " मृगयूथानिपीडिता ॥', (३ १५, ११-१३) । श्रीराम इत्यादि ने इसी के तट पर पञ्चवटी में निवास किया था (३ १५, ९-१४) । श्रीराम आदि प्रतिदिन इसमें स्नान करते थे (३ १६, २) । रावण को देखकर तीव्र गति से बहनेवाली यह नदी धीरे धीरे बहने लगी (३ ४६, ७) । 'ह्रस्वारससघुष्टा वन्दे गोदावरी नदीम्', (३ ४९, ३१) । 'गोदावरीय सरिता वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम्', (३ ६३, १३) । 'नदी गोदावरी रम्याम्', (३ ६४, २) । सीता-हरण के बाद श्रीराम ने गोदावरी के तट पर आकर इससे सीता के सम्बन्ध में पूछा किन्तु रावण के भय से यह चुप रही (३ ६४, ६-११) । गुपीय ने सीता की खोज करने के लिये अङ्गद की इसके क्षेत्र में भेजा (४ ४१, ९) । शयोध्या लौटते समय श्रीराम का पुष्पक विमान इस पर से होकर भी उड़ा (६ १२३, ४६) ।

गोप, एव गन्धर्वप्रमुख का नाम है जिन्होंने भरद्वाज के आश्रम पर भरत का संगीत आदि से मनोरञ्जन किया था (२ ९१, ४५) ।

गोप्रतार, सरयू के एक घाट का नाम है । श्रीराम के परमधाम जाने के

समय जो लोग उनके साथ आये थे उनमें से जिस-जिस ने यहाँ डुबकी लगाई उसने स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया (७ ११०, २३-२४) ।

गोमती, शीतल जलवाली एक नदी का नाम है जिसके बछार में अनेक गाँवें विचरती रहती थी । श्रीराम ने इसे पार किया (२ ४९, १०) । केकय से लौटते समय भरत ने विनत नामक स्थान के पास इसे पार किया था (२ ७१, १६) । पूर्वकाल में वानर यूपपति सरोचन यही निवास करता था (६ २६, २७) । हनुमान् ने इसे पार किया (६ १२५, २६) । सीता को वन में छोड़ने के लिये ले जाते समय लक्ष्मण और सीता ने एक रात्रि इसके तट पर व्यतीत की (७. ४६, १९) ।

गोमुख, मातलि के पुत्र का नाम है जो जयन्त का सारथि था । इन्द्रजित् ने इन पर सुवर्ण-भूषित बाणों की वर्षा की थी (७ २८, १०) ।

गोलभ, एक गन्धर्व का नाम है जिसने वालिन् के साथ पन्द्रह वर्षों तक चोरीसो घंटे चलनेवाला युद्ध किया किन्तु सोलहवाँ वर्ष आरम्भ होते ही वालिन् के हाथों मारा गया (४ २२, २७-२८) ।

१. गौतम, दशरथ के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५) । 'राज-कर्तार गौतमश्च', (२ ६७, २-३) । दशरथ की मृत्यु के पश्चात् दूसरे दिन प्रातः काल उपस्थित होकर इन्होंने वसिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया (२, ६७, ६-८) । श्रीराम के राज्याभिषेक के कृत्यों में इन्होंने वसिष्ठ की सहायता की (६ १२८, ६१) । श्रीराम के आमन्त्रण पर ये उनकी सभा में उपस्थित हुये जहाँ श्रीराम ने इनका सरकार किया (७ ७४, ४-५) । राम-दरवार में सीता के शपथ ग्रहण के अवसर पर ये भी उपस्थित थे (७ ९६, ५) ।

२ गौतम, एक ऋषि का नाम है जो मिथिला के उपवन में अपनी पत्नी, अहल्या, के साथ तपस्या करते थे (१ ४८, १५-१६) । एक दिन शचीपति इन्द्र ने उनकी पत्नी अहल्या के साथ समागम किया (१ ४८, १७-२२) । "समागम के पश्चात् कुटी से बाहर निकलते ही इन्द्र का इनमें सामना हो गया । उस समय देवताओं और दानवों के लिये दुर्घर्ष, तपोबल, सम्पन्न, दान महामुनि ने, जिनका शरीर तीर्थ के जल से सिक्त और प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त था, छद्मवेपी इन्द्र पर क्रोध करके उन्हें शपथ दे दिया (१ ४८, २३-२८) ।" "इन्होंने अपनी पत्नी अहल्या को भी यही शपथ दिया कि वह उसी स्थान पर कई सहस्र वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करती हुई कष्टपूर्वक रात में पड़ी रहेगी । इन्होंने यह भी कहा कि जब दशरथकुमार राम उस घोर वन में पदापंग करेंगे तो उस समय वह पवित्र होकर पुनः इनके पाम पहुँच जायगी

(१ ४८, २९-३३) ।" इस प्रकार अपनी पत्नी को शाप देकर ये महातेजस्वी ऋषि हिमालय पर तपस्या के लिये चले गये (१ ४८, ३४) । इनके शाप के प्रभाव से इंद्र "भेषवृषण" हो गये (१ ४९, २-१०) । अहल्या के शापमुक्त हो जाने पर उसे ग्रहण कर इन्होंने श्रीराम का सत्कार किया (१ ४९, २१-२३) । श्रीराम के अयोध्या लौटने पर ये भी उत्तर दिशा से उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये (७ १, ५) । "आरम्भ में ब्रह्मा ने एक विशिष्ट नारी की सृष्टि करके उसका नाम अहल्या रखवा । तदनन्तर उन्होंने उस नारी को गौतम ऋषि को धरोहर के रूप में दिया । बहुत दिनों तक अपन पास रखने के पश्चात् गौतम ने उस कन्या को ब्रह्मा को लौटा दिया परन्तु गौतम के इन्द्रिय-मयम से प्रसन्न हो ब्रह्मा ने उसे पुनः गौतम को ही पत्नी-रूप में समर्पित कर दिया । उसी अहल्या के साथ इंद्र के समागम करने पर गौतम ने इंद्र तथा अहल्या को शाप दिया, तथा शापमोचन का समय भी बता दिया । (७ ३०, १९-४३) ।" इनका आश्रम निमि की राजधानी, वैजयन्तपुर, के निकट स्थित था (७ ५५, ५-६) । वसिष्ठ के चले जाने पर इन्होंने राजा निमि के यज्ञ को पूरा किया (७ ५५, ११-१४) ।

ग्रामणी, एक गन्धर्व प्रमुख का नाम है जो कृपण पर्वत के चन्दन के वन में निवास करते थे । ये सूर्य, चन्द्रमा, तथा अग्नि के समान तेजस्वी और पुण्यकर्मा थे (४. ४१, ४३-४४) । इन्होंने सुवेश नामक राक्षस को धार्मिक जानकर अपनी कन्या देववती का उसके साथ विवाह कर दिया (७ ५, १-३) ।

घ

घन, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये थे (५ ६, २३) ।

घृताची, एक अप्सरा का नाम है जिसने कुशनाभ की पत्नी के रूप में एक मौ कन्याओं को जन्म दिया था (१ ३२, १०) । भरत-सेना के मत्कार के लिये भरद्वाज ने इसकी सहायता का आवाहन किया था (२ ९१, १७) । इसमें आसक्त होने के कारण महामुनि विश्वामित्र ने दस वर्ष के समय को एक दिन ही माना (४ ३५, ७) ।

घोर, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने आग लगा दी थी (५ ५४, १३) ।

च

चक्र, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन पर हनुमान् गये थे (५ ६, २४) ।

चक्रवान्, एक पर्वत का नाम है जो पश्चिमी समुद्र के चतुर्थ भाग में स्थित था। यहाँ विश्वकर्मा ने सहस्रार चक्र का निर्माण किया था। यहीं विष्णु ने पञ्चजन और ह्यग्रीव नामक दानवों का वध किया और वे यहीं से पाञ्चजन्य शङ्ख तथा सहस्रार चक्र लाये थे। सुग्रीव ने सुपेण तथा अन्य वानरों को सीता की खोज के लिये यहाँ भेजा (४ ४२, २५-२७)।

चरुड, एक वानर दूयपति का नाम है जो राम की वानरी सेना में सम्मिलित हुआ था (६ २९-३०)।

चरुडाल—राजा विशङ्कु एक चण्डाल बन गये। उनके शरीर का रंग और वस्त्र नीले हो गये। प्रत्येक अंगों में रक्षता आ गई। शरीर के बाल छोटे हो गये। समस्त शरीर में चित्ता की भस्म लिपट गई, और विभिन्न अंगों में लोह के गहने पड़ गये (१ ५८, ११)।

चण्डोदरी, सीता की रक्षा करनेवाली एक क्रूरदशना राक्षसी का नाम है जिसने सीता से कहा कि यदि वे रावण का वरण नहीं कर लेंगी तो वह उन्हें खा जायगी (५ २४, ३९-४०)।

चन्दन (-चन)—यहाँ निवास करनेवाले वानरों ने राम की सेना में सरोचन के नेतृत्व में भाग लिया (६ २६, २३)।

चन्द्र का क्षीर समुद्र से प्रादुर्भाव हुआ था। इसे 'शीतरश्मि निशाकर' कहा गया है (७ २३, २२)। यह आकाशगङ्गा से ८०,००० योजन ऊपर स्थित है (७ २३घ, १६)। 'शान शनसहस्राणि रश्मयश्चन्द्रमण्डलात्। प्रकाशयन्ति लोकास्तु सर्वसत्त्वमुखावहा ॥ (७ २३घ, १७)। जब रावण इसका निन्दित आया तो इसने अपनी शीताग्नि से उसका दहन कर दिया (७ २३घ, १८)। 'स्वभाव एष राजेन्द्र शीतासौर्दहनात्मक', (७ २३घ, २१)। लोकस्य हितकामो वै द्विजराजो महाद्युति', (७ २३घ, २४)। इसने राजसूय यज्ञ के द्वारा इन उच्च स्थानों को प्राप्त किया था (७ ८३, ७)।

चन्द्रकान्त, एक नगर का नाम है जो मल्ल भूमि में स्थित था 'मुहचिर चन्द्रकान्त निरामयम्', (७ १०२, ६)। 'चन्द्रकेतोश्च मल्लस्य मल्लभूम्यां निवसिता। चन्द्रकान्तति म्रियान्ता दिव्या स्वर्गपुरी यथा ॥', (७ १०२, ९)।

चन्द्रकेतु, लक्ष्मण के धर्मविशारद और दृढविश्राम पुत्र का नाम है (७ १०२, २)। ये मल्लभूमि के राजा हुये (७ १०२, ९)।

चन्द्रचिन्ता, पश्चिम के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने सुपेण इत्यादि को भेजा था (४ ४२, ६)।

चारण (बहु०)—ब्रह्मा के आदेशानुसार चारणा ने राम की सहायता के

लिये वानर-सन्तान उत्पन्न की (१ १७, ९) । 'चारणाश्व सुतान्घोरान्मृजु-
 वनचारिण', (१ १७, २२) । दैत्यों का वध करने के पश्चात् त्रिलोकी का
 राज्य पाकर इन्द्र ऋषियों और चारणों सहित समस्त लोको का शासन करने
 लगे (१ ४५, ४५) । ये लोग हिमालय पर्वत पर निवास करने थे (१ ४८,
 ३४) । द्रुद्र ने इन लोगों से भी अपने अण्डकोप-रहित हो जाने की बात
 कहते हुये इनसे अपने को पुन अण्डकोप युक्त करने का निवेदन किया
 (१ ४९, १-४) । ये वसिष्ठ के आश्रम में निवास करते थे (१ ५१, २३) ।
 इन लोगों ने भी विष्णु और शिव के शोध को शान्त करने का प्रयास किया
 (१ ७५, १८-१९) । राम और परशुराम के द्रुद्र युद्ध को देखने के लिये
 ये लोग भी उपस्थित हुये (१ ७६, १०) । जब श्रीराम खर के साथ युद्ध
 करने लगे तो इन लोगों ने श्रीराम की विजय के लिये प्रार्थना की (३ २३,
 २६-२८) । श्रीराम और खर का युद्ध देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित
 हुये (३ २४, १९) । खर का वध हो जाने पर इन लोगों ने हर्ष प्रकट
 करते हुये राम की स्तुति की (३ ३०, २९-३३) । रावण ने उन कुम्भों की
 देखा जो चारणों से सेवित थे (३ ३५, १५) । सीता का अपहरण होते समय
 इन लोगों ने कहा कि रावण का अन्न समय निकट आ गया है (३ ५४,
 १०) । ये लोग शीतल के तट पर निवास करते थे (४ ४०, ३१) । ये लोग
 सुदर्शन सरोवर पर व्रीडा विहार करते थे (४ ४०, ४३-४४) । महेन्द्र
 पर्वत इनसे सेवित था (४ ४१, २३) । पुण्यितक पर्वत इनसे सेवित था
 (४ ४१, २८) । ये अन्तरिक्ष में निवास करते हैं (५ १, १) । इन लोगों
 ने हनुमान् को एक क्षण के लिये सिंहिका के मुख में अदृश्य होते देखा (५ १,
 १९६) । हनुमान् द्वारा लका को भस्म कर देने पर इन लोगों को आश्चर्य
 हुआ, किन्तु इससे भी अधिक आश्चर्य सीता के सर्वथा सुरक्षित बच जाने पर
 हुआ (५ ५५, २९-३२) । जब श्रीराम तथा उनकी सेना ने सागर की
 पार कर लिया तो इन लोगों ने श्रीराम का अभिनन्दन किया (६ २२,
 ८९) । जब इन्द्रजित् ने लक्ष्मण से युद्ध करना आरम्भ किया तो इन लोगों ने
 जम्बू के कल्याण के लिये प्रार्थना की (६ ८९, ३८) । जब रावण ने
 श्रीराम को पीडित किया तो ये लोग विपाद में डूब गये (६ १०२, ३१) ।
 रावण का वध होने पर इन लोगों ने अत्यधिक हर्ष प्रकट किया (६ १०८,
 ३०) । ये तृतीय अन्तरिक्ष के देवता हैं (७ २३४, ५) । रावण को
 पराजित कर देने पर इन लोगों ने अर्जुन को बधाई दी (७ ३२, ६५) ।

चित्रकूट, एक पर्वतीय स्थान का नाम है जहाँ, भरद्वाज के परामर्श के
 अनुसार श्रीराम ने अपने भ्राता लक्ष्मण तथा सीता के साथ अपना आवास

बनाया था (१ १, ३१) । श्रीराम के चित्रकूट-निवास की अवधि में ही अयोध्या में राजा दशरथ की पुत्रशोक में मृत्यु हो गई (१. १ ३२-३३) । भरत, श्रीराम को लौटाने के लिये अयोध्यावासियों सहित यहीं आये थे (१ १, ३३-३७) । भरत के लौट जाने पर नागरिकों के आने-जाने से बचने के लिये श्रीराम आदि दण्डकारण्य चले गये (१ १, ४०) । श्रीराम के चित्रकूट आगमन की घटना का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, १५) । यह प्रयाग से दस कोस की दूरी पर स्थित है 'दशत्रोच इतस्तात् गिरियंस्मिन्निवत्स्यसि । महर्षि सेवित पुण्य सर्वत शुभदर्शन ॥ गोलान्गलानुचरितो वामरक्षनिपेवित । चित्रकूट इति स्यातो गन्धमादनसन्निभ ॥', (२ ५४, २८-२९) । जबतक मनुष्य चित्रकूट के चिखरों का दर्शन करता रहता है, वह पाप में कभी मन नहीं लगाता (२ ५४, ३०) । यहाँ से बहुत से ऋषि, जिनके सर के बाल वृद्धावस्था के कारण श्वेत हो गये थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीडा करके स्वर्गलोक चले गये (२ ५४, ३१) । 'मधूमूलफलोपेत चित्रकूट', (२ ५४, ३८) । 'नानानगगणोपेत चित्ररोगनेवित', (२ ५४, ३९) । 'मयूरनादाभिरतो गजराजनिपेवित', (२ ५४, ४०) । 'पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुत', (२ ५४ ४१) । इस स्थान पर झुण्ड के झुण्ड हाथी और हिरन विचरते रहते थे (२ ५४, ४१-४२) । "मन्दाकिनी नदी, अनेकानेक जलस्रोत, पर्वतशिखर, गुफा, कन्दरा और झरने आदि भी यहाँ थे । हर्ष में भरे ठिठ्ठिभ और कोकिलों के कलरवों से यह पर्वत मानो वाणियों का मनोरञ्जन करता रहता था । मदमत्त मृगों और मनवाते हाथियों ने इसकी रमणीयता में और वृद्धि कर दी थी (२ ५४, ४२-४३) ।" इस स्थान की रमणीयता का वर्णन (२ ५६, ६-११-१३-१५) । श्रीराम आदि इस स्थान पर आये (२ ५६, १२) । यहाँ के मनोरञ्जक दृश्यो ने राम आदि के मन से अयोध्या के वियोग का दुःख समाप्त कर दिया (२ ५६, ३५) । यह भरद्वाज-आश्रम से ढाई योजन दूर था (२ ९२, १०) । भरत ने इसका वर्णन किया (२ ९३, ७-१९) । भरत अपने दल सहित यहाँ पहुँचे (२ ९९, १४) । यहाँ से विदा होने के पूर्व भरत ने इसकी परिणामा की (३ ११३, ३) । यहाँ निवास करनेवाले ऋषियों की राक्षसगण अत्यन्त घस्त कर रहे थे (३ ६, १७) । 'सैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा । तापसाश्रमवासिन्या प्राग्बहुमूलफलोदके । तस्मिन्निष्ठाधिने देशे मन्दाकिन्या ह्यदूरत ॥ तस्योपवनसण्डेषु नानापुण्यमुगन्धियु ।', (५ ३८, १२-१४) । अयोध्या लौटते समय श्रीराम का पुण्यक विमान इस क्षेत्र के ऊपर से होकर उड़ा था (६ १२३, ५१) ।

१. चित्ररथ, धीराम के एक मूत और सचिव का नाम है। वन जाते समय राम ने लक्ष्मण को इन्हें भी बट्टमूल्य रत्न और वस्त्रादि देने के लिये कहा था (२ ३२, १७)।

२. चित्ररथ, एक वन का नाम है जिसे केकय से लौटते समय भरत ने पार किया था (२ ७१, ४)।

३. चित्ररथ, उत्तर कुरु प्रदेश में स्थित कुवेर के उपवन का नाम है (२ ९१, १९)। जो पुष्पमालायें केवल यहीं देखी जा सकती थीं, भरद्वाज के तेजबल से प्रयाग में दिखाई पड़ने लगी (२-९१, ४७)। रावण ने इमका विध्वंस किया (३ ३२, १५-१६)। यहाँ वर्ष-पर्यन्त वसन्त ऋतु ही वर्तमान रहती थी (३ ७३, ७)।

चूल्किन्, एक महाद्युति, ऊर्ध्वरेता और शुभाचारी तपस्वी का नाम है जो ब्राह्म तप कर रहे थे (१ ३३, ११)। उन्हीं दिनों उर्मिला पुत्री एक गन्धर्वी, सोमदा, इनकी सेवा करती थी (१ ३३, १२)। सोमदा की सेवा से प्रसन्न होकर इन्होंने उससे पूछा 'मैं तुम्हारा कौन-सा प्रियकार्य करूँ।' (१ ३३, १३-१४)। ये वाणी के मर्मज्ञ एक मुनि थे (१ ३३, १५)। सोमदा की इच्छा पूर्ण करने के लिये इन्होंने उसे ब्रह्मदत्त नामक एक मानस-पुत्र प्रदान किया (१ ३३, १८)।

चोला, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने अङ्गद को भेजा (४ ४१, १२)।

च्यवन, एक महर्षि का नाम है जो भृगुवशी और हिमालय पर तपस्या करते थे (१ ७०, ३१-३२)। इन्होंने पुत्र की अभिलाषा रखनेवाली कालिन्दी से पुत्र-जन्म के विषय में इस प्रकार कहा : 'तुम्हारे उदर में एक महान् पराक्रमी पुत्र है जो शीघ्र ही 'गर' (विष) के साथ उत्पन्न होगा।' (१ ७०, ३३-३५)। ये अनेक अन्य ऋषियों के साथ धीराम के पास आये थे (७ ६०, ४)। "शत्रुघ्न के पूछने पर इन्होंने बताया कि किस प्रकार लवणामुर ने इक्ष्वाकुवशी मात्स्याता का विनाश किया था। तदनन्तर इन्होंने शत्रुघ्न को यह परामर्श दिया कि वे उस समय लवणामुर का वध करें जब वह दास्य को छोड़कर बाहर निकले (७ ६७, १-२६)।" ये एव भार्गव थे जिनसे बुध ने इल को पुरुषत्व प्राप्त कराने के मन्वन्व में परामर्श किया था (७ ९०, ५)। राम की सभा में सीता के शपथ-ग्रहण को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुए थे (७ ९६, ४)।

छ

छायाप्राह, एक राक्षसी का नाम है जिसके पाम हनुमान् के जाने की घटना का वाग्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था 'छायाप्राहस्य दर्शनम्', (१ ३० २८ । चौखम्भा सम्करण में यह पक्ति नहीं है । देखिये नीचा प्रेम संस्करण) ।

ज

जटापुर, पश्चिम के एक सुरभ्य नगर का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने सुपेण इत्यादि को भेजा था (४ ४२, १३) ।

जटायु, पञ्चवटी के वन में निवास करनेवाले एक गृध्र का नाम है जिसका रावण ने बंध कर दिया था (१ १, ५३) । इनका श्रीरामने शत्रु-द्रोह सम्कार किया था (१ १, ५४) । वाग्मीकि ने इनकी मृत्यु का पूर्वदर्शन किया था (१ ३, २१) । पञ्चवटी जाने समय राम इन महाकाय और भीम पराक्रम गृध्र से मिले (३ १४, १) । राम द्वारा परिचय पूछने पर इन्होंने अपने को श्रीराम के पिता का मित्र बताया (३ १४, २-३) यह सुनकर श्रीराम ने इनका आदर करते हुये इनका नाम और वंश-परिचय पूछा (३ १४, ४) । इन्होंने अपना विस्तृत परिचय देते हुये श्रीराम को मृष्टि का भी इतिहास बताया (३ १४, ५-३२) । यह अक्षय तथा स्येनी के पुत्र तथा सम्पाति क भ्राता थे (३ १४, ३२-३३) । श्रीराम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में इन्होंने सीता की रक्षा करने का भार लिया (३ १४, ३४) । श्रीराम ने इनका घनिष्ठ आलिङ्गन किया (३ १४, ३५) । श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता को इनके सरक्षण में सौंपते हुये इनके साथ ही पञ्चवटी में प्रवेश किया (३ १४, ३६) । जब रावण सीता का अपहरण करके उन्हें ले जा रहा था तो सीता ने एक वृक्ष पर बैठे जटायु को देखा और उनसे श्रीराम तथा लक्ष्मण को अपने अपहरण का समाचार देने का निवेदन किया (३ ४९, ३६-४०) । सीता का विलाप सुनकर ये निद्रा से जाग उठे और सीता को रावण द्वारा अपहृत होते देखा (३ ५०, १) । पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु का शरीर पर्वत-शिखर के समान ऊँचा और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी (३ ५०, २) । "इन्होंने रावण को ऐसा निन्दित कर्म करने से रोका, और अपना परिचय देते हुए कहा कि 'मैं प्राचीन धर्म में स्थित, सत्यप्रतिज्ञ और महाबलवान् गृध्रराज जटायु हूँ । अपने पूर्वजों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत् पालन करने हुये मेरे जन्म से लेकर अब तक माठ हजार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । फिर भी, तुम सीता को लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकोगे ।' ऐसा कहकर इन्होंने रावण को दृढ़ युद्ध के लिये उल्लंघित (३ ५०, ३-२८) ।" "इन्होंने रावण से आकाश

मे ही घोर मुद्द किया। इन्होंने रावण के शरीर को निर्दयतापूर्वक खरोचते हुये उसके विनेषु-नग्नस्य रथ को तोटकर सारथि तथा घोडों को भी मार गिराया। इस प्रकार, इन्होंने रावण के धनुष, रथ, घोडे, सारथि आदि सबको नष्ट कर दिया जिसमे रावण धरती पर गिर पडा। उस समय समस्त प्राणी इनकी वीरता की प्रशंसा करने लगे। इन्होंने रावण की दसों वागी भुजाओं को उन्माड लिया। तदनन्तर क्रोध मे बाकर रावण मे तलवार से इनके दोनों पक्ष, पैर, तथा पाश्र्व भाग काट दिये जिससे रक्त रजित हो धरती पर गिर पडे (३ ५१, १-४४)। "इनके शरीर की कान्ति नील मेघ के समान काली और छाती का रंग श्वेत था। ये अत्यन्त पराक्रमी थे (३ ५१, ४५)।" इनके इन प्रकार बाह्य होकर मृतप्राय हो जाने पर सीता अत्यन्त विलाप करने लगी (३ ५१, ४६)। "नीला को खोजने हुये जन धनुष-बाण हाथ मे लेकर श्रीराम वन मे आगे बडे तो उन्हें पर्वतक्षिप्त के समान बिसाल शरीरवासे पक्षिराज जटायु दिखाई पडे। श्रीराम इन्हे एक राक्षस ममझ कर जब क्रोध मे इनके समीप आये तो इन्होंने उनमे रावण द्वारा सीता के अपहरण, अपने और रावण के द्वन्द्व-मुद्द, तथा अपनी दगा का वर्णन किया (३ ६७, १०-२१)।" श्रीराम ने इन्हें मने न लगा लिया (३. ६७, २२-२३)। "राम के पूछने पर इन्होंने बताया कि रावण आकाश मार्ग से सीता को दक्षिण की ओर ले गया है। साथ ही इन्होंने यह भविष्यवाणी की कि अपनी शक्ति से रावण का विनाश करके श्रीराम सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इतना कह कर रक्त और मांस का वमन करने हुये इनकी मृत्यु हो गई (३. ६८, १-१७)।" श्रीराम और लक्ष्मण ने इनकी मृत्यु पर अत्यन्त शोक प्रकट करते हुये इनके शव का अन्तिम संस्कार किया (३ ६८, १८-३८)। अङ्गद ने सम्पाति के सम्मुख श्रीराम के प्रति इनकी अत्यधिक हादिक निष्ठा की प्रशंसा की (४ ५६, ९-१४)। सम्पाति ने बताया कि जटायु उनका छोटा भ्राता तथा गुण और पराक्रम के कारण अत्यन्त प्रशंसा के योग्य था (४ ५६, २१)। अङ्गद ने रावण के हाथी इनकी मृत्यु का वर्णन किया (४ ५७, १०-१२)। अपने भ्राता सम्पाति के साथ मिलकर इन्होंने इन्द्र को पराभूत किया किन्तु अत्यन्त सूर्य से स्वयं पराजित हो गये (४ ५८, २-६)। 'गृध्रो द्वौ दूरपूर्वो मे मातरिश्वममौ जवे। गृध्राणा क्षेत्र राजानो भ्रान्तो कामरुचिणो ॥ ज्येष्ठो हि त्व तु सपाते जटायुन्नुज्जन्व। मानुष रूपमास्थाय गृह्णीता चरणौ मम ॥', (४ ६०, १९-२०)। ये मूर्च्छित होकर जनस्थान मे गिरे थे (४ ६१, १६)। सीता ने इनका अत्यन्त अनुश्रुतपूर्वक स्मरण किया (५ २६, २०-२१)।

जटी, एक नाग का नाम है जिने रावण ने पराजित करके अपने अधीन कर लिया था (६ ७, ९)।

१. जनक, मिथिके पुत्र और जनक-राजवंशके आदि 'जनक' का नाम है। इनके पुत्र का नाम उदावमु था (१ ७१, ४)।

२. जनक, मिथिला के राजा का नाम है. 'मिथिलाधिपति धूर जनक सत्यवादिनम् । निष्ठित सर्वशास्त्रेषु तथा वेदेषु निष्ठितम् ॥', (१ १३, २१)। अश्वमेध के समय वसिष्ठ ने सुमन्त्र से इन्हे बुलाने के लिये कहा और बनाया कि दशरथ के साथ इनका पुराना सम्बन्ध है (१. १३, २२)। इन परम धर्मिष्ठ राजा ने एक यज्ञ किया जिसमें विश्वामित्र, राम, और लक्ष्मण सम्मिलित हुये थे (१ ३१, ६)। इनके पास एक अद्भुत धनुषरत्न था (१ ३१, ७)। 'महात्मा', (१ ३१, ११)। ये मिथिला के शासक थे (१ ४८, १०)। विश्वामित्र इत्यादि के आगमन पर इन्होंने विश्वामित्र का विधिवत् स्वागत और पूजन किया (१ ५०, ७-९)। तदनन्तर विश्वामित्र आदि को उत्तम आसन पर बैठाते हुये इन्होंने उनसे वारह दिनो तक रुक कर यज्ञ-भाग ग्रहण करने के लिये आनेवाले देवताओं का दर्शन करने के लिये कहा (१ ५०, १२-१६)। इन्होंने राम और लक्ष्मण के सम्बन्ध में पूछा (१ ५०, १७-२१)। राम और लक्ष्मण के कौशल का वर्णन करने के बाद विश्वामित्र ने इनसे बताया कि दोनों राजकुमार इनके महान धनुष को देखने आये हैं (१ ५०, २२-२५)। विश्वामित्र की स्तुति करने के पश्चात् इन्होंने उनसे यज्ञ का कार्य देखने के लिये विदा ली (१ ६५, २८-३८)। दूसरे दिन प्रातः काल इन्होंने विश्वामित्र तथा राम और लक्ष्मण का स्वागत किया (१ ६६, १-३)। 'महात्मा', (१ ६६, ४)। विश्वामित्र द्वारा राजकुमारों को धनुष दिखाने का निवेदन करने पर इन्होंने उस धनुष का इतिहास बताया और बचन दिया कि यदि राम धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ा देंगे तो ये सोना का उनसे विवाह कर देंगे (१ ६६, ४-२६)। विश्वामित्र के कहने पर इन्होंने अपने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि वे चन्दन और मालाओं से सुसोभित उस दिव्य धनुष को वहाँ लायें (१. ६७, १-२)। "जब धनुष लाया गया तब इन्होंने उस धनुष की महिमा का वर्णन करते हुये बताया कि देवता और असुर भी उस पर प्रत्यञ्चा चढ़ाने में असमर्थ रहे हैं, मनुष्य की तो बात ही क्या। ऐसा कहने के बाद इन्होंने विश्वामित्र से कहा कि वे राजकुमारों को धनुष दिखा दें (१. ६७, ३-११)। धनुष टूटने के भीषण शब्द से ये तनिक भी विचलित नहीं हुये (१ ६७, १९)। राम की सफलता पर उन्हें बधाई देने हुये इन्होंने विश्वामित्र से दशरथ को अयोध्या में मिथिला बुलाने के लिये दून भेजने की आज्ञा माँगी (१ ६७, २०-२६)। विश्वामित्र की अनुमति पाकर इन्होंने अपने दूतों को अयोध्या भेजा (१ ६७, २७)। यह जान कर कि दशरथ विदेह आ गये हैं,

इन्होंने उनके विधिवत् स्वागन की व्यवस्था की (१. ६९, ७)। दशरथ का हार्दिक स्वागन करने के बाद इन्होंने उनसे दूसरे दिन ही राजकुमारों का विवाह सम्पन्न कराने का वाग्रह किया (१. ६९, ८-१३)। इन्होंने धर्मानुसार यज्ञ कार्य सम्पन्न किया तथा अपनी कन्याओं के लिये मङ्गलाचार सम्पादन करके सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की (१. ६९, १८)। दूसरे दिन प्रातः काल इन्होंने अपने भ्राता कुशध्वज को साकार्य से बुलवाया (१. ७०, १-४)। कुशध्वज के आने पर उनके साथ सिंहासन पर बैठ कर इन्होंने महाराज दशरथ तथा उनके राजकुमारों को बुलवाया (१. ७०, ९-१२)। वसिष्ठ ने इन्हें इक्ष्वाकुवंश का इतिहास बताया (१. ७०, १४-४५)। "इन्होंने अपने पक्ष का परिचय बताते हुये निमि को अपना आदि पूर्वज कहा। इन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार साहाय्य को विजित करके इन्होंने उसे अपने भ्राता को दिया (१. ७१, १-१९)। इन्होंने राम से सीता का तथा अपनी दूसरी कन्या जमिला का लक्ष्मण के साथ विवाह करने का वचन दिया (१. ७१, २०-२१)। इन्होंने दशरथ से विवाह के पूर्व के कृत्यों को सम्पन्न करने का निवेदन करते हुये कहा कि विवाह तीसरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में होगा (१. ७१, २३-२४)। वसिष्ठ और विश्वामित्र के रहने पर इन्होंने कुशध्वज की दो कन्याओं को भरत और शत्रुघ्न से विवाहित करना स्वीकार कर लिया (१. ७२, ११-१२)। इन्होंने दोनों ऋषियों का आदर किया (१. ७२, १५)। 'अतस्त्वेष्युषः', (१. ७२, १८)। जब वसिष्ठ ने इनसे वर-पक्ष के लोगो को भीतर आ कर विवाह कार्य सम्पन्न कराने के लिये अनुमति माँगी तब सूर्य अनुमति प्रदान करते हुये इन्होंने बताया कि कन्यायें भी यज्ञ वेदी के पास तैयार बैठी हैं (१. ७३, १०-१५)। इन्होंने वसिष्ठ से विवाह सम्पन्न कराने का अनुरोध किया (१. ७३, १८-१९)। "जब वसिष्ठ ने अग्नि की स्थापना करके उसमें हवन किया, तब इन्होंने बामूपगो से विभूषित सीता को लाकर अग्नि के समक्ष श्रीराम के सामने बैठा दिया और राम से सीता का पाणिग्रहण करने के लिये कहा। ऐसा कहने के पश्चात् इन्होंने राम के हाथ में मन्त्री से पवित्र जल छोड़ दिया। (१. ७३, २३-२७)।" तदनन्तर इन्होंने लक्ष्मण से जमिला का पाणिग्रहण करने के लिये कहा (१. ७३, २८)। इसके बाद इन्होंने भरत से माण्डवी का और शत्रुघ्न से श्रुतकीर्ति का पाणिग्रहण कराया (१. ७३, २९-३०)। अयोध्या के लिये विदा करते समय इन्होंने कन्याओं को उपयुक्त उपहार आदि दिये (१. ७४, ३-७)। राम का अभिषेक करने के समय राजा दशरथ ने शीघ्रता में इन्हें निमन्त्रित नहीं किया (२. १, ४७)। इनके एक पक्ष के समय वरुण ने इन्हें जो अस्त्र दिये थे उन्हें इन्होंने राम को

उनके विवाह के अवसर पर प्रदान कर दिये (२ ३१, २९-३१) । दशरथ की मृत्यु हो जाने पर कौसल्या ने इनका भी स्मरण किया (२ ६६, ११) । सीता न अपने को जनक की पुत्री बहुर गवण को अपना परिचय दिया (३ ४७, ३) । राम ने यह सोचा कि सीता के बिना अयोध्या लौटने पर जनक को जब यह समाचार मिलेगा तो वे पुत्री के शोक से सन्तप्त हो कर मूर्च्छित हो जायेंगे (३ ६२, १२-१३) । गीता के हरण के दुःख से विलाप करते हुए राम ने इनका भी स्मरण किया (४ १, १०८) । दग्ध ने इन्हे जो मणि दी थी उस इन्होंने सीता को उनके विवाह के अवसर पर दे दिया था (५. ६६, ४-५) । राम ने उचित आदर के साथ इन्हे विदा किया (७, ३८, २-७) ।

जनमेजय—मुनिकुमार का अनजान में वध कर देने के कारण राजा दशरथ से मुनिकुमार के अन्धे माता पिता ने कहा कि उनके पुत्र को) वही गति मिले जो जनमेजय, इत्यादि को प्राप्त हुई थी (२ ६४, ४२) ।

जनस्थान—शूर्पणखा इसी स्थान पर रहती थी (१ १, ४६) । इसके साथ यहाँ १४००० राक्षस निवास करते थे जिन सबका राम ने वध कर डाला (१ १, ४७-४८) । राक्षसों के भय से तपस्वी ऋषि मुनि इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गये (२ ११६, ११-२५) । यहाँ खर तथा अन्य राक्षस निवास करते थे (३ १८, २५) । अकम्पन ने रावण को यहाँ के राक्षसों के वध का समाचार दिया (३ ३१, १-२) । मारीच ने भी रावण को यही समाचार दिया (३ ३१, ४०) । मारीच का वध करने के पश्चात् श्रीराम शीघ्रतापूर्वक जनस्थान की ओर बढ़े (३ ४४, २६) । रावण द्वारा अपहृत होने के समय सीता ने जनस्थान से अपने अपहरण का समाचार श्रीराम को देने के लिये कहा (३ ४९, ३०) । “यह स्थान अनेक प्रकार के वृक्षों, लताओं और राक्षसों से भरा था । इसमें पर्वत के ऊपर अनेक वन्दरायें थी जो मृगों से भरी रहती थी । यहाँ के पर्वतों पर विधरों के आवास स्थान तथा गन्धर्वों के भवन भी थे (३ ६७ ४-६) । अयोध्या लौटते समय श्रीराम का पुष्पन विमान दस पर स भी होकर उठा था (६ १२३, ४२-४५) । इस स्थान पर तपस्वियों के आकर बस जाने के कारण इमवा जनस्थान नाम पडा, धन्यथा यह दण्डरारण्य के नाम से विख्यात था (७ ८१, १९-२०) ।

जमदग्नि—“ये ऋचीव के पुत्र और परशुराम के पिता थे । इन्होंने अपने पिता से दिव्य वैष्णव धनुष प्राप्त किया था । जब वे अस्त्र दस्त्रों का परित्याग करने ध्यानावस्थित बैठे थे तब राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने इनका वध

कर दिया (१. ७५, २२-२३) । राम के अयोध्या लौटने पर ये उनके अभिनन्दन के लिये उत्तर दिशा से पधारे थे (७ १, ६) ।

जम्बुमाली, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये थे (५ ६, २१) । रावण के कहने पर इसने हनुमान् के साथ द्वन्द्व-युद्ध किया, जिसमें यह मारा गया (५ ४४, १-१८) । यह प्रहस्त का पुत्र था 'सदियों राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तम्य मुना वली । जम्बुमाली महादष्टो निर्जंगम धनुर्धर ॥ रक्त-मान्धास्वरपर सखी रञ्जिरकुण्डल । महान्विवृत्तनयनश्चण्ड समरदुर्जय ॥', (५ ४४, १-२) । 'जम्बुमाली महाजना', (५ ४४, ६) । 'जम्बुमाली महाजल', (५ ४४, १३) । 'जम्बुमाली महारथ', (५ ४४, १८) । हनुमान् ने इसके घर में जाग लगा दी थी (५ ५४ ११) । इसने हनुमान् के साथ द्वन्द्व-युद्ध किया था (६ ४३, ७) । इसने हनुमान् के वक्ष पर प्रहार करके उन्हें आहत किया (६ ४३, २१) ।

जम्बूद्वीप—यह पर्वतो से युक्त था जिसकी भूमि को सगरपुत्रों ने खोद डाला था (१ ३९ २२) । यह सीमन्त पर्वत के उत्तर में स्थित था (४ ४०, ५९) ।

जम्बूप्रस्थ—एक स्थान का नाम है जहाँ केकय से लौटते समय भरत रुके थे (२ ७१, ११) ।

जम्भ, एक वानर दूधपति का नाम है जो धानर-सेना को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ चल रहा था (६. ४, ३७) ।

१. **जयन्त**, दशरथ के आठ मन्त्रियों में से एक का नाम है (१. ७, ३) । श्रीराम के अयोध्या लौटने पर ये उनके स्वागत के लिये गये (६ १२७, १०) ।

२. **जयन्त**, एक दूर का नाम है जिसे दशरथ की मृत्यु के पश्चात् वसिष्ठ ने भरत की अयोध्या बुलाने के लिये भेजा था (२ ६८, ५) । ये राजगृह पहुँचे (२ ७०, १) । केकय-राज ने इनका स्वागत किया जिसके पश्चात् इन्होंने भरत को वसिष्ठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया (२ ७०, २-५) । भरत की बातों का उत्तर देने के बाद इन्होंने उनगे शीघ्र अयोध्या चलने के लिये कहा (२ ७०, ११-१२) ।

३. **जयन्त**, इन्द्र तथा शची के पुत्र का नाम है जिसने देवसेना के नेतापति के रूप में मेघनाद से द्वन्द्व युद्ध किया था । अन्ततोगत्वा इनके नाना, पुलोमा, इन्हे लेकर समुद्र में धुस गये (७ २८, ६-२१) ।

जया, वक्ष की एक पुत्री का नाम है जिसने एक सौ प्रजाशमान् अस्त्र-दारमों को जन्म दिया (१ २१, १५) । वर प्राप्त करके इसने अनुरो के

विनाश के लिये पचास अक्षय और रूपरहित श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किये (१ २१, १६) ।

जलोद, एक सागर का नाम है जो अत्यन्त भयावह और धीरसागर के बाद स्थित था । ब्रह्मा ने महर्षि ऋषि के शोध से प्रकट हुये बडवामुख तेज को इसी सागर में स्थित कर दिया था । यहाँ उस तेज से भस्म हो जाने के कारण समुद्र के प्राणियों का आतंताद निरन्तर मुनाई पडता था । इस सागर का जल स्वादिष्ट था । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये विनत को यहाँ भेजा (४ ४०, १६ ४५-४८) ।

जघ, विराघ नामक राक्षस के पिता का नाम है (३ ३, ५) ।

जह्नु, एक ऋषि का नाम है जिनके यज्ञ-स्थान को गङ्गा अपने प्रवाह में बहा ले गई । इस पर क्रुद्ध होकर इन्होंने गङ्गा के समस्त जल का पान कर लिया । देवो इत्यादि की प्रार्थना पर इन्होंने गङ्गा को अपने कान के मार्ग से बाहर निकाल दिया । देवताओं ने गङ्गा को इनकी पुत्री बनाया (१ ४३, ३५-३८) ।

जातरूपशिल, जलोद सागर के उत्तर में स्थित एक पर्वत का नाम है जो १३ योजन लम्बा और सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित था । इस पर्वत के शिखर पर पृथिवी को धारण करनेवाले, चन्द्रमा के समान गौरवर्ण अनन्त नामक सर्प निवास करते थे । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये विनत को यहाँ भेजा (४ ४०, ४८-५०) ।

जावालि, दशरथ के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५) । अश्वमेध यज्ञ कराने के लिये दशरथ का निमन्त्रण पा कर ये अयोध्या आये थे (१ ८, ६) । मिथिला जाते समय इनका रथ दशरथ के आगे आगे चल रहा था (१ ६९, ४-५) । दशरथ की मृत्यु के दूगरे दिन प्रातःकाल इन्होंने वसिष्ठ से शीघ्र ही दूसरा राजा नियुक्त करने के लिये कहा (२ ६७, ५) । 'जावालिर्ब्राह्मणोत्तम', (२ १०८, १) । "भरत के मत का समर्थन करते हुये इन्होंने भी श्रीराम से अयोध्या लौटने के लिये कहा । इन्होंने मुख्यतः नास्तिकों के मत का अवलम्बन करके राम को समझाना चाहा कि मृत पिता के प्रति अब उनका (राम का) कोई बर्तव्य शेष नहीं है, अतः उन्हें किसी काल्पनिक आदर्श का आश्रय लेकर राज्यत्याग नहीं करना चाहिये । (२ १०८, २-१८) । श्रीराम ने इनके नास्तिक मत का तण्डन और आस्तिक मत का समर्थन किया (२ १०९, १ और बाद) । यह देखाकर कि श्रीराम ने इनके तर्कों के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया है, इन्होंने कहा कि ये वास्तव में नास्तिक नहीं हैं, वरन् केवल राम को अयोध्या लौटाने के लिये ही इन्होंने

ऐसे दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था (२ १०९, ३७-३९) । ये हृदयवती भरत के साथ अयोध्या लौट आये (२ ११३, २) । श्रीराम के राज्याभिषेक के कृत्यों को सम्पन्न करने में इन्होंने वसिष्ठ की सहायता की (६ १२८, ६१) । श्रीराम के आमन्त्रण पर ये राम की सभा में पधारें जहाँ इनका राम ने बादरपूर्वक स्वागत किया (७ ७४, ४-५) । अश्वमेध यज्ञ के पूर्व श्रीराम ने इनमें भी परामर्श किया (७ ९१, २) । रामदरवार में सीता के क्षय ग्रहण को दलने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ ९६, २) ।

जाम्बवान्, एक रीठ का नाम है जिनकी ब्रह्मा ने अपनी जँभाई से सृष्टि की थी (१ १७, ७) । इन्होंने सुग्रीव के अभिषेक में भाग लिया था (४ २६, ३४) । किष्किन्धा जाते समय लक्ष्मण ने इनके सुन्दर भवन को भी देखा था (४ २३, ११) । इन महावेजम्बी ऋक्षराज ने सुग्रीव को दस करोड़ सैनिक दिये थे (४ ३९, २६-२७) । सीता की रीठ के लिये सुग्रीव इन्हें दक्षिण की ओर भोजना चाहते थे (४ ४१, २) । विन्ध्यक्षत्र के बनो में सीता को खोजते हुये श्रान्त होकर जल के लिये इन्होंने भी बन्धु बानरो के साथ ऋक्ष बिल नामक गुफा में प्रवेश किया (४ ५०, १-८) । सम्पाति की बात सुनकर ये अत्यन्त प्रयत्न हुये और उनसे पूछा 'सीता कहाँ है ? कितने उन्हें देखा है ? कौन उन्हें हर कर ले गया है ? कौन ऐसा घृट है जो राम और लक्ष्मण के पराक्रम को नहीं समझता ?' (४ ५९, १-४) । बानर दूषपतियों की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्ध होने लिये भी अङ्गद के पूछने पर इन्होंने बताया कि अपनी वृद्धावस्था में भी ९० योजन तक सरलतापूर्वक कूद सकते हैं, यद्यपि युवावस्था में इससे कहीं अधिक शक्ति थी (४ ६५, १० १७) । जब अङ्गद स्वयं समुद्र लूणन के लिये प्रस्तुत हुये (४ ६५, १७-१९) तब इन्होंने उनसे कहा कि वे पहले अपने सेवकों को ही यह कार्य करने दें (४ ६५, १९-२६) । 'महाप्राज्ञजाम्बवान्', (४ ६५, २७) । जब अङ्गद ने स्वप्न जाने के लिये पुनः जोर दिया तो इन्होंने बताया कि केवल हनुमान् ही इस कार्य को कर सकते हैं (४ ६५, ३२-३४) । 'हनुमान् के आरम्भिक जीवन और पराक्रम का इतिहास बताते हुये इन्होंने हनुमान को सागर-लङ्घन के कार्य के लिये सन्नद्ध होने के लिये प्रोत्साहित किया और उनसे बताया कि वृद्धवस्था के कारण स्वयं इस कार्य को करने में असमर्थ हैं (४ ६६, १-३७) । हनुमान् का सागर-लङ्घन के लिये सन्नद्ध देखकर इन्होंने उन्हें अपनी शुभकामनायें दते हुये कहा कि उनके लौटने तक वे एक पार पर ही खड़े रहेंगे (४ ६७, ३०-३५) । लका से लौटते हुये हनुमान् के भीषण गर्जन को सुनकर इन्होंने बानरो से बताया कि हनुमान् अपने कार्य में सफल होकर लौट रहे हैं (५ ५७, २२-२३) ।

इन्होंने हनुमान् से लका जान के समय में लौटने तक का सम्पूर्ण वृत्तान्त बताने के लिये कहा (५ ५८, २-६) । “अङ्गद के पूछने पर इन अर्धवित् ने कहा कि श्रीराम और सुग्रीव की आज्ञा का अक्षरशः पालन सबका कर्तव्य है । तदनन्तर इन्होंने कहा कि बिना विलम्ब के ही सबको लौट कर राम तथा सुग्रीव को समाचार देना चाहिये (५ ६०, १५-२१) ।” राम ने इन्हे अपनी सेना के एक पार्श्व का रक्षक बनाया (६ ४, २१) । श्रीराम की आज्ञानुसार टट्टाने मेना की रक्षा का भार सभाला (६ ४, ३५) । ‘जाम्बवास्त्वथ सप्रेक्ष्य शास्त्रबुद्ध्या विचक्षण’, (६ १७, ४५) । श्रीराम के पूछने पर इन्होंने बताया कि विभीषण पर मन्देह करने के लिये पर्याप्त आधार है (६ १७, ४५ ४६) । इन्हें वानर-मेना के एक पार्श्व का रक्षक बनाया गया (६ २४, १८) । ये अपने भ्राता भूम से छोटे होते हुये भी उससे कहीं अधिक बलवान् थे (६ २७, १०-११) । इन्होंने देवासुरसंग्राम में इन्द्र की सहायता की थी (६ २७, १२) । ये गद्गद के पुत्र थे (६ ३०, २१) । सुग्रीव और विभीषण के साथ-साथ इनसे भी नगर के बीच के मोर्चों पर आक्रमण करने के लिये कहा गया (६ ३७, ३२) । ये धीरतापूर्वक बीच के मोर्चों की रक्षा करते रहे (६ ४१, ४४-४५) । इन्द्रजित् ने इन्हे आहत कर दिया (६ ४६, २०) । इन्होंने सतर्कतापूर्वक वानर-मेना की रक्षा की (६ ४७, २-४) । सुग्रीव के कहने पर इन्होंने अस्त-व्यस्त वानर सेना को पुनः संगठित किया (६ ५०, ११) । इन्होंने महानाद का वध किया (६ ५८, २२) । इन्द्रजित् ने इन्हे आहत किया (६ ७३, ४५) । ये एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, और दूसरे इनके शरीर में सँकड़ों वाण घँसे हुये थे, अतः ये बुझती हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे (६ ७४, १३-१४) । “विभीषण के पूछने पर इन्होंने बताया कि ये केवल विभीषण की बोली से ही उन्हें पहचान रहे हैं क्योंकि इनकी नेत्र-ज्योति नष्ट हो गई है । इन्होंने विभीषण से यह भी पूछा कि हनुमान् अभी जीवित हैं या नहीं (६ ७४, १६-१८) ।” विभीषण के पूछने पर इन्होंने बताया कि इन्हे हनुमान् ही विशेष चिन्ता है क्योंकि हनुमान् के जीवन रहने पर सब कुछ ठीक हो जायगा (६, ७४, २१-२३) । जब हनुमान् इनके पास आये तो इन्होंने उनमें ओषधि-मर्बन पर जाकर चार ओषधियाँ लाने के लिये कहा जा समस्त वानरों को पुनः जीवित कर देंगी (६ ७४ ३६-३४) । राम की आज्ञा से ये शीघ्र अङ्गद की महायत्ना के लिये दौड़ पड़े (६ ७६, ६२) । श्रीराम की आज्ञा का पालन करने के लिये ये अपनी रीछों की सेना लेकर हनुमान् की महायत्ना करने युद्धभूमि में गये (६ ८३, ४) । किन्तु मार्ग में हनुमान् द्वारा मना कर दिये जाने पर ये लौट

लाये (६. ८३, ५-६) । विभीषण के आवाहन पर इन्होंने अपनी रीछों की सेना लेकर इन्द्रजित् के सैनिकों से युद्ध किया (६. ८९, २१-२४) । जब लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर हो गई तो इनके हृष की सीमा न रही (६. ९१, २७) । इन्होंने महापार्ष्व के रथ को ध्वस्त करके उसके घोड़ों को भी कुचल डाला (६. ९८, ८-९) । महापार्ष्व ने इन्हे बाणों से आहत कर दिया (६. ९८, ११-१२) । श्रीराम के राज्याभिषेक के समय ये ५०० नदियों का जल लाये (६. १२८, ५२-५३) । राम ने इन्हे सत्कार-पूर्वक बहुमूल्य उपहार आदि दिये, जिसके पश्चात् ये अपने घर लौट आये (६. १२८, ८६-८७) । राम ने इनका स्वागत-सत्कार किया (७. ३९, २१) । श्रीराम ने इन्हे तबतक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया जब तक प्रलय और कलियुग नहीं आ जाता (७. १०८, ३४) ।

ज्योतिर्मुख, सूर्य के पुत्र, एक वानर वृषपति का नाम है जो राम की सेना में सम्मिलित हुआ था (६. ३०, ३३) । इन्होंने एक विशाल शिला लेकर रावण पर आक्रमण किया किन्तु स्वयं बाहत हो गया (६. ५९, ४२-४३) । इन्द्रजित् ने इसे बाहत किया (६. ७३, ५९) ।

त

तक्ष, भरत के वीर पुत्र का नाम है (७. १००, १६) । श्रीराम ने इनका अभिषेक किया (७. १००, १९) । ये भरत की सेना के साथ गये (७. १००, २०) ।

तक्षक, एक नाम का नाम है । इसे पराजित करके रावण ने दलपूर्वक इसकी पत्नी पर भी अधिकार कर लिया था (३. ३२, १४, ६. ७, ९) ।

तक्षशिला, गान्धार देश के एक नगर का नाम है जिसकी भरत ने स्थापना की थी । इसका विस्तृत वर्णन (७. १०१, १०-१५) ।

तपन, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसने गज के साथ द्वन्द्वयुद्ध किया था (६. ४३, ९) ।

तमसा, गङ्गा के निकट ही एक अन्य नदी का नाम है जिसमें महर्षि वाल्मीकि स्नान किया करते थे (१. २, ३-४) । इसका जल सत्युषों के हृदय के समान निर्मल तथा पाट कीचड़ में रहित था (१. २, ५) । वनवास के प्रथम दिन सन्ध्या समय श्रीराम आदि इसके तट पर पहुँचे (२. ४५, ३२) । दूसरे दिन प्रातः काल राम ने इस तीव्र गति से बहनेवाली भँवरों से भरी नदी को पार किया (२. ४६, २८) ।

ताटका, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली एक यक्षिणी का नाम है जो

सुन्द की पत्नी, मारीच नामक राक्षस की माता, और एक सहस्र हाथियों के बल से युक्त थी (१ २४, २५-२७) । यह मलद और करुण नामक जनपदों का विनाश करती रहती थी (१ २४, २८) । “यह यक्षिणी डेढ़ योजन तक के मार्ग को घेर कर रहती थी । विश्वामित्र ने श्रीराम से इस दुष्टचारिणी का वध करने के लिये कहा (१ २४, २९-३०) ।” “श्रीराम के पृष्ठने पर विश्वामित्र ने बताया कि यह ताटका नामक यक्षिणी सुकेतु नामक एक यक्ष-प्रमुख की पुत्री थी और सुकेतु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने ही ताटका को एक सहस्र हाथियों का बल दे दिया था । जब ताटका रूप-वीचन से सुशोभित होने लगी तब सुकेतु ने इसका सुन्द के साथ विवाह कर दिया । कुछ काल के पश्चात् इसने मारीच नामक पुत्र उत्पन्न किया जो अगस्त्य के शाप से राक्षस हो गया । जब अगस्त्य ने शाप देकर सुन्द को मार डाला तब इसने अपने पुत्र मारीच को साथ लेकर अगस्त्य पर व्याधमण किया । उसी समय अगस्त्य ने इसे तथा इसके पुत्र मारीच को शाप देकर क्रमशः राक्षसों और राक्षस बना दिया । (१ २५, ५-१२) ।” ‘पुरुषादी महायक्षी विकृता विद्वानना । इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते ॥’, (१ २५, १३) । इस शाप से ताटका का अपर्यं और भी बढ गया तथा वह श्रोत्र से मूर्च्छित हो गई (१ २५, १४) । ‘यक्षीं परमदारुणाम्’, (१ २५, १५) । ‘शापसमृष्टाम्’, (१ २५, १६) । ‘अघम्यां जटिं काकुत्स्थ घर्मो ह्यस्या न विद्यते’, (१ २५, १९) । श्रीराम के धनुष की टकार सुनकर यह क्रोध में उम दिशा की ओर दौड़ी जिधर से टकार की ध्वनि आ रही थी (१ २६, ७-८) । ‘इसके शरीर की ऊँचाई बहुत अधिक थी । इसकी मुखाकृति विकृत थी । श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा : ‘इस यक्षिणी का शरीर दारुण और भयकर है, जिसके दसांन मात्र से ही भीरु-पुरुषों का हृदय विदीर्ण हो सकता है । मायाबल से सम्पन्न होने के कारण यह अत्यन्त दुर्जय भी है ।’ (१ २६, ९-११) ।” “अपने सम्बन्ध में राम और लक्ष्मण के वार्तालाप को सुनकर यह तीव्र गर्जन के साथ हाथ उठाकर दोनों राजकुमारों की ओर झपटी । इसने भयकर धूल उड़ाकर राम और लक्ष्मण को छोटे समय के लिये मोह में डाल दिया । तत्पश्चात् माया का आश्रय लेकर यह राम और लक्ष्मण पर पत्थरों की वर्षा करने लगी । राम ने अपनी बाण-वर्षा से इसकी शिलावृष्टि को रोकने हुये इसके दोनों हाथ काट डाले, जब कि लक्ष्मण ने इसका नाक और कान काट दिए । उस समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली यह अनेक प्रकार के रूपों से राम को मोहित करती हुई अदृश्य हो गई । इस प्रकार अदृश्य रूप से यह पत्थरों की वर्षा करने लगी । इसी समय विश्वामित्र ने श्रीराम से इस मार

ढालने के लिये कहा । राम ने इसे शब्दबैधो बाणो से सब ओर से ढक्कड़ कर दिया । इस पर जब यह क्रोध से धीराम की ओर झपटी तब उन्होंने इसके छाती में एक बाण मार कर इसे घराशापी कर दिया । इसे मृत देखकर इन्द्र तथा देवता श्रीराम को साधुवाद देने लगे (१ २६, १३-२७) ।

ताम्रपर्णी, सुन्दर दक्षिण की एक महानदी का नाम है जिसमें अनेक ग्राह निवास करते थे (४ ४१, १७) । इसके द्वीप और जल विचित्र चन्दन वनों से आच्छादित थे और यह सुन्दर साड़ी से विभूषित युवती की भाँति अपने प्रियतम, सागर, से मिलनी थी (४ ४१, १६-१८) ।

ताम्रा, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्नी का नाम है जिसने पुत्र सम्बन्धी अपने पति के वरदान को मन से ग्रहण नहीं किया था (३ १४, ११-१३) । इन्होंने कौञ्ची, भासी, श्येनी, घृतराष्ट्री तथा शुक्ती नामक पाँच कन्याओं को उत्पन्न किया (३ १४, १७) ।

तार, एक बानर पूषपति का नाम है जो बृहस्पति के पुत्र थे (१ १७, ११) । सुग्रीव के साथ वे भी किष्किन्धा आये (४ १३, ४) । लक्ष्मण की बात सुनकर वे शीघ्र ही एक सुन्दर शिविका लाये जिसमें रखकर बालिन् के सब को श्मशान भूमि तक ले जाया गया (४ २५, २०-२६) । किष्किन्धा जाते समय लक्ष्मण ने मार्ग में इनके सुन्दर भवन को भी देखा (४ ३३, ११) । ये पाँच करोड़ बानरों को लेकर सुग्रीव के पास आये (४ ३९, ३१) । सीता की खोज के लिये वे दक्षिण दिशा की ओर गये (४ ४५, ६) । ये अङ्गद और हनुमान् के साथ दक्षिण दिशा की ओर आये (४ ४८, १) । इन्होंने जल और वृक्ष विहीन दिग्भ्य क्षेत्रों में सीता की निष्कन्ध खोज की (४ ४८, २-२३) । दिग्भ्य क्षेत्र में सीता की खोज के पश्चात् जल के लिये इन्होंने भी ऋक्ष बिल में प्रवेश किया (४ ५०, १-८) । ऋक्षबिल से बाहर निकलने पर इन्होंने अङ्गद के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये कि अतफल होकर कभी घर नहीं लौटेंगे, इन्होंने मय की गुफा में शरण लेने के लिये बहा (४ ५३, २५-२६) । 'तारापतिवर्चसि', (४ ५४, १) । "रावण के पूछने पर इन्होंने उसे बताया कि उसके साथ युद्ध करने में समर्थ बालिन् उम सपय बाहर हैं किन्तु चारों समुद्रों से सम्बन्धोपासन करके वे अब लौटते ही होंगे । फिर भी, इन्होंने रावण से कहा कि यदि उसे पत्नी हो तो वह दक्षिण समुद्र-तट पर जाकर बालिन् से मिल सकता है (७ ३४, ४-१०) ।" देवताओं ने राम की सहायता के लिये इगकी सृष्टि की थी (७ ३६, ४९) ।

तारा, बालिन् की पत्नी का नाम है (१ १, ६९) । वाल्मीकि ने इसके विलाप का पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, २४) । दुग्धुभि स युद्ध के

समय वालिन् ने अन्य स्त्रियो सहित इसे भी दूर हटा दिया (४ ११, ३७) । जब वालिन् सुग्रीव के साथ द्रुम युद्ध के लिये निकला तो इमने उभे समझाते हुये कहा कि श्रीराम और लक्ष्मण की मित्रता प्राप्त कर लेने के कारण अब सुग्रीव से युद्ध करने में कुशल नहीं है, अतः सुग्रीव को युवराज बनाकर उसकी मित्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये (४ १५, ६-३०) । उस समय इसके हितकारी और शुभ परामर्श को वालिन् ने स्वीकार नहीं किया (४ १५, ३१) । इसका मुझ चन्द्रमा के समान था (४ १६, १) । जब वालिन् ने यह शपथ ली कि वह सुग्रीव का वध नहीं करेगा, तब यह रोने-रोने वालिन् का आलिङ्गन और स्वस्त्ययन करके अन्य स्त्रियो के साथ अन्नपुर में चली गई (४ १६, १०-१२) । 'तारया वाक्पमुक्तोऽह सत्य सर्वज्ञया हिनम्', (४ १७, ३९) । 'तारा तपस्विनीम्', (४ १८, ५७) । वालिन् के वध का समाचार सुनकर अत्यन्त उद्विग्न हो उठी और बन्दरा के बाहर निकली (४ १९, ३-४) । श्रीराम के भय से भागने वाले वानरो को रोकने का प्रयास किया (४ १९, ६-९) । 'जीवपुत्री', (४ १९, ११) । 'श्चिरानना', (४ १९, १५) । 'चारहासिनी', (४ १९, १७) । जब वानरो ने इसे निराशाजनक उत्तर दिया तो यह कर्ण विलाप करती हुई अपने मृत्यु को प्राप्त हो रहे पति के समीप गई (४ १९, १७-२१) । श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव को पार करके यह रणभूमि में आहत पडे अपने पति के समीप पहुँची और उनकी दशा देखकर पृथिवी पर गिर पड़ी (४ १९, २५-२७) । इसने अन्य सहपत्नियों के साथ अपने पति के लिये घोर विलाप और उन्हीं के समीप बैठ कर आभरण अनशन करने का निश्चय किया (४ २०) । हनुमान् के बहुत सान्त्वना देने पर भी इसने पति के पास से हटना अस्वीकार कर दिया (४ २१, १२-१६) । सुपेण की पुत्री तारा सूक्ष्म विषयो के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पासो के चिह्नो को समझने में सर्वथा निपुण थी (४ २२, १३) । वालिन् की मृत्यु पर यह व्याकुल होकर उसके शव पर गिर पड़ी (४ २२, ३१) । अपने पति, वालिन् का मुख सूँघकर यह विलाप करने हुय अपने बंधव्य, और एतमान पुत्र को निःसहायावस्था पर दौक प्रकट करने लगी (४ २३, १-१७) । जब नील ने घातक बाण को वालिन् के शरीर से निकाला तब इमने उनके शव को अश्रुभो से नहलाते हुय अङ्गद से अपने पिता से विदा लेने के लिये करा, और स्वयं करण विलाप करने लगी (४ २३, १७-३०) । श्रीराम ने इसे अपने पति के शव से लिपट कर रणभूमि में ही विलाप करने देगा, जहाँ वालिन् के मन्त्रिगण चारों ओर से इसे शव संपृक्त करने का प्रयास कर रहे थे (४ २४,

२५-२६) । "जब तारा को उसके पति के शव के समीप से हटाया जाने लगा तब बार-बार विलाप करती हुई उसने श्रीराम को देखा । उस समय घोर सङ्कट में पड़ी हुई शोकपीडित आर्षा तारा ने अत्यन्त विह्वल हो श्रीराम के समीप जाकर उनसे अपना भी वध कर देने का निवेदन किया । उसने राम से कहा कि उसके वध से राम को कोई नवीन पातक नहीं लगेगा, क्योंकि वह अपने पति की आत्मा का ही अंग है (४ २४, २७-४०) ।" श्रीराम के सान्त्वना देने पर मुन्दर वेश और रूपवाली, धीरपत्नी तारा, जिसके मुँह से विलाप की ध्वनि निकल रही थी, चुप हो गई (४, २४, ४४) । कृष्ण प्रन्दन करती हुई यह भी वालिन् के शव के साथ-साथ श्मशान भूमि तक गई (४ २५, ३५-३६) । जब शव को नदी तट पर रखवा गया तो उसे अपने गोद में लेकर यह पुन उस समय तक विलाप करती रही, जबतक अन्य वानरो ने इसे वहाँ से हटा नहीं दिया (४ २५, ३९-४६) । इसने वालिन् के लिये जलाञ्जलि दी (४ २५, ५०) । वालिन् की मृत्यु के बाद सुग्रीव ने इसे अपनी पत्नी बना लिया (४ २९, ४) । अङ्गद ने इसे प्रणाम किया (४ ३१, ३७) । सुग्रीव के कहने पर प्रियदर्शनी, सुभ्रू, अनिन्दिता, प्रस्तलन्ती, मदविह्वलाक्षी, प्रणम्वकाञ्चीगुणहेमसूत्रा, सुलक्षणा, नमितागयट्टि तारा, लक्ष्मण के पास गई (४ ३३, ३१-३८) । इसने मञ्जपान कर रखवा या, और नसे की दशा में लक्ष्मण से उनके श्रेष्ठ का कारण पूछा (४ ३३, ४०-४१) । "सुग्रीव के विरुद्ध लक्ष्मण के आशेषों का उत्तर देते हुये इस कार्यतत्वज्ञा ने बहाना बनाकर कहा कि सभी दिशाओं से वानरो को एकत्र करने के लिये उचित उपाय किये जा चुके हैं । तदनन्तर इसने लक्ष्मण से अन्तपुर में चल कर ही राजा सुग्रीव से मिलने के लिये कहा (४. ३३, ५०-६१) ।" इसने लक्ष्मण के श्रेष्ठ को दान्त करने का प्रयास किया (४. ३५, १-२३) । सुग्रीव ने बताया कि पहले भी एक बार वालिन् को मृत समझ कर उन्होंने तारा को अपनी पत्नी बना लिया था (४ ४६, ८) । सीता ने अन्य वानर-स्त्रियों के साथ इसे भी अयोध्या ले चलने के लिये कहा (६ १२३, २६) । सुग्रीव की इच्छानुसार सर्वाङ्गसौभना तारा अन्य वानर-स्त्रियों को एकत्र करके अयोध्या जाने के लिये विमान पर बैठी (६ १२३, ३१-३७) ।

सारेय, एक वानर युधपति का नाम है जिसकी देवताओं ने श्रीराम की सहायता के लिये गृष्टि की थी (७ ३६, ४९) ।

ताक्ष्यो ने ऐसी वानर सन्तान उत्पन्न की जो श्रीराम की सहायता कर सके (१ १७, २१) ।

तालजहा राजवंश के राजा ने अक्षित को पराजित किया था (१. ७०, २७-२९) ।

तिमिष्वज, राजा शम्बर के लिये प्रयुक्त हुआ है (२ ९, १२) ।

तुम्बुरु, एक गन्धर्व-प्रमुख का नाम है जिसकी सेवाओं का भरद्वाज ने भरत-मेना के सत्कार के लिये आवाहन किया था (२ ११, १८) । इसने भरत के सम्मुख गायन किया (२ ११, ४५) । रम्भा के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण कुबेर के शाप से यह विराध नामक राक्षस बन गया था (३ ४, १६-१९) ।

तृणविन्दु, एक राजर्षि का नाम है जो मेरु पर्वत के निकट निवास करते थे (७ २, ७ १४) । "इनकी पुत्री पुलस्त्य के शाप से अनभिज्ञ होने के कारण उनके आश्रम में जाकर अपनी अन्य सत्रियों को ढूँढने लगी । वहाँ महर्षि पुलस्त्य का दर्शन करते ही इसके शरीर में कुछ परिवर्तन हुये जिनसे घबरा कर अपने पिता के पास आई । पुत्री में गर्भवती होने के चिह्न देखकर तृणविन्दु ने उसमें कारण पूछा । पुत्री की बात सुनकर तृणविन्दु ने ध्यान लगाकर समस्त स्थिति जान ली । तदनन्तर ये अपनी पुत्री को महर्षि पुलस्त्य के पास ले गये और उनसे कन्या को पत्नी-रूप में ग्रहण करने के लिये कहा । पुलस्त्य के साथ विवाह हो जाने पर इनकी पुत्री ने अपनी निस्वार्थ सेवा और भक्ति द्वारा पति को अत्यधिक प्रसन्न करके उनकी कृपा से विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया । (७ २, ७-३३) ।

तोरण, एक ग्राम का नाम है । नेकय से अयोध्या आते समय भरत इनके दक्षिण से होने हुये आये थे (२ ७१, ११) ।

त्रिकूट, लका के एक पर्वत का नाम है जिसपर बैठकर हनुमान् ने लङ्का का दृश्यावलोकन किया था (५. २, १) । इसके उच्चतम शिखर पर ही लङ्का स्थित थी (६ ३९, १८-२०) । सब ओर फैले मुद्गजन्म भीषण शब्द से इस पर्वत की शन्दरायें प्रतिध्वनित हो रही थीं (६ ४४, २६) ।

त्रिजट, गार्ग्यवंशी एक ब्राह्मण का नाम है जिनके शरीर का रंग उपवास आदि के कारण पीला पट गया था, और जो फल-मूल की खोज में सदा फाल, बुदाल तथा हल लिये घूमा करते थे (२ ३२, २९) । यह स्वयं तो वृद्ध थे, किन्तु इनकी पत्नी अभी तरुणी थी और इसके छोटे-छोटे बच्चे भी थे (२ ३२, ३०) । अपनी पत्नी के आप्रह पर इन्होंने, जो भृगु और अङ्गिरस के समान तेजस्वी थे, श्रीराम के पास जाकर अपनी विपन्नता का वर्णन किया (२ ३२, ३२-३४) । जब श्रीराम ने इनसे कहा कि ये जहाँ तक अपने बच्चे को फेंक सकेंगे वहाँ तक की गाँवें इनसे मिल जायेंगी, तब इन्होंने अपनी समस्त शक्ति लगाकर बच्चे को फेंका, जो सरयू के उस पार जाकर सहस्रो गाँवों से भरे गोष्ठ में गिरा (२ ३२, ३६-३८) । इन्होंने समस्त

गायो को प्राप्त किया (२ ३२, ३९) । गायो के उस महान् समूह को पाकर ये अपनी पत्नी सहित अत्यन्त प्रसन्न हुये और श्रीराम को यज्ञ, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ानेवाले आशीर्वाद देने लगे (२ ३९, ४३) ।

त्रिजटा, एक राक्षसी का नाम है जिसके स्वप्न का वाल्मीकि ने पूर्व-दर्शन किया था (१ ३, ३१) । यह देखकर कि राक्षसियाँ सीता को डरा-घमका रही हैं, इनने उन सबसे बताया कि इनने एक भयङ्कर स्वप्न देखा है (५ २७, ४-६) । "राक्षसियों के पूछने पर इसने अपने स्वप्न का वर्णन करत हुये बताया कि स्वप्न के अनुसार श्रीराम समस्त राक्षसों पर विजय प्राप्त करके बन्धु-बान्धवों सहित रावण का विनाश कर देंगे । ऐसा कहकर इसने राक्षसियों से कहा कि वे सीता के साथ कठोर व्यवहार न करें (५ २७, ८-६१) ।" रावण ने इसे बुलाया (६ ४७, ६) । रावण के आदेश पर इसने सीता को पुष्पक विमान पर बैठाया और उनके साथ ही गई (६ ४७, १३-१७) । न तो इसने पहले कभी मिथ्या-भाषण किया था और न भविष्य में कभी करेगी (६ ४८, ३०) । विभिन्न प्रकार के तर्कों द्वारा इसने सीता को यह आश्वासन दिया कि श्रीराम और लक्ष्मण मारे नहीं गये हैं (६ ४८, २२-३४) । सीता के साथ यह भी अशोकवाटिका में लौटी (६ ४८, ३६-३७) ।

त्रिपुर, उन तीन नगरों का नाम है जिसको शिव ने देवताओं द्वारा प्रदत्त वनुष-नाश से विनष्ट किया (१ ७५, १२) । इसका उल्लेख (३ ६४, ७२, १ १४, ३१; ६ ७१, ७५) ।

त्रिजट्ट, एक राजा का नाम है जो सशरीर ही स्वर्ग जाने के लिये यज्ञ करना चाहते थे (१ ५७, १०-११) । इस प्रकार का यज्ञ कराने के लिये इन्होंने बसिष्ठ से प्रार्थना की किन्तु उनके असवीकार कर देने पर उन्हीं के ती पुत्रों की शरण में गये (१ ५७, १२-२२) । बसिष्ठ-पुत्रों ने भी इनका यज्ञ कराना असवीकार कर दिया । साथ ही, इन्हें हमरे पुरोहित से यज्ञ कराने को उद्यत देखकर बसिष्ठ पुत्रों ने इन्हें चाण्डाल बन जाने का शाप दे दिया (१ ५८, ८-९) । "हमरे दिन प्रातःकाल में चाण्डाल हो गये । इनके शरीर का रंग नीला हो गया । कपड़े भी मैले हो गये । शरीर में रुसता आ गई । समस्त शरीर में बिना मस्म लिपट गई और अग लोहे के गहनों से युक्त हो गये (१ ५८, १०-११) ।" अपने राजा को चाण्डाल के रूप में देखकर पुरवामियों और मंत्रियों ने इन्हें त्याग दिया (१ ५८, १२) । इस स्थिति में ये अमोघ्या-नरेश अकेले ही महर्षि विश्वामित्र की शरण में गये, जिन्हें इन पर दया आ गई (१ ५८, १३-१६) । "अपनी पिछली कथा बताते हुये

इन्होंने विश्वामित्र से यह सिद्ध करने के लिये यज्ञ कराने का अनुरोध किया कि पुरपायं देवी गति पर विजय प्राप्त कर सकता है (१ ५८, १७-२५) । विश्वामित्र ने इन सुधामिक नृपपुंगव का यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया (१ ५९, २-५) । विश्वामित्र ने अपने तप के प्रभाव से इन्हे सशरीर स्वर्ग भेज दिया (१ ६०, १४-१५) । इन्द्र तथा अन्य देवताओं ने इन्हें स्वर्ग से निष्कापित कर दिया जिसके फलस्वरूप ये सर नीचे की ओर किये हुये स्वर्ग से गिरने लगे (१ ६०, १६-१८) । विश्वामित्र ने उस समय इन्हे बीच में ही रोक दिया और शीघ्र में आकर इनके लिये एक नवीन नक्षत्रमण्डल की सृष्टि कर दी (१ ६०, १८-२२) । तदनन्तर विश्वामित्र जब नवीन देवताओं की सृष्टि करने के लिये उद्यत हुये तब देवता उनके पास आये । देवगण और विश्वामित्र इस बात पर सहमत हो गये कि विश्वामित्र द्वारा रचिन नक्षत्रों के बीच में नीचे की ओर सर किये हुये त्रिशङ्क भी एक नक्षत्र के समान प्रकाशमान रहे और उनकी स्थिति देवताओं के समान रहे (१ ६०, २३-३३) । ये पृथु के पुत्र थे, और इनके पुत्र धुन्धुमार थे (१ ७०, २३-२४) ।

१. त्रिशिरा, जनस्थान के एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने वध किया था (१ १, ४७) । वाल्मीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, २०) । द्रुपण की सेना के एक राक्षस वीर का नाम है जो द्रुपण के पीछे-पीछे चल रहा था (३ २३, ३४) । खर के १४,००० सैनिकों में से केवल यह और खर ही जीवित बच रहे (३ २६, ३६-३७) । 'खर तु रामाभिमुख प्रयान्त बाहिनीपति । राक्षसस्त्रिशिरा नाम सन्निपत्येदमब्रवीत् ॥', (३ २७, १) । इसने पहले स्वयं राम से युद्ध करने के लिये खर से अनुमति माँगी (३ २७, १-५) । अनुमति प्राप्त करके यह तीक्ष्ण बाणों का प्रहार और तुमुल गर्जन करता हुआ श्रीराम की ओर रथ में बैठ कर बढ़ा (३ २७, ७-८) । श्रीराम के साथ इसका युद्ध सिंह और गजराज के समान अत्यन्त भयकर प्रतीत होता था (३ २७, ९-१०) । इसने श्रीराम के साथ घोर युद्ध करते हुये उनके ललाट पर प्रहार किया (३ २७, ११-१२) । श्रीराम ने १४ बाण छोड़कर इसके हृदय, इसके अश्वों और सारथि को घीष दिया (३ २७, १३-१६) । तीन बाणों के प्रहार से इसके तीनों मस्तक काट दिये गये जिससे यह घराशायी हो गया (३ २७, १७-१८) ।

२. त्रिशिरा, चन्द्रमा के समान श्वेत वाग्निवाले एक यक्षस्त्री राक्षस का नाम है जो हाथ में तीक्ष्ण त्रिशूल धारण किये हुये शैल पर बैठ कर रावण के साथ युद्ध भूमि में आया था (६ ५९, १९) । यह कुम्भवर्ण का भतीजा था, जिसने अपने चाचा की मृत्यु पर शोक प्रकट किया (६ ६८, ७) । रावण को

मानवता देते हुये यह स्वयं युद्ध भूमि में जाने के लिये प्रस्तुत हुआ (६ ६९, १-७)। मरु प्रकार की ओषधियों तथा गन्धों का स्पर्श करने युद्ध की अनिलापा रत्नवाला निशिरा, युद्ध के लिये पुरी में बाहर निकला (६ ६९, १८-१९)। यह रथ पर आरूढ़ हो धनुषबाण हाथ में लेकर युद्धभूमि में गया (६ ६०, २२-२४)। उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर तीन किरीटों से युक्त निशिरा तीन नुवर्णामय शिपरा में युक्त हिमालय के समान सुशोभित हो रहा था (६ ६९, २४)। नरान्तक की मृत्यु होने ही यह अपने रथ पर बैठकर बज्रद की ओर शपटा (६ ७०, १-४)। बज्रद के साथ युद्ध करते हुये इसने अपने ऊपर फेंके गये वृक्षों और गिलाजों को बाटते हुये बाणों से बज्रद के ललाट पर प्रहार किया (६ ७०, ६-१९)। इसने नील से युद्ध किया (६ ७०, २१)। इसने हनुमान् के साथ भीषण युद्ध किया जिसमें इसके घोड़ों का तो वध हो ही गया, अन्तत यह भी मारा गया (६ ७०, ३३-४८)।

त्र्यष्टा, आदित्यो में से एक नाम है, जो साहसपूर्वक राक्षसों के बिरुद्ध युद्ध के लिये गये थे (७ २७, ३६)।

दक्ष, एक प्रजापति का नाम है जिनकी जया और मुप्रभा पुत्रियाँ थी (१ २१, १५)। इनके यज्ञ के विध्वंस का उत्तेस (१. ६६, ९)। एक प्रजापति, जो पुलह के दाद हुये थे (३ १४, ९)। इनके साठ पुत्रियाँ थी (३ १४, १०)।

१. दण्ड, एक राक्षस का नाम है जो मुमालिन् और वैतुमती का पुत्र था (७ ५, ३८-४०)।

२. दण्ड—“इक्ष्वाकु के सबसे छोटे पुत्र का नाम है जो मूढ और विद्याहीन थे। इनके शरीर पर अवश्य दण्डपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने इनका नाम दण्ड रक्खा और इन्हें विन्ध्य तथा शैबल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। इन्होंने भृगुमन्त्र नामक सुन्दर नगर बसाया और उषना को अपना पुरोहित नियुक्त किया। इस प्रकार ये अपने राज्य का व्यवस्थित रूप से पालन करने लगे। (७ ७९, १४-२०)।” इन्होंने मन और इन्द्रियों को बध से रसकर वर्षों तक बकटक राज्य किया (७ ८०, २)। ‘मुदुम्बरा’, (७ ८०, ५)। “एक बार चैत्र मास में ये अपने पुरोहित शुक्राचार्य के आश्रम पर आये। वहाँ शुक्राचार्य की कन्या, भरजा को देख कर ये काम पीडित हो गये। उस कन्या से उसका परिचय पूछने के पश्चात् इन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव किया (७ ८०, १-६)।” कन्या के अस्वीकार करने पर भी (७ ८०, ७-१२) इन्होंने उसके माय बलात्कार किया और तदनन्तर अपने

घर लौट आये (७ ८०, १३-१७)। शुक्राचार्य ने इनके इस कुकृत्य का समाचार सुन कर इन्हें शाप दिया (७ ८१, १-१५)। इस शाप का फल-स्वरूप इनका राज्य, सेवका, सेना, और सवारियों सहित सात दिन में भस्म हो गया (७ ८१, १७-१८)।

दण्डक, एक वन का नाम है। अयोध्या के नागरिका के स्थित के वारण श्रीराम इसी वन में चले आये (१ १, ४०)। इसी वन में राम ने विराध का वध तथा अगस्त्य आदि ऋषियों का दर्शन किया था (१ १, ४१)। ऋषियों के निवेदन पर राम ने इस वन के राक्षसों का वध करना स्वीकार कर लिया (१ १, ४५)। इसी वन में दूषणखा की नाक और कान काटने के पश्चात् राम ने पर और दूषण सहित १४,००० राक्षसों का वध किया (१ १, ४६-४८)। इसी वन से रावण ने सीता का अपहरण किया था (१ १, ५३)। वाल्मीकि ने राम के इस वन में जाने का पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, १७)। यह दक्षिण में स्थित था (२ ९, १२)। कैंकेयी ने यह वर मांगा कि श्रीराम को तपस्वी का वध बना कर इसी वन में चले जाना चाहिये (२ ११, २७, १८, ३३)। राम ने चौदह वर्ष के लिये इस वन में व्रत करना स्वीकार किया (२ १९, ११)। श्रीराम ने कौसल्या को अपने दण्डकारण्य में वनवास करने के लिये निष्ठासित होने का समाचार दिया (२ २०, ३०)। श्रीराम के दण्डकारण्य में निर्वासित कर दिए जाने का कैंकेयी ने उल्लेख किया (२ ७२ ४२)। राम आदि न दण्डकारण्य में प्रवेश किया (३ १, १)। इसके मनारम दृश्य का वर्णन (३ ८, १२-१५)। किसी समय ऋषियों का भक्षण करता हुआ मारीच यही विचारण करता था (३ ३८, २)। विश्वामित्र का आश्रम यही स्थित था (३ ३८, १२-१३)। यही श्रीराम के वाण के प्रहार से मारीच सी योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा (३ ३८, १९)। रावण और मारीच यहीं श्रीराम के आश्रम का निकट आये (३ ४२, ११-१२)। लक्ष्मण न सीता की खोज में इसका कोना-कोना दूँढा किन्तु कोई फल नहीं हुआ (३ ६१, २३)। सुग्रीव ने अद्भुत की सीता की खोज के लिये यहीं भेजा (४ ४१, १२)। यह दिग्घ्न और नैवद्य पवना के बीच स्थित था, और राजा दण्ड के नाम पर इसका नाम दण्डकारण्य पड़ा (७ ८१, १८-१९)। इसे जनस्थान भी कहते हैं (७ ८१, १९)।

दण्डिन्, सूर्य के एक द्वारपात्र का नाम है जो रावण द्वारा प्रहृत से भेज गये समाचार को सूर्य के पास ले गया और उनका उत्तर लाया (७ २३त, ८-१४)।

दधिवक्त्र, एक वानर यूथपति का नाम है। किष्किन्धा जाते समय लक्ष्मण ने इनके सुसज्जित भवन को भी देखा (४ ३३, ११)। यह सुग्रीव के मामा और मधुवन के रक्षक थे (५ ६१, ९, यहाँ 'दधिपुत्र' है)। जब वानर मधुवन के फलमूल जादि वा नक्षण करने लगे तो इन्होंने क्रुद्ध होकर वानरो को रोका परन्तु वानरो ने इन्हे ही मारा-पीटा और इधर-उधर घसीटा (५ ६१, २०-२४)। वानरो द्वारा मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर इन्होंने उत पर एक वृक्ष से आक्रमण किया किन्तु अङ्गद ने इन्हें पुष्पिणी पर पटक दिया जिससे इनके अंग टूट गये (५ ६२, १८-२८)। अपने मन्त्रियों से परामर्श करके ये सुग्रीव को मधुवन के विध्वंस का समाचार देने गये (५ ६२, २९-४०)। सुग्रीव द्वारा अभयदान मिलने पर इन्होंने उनसे उन वानरो के विरुद्ध शिकायत की जिन्होंने मधुवन को गहम गहम कर दिया था (५ ६३, ४-१२)। सुग्रीव से विदा लेकर ये मधुवन लौट आये और अङ्गद से क्षमायाचना करने के बाद उन्हें सुग्रीव का समाचार दिया (५ ६४, १-१२)। ये चन्द्रमा के पुत्र थे (६ ३०, २३)। इन्द्रजित् ने इन्हे आहूत किया (६ ७३, ५९)। राम ने इनका आदर सत्कार किया (७ ३९, २२)।

दनु, दक्ष की एक पुत्री का नाम है जो वश्यप को विवाहित थी (३ १४, १०-११)। अपने पति की वृषा से यह अश्वघ्रीय की माता बनी (३ १४, ११-१६)। कवच भी इसका एक पुत्र था (३ ७१, ७)।

दन्तवक्त्र, राम के एक हास्यकार का नाम है जो उनका मनोरंजन किया करता था (७ ४३, २)।

दमयन्ती, भीम की पुत्री और नैषध की धर्मपरायण पत्नी का नाम है (५ २४, १२)।

दरद, उत्तर के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने सतबल को भेजा (४ ४३, १२)।

दरीमुख, एक वानर यूथपति का नाम है। जो सुग्रीव के अनुरोध पर दस अरब वानरो की सेना के साथ उनका पास आया (४ ३९, २४. ३६-३७)। दक्षिण दिशा की ओर चलने समय ये वानर-सेना को जल्दी चलने के लिये उत्साहित करते चल रहे थे (६ ४, ३७)। शीराम ने इनका आदर-सत्कार किया (७ ३९, २२)।

ददुर, एक पर्वत का नाम है। भरद्वाज के जाथम में इस पर्वत का स्पर्श करके यहुने वाली हवा धीरे-धीरे चलने लगी (२. ९१, २४)।



दशरथ, अयोध्या के राजा का नाम है। राम इनके ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका य पुत्रराज-पद पर अभिषेक करना चाहते थे (१ १, २०-२१)। सत्यवचन के कारण धर्म बन्धन में बंध कर इन्होंने अपने प्रिय-पुत्र राम को वनवास दे दिया था (१ १, २३)। अयोध्यावासियों के साथ जुठ दूर तक आकर इन्होंने राम को विदा किया (१ १, २८)। राम के शोक में इनकी मृत्यु हो गई (१ १, ३२-३३)। वाल्मीकि ने इनके कृत्यों का पूर्वदर्शन किया (१ ३, ३)। वाल्मीकि ने राम के वनवास पर इनके शोक तथा अन्ततः मृत्यु का पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, १३)। इन्होंने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था (१ ५, ९-२२)। “अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान्, सभी उपयोगी वस्तुओं के सग्रहकर्ता, दूरदर्शी और महान् तेजस्वी थे। नगर और जनपद की जनता उनसे बहुत अधिक प्रेम करती थी। वे इक्ष्वाकुकुल के अतिरथी वीर, यज्ञ करने वाले धर्मपरायण, जितेन्द्रिय, और महर्षियों के समान दिव्य गुण सम्पन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में रयाति थी। वे बलवान्, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त और इन्द्र-विजयी थे। धन आदि वस्तुओं के सचय की दृष्टि से वे इन्द्र और कुबेर के समान थे जिन्हें प्रजापति मनु संपूर्ण जगत् की रक्षा करते थे उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ, और काम का सम्पादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुये ये सत्यप्रतिज्ञ नरेश अयोध्यापुरी का वैसे ही पालन करते थे जैसे इन्द्र अमरावती का (१ ६, १-५, २७-२८)।” “निष्पाव राजा दशरथ मुनिवरो द्वारा अपने और दानु-राज्य के वृत्तान्तों पर दृष्टि रखते हुये धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। इनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी और ये उदार तथा सत्यप्रतिज्ञ थे। इन्हें कभी अपन से बड़ा और अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। जैसे देवराज इन्द्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते थे उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर सम्पूर्ण जगत् का पालन करते थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होने हैं उसी प्रकार दशरथ तेजस्वी मन्त्रियों से घिरे रहकर शोभा पाते थे (१ ७, २०-२४)।” सम्पूर्ण धर्मों के ज्ञाना दशरथ वश को चलाने वाले पुत्र के अभाव में निश्चित रहते थे, आ उन्होंने पुत्र-प्राप्ति के लिये अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने का विचार किया (१ ८, १-२)। अपने मन्त्रियों से परामर्श करके उन्होंने ऋत्विजों और गुरु-जनों को बुलाने के लिये सुमन्त्र को भेजा (१ ८, ३-४)। वेद-विद्या के पाठ्य मुनियों तथा कुल-पुरोहित दमिष्ठ आदि का पूजन करने के पश्चात्

दशरथ ने पुत्र-प्राप्ति के लिये अश्वमेध यज्ञ करने की अपनी इच्छा को उनसे व्यक्त किया (१, ८, ७-९) । पुरोहितों के अश्वमेधों से प्रसन्न होकर दशरथ ने अपने मन्त्रियों को यज्ञ के लिये उचित व्यवस्था करने की आज्ञा दी (१ ८, १३-१९) । पुरोहितां और मन्त्रियों को विदा करके दशरथ ने अन्तपुर में जाकर अपनी महारानियों से यज्ञ के लिये दीक्षित होने के लिये कहा (१ ८, २३-२४) । सुमन्त्र ने दशरथ को बताया कि सनतु कुमार की भविष्यवाणी के अनुसार ऋष्यशृङ्ग उनके लिये पुत्रों को सुलभ करने वाले यज्ञकर्म का सम्पादन करेंगे (१ ९, १८) । दशरथ ने सुमन्त्र से पूछा कि ऋष्यशृङ्ग को किस प्रकार रोमपाद के यहाँ बुलाया गया था (१ ९, १९) । 'इन्द्राकूणा कुले जातो भविष्यति मुद्यानिक । नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान्त्वत्प्रतिश्रवः ॥', (१ ११, २) । दशरथ ने अङ्गराज से मित्रता की (१ ११, ३) । राजा रोमपाद के पास जाकर दशरथ ने उनसे उनके जामाता ऋष्यशृङ्ग को अपने लिये पुत्ररूपि यज्ञ कराने की आज्ञा माँगी (१ ११, ४-१०) । सुमन्त्र के परामर्श के अनुसार बन्धिष्ठ से अनुमति लेकर दशरथ सपरिवार अङ्गराज के यहाँ गये (१ ११, १२-१५) । इन्होंने ऋष्यशृङ्ग को रोमपाद के पास बैठे देखा (१ ११, १५-१६) । रोमपाद ने इनका हार्दिक स्वागत करके ऋष्यशृङ्ग से परिचय कराया (१ ११, १६-१७) । सात-आठ दिनों तक रोमपाद के साथ रहने के पश्चात् दशरथ ने दान्ता और ऋष्यशृङ्ग को आवश्यक कार्यवश अयोध्या चलने का प्रस्ताव किया (१ ११, १७-२०) । रोमपाद की अनुमति लेकर दशरथ ने अपनी रानियों सहित वहाँ से प्रस्थान किया (१ ११, २२-२३) । दशरथ ने अयोध्यावासियों के पास दूत भेजकर उन लोगों से ऋष्यशृङ्ग का सार्वजनिक स्वागत करने के लिये कहा (१ ११, २४-२५) । दशरथ अयोध्या पहुँचे (१ ११, २६-२८) । दशरथ ने अन्तपुर में ऋष्यशृङ्ग को ले जाकर उनका पूजन किया (१ ११, २८) । कुछ समय के पश्चात् बन्तु ऋषु के आरम्भ होने पर दशरथ ने यज्ञ करने का विचार करके ऋष्यशृङ्ग से यज्ञ कराने का प्रस्ताव किया (१ १२, १-२) । दशरथ ने सुमन्त्र को मुण्ड, दामदेव, जादालि इत्यादि को लाने के लिये भेजा (१ १२, ५-६) । मुण्डियों का न्दान करने के पश्चात् दशरथ ने उनसे पुत्र-प्राप्ति के हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का अग्रण विचार व्यक्त किया (१ १२, ७-१०) । पुरोहितों द्वारा चार पुत्र प्राप्त करने के लिये आश्वस्त होकर दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ करने की व्यवस्था करने का आदेश दिया (१ १२, १०-१८) । मन्त्रियों और पुरोहितों को विशा करके दशरथ ने

अन्त पुर में प्रवेश किया (१ १२, २०-२१) । वर्तमान वसन्त ऋतु के अन्तीत होनेपर जब पुन वसन्त आया तब राजा दशरथ यज्ञ की दीक्षा लेने के लिये वसिष्ठ के पास गये (१ १३, १-४) । 'नरव्याघ्र', (१ १३, ३५) । 'राज-मत्तम', (१ १३, ३६) । समस्त व्यवस्था हो जाने पर वसिष्ठ तथा ऋष्यशृङ्ग के आदेश से दशरथ यज्ञ के लिये राजमन्डप से निकले (१ १३, ३५-३९) । यज्ञ-मण्डप में पहुँच कर पत्नियों सहित दशरथ ने यज्ञ की दीक्षा ली (१ १३, ४१) । राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिये विधिपूर्वक 'वपा' व धूँये को सूँघा (१ १४, ३७) । यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करनेवाले पुरुष शिरोमणि दशरथ ने ऋत्विजों को समस्त पृथिवी दान कर दी (१ १४, ४५) । ऋत्विजों की इच्छा में दशरथ ने उन्हें भूमि की अपेक्षा धन और गायों के रूप में दक्षिणा दी (१ १४, ४६-५२) । उपस्थित ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान दिया (१ १४, ५३-५५) । ब्राह्मणों ने राजा को धन्यवाद दिया (१ १४, ५५-५७) । अन्त में दशरथ ने ऋष्यशृङ्ग से अपनी कुल परम्परा की वृद्धि करनेवाले यज्ञ का सम्पादन करने के लिये कहा (१ १४, ५८) । ऋष्यशृङ्ग के आशवासन दो सुनकर दशरथ अत्यन्त हर्षित हुए (१ १४, ५९-६०) । 'राज्ञो दशरथस्य त्वमयो याविपनेविभो । धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समलेजस ॥', (१ १५, १९) । विष्णु ने अपन को चार स्वरूपों में प्रकट करके दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया (१ १५, ३०, १६, ८) । अग्निकुण्ड से प्रकट हुये प्राजापत्य पुरुष का दशरथ ने स्वागत किया (१ १६, १७) । प्राजापत्य पुरुष से दशरथ ने देवान्न से परिपूर्ण मुवर्जपात्र को ग्रहण किया (१ १६, २१-२३) । दशरथ ने प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त खीर का अर्घास कौमन्धा और शेष आधे में दो भाग करके मुमिन्ना और कैकेयी को दिया (१ १६, २६-२९) । अपनी पत्नियों के गर्भवती होने का समाचार सुनकर दशरथ अत्यन्त प्रसन्न हुए (१ १६, ३२) । यज्ञ समाप्त होनेपर दशरथ अपनी पत्नियों, मन्त्रियों और सेवकों सहित अयोध्यापुरी में लौट आये (१ १८, १-२) । इन्होंने ब्राह्मणों का आगम करके पुरी में प्रवेश किया (१ १८, ५) । ऋष्यशृङ्ग आदि को विदा करने के पश्चात् दशरथ पुत्र-प्राप्ति की इच्छा करने लगे (१ १८, ७) । दशरथ को चार पुत्र पैदा हुए (१ १८, १५) । पुत्रोत्पत्ति से हर्षित दशरथ ने सूत, मागध, बन्दीजनो तथा ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया (१ १८, १९) । पुत्रजन्म के बारहवें दिन इन्होंने अपने बान्कों के नामकरण तथा अन्य सत्कार किये (१ १८, २०-२५) । इनके गुणनग्नपत्र पूत्र प्राप्त करके दशरथ अत्यन्त प्रसन्न हुए (१ १८, ३३-३४) । इन्होंने अपने पुत्रों का

विवाह करने का निश्चय किया (१ १८, ३८)। जब दशरथ पुत्री का विवाह करने का विचार कर रहे थे तो उसी समय महर्षि विश्वामित्र पधारे जिनका इन्होंने पिथिवन् स्वामिन किया (१ १८, ३९-४४)। परस्पर कुशल समाचार पठने के पश्चात् दशरथ और विश्वामित्र आदिने पयायोग्य आसन गृहण किया (१ १८ ५५ ४९)। राजा दशरथ ने विश्वामित्र से उनके पधारने का प्रयोजन पूछा (१ १८ ५०-५९)। विश्वामित्र के प्रस्ताव को सुनकर राजा दशरथ गोक-त्रिहृत् हो उठे (१ १९, २-२२)। दशरथ ने विनमतापूर्वक विश्वामित्र को अपने पुत्र को देना वस्वीकार करते हुए स्वयं महर्षि की सेवा करने का प्रस्ताव किया (१ २०, १-१०)। दशरथ ने बताया कि इस समय उनकी आयु ६० ००० वर्ष की हो गई है (१ २०, ११)। इस प्रकार अपनी बुद्धावस्था आदि का तर्क उपस्थित करके दशरथ ने अपने पुत्र को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति देना अम्बीकृत कर दिया (१ २०, ११-१५ १८-२८)। 'इष्टवाकूणा कुले जात मातासुर्म इवापर । प्रति-मान्मुञ्जत श्रीमाध्र धर्मं हातुमर्हसि ॥', (१ २१, ६)। 'त्रिषु लोकेषु विस्त्रातो धर्मत्मा इति राघव', (१ २१, ७)। अन्त में दशरथ ने विश्वामित्र की प्रमत्तता के लिये श्रीराम को उनके साथ भेजना स्वीकार कर लिया (१ २१, २२)। राजा दशरथ ने स्मृतिवाचनपूर्वक प्रदान वित्त से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिया (१ २२, १-३)। उनके दून से धृष्ट तोडने में श्रीराम की सफलता तथा सीता के साथ उनके विवाह के प्रस्ताव का समाचार सुनकर दशरथ अत्यन्त प्रसन्न हुये और इस विवाह प्रस्ताव के सम्बन्ध में बसिष्ठ, वामदेव इत्यादि से परामर्श किया (१ ६८, १४-१७)। बसिष्ठा आदि की स्वीकृति प्राप्त करके इन्होंने दूसरे ही दिन मिथिला के त्रिय प्रस्थान का निश्चय किया (१ ६८, १८)। दूसरे दिन प्रातःकाल इन्होंने मुमन्त को बुलाकर यात्रा की व्यवस्था से सम्बन्धित निर्देश दिये (१ ६९, १-५)। अपनी सेना तथा पुरोहितों सहित ये पाँचवें दिन विदेह नगरी में पहुँचे (१ ६९, ६-७)। विदेह में जनक ने इनका हार्दिक स्वागत किया (१ ६९, ७)। दूसरे ही दिन विवाह सम्पन्न करने के जनक के प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दी (१ ६९, ८-१४)। अपने पुत्री के साथ इन्होंने हर्षपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की (१ ६९, १७)। 'अमितपम कुर्षप', (१ ७०, ११)। जनक के बुलाने पर अपने पुत्र तथा पुरोहितों सहित वे उस स्थान पर गये जहाँ जनक इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे (१ ७०, १४)। इन्होंने कहा कि बसिष्ठ इनके वस का वर्णन करेंगे (१ ७०, १७)। बसिष्ठ ने दशरथ के वस का इस प्रकार वर्णन किया (१ ७०, १९-४५) :

ब्रह्मा (नित्य, शाश्वत और अविनाशी)



कुशध्वज की दोनों कन्याओं का भरत और शत्रुघ्न में विवाह कराने की स्वीकृति देने के पश्चात् इन्होंने उनसे श्राद्धकर्म करनेकी अनुमति माँगी (१ ७२, १९) । इन्होंने विधिपूर्व श्राद्ध करने के पश्चात् दूसरे दिन अपने पुत्रों के लिये ब्राह्मणों को गायों का दान दिया (१ ७२, २१-२५) । इन्होंने अपने साते, केकय-राजकुमार युधिजित्, का स्वागत किया (१ ७३, २-६) । दूसरे दिन प्रातःकाल ये ऋषियों को आगे करके जनक की यज्ञशाला में गये (१ ७३, ७) । पुत्रों का विवाह कर्म देखने के पश्चात् पुत्रों के पीछे गये (१ ७३, ३७) । दूसरे दिन प्रातःकाल जनक से विदा लेकर पुत्रों और ऋषियों के साथ अयोध्या के लिये प्रस्थान किया (१ ७४, ६-९) । मार्ग में पक्षियों के चहचहाने तथा मृगों के विशेष रूप से जाने के अर्थ के सम्बन्ध में वसिष्ठ से पूछा (१ ७, ९-१२) । परशुराम के आने से जो प्रकृति में भयकर उत्पात हुए उनके बीच भी स्थिर-चित्त रह (१ ७४, १४-१६) । इन्होंने मधुर शब्दों में श्रीपरशुराम को राम से युद्ध करने से विरत करने का प्रयास किया (१ ७५, ५-९) । परशुराम के चले जाने पर अपने पुत्र को छाती से लगा कर अपना मन शान्त किया और सेना को अयोध्या की ओर कूच करने का आदेश दिया (१. ७७, ४-६) । पुरवासियों ने इनका स्वागत किया, जिसके पश्चात् ये राजकुमारों सहित अन्त पुर में गये और वहाँ स्वजनो ने इनका स्वागत किया (१. ७७, ७-१०) । इन्होंने भरत को अपने मामा के साथ केकय जाने की अनुमति दी (१ ७७, १६-१७) । भरत के चले जाने पर राम और लक्ष्मण इनकी सेना-पूजा में मग्न रहने लगे (१ ७७, २१) । ये केकय गये अपने दोनों पुत्रों, भरत और शत्रुघ्न, को शवा स्मरण किया करते थे (२. १, ४) । यद्यपि ये अपने चारों पुत्रों पर समान रूप से स्नेह रखते थे, तथापि राम के त्रिशिष्ट गुणों के कारण उनके प्रति अधिक आकृष्ट रहते थे (२ १, ५-६) । राम को सर्वगुण सम्पन्न देखकर इन्होंने उनका युवराज-पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया (२ १, ३४-४१) । अपने मन्त्रियों से परामर्श करते इन्होंने अन्य देशों के राजाओं को भी बुलाया (२ १, ४३-४५) । जल्दी के कारण ये जनक तथा केकयराज को आमन्त्रित नहीं कर सके (२ १, ४७) । राजा से सम्मानित होकर विनीतभाव में उन्हीं के निकट बैठे हुए समस्त नरेशों तथा पुरवासियों से विरे दशरथ उस समय देवताओं के बीच विराजमान इन्द्र के समान सुशोभित हो रहे थे (२ १, ५०) । इन्होंने राम को युवराजपद पर नियुक्त करके स्वयं राजकार्य से विधाम लेने की अपनी इच्छा प्रकट करते हुए उसके लिये उपस्थित लोगों से स्वीकृति माँगी (२ २,

१-१६) । सभासदों ने इनके प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन करते हुये इनसे श्रीराम को युवराज पद पर नियुक्त करने के लिये कहा (२ २, १७-२२) । इन्होंने सभासदों से पूछा कि वे श्रीराम को क्यों युवराज बनाना चाहते हैं (२ २, २३-२५) । जब सभासदों ने श्रीराम के गुणों की चर्चा की तो इन्होंने उनके प्रस्ताव को महर्ष स्वीकार कर लिया (२ ३, १-२) । तदनन्तर इन्होंने वसिष्ठ और वामदेव से उसी चैत्र मास में राम के अभिषेक की तैयारी करने के लिये कहा (२ ३, ३-४) । सभासदों ने इनकी इस आज्ञा का स्वागत किया (२ ३, ५) । इन्होंने वसिष्ठ से कहा कि वे मेवरो की तैयारी करनेका आदेश दे (२ ३, ५-६७) । वसिष्ठ से यह सुनकर कि अभिषेक की समस्त तैयारी पूरी हो गई है, इन्होंने मुमन्त्रसे राम को बुलवाया (२ ३, २१-२३) । उस समय राजमन्त्र में उपस्थित पूर्व, उत्तर, पश्चिम, और दक्षिण के भूपाल, म्लेच्छ, आर्य, तथा वनों में रहनेवाले अन्याय्य मनुष्य गजा दशरथ की प्रशंसा कर रहे थे (२ ३, २४-२७) । जब राम ने इनके चरणों में प्रणाम किया तो इन्होंने स्नेहपूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया (२ ३, ३२-३४) । राम को युवराज बनाने की अपनी इच्छा की विधिवत् घोषणा की (२ ३, ३८-४६) । 'निश्चयज्ञ', (२ ४, १) । अपने मन्त्रियों से परामर्श करके दूसरे ही दिन अभिषेक करने का निश्चय किया (२ ४, १-२) । पुनः मुमन्त्र को राम को बुलाने के लिये भेजा (२ ४, ३) । "राम के आने पर उन्हें दूसरे ही दिन अभिषिक्त करने की अपनी इच्छा बताते हुये कहा कि इस शुभ कार्य में विलम्ब हानिकर होगा क्योंकि इनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरना जा रहा है । तदनन्तर इन्होंने श्रीराम को व्रत करते हुये कुशासन पर सीता के साथ रात्रि व्यतीत करने का आदेश देकर कहा कि जब तक भरत नगर से बाहर, अपने मामा के पास है तब तक ही उनका अभिषेक हो जाना उचित है । इसके बाद इन्होंने राम को जाने की आज्ञा दी (२ ४, ११-२८) ।" इन्होंने वसिष्ठ से कहा कि वे राम और उनकी पत्नी सीता को राज्य की प्राप्ति के लिये उपवास व्रत का पालन करायें (२ ५, १-२) । वसिष्ठ के लौटने पर उनका विधिवत् स्वागत करके इन्होंने उनसे पूछा 'क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया ?' (२ ५ २३) । वसिष्ठ की अनुमति से इन्होंने जनसमुदाय को विदा करके अन्नपुर में प्रवेश किया (२ ५, २५-२६) । राम को युवराज बनाने के इनके निर्णय की अन्यजनों ने अत्यन्त सराहना की (२ ६, २०-२४) । पूर्वकाल में देवामुर सग्राम के समय कैकेयी ने इनकी प्राणरक्षा की थी जिसके फलस्वरूप इन्होंने उस समय कैकेयी को दो वर देने का वचन दिया था (२ ९, ११-१८) । राम के अभिषेक का शुभ समाचार देने

के लिये इन्होंने कँकेयी के भवन में प्रवेश किया (२ १०, ९-११) । अन्त पुर में प्रवेश करके जब रानी कँकेयी को उत्तम शय्या पर उपस्थित नहीं देखा तो कामबल से समुक्त इन्होंने प्रतिहारी से कँकेयी का पता पूछा (२ १०, १६-१९) । इन्होंने कँकेयी को शोषागार में भूमि पर पड़े देखा (२ १०, २१-२३) । 'कामी', (२ १०, २७) । "इन्होंने अत्यन्त मधुर वचनों में कँकेयी से पूछा 'बया किसी ने तुम्हारा निरस्तार अब्बा अपमान किया है ? यदि तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है तो मैं वड़े से वड़े चिकित्सक को बुला सकता हूँ ।' इस प्रकार कँकेयी को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे इन्होंने अपने साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों तक की बहुमूल्य सामग्रियों को प्रस्तुत करने का वचन दिया । इनके यह वचन पर कँकेयी को कुछ सान्त्वना मिली और उसने उठकर अपना मनोरथ बताने का विचार किया (२, १०, २६-४३) । 'त मन्मथशरैर्विद्ध कामवेगयशानुगम् । उवाच पृथिवीपाल दारण वच ॥', (२ ११, १) । कँकेयी के कहने पर इन्होंने राम की शपथ लेकर यह वचन दिया कि मैं उसके मनोरथ को पूर्ण करूँगे (२ ११, ४-१०) । 'मरुदसद्यो गृह्णतेजा धर्मज सत्पवारानुनि ।', (२ ११, १६) । जैसे मृग बहेलिये की बाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिये उमके जाल में फँस जाता है उसी प्रकार कँकेयी के वशीभूत लगे राजा दशरथ उस समय पूर्वकाल के वरदान वाक्य का स्मरण करने मात्र से अपने ही विनाश के लिये प्रतिज्ञा बन्धन में बंध गये (२ ११, २२) । श्रीराम के वनवास तथा भरत के राज्याभिषेक के लिये कँकेयी के आग्रह को सुनकर, ये 'अहो ! धिक्कार है' कहकर मूँच्छित हो गये (२ १२, १-६) । "मूच्छां दूर होने पर इन्होंने कँकेयी को पहले तो फटकारा और तदनन्तर उसे वर धापन लेने के लिये समझाते लगे कहा कि राम से विमुक्त होने पर इनकी मृत्यु ही जायगी, तथा अपने गुणों और चरित्र के कारण राम भी इस प्रकार के कटु व्यवहार के योग्य नहीं है (२ १२, ६-३६) ।" इनके अत्यधिक विलाप तथा ममत्ताने के विपरीत भी जब कँकेयी वचन पर दृढ़ रही तो इनकी समस्त इन्द्रियाँ व्याकुल हो उठी और ये कँकेयी के मुख को एतदक देखते रहे और अन्त में 'हा राम' कहकर लम्बी साँस सींचते लगे मूँच्छित हो कटे वृक्ष की भाँति भूमि पर गिर पड़े (२ १२, ५१-५४) । इनकी चेतना सुप्त-ही हो गई और ये उन्माद-ग्रस्त से प्रतीत होने लगे (२ १२, ५५) । विविध प्रकार से विलाप करते लगे इन्होंने कँकेयी को फटकारा, उससे अनुरोध किया, विभिन्न प्रकार के वचन दिये, राम के गुणों की प्रशंसा की, और अन्त में मूँच्छित होकर उसने चरणों का स्पर्श करने की चेष्टा में बीच में ही मूँच्छित होकर गिर पड़े (२ १२, ५६-११३) । कँकेयी के

आशेष-युक्त वचन सुनकर ये कुछ समय तक अत्यन्त व्याकुल अवस्था में रहे, किन्तु तत्पश्चात् क्रोध युक्त वचनों से उसे फटकारते हुये श्रीराम का स्मरण करके विविध प्रकार से विलाप करने लगे (२ १३, ४-१५)। गरम उच्छ्वास लेते हुये ये आकाश की ओर देखकर रात्रि से शीघ्र समाप्त होने की प्रार्थना करने लगे जिससे निर्दय और क्रूर कैंकेयी से पृथक् हो सकें (२ १३, १७-१९)। तदनन्तर इन्होंने करबद्ध होकर कैंकेयी से वर वापस लेने के लिये प्रार्थना की (२ १३, २०-२४)। किन्तु कैंकेयी को अपने आग्रह पर दृढ़ देखकर ये पुन मूर्च्छित हो गये (२ १३, २५-२६)। प्रात-काल जब इन्हें जगाने के लिये मनोहर वाद्यों के साथ मंगल-गान होने लगा तब इन्होंने तत्काल उन सबको वन्द करने की आज्ञा दी (२ १३, २७)। जब कैंकेयी ने मृत्यु पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देकर अपने वरों की पूति के लिये दुराग्रह किया तब इन्होंने अन्त होकर उससे अपना समस्त सम्बन्ध विच्छेद करके कहा — 'तू और तेरा पुत्र मुझे जलाञ्जलि न दे' (२ १४, १४-१८)। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुये उत्तम अश्व की भाँति कैंकेयी द्वारा प्रेरित होने पर व्यथित होकर इन्होंने अपने धर्मपरायण, परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र राम को देखने की इच्छा प्रगट की (२ १४, २३-२४)। "दूसरे दिन प्रातःकाल वसिष्ठ के आग्रह पर जब सुमन्त्र इन्हें अभिषेक समारोह को देखने के लिये बुलाने आये तब इन्होंने उनमें कहा 'तुम्हारे वचन मेरे धर्मस्थानों को और अधिक आघात पहुँचा रहे हैं।' शोक के कारण ये कुछ और नहीं बोल सके (२ १४, ५४-५७)। जब सुमन्त्र को कैंकेयी की आज्ञा मानने में इन्होंने सकोच करते देखा तो स्वयं ही उनमें राम को बुलाने के लिये कहा (२ १४, ६२-६४)। इन्होंने राम को शीघ्र बुलाने के लिये सुमन्त्र को आज्ञा दी (२ १५, २५, २६)। महल में आकर श्रीराम ने पिता को कैंकेयी के साथ सुन्दर आसन पर निराजमान देखा, किन्तु उस समय उनका मुख सूत गया था और वे अत्यन्त विषादग्रस्त दिखाई पड़ रहे थे (२ १८, १)। जब राम ने इनके चरणों में प्रणाम किया तो यह केवल 'राम' शब्द का उच्चारण करने के अनिश्चित और कुछ नहीं कह सके (२ १८, २-३)। इनका भयंकर रूप देखकर राम अत्यन्त भयभीत हो उठे (२ १८, ४)। "राम ने देखा कि दशरथ की इन्द्रियों में प्रसन्नता नहीं थी, वे शीघ्र और सनाप से दुर्बल हो रहे थे, उनका चित्त अत्यन्त व्यथित था, ऐसे प्रवीण हो रहे थे मानो तरंगों से उपरक्षित अक्षोभ्य समुद्र धुँध हो उठा हो, सूर्य की राहु ने ग्रस लिया हो, अथवा किमी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो (२ १८, ५-६)।" 'महानुभाव', (२ १८, ४१)। श्रीराम ने इनमें पूछा 'परन्तु मैं यह जानता चाहता हूँ

जि आज दुर्जन और शत्रुघ्नो का दमन करनेवाले महाराज मुनसे पहले की भांति प्रमत्ततापूर्वक पत्नी नहीं बोल रहे हैं ?' (२. १९, ३) । कैकेयी की बान सुनकर शोक में डूब हुये राणा दशरथ लम्बो साम गीच कर बोले, 'द्विकार है ।', और इतना कहकर मूर्छित होकर सुवर्णभूषित शय्या पर गिर पड़े (२. १९, १७) । राम ने इन्हें उठाकर बैठाया (२. १९, १८) । जब राम ने कैकेयी को बताया कि ये पिता की आज्ञा का बिना किसी सकोच के ही पालन करेंगे, तो ये शोक के आवेग में कुछ बोल न सके और फूट-फूट कर रोने लगे (२. १९, २७) । राम ने इनके चरणों में प्रणाम किया (२. १९, २८) । राम के निर्वासन का समाचार जानकर अन्नपुर की शोकप्रस्त रानियों ने विलाप करना आरम्भ किया, और उनके इस धोर आर्तनाद को सुनकर ये पुनः शोक से सन्तप्त हो बिछौने पर ही पड़ गये (२. २०, ७) । 'सत्यप्रतिज्ञ', (२. २०, २४) । 'सत्य सत्याभिसदृशच नित्य सत्यपराक्रम । परलोकभयाद्भीमो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥', (२. २२, ९) । 'धर्मकृता श्रेष्ठ', (२. २४, ३०) । राम को निर्वासित करने के कारण नगरवासियों ने उनकी भर्त्सना की (२. ३३, १०-११) । "राम के आगमन की सूचना देने के लिये सुमन्त्र ने भीतर आकर देखा कि पृथिवीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढँकी जाग, तथा जलशून्य सरोवर के समान शीहीन हो गये हैं । उनकी समस्त इन्द्रियाँ सताप से कलुषित हो रही थीं और उनका चित्त व्याकुल था (२. ३४, २-३) । 'स सत्यवाक्यो धर्मात्मा गाम्भीर्यात्सागरोपम । आकाश इव निष्पद्को नरेन्द्र प्रत्युवाच तम् ॥', (२. ३४, ९) । इन्होंने सुमन्त्र से कहा : 'यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियाँ हैं उन सब को बुलाओ क्योंकि मैं उन सब के साथ ही श्रीराम को देलना चाहता हूँ' (२. ३४, १०) । जब समस्त रानियाँ आ गयीं तब इन्होंने राग की बुलाया (२. ३४, १४) । दूर से ही हाथ जोड़कर अपने पुत्र को आते देख ये सहसा अपने आसन से उठकर बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े किन्तु पहले से ही दुःख से व्याकुल होने के कारण पृथिवी पर गिर कर मूर्छित हो गये (२. ३४, १६-१७) । राम, लक्ष्मण और सीता इत्यादि ने इन्हें उठा कर शय्या पर लिटा दिया (२. ३४, १८-२०) । "जब राम ने विदा माँगी तो इन्होंने उनसे कहा 'मैं कैकेयी को दिये हुये वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ । तुम मुझे बन्दी बनाकर स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ ।' (२. ३४, २५-२६) । "श्रीराम को बन जाने की अनुमति देते हुये इन्होंने उनसे एक रात और ठहर जाने का आग्रह किया जिससे उन्हें एक दिन और निकट रख कर देख सकें । अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देने हुये इन्होंने राम से कहा -

'मुझे तुम्हारा वन म जाना अच्छा नहीं लग रहा है। कुलोचित सदाचार का विनाश करनेवाली कँकेयी ने मुझे वरदान के लिये प्रेरित करने मेरे माथ छल किया है।' इस प्रकार कहते हुये इन्होंने राम के चरित्र और स्वभाव की प्रशंसा की (२ ३४, २०-३८)। इन्होंने राम को छाती से लगाया और उसके वाद मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़े (२ ३४, ६०)। 'यन्महेन्द्रमिवा-जस्य दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम्। महोदधिमिवाक्षोभ्य सन्तापयसि कर्मभि ॥', (२ ३५, ७)। 'मावमस्या दशरथ भर्तार वरद पतिम्', (२ ३५, ८)। 'मा त्व प्राण्माहिता पापदैवराजसमप्रभम्', (२ ३५, ३०)। 'श्रीमान्दशरथो राजा देवि राजीवलोचन', (२ ३५, ३१)। 'रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम्। प्रवदयति महत्वाएः पूर्ववृत्तमनुस्मरन् ॥', (२ ३५, ३५)। इन्होंने सुमन्त्र को आज्ञा दी कि वे श्रीराम के साथ सेना, खजाना तथा मनोरञ्जन की समस्त सामग्रियाँ आदि भी भेजें (२ ३६, १-९)। कँकेयी के इस प्रस्ताव पर आपत्ति करने पर इन्होंने उसे फटकारा (२ ३६, १३-१४)। कँकेयी के यह कहने पर कि राम को भी असमञ्ज की भाँति खाली हाथ ही वन जाना चाहिये, य उसे धिक्कारने लगे (२ ३६, १६-१७)। "इन्होंने कँकेयी से कहा 'तू दुःखद मार्ग का आश्रय लेकर कुचेष्टा कर रही है। अब मैं भी यह राज्य, धन और मुख छोड़कर श्रीराम के पीछे चला जाऊँगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जायेंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ बिरकाल तक सुखपूर्वक निष्पष्टक राज्य का उपभोग करती रही।' (२ ३६, ३२-३३)।" वसिष्ठ के वचनों का अनुमोदन करते हुये इन्होंने सीता को बत्कल धारण करके राम के साथ जाने के कँकेयी के आग्रह पर कँकेयी को फटकारा (२ ३६, २, ११)। "राम आदि को मुनिवेष में देखकर ये शोक से अचेत हो गये। चेतना आने पर घोर विलाप करते हुये इन्होंने कहा कि पूर्वजन्म के किसी पाप के कारण ही इन पर यह विपत्ति आ पड़ी है। इस प्रकार कहते-कहते इनके नेत्रों में आँसू भर आये और एक ही बार 'हे राम' कहकर मूर्च्छित हो गये (२ ३९, १-८)।" तदनन्तर चेतना आने पर इन्होंने सुमन्त्र से कहा कि वे एक सुसज्जित रथ पर बैठाकर राम आदि को नगर की सीमा तक छोड़ने के लिये ले जायें (२ ३९, ९-११)। इन्होंने कोषाध्यक्ष को बुलाकर सीता को इतने बहुमूल्य वस्त्र और आमूषण देने के लिये कहा जो चौदह वर्षों तक के लिये पर्याप्त हो (२ ३९, १४-१५)। वन जाने के पूर्व राम, लदमण और सीता ने हाथ जोड़कर दीनभाव से इनके चरणों में प्रणाम करके इनकी प्रदक्षिणा की (२ ४०, १-२)। राम को विदा देने के लिये पुरवानियों और स्त्रियों के साथ नगे पाँव ही महल से बाहर कुछ दूर तक आये (२ ४०, २८)।

गम के लिये पुरवासियों को जोकाकुल देखकर ये मूर्च्छित हो गये (२ ४०, ३६) । “मन्त्रियो मे इनसे कहा . ‘राजन् । जिसके लिये यह इच्छा की जाय कि वह पुन शीघ्र लौट आये, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिये ।’ उस समय इन सबंगुणरामपुत्र राजा के शरीर पसीने से भीग रहा था और ये विषाद की मूर्ति से प्रतीत हो रहे थे । अपने मन्त्रियों की उपर्युक्त बात सुनकर ये वही लडे हो गये और राणियो रहित अत्यन्त धीनभाव से पुत्र की ओर देखने लगे (२ ४०, ५०-५१) ।” अन्त पुर की स्त्रियो के घोर आर्तनाद को सुनकर ये अत्यन्त दुःखी हो गये (२ ४१, ८) । “वन की ओर जाते हुये राम के रथ की घूल जब तक दिखाई देती रही, इन्होंने उधर से अपनी दृष्टि नहीं हटाई । जब राम के रथ की घूल भी सर्वथा दृष्टि से ओझल हो गई, ये अत्यन्त आर्त होकर पृथिवी पर गिर पड़े (२ ४२, १-३) ।” “उम समय सहारा देने के लिये कौसल्या तथा कैकेयी इनके समीप आईं । उस समय कैकेयी को देखते ही नय, विनय, और धर्म से सम्पन्न ये व्यथित हो उठे । इन्होंने कैकेयी से दूर रहने के लिये कहा क्योंकि इन्होंने उसके परिव्याग का निश्चय कर लिया था । तब कौसल्या ने इन्हे सहारा देकर उठाया । विविध प्रकार से राम का स्मरण तथा शोक में विलाप करते हुये ये कौसल्या के पाथ महल में बाये । यहाँ इन्होंने सबको से अपने को कौसल्या के भवन में ले चलने के लिये कहा । शय्या पर भी ये अत्यन्त व्यथित होकर विलाप करते रहे (२ ४२, ४३४) ।” वन में श्रीराम ने इनका स्मरण किया (२ ४६, ५-६) । नगर-बासी स्त्रियो ने कहा कि राम के धनवासी हो जाने पर दशरथ जीवित नहीं रहेंगे, और दशरथ की मृत्यु के पश्चात् अयोध्या के राज्य का भी लोप हो जायगा (२ ४८, २६) । ग्रामवासियो ने इन पर आक्षेप किया (२ ४९, ३-७) । वन में लक्ष्मण ने इनका स्मरण किया (२ ५१, ११-१२. १७-२५) । ‘शोकोपहतचेतारश्च वृद्धश्च जगन्नीपति । कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद्द्रवीमि ते ॥’, (२ ५३, २३) । राम ने सुमन्त्र से इनके पास एक सन्देश भेजा (२ ५३, २७-३० ३२) । श्रीराम ने लक्ष्मण से अयोध्या लौट जाने के लिये कहते हुये इनके अत्यन्त शोकसन्तप्त और दुःखी होने का उल्लेख किया (२ ५३, ६-१४) । सुमन्त्र से राम के अन्तिम सन्देश को सुनकर ये पुन मूर्च्छित हो गये (२ ५७, २४-२६) । उस समय कौसल्या तथा मुमित्रा ने उन्हें सहारा देकर उठाया (२ ५७, २८) । चेतना आने पर इन्होंने राम का वृत्तान्त सुनने के लिये सुमन्त्र को बुलाया (२ ५८, १) । जिस प्रकार जंगल से तुरन्त पकड़ कर लाया हुआ हाथी अपने वृषपति गजराज का चिन्तन करके लम्बी साँस खींचना हुआ अत्यन्त सन्तप्त होता है, उसी प्रकार वृद्ध राजा

दशरथ भी श्रीराम के सिन्धु अत्यन्त सन्तप्त हो लम्बी नाँव खींचने हुने उ ही का ध्यान कर अम्बवस्य हा गय (२ ५८, ३) । सुमन्त्र से श्रीराम आदि का दृष्टान्त सुनकर इन्होंने अपने हाँदित उद्गार प्रकट करने हुने विलाप किया और तदनन्तर शोक से मूर्च्छित हो गये (२ ५९, १७-३२) 'सानुजोषा-वदानवश्व प्रियवादी च राघव', (२ ६१, २) । 'विलाप करती हुई कौसल्या के वचन को सुनकर 'हा राम' कहत हुये ये मूर्च्छित हो गये । उस समय इन्हे अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया जिमके कारण इन्हे यह दुःख प्राप्त हुआ था (२ ६१, २७) ।" कौसल्या के कठोर वचन को सुनकर इन्होंने यह अनुभव किया कि ये दो शोक से दग्ध हो रहें—एक श्रीराम के वियोग से और दूसरे अपने पुराने दुष्कर्म से (२ ६२, १-५) । शोक से अत्यन्त व्याकुल हो इन्होंने कौसल्या को हाथ जोडकर मनाने का प्रयास किया (२ ६२, ६-९) । कौसल्या के सान्त्वना देने पर, रात्रि का समय हो जाने के कारण इन्हे हृषं और शोक की अवस्था मे निद्रा आ गई (२ ६२, १९-२०) । "ये दो घडी के बाद ही पुन जाग गये । पत्नी सहित राम के वन चले जाने के दुःख से मर्माहत, इन्होंने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके उसे कौसल्या से बताने का निश्चय किया । उस दिन राम के वन मे चले जाने क बाद छठवी रात्रि व्यतीत हो रही थी । पुत्रशोक से व्याकुल हो इन्होंने अपने पुराने पाप की कथा का कौसल्या से वर्णन करना आरम्भ किया (२ ६३, १-५) ।" अपने इस पाप का वर्णन करते हुये इन्होंने कौसल्या को बताया कि किस प्रकार एक अँधेरी रात मे सरयू नदी के जल से अपने घडे को भरते हुये एक नवयुवक मुनि का इन्होंने भूल से वध कर दिया था (२ ६६, ६-५३) ।" इन्होंने बताया 'उस भरणासन्न मुनिकुमार ने मुझे अपने अन्ये माता पिता के पास जाने के लिये कहा । मैं उसकी आज्ञानुसार उस वृद्ध और अन्धे मुनि दम्पति के पास जाकर अपने अपराध को स्वीकार किया । उस समय अपनी वृद्धावस्था के एक मात्र पुत्र के मारे जाने से उस वृद्ध मुनि-दम्पति ने मुझे शाप दे दिया और स्वयं अग्नि मे प्रवेश करके प्राण त्याग दिया ।" (२ ६४, २-६०) । "इस कथा का वर्णन करने के बाद ये श्रीराम के लिये घोर विलाप करने लगे । धीरे धीरे इनके नेत्रो की ज्योति समाप्त होने लगी और हाथ-पँर शिथिल हो गये । उस समय कौसल्या और सुमित्रा के निरन्तर विलाप करते हुये तथा अर्ध-रात्रि व्यतीत होने-होने इनकी मृत्यु हो गई (२ ६४, ६२-७८) ।" कौसल्या इनकी मृत्यु पर विलाप करने लगी (२ ६६, १-१२) । भरतादि राजकुमारो की अनुपस्थिति के कारण इनके शव को तेल मे सुरक्षित रक्खा गया (२ ६६, १४-१५ २७) ।

अन्त पुर की अन्ध ग्दियों ने इनके लिये विलाप किया (२ ६६, १६-२३) ।
 अयोध्या के नागरिकों ने भी इनके लिये विलाप किया (२ ६६, २४-२५) ।
 भरत ने स्वप्न में इनको देखा (२, ६९, ७-२१) । वसिष्ठ के दूतों से भरत
 ने इनका दुःख-समाचार पूछा (२ ७०, ७) । इनकी कँकेशी के महल में
 बहुधा उपस्थिति का उल्लेख करते हुये भरत ने अपनी माता कँकेशी से इनके
 सम्बन्ध में पूछा (२, ७२, १२-१३) । कँकेशी ने भरत को इनकी मृत्यु का
 समाचार दिया (२, ७२, १५) । भरत इनकी मृत्यु पर विलाप करने लगे
 (२ ७२, १६-२१, २६-३५) । भरत के पूछने पर कँकेशी ने उन्हें इनके
 अन्तिम वचन सुनाये (२ ७२, ३५-३७) । भरत ने कँकेशी ने उन परित्यक्तियों
 का वर्णन किया जिनमें राम को वन जाना पडा और इनकी मृत्यु हुई (२,
 ७२ ४७-५४) । इनकी मृत्यु का कारण बनने के लिये भरत ने कँकेशी को
 धिक्कारा (२ ७३, १-७) । 'धर्मात्मा', (२ ७३, १५) । 'भूषणामिक',
 (२ ७४, ३) । इनका अन्त्येष्टि-संस्कार सम्पन्न हुआ (२ ७६, २-२३) ।
 'गतो दशरथ स्वर्गं यो नो पुत्तरो गुरुः' (२ ७९, २) । 'कच्चिद्दशरथो
 राजा कुशली सत्यसगरः । राजसूयाश्वमेधानामाहर्ता धर्मनिरचय ॥' (२-
 १००, ८) । 'वीमान्स्वर्गं गतो राजा यायजूक सता मन', (२ १०२, ५) ।
 भरत ने राम को इनके स्वर्गवास का समाचार दिया (२ १०२, ५-६) ।
 राम ने इनकी मृत्यु पर विलाप किया (२ १०३, ८-१३) । श्रीराम ने
 भरत को बताया कि दशरथ ने इनी आश्वानन के साथ कँकेशी से विवाह
 किया था कि उसके पुत्र को राज्य मिलेगा (२-१०७, ३) । कँकेशी का ऋण
 चुका देने के कारण ही इन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ (२ ११२, ६) । मारीच ने बताया
 कि महर्षि विश्वामित्र उसका वध और अपना यज्ञ पूरा करने के लिये राजा
 दशरथ से श्रीराम को माँग कर अपने साथ लाये (३ ३८, ४-११) । सीता
 ने रावण से राम को वनवास देने में इनके योगदान की चर्चा की (३ ४७,
 ५-१६) । 'राजा दशरथो नाम धर्मसेनुरिखानल । सत्यसय परिजातो मरुप
 पुत्र स राश्व ॥' (३ ५६, २) । 'राजा दशरथो नाम श्रुतिमान्धर्मवत्सल ।
 चातुर्वर्ष्यं स्वधर्मैर्न नित्यमेवाभिलाष्यत् ॥ न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु द्वेष्टि न
 कथन । स तु सर्वेषु भूनेषु पितामह इवापर ॥ अग्निष्टोमादिभिर्बर्जेरिष्टवान्नाप्त-
 दक्षिणं ॥' (४ ४, ६-७) । 'इक्ष्वाकूया कुले जातो रामो दशरथात्मज ।
 धर्मो निगादिनश्चैव विदुर्निर्देशकारक ॥ राजसूयाश्वमेधैश्च बल्लियोनभितपित ।
 दक्षिणाश्व तथोन्मृष्टा गाव शनसहस्रश ॥ तपसा सत्यवाक्येन वसुधा तेन
 पालिता । स्त्रीहेतोमनस्य पुत्रोऽयं रामोऽरुण्य समागत ॥' (४ ५, ३-५) ।
 'निशान्तस्यायंशौलस्य सपुत्रेष्वनिर्धनिन । स्तुपा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो

यमस्विनी ॥' (५ १६, १७) । 'राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् । पुण्यशीलो महाकीर्तिरिदवाकूणा महायशा ॥ राजर्वीणा गुणश्रेष्ठस्तपसा चर्षिभिः सम । चक्रवर्तिकुले जात पुरदरसमा वले ॥ अहिमाग्तिरक्षुद्रो घृणी सत्य-पराक्रम । मुरयस्येदवाकूवशस्य लक्ष्मीर्वाङ्गलदिमवर्धन ॥ पाथिव व्यञ्जनैद्युक्त पृथुश्री पाथिवपथ । पृथिव्या चतुरन्ताया विश्रुत मुखद मुखी ॥', (५ ३१, २-५) । 'राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् । पिनेव बन्धुर्लोकस्य मुरेश्वरसमद्युति ॥', (५ ५१, ४) । सीता की अग्नि परीक्षा समाप्त होने पर ये एक दिव्य विमान में बैठ कर राम और लक्ष्मण के सम्मुख प्रकट हुये और शिव ने राम तथा लक्ष्मण को इहे नमस्कार करने के लिये कहा (६ ११९, ७-८) । लक्ष्मण सहित श्रीराम ने देखा कि ये निर्मल वस्त्र धारण किये हुये अपनी दिव्य शोभा में देदीप्यमान थे (६ ११९, १०) । विमान पर बैठे हुये महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र, श्रीराम, को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ११९ ११) । राम की अत्यधिक प्रशंसा करते हुये इन्होंने उनसे अयोध्या लौट कर राज्याभिषेक पर बैठने के लिये कहा (६ ११९ १०-२३) । राम के कान्धे पर इन्होंने कैंकेयी को धमा किया (६ ११९ २४-२५) । लक्ष्मण का आलिङ्गन करके इन्होंने उनमें श्रीराम के प्रति निष्ठवान बन रहने के लिये कहा (६ ११९, २६-३१) । इन्होंने सीता को भी राम के प्रति निष्ठावान बनी रहने का उपदेश दिया (६ ११९, ३२-३६) । तदनन्तर सीता सहित अपने दोनों पुत्रों में विदा लेकर य स्वर्ग चले गये (६ ११९, ३७-३८) । जब दुर्वासो ने इनसे राम के कष्टों और दुर्भाग्य की चर्चा की तो इन्होंने मुमन्त्र को ये बातें राम से न कहने के लिये कहा (७ ५०, १०-१५) । 'एक दिन ये वसिष्ठ के आश्रम पर गये जहाँ दुर्वासो भी विद्यमान थे । इन्होंने ऋषियों के चरणों में प्रणाम, और ऋषियों ने भी इनका स्वागत, किया (७ ५१, ३-५) । इन्होंने अपने वश का भविष्य बताने के लिये महर्षि दुर्वासो से निवेदन किया (७ ५१, ७-९) । दुर्वासो की भविष्यवाणी सुनने के पश्चात् य अयोध्या लौट आये (७ ५१, २६) ।

दशार्ण, दक्षिण के कुछ नगरो का नाम है जहाँ सीता की रोज के लिये सुग्रीव ने अङ्गद को भेजा था (४ ४१, १०) ।

दक्षिणात्य—राजा दशरथ ने दक्षिण के समस्त राजाओं को अपने अश्व-मेध यज्ञ में आमन्त्रित किया था (१ १३ ३८) । कैंकेयी के शोक को दान करने के लिए दशरथ ने दक्षिणात्य के विविध पदार्थों को प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया (२ १०, ३८) ।

दानव (बहू)—गगावतरण के समय ये भी गगा की धारा के माय-

हाथ चल रहे थे (१. ४३, ३२) । सागर-मन्थन से प्रकट अम्भराशो को इन्होंने स्वीकार नहीं किया (१ ४५, ३४-३५) । बसिष्ठ का आशय इनसे सेवित था (१ ५१, २४) । रावण को यह परदान था कि दानवों के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगी (३ ३२, १८) । 'दिवदानवसङ्घश्च चरितं त्वम्नासिभिः', (३ ३५, १७) । शिशिर पर्वत इनसे सेवित था (४ ४०, ३०) । जब हनुमान् सागर पार कर रहे थे तो इन लोगों ने भी उन पर पुष्पवर्षा की (५ १, ८४) । हनुमान् ने दानवों जादि मे भरे हुये सागर को पार कर लिया (५ १, २१४) । एक वर्ष तक युद्ध करने के परवान् रावण ने इन्हें पराजित कर दिया (६ ७, १०-११) । कुम्भकर्ण ने इन्हें पराजित किया (६ ६१, १०) । जब कुम्भकर्ण के प्रहार से इन्द्र व्याकुल हो गये तब देवताओं सहित ये लोग भी ब्रह्मा की शरण में गये (६ ६१, १८-१९) । श्रीराम और मकराक्ष का युद्ध देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ ७९, २५) । इन्द्रजित् के वध पर इन लोगों ने भी हर्षित होकर दान्ति की सांस ली (६ ९०, ८८-८९) । जब रावण ने श्रीराम को पीड़ित किया तो ये अत्यन्त उद्विग्न हो उठे (६ १०२, ३१) । श्रीराम और रावण का युद्ध देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ १०२, ४५) । जब राम ने रावण से युद्ध करना आरम्भ किया तो ये व्यथित हो उठे (६ १०७, ४६) । सारी रात ये श्रीराम और रावण का युद्ध देखने रहे (६ १०७, ६५) । रावण-वध का दृश्य देखकर ये लोग भी उनी की धुम चर्चा करते हुये अपने-अपने विमानों में यथास्थान लौट आये (६ ११२, १) । अग्निपरीक्षा देने के लिये सीता द्वारा अग्नि में प्रवेश के दृश्य को इन लोगों ने भी देखा (६ ११६, ३३) । अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ ये लोग भी विन्ध्यगिरि के शिखरों पर श्रीराम के लिये बाते थे (७ ३१, १६) । शंशवावस्था में ही जब हनुमान् बाल-सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ने हुए जा रहे थे तो इन लोगों को हनुमान् की शक्ति पर विस्मय हुआ (७. ३५, २५) । सीता के रगतल में प्रवेश करने पर ये लोग भी आश्चर्यचकित हो उठे (७ ९७, २५-२६) । श्रीराम के विष्णु-रूप में पुनः स्थित हो जाने पर ये भी अत्यन्त हर्षित हुये (७. ११०, १४) ।

दिति, दंत्यो की माता का नाम है (१ ४५, १५) । सागर-मन्थन के समय सागर से प्रकट हुई वारुणी को इनके पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया (१ ४५, ३७) । इनके पुत्रों (दंत्यो) ने अदिति के पुत्रों (देवों) से अमृत की प्राप्ति के लिये युद्ध किया (१ ४५, ४०) । इस युद्ध में इनके पुत्रों की विनाश हुआ (१. ४५, ४४) । अपने पुत्रों के इस विनाश से दुःखी होकर

इन्होंने अपने पति, वदस्यप, के पास जाकर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा प्रगट की जो इन्द्र का वध कर सके (१ ४६, १-३)। वदस्यप ने इस बात पर इन्हें ऐसा पुत्र प्रदान करने के लिये कहा कि ये एक मह्य वर्ष तक शौचाचार का पालन करते हुये पवित्रतापूर्वक रहे (१ ४६, ४-६)। इन्होंने कुशज्ज्व मे जाकर घोर तपस्या की (१. ४६, ८)। इस तपस्या की अवधि मे इन्द्र उनकी सेवा-दण्ड करते हुये इन्हें फल-मूल तथा दान्यान्व अभिलषित वस्तुयें लाकर देने से (१. ४६, ९-११)। जब तपस्या मे केवल कुल दम वर्ष सेप रह गये तब इन्होंने इन्द्र से कहा 'मैंन तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी वह जब तुम्ह विजित करने के लिये उत्सुर्क होगा तो उस समय मैं उसे दान्त कर दूँगी, जिसमे तुम उगरे साथ रहकर उगी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुग निश्चिन्त होकर भोग मरो।' (१ ४६, १२-१५)। "एक दिन मध्याह्न के समय जब अपने धामन पर बैठी बैठी निद्रा का अनुभव करत हुए इनका सर झुककर परो पर टिक गया तो इन्हें अपवित्र झालकर इन्द्र ने इन्हे उदर मे प्रविष्ट हो गर्भस्थ चारक के अपने वज्र मे सान टुट्टे कर दिये। उस समय गर्भस्थ बालक के रोने की सुनकर इनकी निद्रा टूट गई और इन्हान इन्द्र से कहा 'शिशु का मत भारो, मत भारो।' माता के वचन का गौरव मानकर इन्द्र महसा उदर से निकल आये और इनसे अपने अपराध के लिये क्षमा मांगा (१ ४६, १७-२३)।" इन्होंने इन्द्र से निवेदन किया कि गर्भस्थ शिशु के सान टुकडे सान व्यति होकर सान भरदृग्णो के स्याना ना पालन करनेवाले हो जायें (१ ४७ १-७)। इन्द्र ने इनकी प्रायना स्वीकार की (१, ४७, ८-९)। ये दक्ष की पुत्री और वदस्यप की पत्नी थी (३ १४, १५, ७ ११, १६)।

दिलीप, अशुमान के महान् पुत्र का नाम है (१ ४२, २, ७०, ३८)। मग्याम लने के पून इनके पिता ने इन्हें राजा बना दिया (१ ४२, ३)। अपने पितामहा के वध का वृत्तान्त सुनकर ये अत्यन्त चिन्तित रहते थे और अपनी बुद्धि मे अत्यधिक सोच विचार करने पर भी किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाते थे (१ ४२, ५)। तथापि ये मदेव द्गी चिन्ता मे निमग्न रहते थे कि किस प्रकार गगा को पृथिवी पर लाकर अपने पितामहो का उदार करे (१ ४२, ६)। इनके भगीरथ नाम का एक पुत्र हुआ जो अत्यन्त धर्मात्मा था (१. ४२, ७)। इन्होंने अनेक यज्ञो का अनुष्ठान तथा तीस हजार यज्ञों तक राज्य किया (११ ४२, ८)। अपन विनरो के उदार के विषय मे किसी निश्चय पर पहुँचे बिना ही ये रोग मे पीडित हो मृत्यु को प्राप्त हुये (१. ४२, ९)। अपन बर्षों के प्रभाव से इन्हें इन्द्रलोक प्राप्त हुआ (१. ४२, १०)।

अन्धे मुनि-दम्पति ने, जिनके एकमात्र पुत्र वा दशरथ ने भूल से बध कर दिया था, उस मृत पुत्र के लिये दिलीप आदि को प्राप्त लोक की नामना को (२ ६४, ४२) ।

दिशागजा.—चार दिग्गजों का उल्लेख किया गया है जो इन भूतल को धारण किये हुये हैं विरूपाक्ष पूर्व दिशा के, महापद्म दक्षिण के, गौमनस् पश्चिम के, और भद्र उत्तर दिशा के रक्षक कहे गये है (१. ४०, १२-२३) । जय ये ब्रह्म आदि के कारण अपने मस्तक को हिलाते हैं तो मरुत्त होने लगता है (१ ४०, १५) । "अशुमान ने अपने चाचाओं द्वारा पृथिवी में बनाये हुये मार्ग से भीतर प्रवेश करने पर एक दिग्गज को देखा जिनकी दवना, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे । उनकी पत्निका करके दुःसल-मगल पूछने के पश्चात् अशुमान ने अपने चाचाओं का ममानार तथा अश्व भुगने वाले वा पता पूछा (१ ४१, ७-८) ।" इन सभी दिग्गजों ने एक-एक करके अशुमान की सफलता की शुभकामना प्रगट की (१ ४१, ९-११) । ये देवता की सन्मान थे (३ १४, २६) ।

दीर्घायु, दशरथ के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५) ।

१. दुन्दुभि, एक असुर का नाम है जिसका बालिन् ने बध किया था । मुग्धीव ने धीराम को इसके महान पर्वताकार मृत शरीर को दिखाया जिसे राम ने अपने त्रिशूल से अंगूठे से दम मोजन दूर फेंक दिया (१. १, ६४-६५) । यह मायाविन् का पिता था (४ ९, ४) । "इसका स्वरूप भैसे के समान और ऊंचाई में यह कंलास पर्वत के समान प्रतीत होता था । इसके शरीर में एक सहस्र हाथियों का बल था । अपने बल के दर्प में इसने समुद्र के अधिपति तथा हिमालय को अपने साथ युद्ध के लिये ललकारा । हिमालय के परामर्श पर अन्तत यह एक भैसे के रूप में बालिन् के पास जाकर उसे युद्ध के लिये ललकारने लगा । बालिन् ने इसका बध करके इसके शव को दोनो हाथों से उठाकर एक योनिन दूर फेंक दिया । वेगपूर्वक फेंके गये इस असुर के मुख से निक्ली हृद बहुत सी रक्त की बूदें बाधु के साथ उड़कर मतङ्ग मुनि के आश्रम में गिर पड़ी (४ ११, ७-४८) ।" मुग्धीव ने बालिन् के साथ इसका युद्ध का उल्लेख किया (४ ४६, ३-८) ।

२. दुन्दुभि, मय और हेमा के पुत्र, एक असुर का नाम है जो मायावी तथा मन्दोदरी का भ्राता था (७ १२, १३) ।

दुर्जय, खर के सेनापति का नाम है जो धीराम से युद्ध करने के लिये गया था (३ २३, ३२) । खर की आज्ञा से अन्य सेनापतियों के साथ इसने धीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २६-२८) ।

१. दुर्धर, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है। हनुमान् ने रसको रावण के सिंहासन के पार्श्वभाग में स्थित देखा (५ ४९, ११)।

२. दुर्धर, वसु के पुत्र, एवं वानर-प्रमुख का नाम है जिनको शार्ङ्ग ने रावण को दिखाया था (६ ३०, ३३)।

दुर्धर्प, रावण के एक महाबली सेनापति का नाम है जिसने रावण की आज्ञानुसार हनुमान् पर आक्रमण किया (५ ४६, २-१७)। रावण के दरबार में कवचों से सुमण्डित होकर यह राम आदि का वध करने के लिये खड़ा था (६ ९ २)। यह रावण की आज्ञा से रथास्व हुआ (६ ९५, ३९)।

१. दुर्मुख, एक वानर प्रमुख का नाम है जो सुग्रीव की आज्ञा से दो करोड़ वानर सैनिकों के साथ उपस्थित हुये थे (४ ३९, ३४)। इन्होंने समुद्रत नामक राक्षस को कुचल डाला (६ ५८ २१)।

२ दुर्मुख, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसने हनुमान् के अपराध का बदला लेने के लिये समस्त वानरों के वध की प्रतिज्ञा की थी (६ ८, ६-८)। यह राम आदि का वध करने के लिये हाथ में शस्त्र लेकर रावण के सभा भवन में उपस्थित था (६ ९, ३)। यह माल्यवान् और मुन्दरी का पुत्र था (७ ५, ३५-३६)। देवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये अन्य पराक्रमी राक्षसों सहित दुर्मुख, सुमाली के साथ युद्धभूमि में स्थित था (७ २७, ३०)।

दुर्मुखी, सीता का संरक्षण करनेवाली एक राक्षसी का नाम है जो सीता को रावण की भार्या बन जान के लिये समझा रही थी (५ २३, १८-२२)।

दुर्वासा, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने दशरथ की प्रार्थना पर राम के दुःखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी (७ ५०, १०-१४)। अत्रि के पुत्र, महामुनि दुर्वासा ने, वसिष्ठ के पवित्र आश्रम पर वर्षाऋतु के चार महीने व्ययीत किये (७ ५१, २)। राजा दशरथ ने इनका विनयपूर्वक अभिवादन किया, अतः इन्होंने भी आसन देकर पाद्य एवं फल-मूल मर्मपिन करके राजा का सत्कार किया (७ ५१, ५)। राजा दशरथ ने अपने वंश तथा राम की आयु आदि के विषय में दुर्वासा से प्रश्न किया (७ ५१, ७-९), जिन्होंने फलस्वरूप दुर्वासा ने पूर्वजन्म की कथा का वर्णन करते हुये राम के जीवन के समस्त त्रिया कलापो तथा आयु आदि की भविष्यवाणी की (७ ५१, १०-२४)। "बुध ने इतक के कल्याण के लिये इनसे परामर्श किया (७ ९०, ५)। राम की सभा में सीता के शपथ-ग्रहण के समय यह भी उपस्थित थे (७ ९६, २)। जब श्रीराम काल के साथ एकान्त में वार्तालाप कर रहे थे तब इन्होंने भी राम से मिलने की इच्छा प्रकट की (७ १७५, १-२)। "लक्ष्मण के प्रश्न से तृप्त होकर इन्होंने श्रीराम को अपने आगमन की सूचना देने के

लिये कहा और यह भी बताया कि यदि वे (लक्ष्मण) इनके आगमन की सूचना नहीं देंगे तो वे राज्य, नगर, लक्ष्मण, भरत और श्रीराम को साथ दे देंगे (७ १०५, ३-७) । "श्रीराम ने, अपने तेज से प्रग्वालिन-से होने हुये महात्मा दुर्वासो को प्रणाम करके उनके आगमन का कारण पूछा । दुर्वासो ने बताया 'निष्पाप रघुनन्दन ! मैंने एक हजार वर्षों तक उपवास किया है । आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिये इस समय आप के यहाँ जो भी भोजन तैयार हो, उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ ।' (७ १०५, १०-१३) ।" ये व्रत ग्रहण करके श्रीराम को साधुवाद देने हुए अपने वाश्रम पर चले गये (७ १०५, १५) ।

दुष्यन्त, एक शक्तिशाली राजा का नाम है जिन्होंने अपने राजत्वकाल में रावण के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर लिया था (७ १९, ५) ।

दूषण, जनस्थान के एक राजस का नाम है जिसका श्रीराम ने वध कर दिया था (१ १, ४७) । यह शूर्पणखा का भ्राता था जिसका पराक्रम विख्यात था (३ १७, २२) । यह खर की सेना का सेनापति था (३ २२, ७) । खर ने इसको युद्ध के लिये सेना सज्ज करके तथा रथ को अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित करने की आज्ञा दी (३ २२, ८-११) । इन्होंने खर के रथ के सुसज्जित हो जाने की सूचना दी (३ २२, १२) । इन्होंने सेना को युद्ध के लिये आगे बढ़ने की आज्ञा दी (३ २२, १६) । श्रीराम के वाणों से आहत होकर राक्षस गण खर की शरण में दौड़ गये, परन्तु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्रय नहीं दिया जिससे वे सबके सब लौट बाये और श्रीराम पर टूट पड़े (३ २५, २९-३१) । महाबाहु दूषण ने अपनी सेना को पराजित होने देखकर पाँच हजार वीर राजसों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी (३ २६, १) । शत्रुदूषण सेनापति दूषण ने वध के समान वाणों से श्रीराम को रोसा (३ २६, ६-७) । श्रीराम ने इसके धनुष को काट कर इसके अश्वों तथा सारथि का भी वध कर दिया (३ २६, ७-९) । रथविहीन हो जाने पर यह हाथ में एक लोहे की गदा (परिष) लेकर श्रीराम की ओर झपटा (३ २६, ९-१२) । श्रीराम ने इसकी दोनों मुजायें काट डाली (३ २६, १३) । अपनी मुजाओं के साथ यह भी पृथिवी पर गिर पड़ा (३ २६, १५) । रावण ने इसे खर का सेनापति बनाया (७ २४, ३८) । देवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सुमालिन् के साथ यह भी गया (७ २७, ३०) ।

दृढनेत्र, विश्वामित्र के एक सत्य-धर्मपरायण पुत्र का नाम है जिसका जन्म उस समय हुआ था जब अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर विश्वामित्र अल्पन्त उत्कृष्ट एवं घोर तपस्या कर रहे थे (१ ५७, ३-४) ।

विश्वामित्र ने इन्हें त्रिशङ्कु के यज्ञ की व्यदम्या करने के लिये कहा (१ ५९, ६) । इन्होंने अपना जीवन देकर शुन श्रेय की रक्षा करने से सम्बद्ध विश्वामित्र की आज्ञा को अम्बीकार किया जिस पर विश्वामित्र ने इन्हें शाप दिया (१ ६२, ८-१८) ।

देव-गण—राजा दशरथ के अग्रमध-यज्ञ में ऋष्यशृङ्ग आदि महर्षियों ने देवों का आवाहन किया (१ १४, ८) । इन आहूत देवताओं को योग्य हविष्य समर्पित किये गए (१ १४, ९) । दशरथ के पुत्रैष्टि यज्ञ में देवगण भी उपस्थित हुए (१, १५, ४) । उस यज्ञ-सभा में प्रथम एकत्र होकर देवताओं ने ब्रह्मा से रावण के अन्याचार के सम्बन्ध में बताया (१ १५, ५-११) । ब्रह्मा ने बताया कि उन्नात गणना को देवताओं आदि से अत्रध्य रत्न का वर दे रक्ता है (१ १५, १३) । देवताओं ने विष्णु से दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर रावण का वध करने का निश्चय किया (१ १५, १९-२६) । जब विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तब इन लोगों ने विष्णु की स्तुति की (१ १५, २९-३३) । विष्णु के पूछने पर इन लोगों ने रावण के पूर्व-इतिहास का वर्णन करते हुए, उनमें मनुष्य-रूप में जन्म लेकर उनका वध करने का निवेदन किया (१ १६, ३-७) । ब्रह्मा ने इन लोगों में अप्सराओं और किन्नरियों में वानरों के रूप में अपने समान ही पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करने के लिये कहा (१ १७, २-६) । ब्रह्मा के आदेशानुसार इन लोगों ने वानर माना उत्पन्न की (१ १७, ८) । दशरथ का अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर ये लोग अपने-अपने स्थानों को चले गये (१ १८, १) । राम इत्यादि के जन्म पर इन लोगों ने प्रसन्न होकर दुन्दुभियाँ बजाने लगे पुणवर्षा की (१ १८, १६) । जब श्रीराम ने ताटका का वध कर दिया तो इन लोगों ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र का अभिनन्दन करने लगे उनसे वृशाश्व द्वारा प्राप्त अश्व शम्भो को श्रीराम को प्रदान करने का अनुरोध किया (१ २६, २६-३१) । बलि ने दशरथ और मन्दूगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित कर दिया (१ २९, ४) । इन लोगों ने अपने को मुक्त कराने के लिये विष्णु से वामन-रूप ग्रहण करने का निवेदन किया (१, २९, ६-९) । जनक के धनुष की शक्यता बढ़ाने में य अमरुत रहे (१ ३१, ९) । तीनों लोगों के बन्धाण के लिये इन लोगों ने हिमवान् से उनकी पुत्री गङ्गा को माँगा (१ ३५, १७) । तदनन्तर ये लोग गङ्गा को अपने साथ लिये (१ ३५, १९) । जब उमा के साथ श्रीराम विहार करते लगे महादेव को भी वर्ष ध्यनीत हो गये और उमा के गर्भ में कोई पुत्र नहीं हुआ, तब समस्त देवताओं ने महादेव के पास जाकर निवेदन किया 'तीनों लोगों के हित की कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप

अपने आप में ही धारण कीजिये ।' (१. ३६, ८-११) । महादेव के यह
 पूछने पर कि उनके स्फुटित तेज को धारण करने में कौन समर्थ होगा, इन
 लोगों ने पृथ्वी का नाम बताया (१. ३६, १५-१६) । इन लोगों ने अग्नि से
 अनुरोध किया कि वे शिव के महान तेज को अपने भीतर रख लें (१. ३६,
 १८) । कार्तिकेय का प्रादुर्भाव होते ही इन लोगों ने शिव और उमा की
 स्तुति की (१. ३६, १९-२०) । उमा ने इन्हें माप दिया कि ये लोग अपनी
 पत्नियों में मन्तान नहीं उत्पन्न कर सकेंगे (१. ३६, २१-२३) । इन्द्र और
 अग्नि का आगे बरके ये लोगों सेनापति की इच्छा से ब्रह्मा के पास गये
 (१. ३७, १-४) । ब्रह्मा का जाग्रदामन पाकर ये लोग अपने-अपने स्थानों को
 चले गये (१. ३७, ९) । इन लोगों ने कौलाम पर्वत पर जाकर अग्नि की पुत्र
 उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त कर्तव्य दृष्टे उनमें रुद्र-तेज को गङ्गा में स्थापित
 करने के लिए कहा (१. ३७, १०-११) । तबजात किन्तु वा 'कार्तिकेय' नाम
 रखते दृष्ट इन लोगों में उमके महान होने की भविष्यवाणी की (१. ३७,
 २६) । कार्तिकेय के गर्भव्यावकाल में ही स्कन्दित दृष्टे होने के कारण इन लोगों
 ने उनकी स्तुति कह कर पुकारा (१. ३७, २८) । इन लोगों ने स्कन्द की
 देव सेनापति बनाया (१. ३७, ३१) । जब सगर-पुत्र जम्बूद्वीप की भूमि
 मोदने दृष्टे सब ओर घूम रहे थे, तो उससे घबरा कर ये लोग ब्रह्मा की धारण
 में गये (१. ३९, २२-२६) । ब्रह्मा से सगर-पुत्रों के विनाश का आश्वामन
 पाकर ३३ देवता प्रमत्त होकर अपने-अपने स्थानों को चले गये (१. ४०, ५) ।
 भगीरथ को वर देने के लिये ये लोग भी ब्रह्मा के माथ आये (१. ४२, १६) ।
 भगीरथ को वर देने कर ये लोग अपने-अपने स्थानों को चले गये (१. ४२,
 २६) । इन लोगों ने गङ्गा-व्यवस्था व दृश्य को देखा (१. ४३, २०) । ये लोग
 भी गङ्गा के साथ-साथ भगीरथ के रूप में पीछे-पीछे चले (१. ४३, ३२) ।
 जब जल ने गङ्गा के गमन जल का पान कर लिया तो इन लोगों ने उनसे
 गङ्गा को मुक्त करने का निवेदन किया (१. ४३, ३७) । ये—'महाभाग
 धीयवत सुधामिका'—अदिति के पुत्र थे (१. ४५, १५) । अजर-अमर
 और निरोग होने के लिये इन लोगों ने क्षीरोद-मागर के मन्थन द्वारा अमृत
 प्राप्त करने का निश्चय किया (१. ४५, १६-१७) । एक सहस्र वर्ष तक
 मन्थन करते पर महाभयकर हलाहल नामक विष ऊपर उठा और उसने इन
 सहित सम्पूर्ण जगत् की दृष्ट करना आरम्भ किया (१. ४५, १९-२०) ।
 उस समय ये लोग महादेव शंकर की धारण में गये (१. ४५, २१) । अमुरों
 के साथ जब ये लोग मन्थन करने ही रहे तो मयनी बना मन्दराचल पर्वत
 पाताल में घुम गया (१. ४५, २७) । उस समय इन लोगों ने उस पर्वत को

ऊपर उठाने के लिये विष्णु से निवेदन किया, जिस पर विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया (१ ४५, २८-३०) । सागर मन्थन से प्रवृत्त हुई अप्सराओं को इन लोगो ने भी स्वीकार नहीं किया (१ ४५, ३५) । वरुण की पुत्री, वारुणी (सुरा) को ग्रहण करने के कारण ही ये लोग 'सुर' कहलाये (१ ४५, ३८) । इन लोगो ने अमृत के लिये दिति के पुत्र, दैत्यो से युद्ध किया (१ ४५, ४०) । इन लोगो ने दिति-पुत्रो का विनाश किया (१ ४५, ४४) । अण्डकोप से रहित इन्द्र ने अण्डकोप की प्राप्ति कराने के लिये इन लोगों से प्रार्थना की (१ ४९, १-४) । इन लोगो ने पितरो के पास जा कर उनसे कहा 'आप भेडे के दोनो अण्डकोप इन्द्र को प्रदान करे, (१ ४९, ५-६) । अहत्या के शापमुक्त होने पर इन लोगो ने उसको साधुवाद दिया (१-४९, २१) । वसिष्ठ का आश्रम इनसे सेवित था (१ ५१, २४) । जब विश्वामित्र वसिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिये उद्यत हुय तो ये लोग अत्यन्त भयभीत हो उठे (१ ५६, १४-१५) । त्रिशङ्कु के लिये जब विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो उसमे विश्वामित्र द्वारा आहूत होने पर इन लोगो ने यज्ञ-भाग ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया (१ ६०, १०-११) । इन लोगो ने त्रिशङ्कु को स्वर्ग से गिरा दिया (१ ६०, १६-१७) । विश्वामित्र के पास जाकर इन लोगो ने त्रिशङ्कु के सम्बन्ध में उनसे अनुरोध को स्वीकार कर लिया (१ ६०, २३-३४) । इन लोगो ने विश्वामित्र को 'महर्षि' पद देने का अनुरोध किया (१ ६३, १६-१७) । विश्वामित्र की घोर तपस्या से ये लोग भयभीत हो उठे (१ ६३, २६) । जब इन लोगो ने देखा कि विश्वामित्र के मस्तक से उठन वाला धूम्रा सम्पूर्ण जगत् को आच्छादित कर लेगा, तो इन लोगो ने ब्रह्मा की शरण में जाकर उनसे देवताओ का राज्य दे कर भी विश्वामित्र की इच्छा पूर्ण करने का निवेदन किया (१ ६५, ९-१८) । "पूर्वकाल में दक्षयज्ञ के विष्वस के पश्चात् शङ्कर ने देवताओ से कहा 'मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किन्तु तुम लोगो ने नहीं दिया, अत अब मैं अपने दस धनुष से तुम सब का मस्तक काट डालूँगा ।' इस पर इन लोगो ने शङ्कर की स्तुति करके उनसे उनका धनुष प्राप्त किया और तदनन्तर उस धनुष को देवराज के पाम रख दिया (१ ६६, ९-१२) ।" इन लोगो ने जनक की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक चतुरङ्गणी सेना दी जिसके प्रहार से मिथिला में पडे हुये बलहीन और पापाचारी राजा भाग गये (१ ६६, २३-२४) । इन लोगों को यह जानने की उरमुक्ता हुई कि विष्णु और शिव में से कौन अधिक शक्तिशाली है (१ ७५, १४-१५) । विष्णु ने पराक्रम से शिव के धनुष को सिधिल हुआ देख

क- इन लोगो ने विष्णु को श्रेष्ठ माना (१. ७५, १९) । श्रीराम और परशुराम का द्वन्द्व-युद्ध देखने के लिये ये लोग भी एकत्र हुये (१ ७६, ९) । दशरथ की शपथ का साक्षी रहने के लिये सँकेयी ने इनका भी आवाहन किया (२ ११, १३-१६) । राम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने इन लोगो का भी आवाहन किया (२ २५, १६) । भरत सेना के सत्कार के लिये भरद्वाज ने इन लोगो की सहायता का आवाहन किया (२ ९१, १६) । इन लोगो न भरद्वाज के आश्रम में गायन किया (२ ९१, २६) । माण्डक्यि की घोर तपस्या से व्यथित होकर इन लोगो ने उनकी तपस्या भंग करने के लिये पाँच अप्सराओ को भेजा (३ ११, १३-१५) । इन लोगो ने अगस्त्य से ब्राह्मणघाती अमुर, वानापि, का भक्षण करने का निवेदन किया (३ ११, ६२) । अगस्त्य का आश्रम इन लोगो से भी सेविता था (३ ११, ९०) । खर के विरुद्ध युद्ध में इन लोगो ने श्रीराम की सफलता की कामना की (३ २३, २६-२८) । ये लोग खर और राम के उस अद्भुत युद्ध को देखन के लिये अपने-अपने विमानो पर एकत्र हुये जिसमें श्रीराम चौदह सहस्र राक्षसो के विरुद्ध युद्ध के लिये अकेले तत्पर थे (३ २४, १९-२४) । खर को रथ-विहीन कर देने पर इन लोगो ने श्रीराम की प्रशंसा की (३ २८, ३३) । खर के पराशयो होने पर इन लोगो ने हर्ष प्रकट करते हुये श्रीराम की स्तुति की (३ ३०, २९-३३) । ये लोग युद्ध में रावण को पराजित नहीं कर सके (३ ३२, ६) । ब्रह्मा न रावण को देवताओ से अवध्य होने का वरदान दिया था (३ ३२, १८-१९) । 'आरमवद्भिविगृह्य त्व देवगन्धवंदानवे', (३ ३३, ७) । समुद्र तटवर्ती प्रान्त की शोभा का अवलोकन करते हुये रावण ने वहाँ अमृतमोगी देवताओ को भी विचरण करते देखा (३ ३५, १७) । ये लोग शिशिर नामक पर्वत पर निवास करते थे (४ ४०, २९-३०) । क्रीडा विहार के लिये ये लोग मुदग्रंन मरोवर के तट पर आते थे (४ ४०, ४४) । ये लोग मार्गकाल के समय मेरु पर्वत पर आकर सूर्य का पूजन करते थे (४ ४२, ३९-४०) । सोमाश्रम इनसे सेवित था (४ ४३, १४) । जब इन्द्र के वचन प्रहार से हनुमान् के आहत होने पर वायु न अपनी गति को रोक दिया तब इन लोगो ने वायु के क्रोध को शान्त किया (४ ६६, २५) । जब हनुमान् सागर का लङ्घन कर रहे थे तब इन लोगो ने उन पर पुष्पवर्षा की (५ १, ८४) । ये लोग हनुमान् की प्रशंसा के गीत गाने लगे (५ १, ८६) । "पूर्वकाल में जब पर्वतो के भी पल होते थे तो उनके वेगपूर्वक उठने और बाने-जाने पर देवताओ आदि को उनके गिरने की बाधाका से अत्यन्त भय होने लगा (१ १, १२३-१२४) ।" जब हनुमान् ने विश्राम करने के मैनाक

पर्वत के आग्रह को अस्वीकृत कर दिया तो इन लोगो ने हनुमान की प्रशंसा की (५ १, १३७) । ये मैनाक पर्वत से, उसके हनुमान् को धामन्वित करने के कार्य पर अत्यन्त प्रसन्न हुये (५ १, १३८) । हनुमान् के शक्ति की परीक्षा लेने के लिये इन लोगो ने मुरसा से उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिये कहा (५ १, १४५-१४८) । जब हनुमान ने अक्ष का वध कर दिया तो इन लोगो को हृष मिथित आश्चर्य हुआ (५ ४७, ३७) । लङ्का में हनुमान् की सफलता पर प्रसन्न होकर इन लोगो ने उनकी प्रशंसा की (५ ५४, ५०-५२) । जब सागर पर सेतु का निर्माण हो गया तो य लाग भी उसे देखने के लिय आये (६ २२ ७५) । जब श्रीराम ने सेना सहित सागर को पार कर लिया तो इन लोगो ने उनका जल से अभिषेक किया (६ २२, ८९) । जब अङ्गद ने इन्द्रजित् पर प्रहार किया तब इन लोगो ने उनकी प्रशंसा की (६ ४४, ३०) । अकम्पन का वध कर देने पर इन लोगो ने हनुमान् को साधुवाद दिया (६ ५६, ३९) । जब हनुमान ने रावण को घण्ट से मारा तब ये लोग हृष ध्वनि करने लगे (६ ५९, ६३) । जब हनुमान् के प्रहार से रावण रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर बैठ गया तब ये लोग हृषनाद करने लगे (३ ५९, ११८) । कुम्भकर्ण ने इन लोगो को पराजित किया था (६ ६१ १०) । जब कुम्भकर्ण के प्रहार में इन्द्र व्याकुल हो गये तब अत्यधिक विपादग्रस्त हो इन लोगो ने ब्रह्मा की शरण में जाकर उनसे सहायता की याचना की (६ ६१, १८-१९) । जब श्रीराम ने कुम्भकर्ण का वध कर दिया तो ये लोग हृषनाद करने लगे (६ ६७, १७४) । अतिकाय और लक्ष्मण के युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ ७१, ६५-६६) । श्रीराम और मकराक्ष का युद्ध देखने के लिय ये लोग एकत्र हुये (६ ७९, २५) । जब मकराक्ष ने अपने शूल से श्रीराम पर प्रहार किया तो ये लाग धवरा उठे (६ ७९ ३२) । जब श्रीराम ने मकराक्ष का वध कर दिया तो ये लोग अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ७९, ४१) । इन्द्रजित् के विरुद्ध युद्ध में ये लोग लक्ष्मण की रक्षा कर रहे थे । (६ ९०, ६४) । जब इन्द्रजित् का वध हो गया तो ये लोग दुन्दुभिर्वा बजाने लगे (६ ९०, ८६) । उस समय इन लोगो ने हृषित होकर शान्ति की साँभ ली (५ ९०, ८९-९०) । इन लोगो ने श्रीराम की शक्ति और पराक्रम की प्रशंसा की (६ ९३, ३६ ३९) । राक्षसों में प्रसन्न होकर इन लोगो ने रक्षा के लिये ब्रह्मा की स्तुति की (६ ९४, ३१-३२) । तदनन्तर ये लोग महादेव की शरण में गये (६ ९४, ३४) । जब सुग्रीव ने महोदर का वध कर दिया तो ये लोग हृषपूर्वक उनकी ओर देखने लगे (६ ९७, ३८) । जब रघुनाथ रावण के माथ श्रीराम

पैदल ही युद्ध के लिये उद्यत हुये तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा युद्ध बराबरी का नहीं है (६ १०२, ५) । जब रावण ने श्रीराम को पीड़ित किया तो ये लोग अत्यन्त चिन्तित हो उठे (६ १०२, ३१) । राम और रावण के युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी एकरुत हुये (६ १०२, ४५, १०६, १८) । रावण के विरुद्ध युद्ध में इन लोगों ने श्रीराम को प्रोत्साहित किया (६ १०२, ४८) । श्रीराम और रावण के युद्ध के समय ये लोग गो-ब्राह्मण की रक्षा के लिये प्रार्थना करने लगे (६ १०७, ४८-४९) । ये लोग सारी रात श्रीराम और रावण का युद्ध देखते रहे (६ १०७, ६५) । रावण की मृत्यु पर ये लोग अत्यन्त हर्षित हुये (६ १०८, ३०) । रावण-वध के सम्बन्ध में बार्तालाप करने हुये ये लोग अपने-अपने स्थानों की लौट आये (६ ११२, १-४) । इन लोगों ने भी अग्नि-परीक्षा के लिये सीता को अग्नि में प्रवेण करने देवा (६ ११६, ३१-३३) । श्रीराम को यह परामर्श देकर कि वे दानवों को विदा कर अयोध्या के लिये प्रस्थान करें, ये लोग अपने-अपने स्थानों की चले गये (६ १२०, १८-२३) । श्रीराम के राज्याभिषेक के समय इन लोगों ने उनका रामुचित अभिनन्दन किया (६ १२८, ३०) । उस समय ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ १२८, ७२) । कुबेर को वर देने के लिये ब्रह्मा के माथ ये लोग भी गये (७ ३, १३) । माल्यवान् के भ्राता में अस्त्र होकर ये लोग महादेव की शरण में गये (७ ६, १-८) । महादेव के कटने पर इन लोगों ने विष्णु के पात जाकर उनसे अपने दानुओं का संतार करने का निवेदन किया (७ ६, १२-१८) । जब विष्णु माल्यवान् के विरुद्ध युद्ध करने के लिये निकले तो इन लोगों ने विष्णु की स्तुति की (७ ६, ६८) । जब ब्रह्मा कुम्भकर्ण को वर देने के लिये जाने लगे तब इन लोगों ने उनसे इसका विरोध किया (७ १०, ३७-४१) । मन्दाकिनी का तट इनसे सेवित था (७ ११, ४४) । यक्षों और राक्षसों के युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (७ १५, ६) । यम और रावण के युद्ध को देखने के लिये ये लोग उपस्थित हुये (७ २२, १७) । रावण के नेतृत्व में राक्षसों और दानवों के विरुद्ध इन लोगों ने युद्ध किया (७ २७, २६) । जब इन्द्रजित् ने इन्द्र को बन्दी बना लिया तब ये लोग ब्रह्मा को आगे करके लका आये (७ ३०, १) । अपनी-अपनी पत्नियों के साथ ये लोग भी विन्ध्य-क्षेत्र में रमण करते थे (७ ३१, १६) । रावण की पराजय पर इन लोगों ने अर्जुन का अभिनन्दन किया (७ ३२, ६५) । बाल्यकाल में जब हनुमान् सूर्य को निगलने के लिये बड़े जा रहे थे तब इन लोगों ने हनुमान् के पराक्रम पर आश्चर्य किया (७ ३५, २५) । जब वायु ने अपनी गति रोक दी तब ये ब्रह्मा की शरण

मे गये (७ ३५, ५३-५६) । वायु को प्रसन्न करने के लिये ये लोग भी ब्रह्मा के साथ गये (७ ३५, ६४) । वायु देवता को अपने आहत पुत्र को गोद में लिये हुये देखकर इन लोगों को वायु पर बहुत दया आई (७ ३५, ६५) । निमि के यज्ञ के पूरा होने जाने पर इन लोगों ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रगट की (७ ५७, १३) । निमि को उनका मनोवाञ्छित वर देने के पश्चात् इन लोगो न निमि से कहा कि वे वायु-रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करेंगे (७ ५७, १४-१६) । लवणामुर के प्रहार से भ्रूच्छित शत्रुघ्न को देखकर इन लोगो मे हा हाकार मच गया (७ ६९, १३) । जब शत्रुघ्न ने लवणामुर का वध करने के लिये एक ऐमा दिव्य, अमोघ, और उत्तम बाण हाथ मे लिया जिमके तेज से समस्त दिशायें व्याप्त होने लगी, तब सम्पूर्ण जगत् सहित ये लोग भी अस्वस्थ होकर ब्रह्मा की दारण मे गये (७ ६९, १६-२१) । जब ब्रह्मा ने इनके भय वा ममाधान वर दिया तब ये लोग पुन शत्रुघ्न और लवणामुर के मुद्द को देखने के लिये उपस्थित हुये (७ ६९, २९-३०) । जब शत्रुघ्न ने लवण व. विनाश कर दिया तब इन लोगो ने शत्रुघ्न की भूरि-भूरि प्रशंसा की (७ ६९, ४०) । ये लोग शत्रुघ्न को वर देने के लिये उनके पास गये (७. ७०, १-३) । शत्रुघ्न को वर देकर ये लोग अन्तर्धान हो गये (७ ७०, ६-७) । शत्रुघ्न का वध कर देने पर राम का अभिनन्दन करते हुये इन लोगो ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रगट की (७ ७६, ५-८) । "राम की प्रार्थना पर इन लोगो ने उनसे बनाया कि ब्राह्मण-कुमार जीवित हो गया है । तदनन्तर इन लोगो ने श्रीराम मे अगम्य आश्रम चलने के लिये कहा (७ ७६, १३-१८) ।" अगस्त्य द्वारा सत्कृत होकर ये लोग स्वर्ग चले गये (७ ७६, २१-२२) । वृत्रवध का उपाय बताने पर विष्णु की स्तुति करते हुवे ये लोग इन्द्र-सहित उस स्थान पर गये जहाँ वृत्रामुर तपस्या कर रहा था (७ ८५, ८-१०) । वृत्र को देखकर ये लोग अत्यन्त भयभीत हो उठे (७ ८५, १२) । वृत्रवध करने के पश्चात् जब चिन्तित हुये इन्द्र ब्रह्म-हत्या के भय से अदृश्य हो गये तब इन लोगो ने विष्णु के पास जाकर इन्द्र के उद्धार का उपाय पूछा (७ ८५, १७-१९) । ये उस स्थान पर गये जहाँ इन्द्र छिपे हुये थे और उनमे अश्वमेध यग करके अपने पाप का प्रायश्चित्त करने के लिये कहा (७ ८६, ६-८) । ब्रह्म-हत्या के पूछने पर इन लोगो ने उसमे कहा कि वह अपने को चार भागो मे विभक्त कर ले (७ ८६, ११) । इन लोगो ने ब्रह्महत्या के अन्तगम को स्वीकार करते हुये इन्द्र के गुद्द हो जाने पर उनकी वन्दना की (७ ८६, १७-१८) । ये लोग अत्यन्त भयभीत होकर राजा इल की स्तुति-पूजा किया करते थे (७ ८७, ५-६) । मीना के शपथ-ग्रहण को देखने के

लिये ये लोग भी श्रीराम की सभा में उपस्थित हुये (७, १७, ९) । जब मीना पृथिवी के गर्भ में अन्नर्पाण हो गई तब इन लोगों ने उनकी प्रशंसा की (७ १७, २१-२२) । इन लोगों ने लक्ष्मण पर पुष्पदर्पा की (७ १०६, १६) । भगवान् विष्णु के चतुर्थ अन्न, लक्ष्मण, को स्वर्ग में आया देखकर ये लोग हर्ष से भर गये (७ १०६, १८) । जब श्रीराम साकेत-धाम जाने के लिये उद्यत हुये तब अनेक देवपुत्र उनके दसन क के लिये उनकी सभा में उपस्थित हुये (७, १०८, १९) । राम के स्वागत के लिये ये लोग भी ब्रह्मा क साथ आये (७, ११०, ३) । इन लोगों ने राम पर पुष्प-दर्पा की (७ ११०, ६) । इन लोगों ने विष्णु का पूजन किया (७ ११०, १४) ।

देवमीढ़, कीर्तिरय के पुत्र और विबुध के पिता का नाम है (१ ७१, १०) ।

देवयानी, ययाति की पत्नी का नाम है जिसके रूप की इस भूतल पर कही तुलना नहीं थी (७ ५८, ७) । यह शुभाचार्य की पुत्री थी । सुन्दरी होने पर भी ययाति को यह अधिक प्रिय नहीं थी । इसने यदु को जन्म दिया (७ ५८, ९-१०) । अत्यन्त आर्त होकर रोते हुये अपने पुत्र को देखकर इसने अपने पिता, शुभाचार्य, का स्मरण किया (७ ५८, ११) । शुभाचार्य ने देवयानी से बार-बार उसके दुःख का कारण पूछा (७ ५८, १६-१८) । इसने अपने पिता को ययाति द्वारा बिये गये अपने अनादर और अवहेलना का कारण बताया (७ ५८, १८-२१) ।

देवरात, निमि के ज्येष्ठ पुत्र तथा राजा जनक के पूर्वज का नाम है जिनके पास देवताओं ने एक धनुष-रत्न धरोहर के रूप में रख दिया था (१ ६६, ८ १२, ७१, २०) ।

देववती, ग्रामणी नामक गन्धर्व की पुत्री का नाम है जो द्वितीय लक्ष्मी के समान दिव्य रूप और शोभा से सुशोभित एव तीनों लोकों में विख्यात थी । इसके पिता ने मुकेश के साथ इसका पाणिग्रहण कर दिया जिससे यह अत्यन्त प्रसन्न हुई । समय आने पर इसने तीन राक्षस-पुत्र उत्पन्न किये जिनके नाम क्रमशः माल्यवान्, सुमाली और माली थे (७, ५, २-६) ।

देव-वर्णिनी, भरद्वाज की पुत्री का नाम है जिसका विश्रवा ऋषि के साथ पाणिग्रहण हुआ था । इसने अपने गर्भ से कुबेर को जन्म दिया (७, ३, ३-४) ।

देव-सख, उत्तर दिशा की एक पर्वतमाला का नाम है जो पश्चिमा का निवासस्थान था । यह माँति भानि के विहङ्गमों से व्याप्त तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षों से विभूषित था । सुग्रीव ने शतबल से इसके वनससुहों, निम्नरो,

और गुफाओं में सीता की खोज करने के लिये कहा (४ ४३, १७-१८) ।

देवान्तक, रावण के पुत्र का नाम है जिसने अपने चाचा, कुम्भकण, के निषेध पर शोक प्रगट किया था (६ ६८, ७) । त्रिशिरा के कथन (६ ६९, १-७) को मुनकर यह युद्ध करने के लिये उत्साहित हो गया (६ ६९, ९) । 'शत्रुतुल्यपराक्रम, वीर, अन्तरिक्षगत, मायाविशारद, त्रिदशदपंक्त, समर-दुर्मंद, सुबलमम्बत्र, विस्तीर्णवीरि, निजित, अस्त्रवित्, युद्धविशारद, प्रवरविज्ञान, लब्धवर, शत्रुवसादन, भास्कर-तुल्यदर्शन', (३ ६९, १०-१४) । यह अपने पिता, रावण, को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके अन्य छ महावली निशाचरो के साथ युद्ध के लिये प्रस्थित हुआ (६ ६९, १७-१९) । यह स्वर्णभूषित परिध लेकर समुद्रमन्थन के समय दोनों हाथों से मन्दराचल उठाये हुये भगवान् विष्णु के स्वरूप का अनुकरण-सा कर रहा था (६ ६९, ३१) । अपने भ्राता, नरान्तक, की मृत्यु से मन्तव्य हुये इमने हाथ में भयानक परिध लेकर अङ्गद पर आक्रमण किया (६ ७०, १-३) । "युद्ध करने हुये इस पर अङ्गद ने एक वृक्ष उखाड़ कर प्रहार किया । इसके हाथों के एक दाँत को उखाड़ कर उसी के द्वारा अङ्गद ने इस पर आक्रमण किया जिसके प्रहार से यह हिलते हुये वृक्ष की भाँति काँपने लगा । तदनन्तर इसने अङ्गद पर परिध का प्रहार किया (६ ७०, ६-१९) । इसने हनुमान् के साथ युद्ध किया जिसमें हनुमान् ने इसका वध कर दिया (६ ७०, २२-२५) । इमने सुमाली के साथ देवों के विरुद्ध युद्ध किया (७ २७, ३१) ।

दैत्य-गण, भी राजा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे गंगाजी के साथ-साथ चल रहे थे (१ ४३, ३२) । ये दिति के महान् बलशाली पुत्र थे जिन्होंने अमृतप्राप्ति के लिये क्षीर समुद्र का मन्थन किया (१ ४५, १५-१८) । वासुकि के हलाहल विष न इसको दग्ध करना आरम्भ किया (१ ४५, २०) । इन लोगों ने सागर-मन्थन में प्रगट अप्सराओं अथवा धारुणी सुरा को ग्रहण नहीं किया जिसके कारण इनका नाम 'अमुर' पडा (१ ४५, ३५-३८) । राक्षसों को साथ लेकर इन लोगों ने अमृत के लिये देवों से युद्ध किया (१ ४५, ४०-४१) । देवों ने इनका विनाश किया (१ ४५, ४४) । राम के वनवास के समय कौसल्या ने उनकी रक्षा के लिये इनका भी आवाहन किया था (२ २५, १६) । सागर-मन्थन के समय इंद्र द्वारा इनके विनाश किये जाने का उल्लेख (२ २५, ३४) । ये लोग दिनि और वश्यप के पुत्र तथा एक समय पृथिवी के अधिपति थे (३ १४, १४-१५) । अतिकाय और लक्ष्मण के युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी एकात्र हुये (६ ७१, ६६) । ये राम और रावण के अन्तिम युद्ध को देखने के लिये एकात्र हुये (६ १०२, ४५) ।

देवताओं द्वारा युद्ध में वन्य होकर ये लोग भृगु की पत्नी की शरण में जाकर निष्पत्त रूप से रहने लगे (७ ५१, ११) । ये लोग भी राजा इल के भय से लम्का भादर-मत्कार दिया करते थे (७ ८७, ५-६) । राम के विष्णु तेज में प्रवेश कर लेने पर इन लोगों ने भी हर्ष प्रगट किया (७ ११०, १४) ।

द्राविडस्, एक प्रदेश का नाम है । कोपभवन में स्थित कँकेयी को प्रसन्न करने के लिये दशरथ ने द्रविण देश में उत्पन्न होनेवाले मांति-भांति के द्रव्य, धन-धान्य आदि को कँकेयी को प्रदान करते के लिये कहा (२ १०, ३८-४०) ।

द्रुम-कुल्य, उत्तर के एक देश का नाम है जो समुद्र के तट पर स्थित था । इनमें आभीर तथा अन्य जंगली जानियाँ निवास करती थी । यद्यपि राम ने इसे अपने तेजस्वी बाण से मरुन्मि बना दिया था तथापि राम के ही वरदान से यह पुनः पद्ममूल और रसी से सम्पन्न हो गया (६ २२, ३१-४१) ।

द्रोण, क्षीरोद सागर में स्थित एक पर्वत का नाम है जिस पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होती थी (६ ५०, ३१) ।

द्रिजिह्व, एक राक्षस-प्रमुल का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये थे (५ ६, २५) ।

द्विविद, अश्विनो के एक वानर-गुन का नाम है (१ १७, १४) । इन्होंने सुग्रीव के अभिषेक में भाग लिया था (४ २६, ३४) । किष्किन्धा जाते समय मार्ग में लक्ष्मण ने इनके सुमज्जित भवन को देखा था (४ ३३, ९) । ये अत्यन्त महाबली और अश्विनो के पुत्र तथा मेन्द के आता थे; इन्होंने सुग्रीव को कई करोड़ वानर सैनिक दिये थे (४ ३९, २५) । सुग्रीव इन्हें मीठा पी खोज के लिये दक्षिण दिशा में भोजना चाहते थे (४ ४१, ४) । विन्ध्य-क्षेत्र में सीता की खोज करने के बाद जल प्राप्त करने के लिये इन्होंने भी ऋक्ष-त्रिल में प्रवेश किया (४ ५०, १-८) । अङ्गद के पूछने पर इन्होंने बताया कि ये सत्तर योजन तक कूद सकते हैं (४ ६५, ८) । ब्रह्मा के वरदान से इन्होंने अमरत्व प्राप्त किया और देवताओं को पराजित करके अमृत का पान कर लिया था (५ ६०, १-४) । ये समुद्रतट पर स्थित वानर सेना की रक्षा कर रहे थे (६ ५, २) । युद्ध में इनकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं था, इन्होंने ब्रह्माजी की आज्ञा से अमृत का पान किया (६ २८, ६-७) । नील के सरक्षण में रहकर इन्होंने लका के पूर्वद्वार पर युद्ध किया (६ ४१, ३८-३९) । इन्होंने असनिप्रभ के साथ युद्ध किया (६ ४३, १२) । युद्ध में इन्होंने असनिप्रभ का वध कर दिया (६ ४३, ३२-३४) । ये राम की आज्ञा से (६ ४५, १-३) इन्द्रजित् का अनुमन्थान करने के लिये गये परन्तु असफल रहे (६ ४५, ४-५) । ये

पुन उम स्थान पर लौट आये जहाँ राम और लक्ष्मण अचेत पड़े थे (६ ४६, ३) । इन्द्रजित् ने इन्हे आहूत किया (६ ४६, १९) । इन्होंने नरान्नक को पर्वत शिखर से मार डाला (६ ५८, २०) । इन्होंने कुम्भकर्ण पर एक पर्वत-शिखर फेंका जो यद्यपि कुम्भकर्ण को नहीं लगा, तथापि अनेक राक्षस योद्धा और पशु उससे दय कर मर गये (६ ६७, ९-१२) । इन्होंने अनिकाय पर आक्रमण किया परन्तु उसमें पराजित हो गये (६ ७१, ३९-४२) । इन्द्रजित् ने इन्हे आहूत किया (६ ७३, ४५) । अङ्गद को राक्षसों से घिरा हुआ देखकर ये उनकी सहायता के लिये दौड़ पड़े (६ ७६ १६) । शोणिनाथ और यूपश से युद्ध करते हुए इन्होंने शोणिनाथ का वध किया (७ ७६, २९-३३) । इन्होंने कुम्भ के साथ युद्ध किया परन्तु उसके प्रहार से अत्यन्त आहत हो गये (६ ७६, ४१-४२) । राम का यथोचित सत्कार प्राप्त करने के पश्चान् ये विष्किन्वा लौट आये (६ १२८, ८८) । राम की सहायता के लिये देवों ने इनकी मृष्टि की थी (७ ३६, ४९) । राम ने इनका धादर-सत्कार किया (७ ३९, २१) । राम ने इनमें प्रलय अथवा कलियुग क आने तक जीवित रहने के लिये कहा (७ १०८, ३४) ।

दंष्ट्र, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये थे (५ ६, २४) । हनुमान् ने इसके भवन में जाग लगा दी थी (५ ५४, १२) ।

घ

घन्यन्तरि—एक हाथ में दण्ड और दूसरे में कमण्डलु लेकर ये क्षीरसागर से उसके मन्थन के समय प्रगट हुये थे 'अथ वर्षमहस्त्रेण आयुर्वेदमय पुमान् । उदतिष्ठत्सुघर्मात्मा सदण्ड स्रमण्डलु ॥', (१ ४५, ३२) ।

घर्म—अगस्त्य के आश्रम में श्रीराम ने इनके स्थान को भी देखा (३ १२, २०) ।

घर्मपाल, दशरथ के एक मन्त्री का नाम है (१ ७, ३ गीता प्रेम सस्करण) ।

घर्मभृत, एक मुनि का नाम है (३ ११, ८) । राम के पूछने पर इन्होंने दण्डकारण्य के पचाप्पर सरोवर के इतिहास का वर्णन किया (३ ११, ८-१९) ।

घर्मवर्धन, एक ग्राम का नाम है जहाँ केरय ने लौटते समय भरण कुटिकोपिका नदी को पार करने के बाद पड़ेंचे थे (२ ७१, १०) ।

घर्मारण्य, एक नगर का नाम है जिसकी राजा कुश के पुत्र अमूर्तरज्ज ने स्थापना की थी (१ ३२, ६) ।

धान्यमालिनी—जब सीता ने रावण के प्रस्तावों को सर्वथा अस्वीकार कर दिया तब इमने रावण की लिप्ता शान्त बनने के लिये स्वयं अपने को समर्पित किया परन्तु रावण ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (५. २२, ३९-४३) । यह अतिपाव की माता थी (६ ७१, ३०) ।

धुन्धुमार, राजा विशङ्कु के महायज्ञस्वी पुत्र और युवनाश्व के पिता का नाम है (१ ७०, २४) । वृद्ध और नेत्र विहीन मुनि दम्पती ने, जिनके पुत्र का भूल से दशरथ ने वध कर दिया था, अपने पुत्र के लिये धुन्धुमार आदि द्वारा प्राप्त सोव की कामना की (२ ६४, ४२) ।

धूम्र, रीछो के अधिपति का नाम है जो मुग्रीव के आमन्त्रण पर बीस अरब रीछो की सेना लेकर उपस्थित हुये थे (४ ३९, २०) । 'एषा मध्ये स्थितो राजन भीमाक्षो भीमदशन । पञ्चान्य इव जीभूतं समम्वात्परिवारित ॥ ऋषावन्त गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नगंदा पिवन् । सर्वज्ञाणामधिपतिर्धूमो नामैव यूयप ॥', (६ २७, ८-९) । ये अपने भयकर रीछों की सेना के साथ राम के बगल में लड़े हुए (६ ४२, २९) । राम ने इनका आदर सकार किया । (७. ३९ २१) ।

धूम्रगिरि, मेरु पर्वत के निकट स्थित एक पर्वत का नाम है जहाँ के वानरो को आमन्त्रित करने के लिये मुग्रीव ने हनुमान से कहा (४ ३७ ६) ।

धूम्राक्ष, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान गये थे (५ ६, २३) । राम आदि का वध करने के लिये यह अस्थ-राक्षो से मुसज्जित होकर रावण की तभा म सन्नद्ध खड़ा था (६ ९, ३) । रावण ने इससे एक गई सेना लेकर युद्धभूमि में जाने के लिये कहा (६ ५१, २०) । 'रावण की आज्ञा पाकर यह सेनापति से एक बहुत बड़ी सेना लेकर उत्त पश्चिम द्वार से युद्ध के लिये निकला जहाँ हनुमान् खड़े थे । उस समय अनेक अपसकुनों के विपरीत भी यह आगे बढ़ना हुआ धनुसेना के समझ आकर खड़ा हो गया (६ ५१, २१-३७) ।' यह भयकर पराक्रमी राक्षस था (६ ५२, १) । युद्धभूमि में अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए इमने निर्दयतापूर्वक वानरसेना का वध आरम्भ किया (६ ५२, १८) । अपने धनुष और बाण से इमने वानरसेना को पलायन करने के लिये विवश कर दिया (६. ५२, २५) । जब हनुमान् ने इसके रथ के टुकड़े-टुकड़े कर दिये तब इस्तने रथ से उतरकर हनुमान् पर एक नीपण गया फेंकी परन्तु अन्नतः हनुमान् न एक पर्वत शिखर से इसका वध कर दिया (६ ५२, २८-३८) । यह सुमाली और वैतुमती का पुत्र था (७ ५, ३८-४०) । कुबेर के विरुद्ध युद्ध में रावण के साथ यह भी गया था (७ १४, २) । एक द्वन्द्व में मणिभद्र ने इसे बुरी

तरह आहन कर दिया था (७ १५, १०-१२) । इमने नर्मदा मे स्नान करके रावण के लिये पुष्प एकत्र किये (७ ३१, ३४-३६) ।

धूम्राश्व—विशाला के राजवंश मे ये मुचन्द्र के पुत्र और सृञ्जय के पिता थे (१ ४७, १४) ।

धृतराष्ट्री, ताञ्जा और कश्यप की पुत्री का नाम है (३ १४, १७-१८) । यह हसो और बलहयो की माता हुई (३ १४, १९) ।

धृति, भरत के एक मन्त्री का नाम है जिसे चित्रकूट मे राम से मिलन जाने के समय भरत ने अपने साथ लिया था (२ ९३, २५ गीता प्रेस सस्करण) ।

धृष्टकेतु, सुधृति के धार्मिक पुत्र और हर्यश्व के पिता का नाम है (१ ७१, =) ।

धृष्टि, दशरथ के एक मन्त्री का नाम है (१ ७, ३) । श्रीराम के लौटने पर उनके स्वागत के लिये ये भी नगर से बाहर निकले (६ १२७, १०) ।

धौम्य, पश्चिम के एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिवादन के लिये उपस्थित हुए थे (७ १, ४) ।

ध्रुवसंधि, सुमन्त्रि के पुत्रो मे से एक का नाम है जो भरत के पिता थे (१ ७०, २६) ।

ध्वजग्रीव, एक राजस प्रमुख का नाम है जिसके भवन मे हनुमान् गये थे (५ ६, २५) । हनुमान् ने इसके भवन मे आग लगा दी (५ ४४, १३) ।

न

नता, शुकी की पुत्री और विनता की माता का नाम है (३ १४, २०) ।

१. नन्दन, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत को लाने के लिये नेक्य भेजे गये वसिष्ठ के एक दूत का नाम है (२ ६८, ५) । ये राजगृह मे पहुँचे (२ ७०, १) । नेक्यराज और उनके पुत्र द्वारा सत्कृत होने के परचात् इन्होंने भरत के समीप जाकर उन्हें वसिष्ठ द्वारा भेजे गये समाचार और उपहार आदि दिये (२. ७०, २-५) । भरत के प्रश्नो का उत्तर देने हुये इन्होंने उनसे तत्काल अयोध्या चलने के लिये कहा (२ ७०, ११-१२) ।

२. नन्दन, दिव्य कानन का नाम है जहाँ मे, भरतमेना का सत्कार करने के लिये, भरद्वाज वे आवाहन परे २०,००० अप्सरारये आई थीं (२ ९१, ४४) । रावण ने इनका विध्वंस किया था (३ ३२, १५; ७ १३, ९) । हममे ऐसे वृक्ष थे जो वर्ष-पयन्त फल और मधुर रस प्रदान करते रहते थे (३ ७३, ६-७) । रावण के साथ युद्ध मे आहन हो जाने पर बुवेर इसी स्थान पर लाया गया था (७ १५, ३५) ।

नन्दिन्, इनको देखकर रावण ने इनके वानर के समान मुख पर उपहास किया था जिस पर शूद्र होकर इन्होंने उसे वानरो के हाथ ही मारे जाने का शाप दे दिया था (५. ५०, २-३) । रावण ने इनके शाप का स्मरण किया (६ ६०, ११) । 'इति वानस्यान्तरे तस्य कराल कृष्णपिङ्गल । वामनो विकटो मुण्डी नन्दो ह्रस्वभुजो वली ॥ तत्र पार्श्वमुपागम्य भवस्यानुचरोऽद्रवीन् । नन्दीश्वरो वचश्चेद राक्षसेन्द्रमशङ्कित ॥', (७. १६, ८-९) । इन्होंने रावण के पास आकर उससे लौट जाने के लिये कहा, क्योंकि उक्त पर्वत पर भगवान् शंकर शीडा करने थे और इसीलिये सुपुंग, नाग, यक्ष, देवता, गन्धर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बन्द कर दिया गया था (७. १६, ९-११) । रावण ने इनके वानर के समान मुँह को देखकर उपहास किया (७ १६, ११-१४), जिससे इन्होंने रावण को शाप दे दिया (७. १६, १५-२१) । 'भगवान् नन्दी शङ्करस्यापरा तनु', (७ १६, १५) ।

नन्दि-ग्राम, एक नगर का नाम है जहाँ भरत ने राम के आगमन की प्रतीक्षा करने हुये राज्य किया (१ १, ३९) । वनवास से लौट कर श्रीराम नन्दिग्राम गये और वहाँ उन्होंने अपनी जटायें कटवाई (१ १, ८८-८९) । वाल्मीकि ने भरत के निवास-स्थान, नन्दिग्राम, का पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, १७) । भरत अपने मन्त्रियों और पुरोहितों के साथ नन्दिग्राम गये । यह अयोध्या के पूर्वदिशा में स्थित था (२ ११५, १०) । हनुमान् यहाँ भरत को श्रीराम के वनवास से लौट कर नन्दिग्राम आने की सूचना देने आये (६ १२५, २७) ।

नन्दिधर्मन्, उदावमु के पुत्र आर मुकेयु के घमड़िया पिता का नाम है (१ ७१, ५) ।

१. नमुचि, एक दैत्य का नाम है जिसने इन्द्र पर आक्रमण किया था (३ २८, ३) । 'स वृत्र इव यश्चेन फेनेन नमुचिर्यथा । बली वेन्द्राशनिहृती निपपात ह्य खर ॥', (३ ३०, २८) । इन्द्र के समय इसके दृढ-युद्ध का उल्लेख (४ ११, २२, ६ ५६, १७) । यह देवों का शत्रु था अतः विष्णु ने इसका वध किया (७ ६, ३४) ।

२. नमुचि, दक्षिण के एक महर्षि का नाम है जो राम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये थे (७ १, ३) ।

१. नरक, कश्यप और बालका के पुत्र का नाम है (३ १४, १६) ।

२. नरक, एक दुष्टात्मा दानव का नाम है जो वराह पर्वत पर स्थित प्राक्योत्थिप नगर में निवास करता था (४ ४२, २९) ।

नरव्याघ्र, किरातो के एक भ्रम का नाम है : 'अक्षया बलवन्तश्च तथैव

पुरुषादका । किरातास्तीक्ष्णचूडाश्च हेमामा प्रियदर्शना ॥ आममीनाशना,
श्चापि किराताद्वीपवासिन । अन्नर्जलक्षरा घोरा नरव्याघ्रा इति श्रुता ॥',
(४ ४०, २६-२७) । सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने विनन को इनके
क्षेत्र में भेजा था (४ ४०, २७) ।

१. नरान्तक, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने
आग लगा दी थी (५ ५४, १५) । यह प्रहस्त का एक सेनापति था, जो
प्रहस्त के साथ ही युद्ध-भूमि में आया (६ ५७, ३१) । इसने निदयना-
पूर्वक वानरसेना का वध किया (६ ५८ १९) । एक पर्वत शिखर में द्विदि
न इसे मार डाला (६ ५८, २०) ।

२ नरान्तक, रावण के पुत्र, एक राक्षस का नाम है जो हाथ में
धनुष-बाण लिये दृष्टे रथ पर बैठकर रावण के साथ युद्ध-भूमि में आया
(६ ५९, २२) । इसने वृम्भमर्षण के वध पर शाक किया (६ ६८, ७) ।
त्रिशिरा की बात सुनकर यह युद्ध-भूमि में जाने के लिये प्रस्तुत हुआ (६
६९, ९) । 'रावणस्य सुता घोरा शक्रानुन्य पराक्रमा ॥ अन्तरिक्षगता सर्वे
सर्वे मायाविगारादा । सर्वे त्रिदशदर्शना सर्वे समरदुर्मदा ॥ सर्वे सुबलसपत्ना
सर्वे विस्तीर्णकीर्तय । सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्तेस्म निजिना । देवैरपि
सगन्धर्वे सक्विरमहोरगै ॥ सर्वेऽस्वविदुषो वीरा सर्वे युद्धविशारदा । सर्वे
प्रवरविज्ञाना सर्वे लम्बवरास्तया ॥ स तैस्तथा भास्करनुयदर्शनं सुवृत्त
शत्रुबलधियादने ॥ रराज राजा मघवान्ययामरं वृत्तो महादानवदर्शनाशनै ॥',
(६ ६९, १०-१४) । रावण से आज्ञा लेकर रावण का यह पुत्र युद्ध भूमि
की ओर चला (६ ६९, १९) । यह उच्चै श्रवा नामक शीघ्रगामी अश्व पर
सवार होकर हाथ में प्राप्त और शक्ति लिये दृष्टे युद्ध-भूमि में आया (६ ६९,
२८-२९) । इसने वानर सेना का घोर संहार किया (६ ६९, ६९-८३) ।
इसने अद्भुत के साथ इन्द्र-युद्ध किया जिसमें अद्भुत ने द्रुप का वध कर दिया
(६ ६९, ८८-९९) ।

१. नर्मदा, एक रमणीय नदी का नाम है । सुग्रीव ने सीता की खोज के
लिये अद्भुत को इसी क्षेत्र में भेजा (४ ४१, ८) । इसका वर्णन (७ ३१,
१८-२४) ।

२. नर्मदा, एक गन्धर्वों का नाम है जिसने अपनी तीन पुत्रियों का व्रमण
मायवान्, मुमाली और माली से विवाह किया (७ ५, ३१-३२) ।

नल ने सागर पर सेतु का निर्माण किया (१ १, ८०) । बाम्नीकि ने
इनके द्वारा सेतु-निर्माण की घटना का पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, ३४) ।
ये महाकवि, विश्वकर्मा के पुत्र थे (१ १७, १२) । ये वानर-यूथपति थे

(१. १७, ३२) । सुग्रीव के साथ ये भी किष्किन्धा गये (४ १३, ४) । किष्किन्धा जाते समय लक्ष्मण ने इनके सुमन्वित भवन को भी देखा (४ ३३, १०) । सुग्रीव के आमन्त्रण पर ये एक शरव, एक सहस्र, एक सौ द्रुमरासी वानरो सहित उनके पास आये (४ ३९, ३६) । ये विश्वकर्मा के प्रिय पुत्र थे (६ २२, ४४) । सेतु निर्माण के लिये समुद्र ने इनका नाम बनाया क्योंकि इन्हें अपने पिता का अनुग्रह प्राप्त था (६ २२, ४५) । तदनन्तर इन्होंने श्रीराम से सेतु-निर्माण करने की अपनी इच्छा को प्रकट किया (६ २२, ४६-५२) । अन्य वानरो की सहायता से इन्होंने सागर पर सेतु का निर्माण किया (६ २२, ६२) । ने लड्डू के परकोटे पर चढ़ गये (६ ४२, २२) । इन्होंने प्रतपन के साथ हृन्द-मुद्र किया (६ ४३, १३) । इन्होंने प्रतपन की शोभा आँखें निकाल ली (६, ४३, २४) । य सनकंतापूर्वक वानर-सेना की रक्षा कर रहे थे (६ ८७, २-४) । इन्होंने राक्षस-सेना का भयकर संहार किया (६ ५५, ३०-३१) । इन्होंने एक विशाल पर्वत-शिखर लेकर रावण पर आक्रमण किया किन्तु रावण ने इन्हें बाह्य कर दिया (६ ५९, ४२-४३) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४३) । राम की सहायता के लिये देवों ने इनकी सृष्टि की थी (७ ३६, ४९) । राम ने इनका मत्कार किया (७ ३९, २०) ।

नल-कुंवर, कुंवर के प्रिय पुत्र का नाम है, जो रम्भा पर आसक्त था (७ २६, ३२) । 'पर्मतो यो भवेद्विप्र क्षत्रियो धीर्यतो भवेत् । शोषाद्यथ भवेदग्नि क्षान्त्या च वसुधासम ॥', (७ २६, ३३) । जब रम्भा को रावण ने रोना तो उसने बताया कि वस्त्राभूषण धारण निये हुये वह नलकुंवर से ही मिलने जा रही है (७ २६, ३४-३७) । जब रम्भा से इसने यह सुना कि रावण ने मार्ग में उसे रोककर उसके साथ बलात्कार किया, तब इसने रावण को यह शपथ दिया कि यदि वह भविष्य में फिर कभी किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार करेगा तो उसका (रावण का) मस्तक टुकड़े-टुकड़े हो जायगा (७ २६, ४३-५६) ।

नलिनी, उन सात नदियों में से एक का नाम है जो विन्दु-सरोवर से निकल कर पूर्व दिशा की ओर बही (१ ४३, १२) ।

१. नहुष, अम्बरीष के पुत्र और ययाति के पिता का नाम है (१ ७०, ४२) । शूद्र और नेत्रहीन मुनि-दम्पती ने, जिनके पुत्र का दशरथ ने भूल से वध कर दिया था, अपने पुत्र के लिये उसी लोक की कामना की जो नहुष आदि को प्राप्त हुआ था (२ ६४, ४२) ।

२. नहुष, आयु के पुत्र का नाम है जिन्होंने वृत्र वध के बाद इन्द्र की अनुपस्थिति में स्वर्ग पर शासन किया था (७ ५६, २७-२८) ।

नाग (बहु०)—ब्रह्मा ने देवों को आज्ञा दी कि वे नाग-कन्याओं के गर्भ से वानर-मन्थान उत्पन्न करें (१ १७, ५) । इन लोगों ने भी वन में विचरण करनेवाले वानरों और रीछों के रूप में वीर-पुत्रों को जन्म दिया (१ १७, ९) । सगर-पुत्रों के वज्रदुल्य शूलों आदि के प्रहार से आहत होकर ये घोर आर्तनाद करने लगे (१ ३९, २०) । इन लोगों ने भी ब्रह्मा की धारण में जाकर सगर-पुत्रों के अत्याचार के विरुद्ध शिकायत की (१ ३९, २३-२६) । अगस्त्य का आश्रम इनसे भी सेवित था (३ ११, ९२) । ये सुरक्षा के पुत्र थे (३ १४, २८) । ब्रह्मा ने रावण को इनसे भी अवध्य होने का वर दिया (३ ३२, १८-१९) । रावण ने उन लता-कुञ्जों को देखा जो इनसे सेवित थे (३ ३५, १४) । ये उत्तर कुरु में निवास करते थे (४ ४३, ५०) । महेन्द्र पर्वत इनसे सेवित था (५ १, ६) । जब हनुमान् सागर का लङ्घन कर रहे थे तो इन लोगों ने उनकी प्रशंसा में गीत गाया (५ १, ८७) । वायुपथ इनसे व्याप्त था (५ १, १७८) । समुद्र इनसे सेवित था (५ १, २१४) । इनकी कन्यायें सुन्दर नितम्बों और चन्द्रमा के समान मुखवाली होती थीं, जिन्हें हनुमान् ने लङ्का में देखा (५ १२, २१-२२) । जब हनुमान् ने अक्ष का वध कर दिया तो ये भी विस्मयपूर्वक हनुमान् को देखने लगे (५ ४७, ३७) । हनुमान् और इन्द्रजित् के युद्ध को देखने के लिये इनका समूह भी एकाग्र हुआ (५ ४८, २४) । लङ्का में हनुमान् की सफलताओं पर ये लोग अत्यन्त प्रमत्त हुए (५ ५४, ५२) । अरिष्ट पर्वत इनसे सेवित था (५ ५६, ३५) । जब अरिष्ट पर्वत हनुमान् के भार से दब गया तो ये लोग उस पर से हट गये (५ ५६, ४७) । इन्हे आकाशरूपी समुद्र में लिये गये कमल और उत्पल के समान कहा गया है (५ ५७, १) । जब श्रीराम न कुम्भकर्ण का वध कर दिया तो ये अत्यन्त हर्षित हुए (६ ६७, १७५) । श्रीराम और मकराक्ष का युद्ध देखने के लिये ये लोग भी एकत्र हुए (६ ७९, २५) । इन्द्रजित् के विरुद्ध युद्ध कर रहे लक्ष्मण की ये लोग रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६४) । श्रीराम और रावण के अन्तिम युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी एकत्र हुए (६ १०२, ४५) । जब श्रीराम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो इन लोगों ने चिन्ता प्रगट की (६ १०७, ४६) । उस समय ये लोग भी गाय और ब्राह्मण की सुरक्षा के लिये स्तुति करने लगे (६ १०७, ४८-४९) । ये लोग सारी रात राम और रावण का युद्ध देखते रहे (६ १०७, ६५) । जब पुलस्त्य ऋषि एक समय राजपि नृणविन्दु के आश्रम में रह

रहे थे तो नाग-कन्याये वहाँ आकर उनकी तपस्या में विघ्न डालती थी (७ २, ९-११) । किन्तु जब मुनि पुलस्त्य ने रष्ट होकर विघ्न करनेवाली कन्याओं को शाप दिया तब नाग-कन्याओं ने वहाँ आना बन्द कर दिया (७ २, १२-१३) । जब मातृवान् इत्यादि से युद्ध करने के लिये विष्णु चले तो इन लोगों ने भी उनकी प्रशंसा की (७-६, ६७) । मन्दाकिनी का तट इनसे सेवित था (७ ११, ४४) । रावण ने इन्हें पराजित किया था (७ २३, ५) । वायु देवता को प्रसन्न करने के लिये ये लोग भी ब्रह्मा के भाव गये (७ ३५, ६४) । लवणासुर का वध हो जाने पर ये लोग प्रसन्न हुये (७ ६९, ४०) । राजा इल के भय से ये लोग उनकी सेवा किया करते थे (७ ८७, ५-६) । सीता के शपथ ग्रहण को देखने के लिये ये लोग भी श्रीराम की सभा में उपस्थित हुये (७ ९७, ९) । सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर ये लोग भी विविध प्रकार की बातें करने लगे (७ ९७, २४-२६) । श्रीराम के विष्णु तेज से प्रविष्ट हो जाने पर ये लोग प्रसन्न हुये (७ ११०, १४) ।

नागदत्ता, एक अम्बरा का नाम है जिसका भरत-सेना के सत्कार के लिये महर्षि भरद्वाज ने आवाहन किया था (२ ९१, १७) ।

नागराज—श्रीराम ने अगस्त्याश्रम में इनके स्थान को भी देखा था (३ १२, २०) ।

नाभाग, ययाति के पुत्र तथा अज के पिता का नाम है (१. ७०, ४२-४३) ।

नारद, एक महर्षि का नाम है 'तप स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदा वरम् । नारद परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम् ॥', (१. १, १) । वाल्मीकि के पूछने पर इन्होंने राम-चरित्र का सक्षिप्त वर्णन किया (१. १, ६-१००) । वाल्मीकि द्वारा सत्कृत हो कर इन्होंने विदा ली (१ २, १-२) । श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया था (२ २५, ११) । भरत के भरद्वाज-आश्रम में विश्राम के समय इन्होंने भरत के सम्मुख गायन किया (२ ९१, ४५) । रावण के पूछने पर इन्होंने उसे यम के साथ युद्ध करने के लिये प्रेरित किया (७. २०, ३-१७) । रावण के पूछने पर इन्होंने उसे यम के स्थान का पता बताया (७ २०, २०-२१) । 'नारदस्तु महातेजा मुहूर्तं ध्यानमास्थित । चिन्तयामास विप्रेन्द्रो विधूम इव पावक ॥', (७ २०, २७) । रावण और यम के युद्ध को देखने के कौतूहल के कारण वे भी यम-लोक गये (७. २०, २७-३३) । यम के पास जा कर इन्होंने उनसे रावण के उन पर शीघ्र ही आक्रमण करने की बात कही (७. २१, १-७) । अगस्त्य के अनुरोध पर इन्होंने वालिनू और सुग्रीव के जन्म-वृत्तान्त का वर्णन

त्रिया (७ ३७ क, ४-६) । मेरु पर्वत पर देव-मभा मे इन्होंने रावण द्वारा सीता के अपहरण के कारणों का वर्णन किया (७ ३७ घ, ५-७) । रावण के पूछने पर इन्होंने उममे बताया कि वह श्वेत द्वीप मे निवास करने वाले चन्द्र-साक्ष मानवों को अपना योग्य प्रतिद्वन्दी पा सकता है (७ ३७ ड, ७-१०) । रावण के पूछने पर इन्होंने बताया कि वे लोग नारायण की कृपा से वहाँ के निवासी बन गये हैं (७ ३७ ड, १३-१७) । कौतूहलवश ये भी रावण के पीछे-पीछे श्वेतद्वीप गये (७ ३७ ड, १९-२०) । श्वेतद्वीप की युवतियों द्वारा रावण के अपमानित होने को देख इन्हें विस्मय हुआ (७ ३७ ड, ४२-४३) । इनकी उपेक्षा करने पर इन्होंने राजा नृग को शोष दे दिया (७ ५३, १६-२२) । राम के आमन्त्रण पर ये राम के भवन मे गये जहाँ इनका उचित स्वागत हुआ (७ ७४, ४-५) । "एक ब्राह्मण के राम रु राजद्वार पर सत्याग्रह करने के सम्बन्ध मे राम के वचन को सुनकर इन्होंने बताया कि इस ब्राह्मण के पुत्र की श्मलिये मृत्यु हो गई है, क्योंकि राम के राज्य मे कहीं पर कोई शूद्र तपस्या कर रहा है जिसका उते त्रेता युग मे अधिकार नहीं है (७ ७४, ७-३२) ।" इन्होंने राम के दरवार मे उपस्थित होकर सीता के शपथ-ग्रहण को देखा (७ ९६, ५) ।

निकुम्भ, रावण के एक मंत्री का नाम है जिसे हनुमान् ने रावण के मिहासत के बगल मे खटा देखा (५ ४९, ११) । हनुमान् ने इसके भवन मे आग लगा दी (५ ५४, १५) । यह कुम्भकर्ण का वीर्यवान् पुत्र था (६ ८, १९) । इसने अनुमति मिलने पर बिना किसी सहायता के ही धीराम आदि का वध कर देने का वचन दिया (६ ८, २०) । राम आदि का वध करने के लिये यह अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर रावण की सभा मे सग्रह खडा था (६ ९, १-६) । इसने नील के साथ द्वन्द्व-युद्ध किया (६ ४३, ९) । इसने अपने प्रतिद्वन्दी को आहूत किया (६ ४३, ३०-३२) । यह अपने हाथ मे एक ज्वलन्त परिष लेकर रावण के साथ युद्ध-भूमि मे आया (६ ५९, २१) । यह कुम्भकर्ण का पुत्र था जिसे रावण ने युद्ध के लिये भेजा (६ ७५, ४५-४७) । सुग्रीव के द्वारा अपने धाता कुम्भ को मारा गया देखकर इसने वानरराज की ओर इस प्रकार देखा माना इन्हें दग्ध कर देगा (६ ७७, १-२) । 'निकुम्भो भीमविक्रम', (६ ७७, ४) । "इसके वक्षस्थल मे स्वर्ण-पदक था, भुजाओं मे वाजूबन्द शोभा दे रहे थे, बानों मे विचित्र कुण्डल, और गले मे विचित्र माला जगमगा रही थी । इन आभूषणों तथा अपनी परिष से निकुम्भ वैसे ही सुशोभित हो रहा था जैसे विद्युत् और गर्जना से युक्त मेघ इन्द्रधनुष से सुशोभित होता है । (६ ७७, ५-६) ।" 'सत्तारागणनशत्रु

सचन्द्रमहाप्रहम् । निकुम्भपरिषाधूर्णं भ्रमनीव नभस्यत्नम् ॥ दुरासदश्च सज्जे
परिषाधरणप्रभम् । क्रोधेन्धनो निकुम्भाग्निर्गुगान्ताग्निरिवोत्थित ॥', (६ ७७,
९-१०) । इसने हनुमान् के साथ घोर युद्ध किया परन्तु अन्त में हनुमान् ने
इसका वध कर दिया (६ ७७, ११-२५) ।

निकुम्भिला, लङ्का के एक पवित्र स्थान का नाम है जहाँ जाकर
इन्द्रजित् ने अग्नि में आहुति दी (६ ८२, २५-२६) । यह वटवृक्षों के मध्य
में स्थित था जहाँ इन्द्रजित् हवन सम्यन्धी कार्य पूर्ण करने के लिये गया
(६ ८५, ११ १४-१५) । रावण ने यहाँ आकर भेषनाद की यज्ञ करते हुये
देखा (७ २५, २-३) ।

निद्रा—जब ब्रह्मा के आदेशानुसार इन्द्र सीता को हविष्यात् लिलाने
के लिये लका आये तो वे अपने साथ निद्रा को भी लाये (३ ५६क, ८) ।
इन्द्र के कहने पर इन्होंने राक्षसों को निद्रा में मोहित कर दिया (३ ५६क,
९-१०) । ये इन्द्र के साथ ही लौट आये (३ ५६क, २६) ।

निमि, जनक के पूर्वज और बेबरान के पिता का नाम है (१ ६६,
८) । 'राजामूर्तिपु लोकेषु विश्रुतस्तेन कर्मणा । निमि परमधर्मात्मा सर्व-
सत्त्ववता वरः ॥', (१ ७१, ३) । मिथि इनके पुत्र थे (१ ७१, ४) ।
'ये इक्ष्वाकु के धारहवें पुत्र थे जिन्होंने सीताम के आश्रम के निकट देवपुरी के
समान वैजयन्तपुर नामक एक नगर बसाया । इन्होंने एक यज्ञ करने का विचार
करके उसे सम्पन्न करने के लिये वसिष्ठ का वरण किया, किन्तु वसिष्ठ के अस-
मर्थता प्रकट करने पर महर्षि सीताम से अपना यज्ञ करना आरम्भ कर दिया ।
इस पर क्रुद्ध होकर वसिष्ठ ने शाप देकर इन्हें शरीर-रहित (विदेह) बना
दिया । प्रतिकार स्वरूप इन्होंने भी वसिष्ठ को वंश ही शाप दिया । इस
प्रकार ये और वसिष्ठ दोनों ही परस्पर शाप से विदेह हो गये (७ ५५,
४-२१) ।' इन्हे देह से प्रयत्न हुआ देखकर ऋषियों ने इनके शरीर को
सुरक्षित रखकर स्वयं यज्ञ पूरा कर दिया (७ ५७, १०-११) । देवों के
वर देने के आग्रह पर इन्होंने यह वर माँगा कि ये मनुष्यों के नेत्र में निवाम
करें (७ ५७, १४) । "महर्षियों ने पुत्र की उत्पत्ति के लिये इनके शरीर का
मर्दन किया जिससे मिथि उत्पन्न हुये । इस अद्भूत जन्म के कारण ही मिथि
जनक कहलाये (७ ५७, १७-२०) ।"

निघातकवच, दैत्यों के एक वर्ग का नाम है जो एक मणिमयी पुरी में
निवाम करते थे । इन लीगों ने एक वर्ष तक लगातार रावण के साथ युद्ध
किया, किन्तु अन्त में ब्रह्मा की मन्वस्यता पर उससे सन्धि कर ली (७ २३,
५-१४) ।

निशाकर, एक महर्षि का नाम है जो विन्ध्य पर्वत के शिखर पर रहने थे (४ ६०, ८) । सम्पाति ने बताया कि पूर्वकाल में जब सूर्य की किरणों से दग्ध होकर वे विन्ध्य पर्वत के शिखर पर गिरे तो उन्होंने 'ज्वलित तेज' और उग्र तप करनेवाले इन ऋषि का दर्शन किया (४ ६०, १३-१४) । 'सम्पाति ने देखा कि ये स्नान करके विभिन्न पशुओं से घिरे हुये आधम की ओर आ रहे हैं । उस समय सम्पाति को बुरी तरह दग्ध देखकर इन्होंने उनका समाचार पूछा (६ ६०, १५-२१) ।' सम्पाति द्वारा अपने दाह की कथा का वर्णन करने पर (६ ६१, १-१७), इन्होंने सम्पाति को सात्वता देने हुये बताया कि श्रीराम के दूतों को रावण के स्थान का पता बता कर उन्हें पल्ल और नेत्र-ज्योति आदि पुन प्राप्त हो जायगी (६ ६२, १-१४) । 'महर्षिस्त्वन्नवीदेव दृष्टतत्वायं दर्शन', (६ ६२, १५) । 'निशाकरस्य राजपे प्रसादादमितोजस', (६ ६३, १०) ।

निशुम्भक, एक असुर का नाम है जिसका विष्णु ने वध किया था (७ ६, ३५) ।

निपाद—एक निपाद ने श्रीश्व पक्षियों के एक जोड़े के नरपत्नी का वध कर दिया (१ २, १०) । वाल्मीकि ने उसे शाप दिया (१ २, १५) । ये दूसरों की हिंसा करके जीवन व्यतीत करते थे (१ ५९, २०-२१) ।

नील, अग्नि के पुत्र थे 'पावकस्य सुत श्रीमाग्नीलोऽग्निस्तदुत्सप्रभ । तेजसा यज्ञसा वीर्याश्लयिरिच्यत वीर्यवान् ॥', (१ १७, १३) । 'नल नील हनुमन्तमन्याश्व हरिसूयपान्', (१ १७, ३२) । ये सुग्रीव के साथ किष्किन्धा आये (४ १३, ४) । तारा के विलाप के समय इन्होंने वालिन के हृदय में विधे बाण को निकाला (४ २३, १७) । 'सदिदेशानिमतिमाग्नील नित्यकृनो-द्यमम्', (४ २९, २९) । किष्किन्धा जाते समय मार्ग में लक्ष्मण ने इनके भवन को भी देखा (४ ३३, ११) । 'नीलाञ्जनचयाकारो नीलो नामाथ यूषप । अदृश्यत महाकाय कोटिभिदंशभिर्द्वृत ॥', (४ ३९, २२) । सीता की खोज के लिये सुग्रीव इन्हें दक्षिण दिशा की ओर भेजना चाहते थे (४ ४१, २) । श्रीराम ने इनसे कहा कि ये समस्त वानर सेना को ऐसे मार्ग से लेकर चलें जिसमें फल-मूल की अधिकता, दौतल छाया, और ठण्डा जल उपलब्ध हो (६ ४, १०-११) । ये आज्ञानुसार सेना का मार्ग ठीक करते हुये चले (६ ४, ३१) । ये मेनापति के रूप में अपनी मेना की सब ओर से रक्षा एवं नियन्त्रण कर रहे थे (६ ४, ३६) । ये समुद्र-तट पर स्थित वानर सेना की रक्षा और नियन्त्रण कर रहे थे (६ ५, १) । इन्हें सेना के हृदय-स्थान में स्थित किया गया (६ २४, १४) । श्रीराम ने इन्हें पूर्व द्वार पर जाकर

प्रहस्त का सामना करने का आदेश दिया (६ ३७, २६) । इन्होंने निहुम्भ के साथ इन्द्रयुद्ध किया (६ ४३, ९) । निहुम्भ के साथ युद्ध करते हुये उसके सारथि का वध कर दिया (५ ४३, ३०-३२) । राम की आज्ञा से ये इन्द्रजित् का पता लगाने के लिये गये किन्तु इन्द्रजित् ने अत्यन्त बेगमाली वाणो की वर्षा करके इनका मार्ग रोक दिया (६ ४५, २-५) । ये भी उस स्थान पर लौट आय जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण मूर्च्छित पड़े थे (६ ४६, ३) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत किया (६ ४६, १९) । ये सनकंतापूर्वक वानर सेना की रक्षा कर रहे थे (६ ४७, २-३) । प्रहस्त को वानर सेना का निदयतापूर्वक सहार करते देख ये उसकी ओर बढ़ (६ ५८ ३४-३५) । उस समय प्रहस्त न इन पर वाणा की वर्षा की (६ ५८, ३६) । जब प्रहस्त ने इन्हें अनाक वाणो से क्षीय दिया तो इन्होंने एक विशाल वृक्ष से उस पर आक्रमण किया (६ ५८, ३८) । इन्होंने प्रहस्त के रथ और धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिये (६ ५८, ४३-४४) । प्रहस्त के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसका वध कर दिया (६ ५८, ४५-४५) । तदनन्तर ये श्रीराम और लक्ष्मण से मिले और हर्ष का अनुभव करने लगे (६ ५८, ६०) । इन्होंने रावण के माथ युद्ध किया किन्तु अन्त में रावण ने एक शक्तिशाली वाप मार कर इन्हें मूर्च्छित कर दिया (६ ५९, ७०-९०) । इन्होंने श्रीराम के आदेशों को वानर सेना तक पहुँचाया (६ ६१, ३४-३७) । इन्होंने बुम्भकर्ण पर एक विशाल पर्वत गिरा फेंका (६ ६७, २२) । बुम्भकर्ण ने इनको अपने घुटनों से रगड़ दिया (६ ६७, २९) । बज्र को सत्रुओं से घिरा देस कर ये उनकी सहायता के लिये दौड़ पड़े (६ ७०, २०) । इन्होंने त्रिशिरा से युद्ध किया (६ ७०, २०-२२) । इन्होंने महोदर से युद्ध करते हुये उनका वध किया (६ ७०, २७-३२) । इन्होंने अतिनाय पर आक्रमण किया किन्तु उत्तरे पराजित हो गये (६ ७१, ३९-४२) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४९) । श्रीराम का मघोबित सत्कार प्राप्त करने के बाद ये अपने घर लौटे (६ १२८, ८७-८८) । देवो ने इनकी श्रीराम की सहायता के लिये वृष्टि की थी (७ ३६, ४९) । राम ने इनका स्वागत-सत्कार किया (७ ३९, २०) ।

मृग—“एक राजा का नाम है जो ब्राह्मण-भक्त, सत्यवादी और आचार विचार से पवित्र थे । एक समय जब ये गायो का दान कर रहे थे तो उच्छृंखलित से जीवन निर्वाह करनेवाले अग्निहोत्री ब्राह्मण की गाय भी अपने बछड़े सहित अन्य गायो के साथ ही आ गई । इन्होंने उस गाय को भी किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया । जिस ब्राह्मण की वह गाय थी उसने उसे दूँदते हुये कनकल

मे एक ब्राह्मण के पास देखा और गाय को उसके परिचित नाम से पुकार कर अपने साथ ले चला । जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन कर रहा था, यह बताते हुये कि उसने गाय को राजा नृग से दान में प्राप्त किया था, अपनी गाय माँगा । जब विवाद होने लगा तो दोनों ब्राह्मण राजा नृग के पास आये, किन्तु राजभवन के द्वार पर अनेक दिनों तक रुके रहने पर भी उनको राजा का न्याय प्राप्त नहीं हो सका जिस पर क्रुद्ध हो कर दोनों ने राजा को यह नाप दिया कि वे समस्त प्राणियों से टिपकर रहनेवाले कुरुलास हो कर महत्सो वर्षों तक एक गड्ढे में पड़े रहे । (७ ५३, ७-२४) । इन्हीने अपने पुत्र, वसु को, राज्य मोपकर माप भोगन के लिये गड्ढे में प्रवेश किया (७ ५४, ५-१९) ।

नृपहु, एक महर्षि का नाम है जो राम के वनवास से लौटने पर उनका अभिनन्दन करने के लिये अयोध्या पधारे थे (७ १, ४) ।

प

पञ्चजन, एक दानव का नाम है जिसका विष्णु ने चन्नवान् पर्वत पर बध किया था (४ ४२, २६) ।

पञ्चवटी—राम के पूछने पर (३ १३, ११) महर्षि अगस्त्य ने उन्हें फलमूल तथा जल की सुविधा से युक्त पञ्चवटी में आश्रम बनाकर सुखपूर्वक रहने का आदेश दिया (३ १३, १३-२२) । राम आदि ने पञ्चवटी की ओर प्रस्थान किया (३ १३, २३-२५) । राम, लक्ष्मण, और सीता, जटायु के साथ पञ्चवटी के लिये प्रस्थित हुये (३ १४, ३६) । श्रीराम ने नाना प्रकार के सर्पों, हिमक जन्तुओं और मृगों से भरी हुई पञ्चवटी में प्रवेश किया (३ १५, १) । 'अथ पञ्चवटीदेश सौम्य पुष्पिन कानन', (३ १५, २) ।

पञ्चाप्सर, एक-एक योजन लम्बाई चौड़ाई वाले एक सरोवर का नाम है (३ ११, ५) । माण्डकनि महर्षि ने दण्डकारण्य में अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था, जहाँ वे पाँच अप्सराओं के साथ जलाशय में वन भवन में निवास करते थे (३ ११, ११-१८) ।

१. **पद्म**, निधियों में से एक का नाम है जो रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये कुबेर के साथ गये थे (७ १५, १७) । रावण के प्रहार से ग्रहण हुये कुबेर को ये नन्दन वन में ले गये (७ १५, ३५) ।

२. **पद्म**, एक दिग्गज का नाम है (७ ३१, ३५) ।

पद्माचल, एक पर्वत का नाम है, जहाँ निवास करने वाले धानरो को बुलाने के लिये सुधीश ने हनुमान् को भेजा था (४ ३७, ४) ।

१. पनस. एक महापराक्रमी वृषपति का नाम है जो तीन करोड़ दानवों के साथ मुषीव की आज्ञा से उपस्थित हुये थे (४. ३९, २१) । ये प्रस्थान करती हुयी दानव-सेना के दक्षिण भाग की रक्षा कर रहे थे (६ ४, ३४) । युद्ध में दुःमह वीर पनस पाणिनात्र नामक पर्वत पर निवास करते थे (६ २६, ४०) । इन्होंने लका के परकोटे पर चटकर सेना का पडाव डाल दिया (६ ४२, २२) । कुमुद की सहायता के लिये वे लका के पूर्वद्वार को धेरकर खड़े हो गये (६ ४२, २४) । इन्होंने सेना की व्यूह-रचना करके सावधानी से उसकी रक्षा की (६ ४७, २-४) । राम ने इनका स्वागत-सत्कार किया (७ ३९, २१) ।

२. पनस, विभीषण के एक मंत्री का नाम है जिसने एक पक्षी का रूप धारण करके राक्षस-सेना की शक्ति का गुप्त रूप से पता लगाया था (६ ३७, ७-१९) ।

पम्पा, एक सरोवर का नाम है जिसके तट पर ही श्रीराम ने हनुमान् से परिचय हुआ (१ १, ५८) । श्रीराम के इसके समीप आन की घटना ने धार्मिक ने पूर्वदर्शन किया था (१ ३, २१) । यहाँ निवास करनेवाले ऋषि-गण राक्षसों से अत्यन्त वस्तु थे (३ ६, १७) । सीता का अपहरण करके लौटने समय रावण इसको लाँचकर लकापुरी की ओर चला (३ ५४, ५) । 'तत पुष्करिणी वीरो पम्पा नाम गमिष्यथ ॥ अशकंरामविभ्रंशा समतीर्षाम-शंवलाम् । राम संजातवान् लका कमलोत्पल शोभिताम् ॥', (३ ७३. १०-११) । "इतके तट कीनद से रहित और इसकी भूमि तत्र ओर से बराबर थी । यह कमल और उत्पली से सुशोभित था । इसमें विचरनेवाले हृग, नारण्ड, मोक्ष और कुरर सदैव मधुर स्वर में कूजते रहते थे । इसका जल तथा क्षेत्र विविध प्रकार के मत्स्यों और कन्द-मूलों आदि से परिपूर्ण था । (३ ७३, १२-१५) ।" 'पद्मगन्धि शिव चारि सुखगीतमनामपम् ॥ उदधृत्य स तदा किंष्टं रूप्यस्फटिकरानिभम् ।', (३ ७३, १६-१७) । मोटे और पीले रंग के दानव इसके जल का पान करने के लिय आते थे (३. ७३, १८) । 'शिवोदक प पम्पाया दुष्ट्या शोक विहास्यति', (३ ७३, २०) । इसके पूर्व में ऋष्यभूक पर्वत स्थित था (३ ७३, ३०) । 'तौ कवन्धेन त मार्गं पम्पाया दक्षित वने । आतर्यबुद्धिं गृह्य प्रतीचो नृवरात्मजौ ॥', (३ ७४, १) । 'तदागच्छ गमिष्याव पम्पा ता प्रियदर्शनाम्', (३ ७५, ७) । "सीता के शोक से व्याकुल हुये श्रीराम ने इस रमणीय और कमलो से व्याप्त पुष्करिणी, पम्पा, के क्षेत्र में प्रवेश किया । इसके तट पर निलक, अशोक, नागकेशर, बडुल, तथा लिशोडे के वृक्ष थे । यह भाँति-भाँति के रमणीय उपवनो से घिरा था । इसका जल

कमल-पुष्पो से आच्छादित और स्फटिकमणि के समान स्वच्छ था । इसमें मत्स्य और कण्णभरे हुये थे । विन्नर, नाग, गन्धर्व, यक्ष और राक्षस इसका सेवन करते थे । भाँति भाँति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त होकर यह सरोवर शीतल जल की सुन्दर निधि प्रतीत होता था । इसमें अरविन्द उत्पन्न, पद्म और सौमन्विक आदि पुष्प खिले थे । यह आम के घनो से घिरा हुआ था जिनमें मयूरो की वाणी सदैव गूँजती रहती थी । तिलक, त्रिजोग, बट, लोध, खिले हुये करवीर, नागकेसर, मालती, क्रुन्द, गुन्म, भण्डोर, वज्जुल, अशोक, छिगवन, कतरु, माधवी, तथा नाना प्रकार के पुष्पों और वृक्षों से सुशोभित पम्पासरोवर वस्त्राभूषणो से सुमज्जित युवती के समान प्रतीत हो रहा था (३ ७५, १६-२४) । "स ता पुष्करिणी गत्वा पथोत्पलझपाकुलाम्", (४, १, १) । 'सौमित्रे शोभते पम्पा बहूयंविमलोदका', (४ १, ३) । श्रीराम ने पम्पा क्षेत्र की वसन्त शोभा का लक्ष्मण से वर्णन करते हुये सीता के लिये विलाप किया (४ १, ४-११४) । श्रीराम इन्ने लाघकर आगे बढ़े (४ १, १२७) । अयोध्या लौटते समय श्रीराम का विमान इसके क्षेत्र के ऊपर से भी उड़ता हुआ आया (६, १२३, ४१) ।

परशुराम—श्रीराम के साथ इनके संघर्ष की घटना का वाल्मीकि ने पूर्व-दशरथ ने किया (१ ३, १२) । "मिथिला से अयोध्या लौटते समय मार्ग में अनेक अपसकुनो के पश्चात् दशरथ ने देखा कि क्षत्रिय-राजाओं का मान-मर्दन करनेवाले भृगुकुलनन्दन, जमदग्नि कुमार (परशुराम) सामने आ रहे हैं । वे उस समय अत्यन्त भयानक दिखाई पड़ रहे थे । उनके मस्तक पर बड़ी बड़ी जटायें थी । वे कैलास के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुःसह प्रतीत और तेजोमण्डल द्वारा जाज्वल्यमान हो रहे थे । साधारण लोगों को उनकी ओर देखना भी कठिन था । वे कन्धे पर फरसा रखने और हाथ में विद्युद्गणों के समान दीप्तिमान् धनुष और भयकर बाण लिये हुये त्रिपुर-विनाशक शिव के समान प्रतीत हो रहे थे । (१ ७४, १७-१९) । "तं दृष्ट्वा भीमसकाश ज्वलन्तमिव पाषकम् । वसिष्ठप्रमुखा विप्रा जपहोमपरावणा ॥", (१ ७४, २०) । वसिष्ठादि ऋषियो का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात् इन्होंने राम को सम्बोधित करते हुये कहा 'तुमने शिव के धनुष को तोड़ दिया है । उसी समाचार को जानकर मैं एक अन्य उत्तम धनुष लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, जिस पर तुम बाण चढ़ाओ ।' (१ ७४, २३-२४, ७५, १-३) । राजा दशरथ ने इनको प्रसन्न करने के लिये इनकी स्तुति की । (१, ७५, ५-९) । दशरथ के निवेदन का अनादर करते हुये इन्होंने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित शंखी और वैष्णवी धनुषों का इतिहास बताया । तदनन्तर इन्होंने श्रीराम

से वैष्णवी धनुष पर बाण चढाने के लिये कहा (१ ७५, १०-२८) ।
 "जब राम ने वैष्णवी धनुष पर बाण चढाने हुये इनकी जत्ते पूरी कर दी तो ये
 घबरा उठे । रामद्वारा वैष्णव धनुष हाथ में लेने ही इनका तेज निकल कर राम
 में समा गया । इन प्रकार तेजहीन होकर जडबन् बने परशुराम ने राम से
 कहा 'आप मेरी समन शक्ति को नष्ट न करें । मैं मन के समान वेग से
 अभी महेन्द्र पर्वत पर चला जाऊँगा । आपने जो वैष्णव धनुष की प्रत्यञ्चा
 चढा दी है उससे मुझे विदिन हो गया है कि आप मधु नामक दैत्य का वध
 करने वाले अग्निनाभी देवेवर विष्णु हैं ।' (१ ७६, ११-२०) ।" इस प्रकार
 तपस्वी द्वारा उपाजित किये हुये पुष्प-शोको को राम के द्वारा चलाये हुये उस
 बाण से नष्ट हुआ देख ये महेन्द्र पर्वत पर चले गये (१ ७६, २२-२४) ।
 अपने रिवा की आत्मा पर इन्होंने हुजार ने अपनी माना का वध कर दिया था
 (२ २१, ३३) ।

परुष, सर के एक सेनापति का नाम है जो श्रीराम से युद्ध करने गया
 (३ २३, ३२) । इस महावीर यज्ञाश्रम ने सर के आदेश पर अपनी सम्पूर्ण
 सेना सहित श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २६-२८) ।

पजन्य, ने द्रह्या के आदेश पर श्रीराम की सहायता के लिये शरभ को
 अपने वानर-पुत्र के रूप में उत्पन्न किया (१ १७, १५) ।

पर्यंत, एक देवपति का नाम है । 'राजा के पूजने पर इन्होंने तपस्वी,
 युद्ध-भूमि में मृग योद्धा, और सुवर्ण दान करनेवाले पुरष की अन्तिम गति का
 वर्णन करते हुये उसे बताया कि शीघ्र ही राजा माण्डाता उसकी (रावण की)
 युद्ध की अभिलाषा को शान्त कर देंगे (७ २३ग, १-२४) । ये राजा नृग
 की ब्राह्मणी के विषे हुये शाप की बात बताकर वायु के समान तीव्र गति से
 ब्रह्मलोक चले गये (७ १४, ७) । इन्होंने राम की ममा में सीता के शपथ
 ग्रहण को देखा (७ १६, ५) ।

पह्य, एक जाति के वीरो का नाम है जिन्हे वसिष्ठ के कहने पर उनकी
 सुरभि नामक गाय ने अपनी हुजार से विश्वामित्र की पराजित करने के
 लिये उत्तरा किया था । इन लोगों ने विश्वामित्र के देखते देखते ही उनकी समस्त
 सेना का विनाश कर दिया । अन्ततः विश्वामित्र ने इन्हे विनष्ट कर दिया
 (१ १४, १७-२०) ।

पाण्ड्याल, एक देश का नाम है । केचय जाने समय वसिष्ठ के दूत इस
 देश से भी होकर गये थे (२ ६८, १३) ।

१. पाण्ड्य, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की सोच के लिये
 सुधीव ने अङ्गद को भेजा था (४ ४१, १२) ।

१२ वा० को०

२. पाण्ड्य, मुद्ग दक्षिण म समुद्र-तट पर स्थित एक नगर का नाम है । 'ततो हममय दिव्य मुक्तामणिविभूषितम् । युक्त क्वाट पाण्ड्याना गता द्रक्ष्यथ वानरा ॥', (४ ४१, २०) । सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने अङ्गद को यहाँ भेजा था (४ ४१, १९-२०) ।

पारियात्र, एक पर्वत का नाम है जो पश्चिमी समुद्र के बीच में स्थित था । "इमका शिखर गौ योनन विस्तृत और सुवर्णमय था । इस पर सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने मूषेण आदि को आदेश दिया । इस पर्वत के शिखर पर अग्नितुल्य तेजस्वी और वेगशाली चौड़ीम बरोड गन्धर्व निवास करते थे । सुग्रीव ने इन गन्धर्वों के निवृत्त जाने अथवा उम पर्वत शिखर से कोई फल-मूल तोड़ने इत्यादि का वानरो को निषेध कर दिया था (४ ४२, १८-२२) ।" पनम नामक वानर मूषपति इसी पर्वत पर निवास करते थे (६ २६, ४०) ।

पावनी, विन्दु सरोवर से निकलनेवाली मान नदियों में से एक का नाम है जो पूर्वदिशा को ओर बहती है (१, ४३, १२) ।

पिङ्गल, सूर्य के द्वारपाल का नाम है (७ २३३, १०) ।

पितृ-गण—देवों के अनुरोध पर इन लोगों ने इन्द्र को एक भेडे का अण्डकोप लगाया (१ ४९, ९) । उसी समय से ममस्त पितृगण अण्डकोप-रहित भेडों को ही उपयोग में लाने और दाताओं को उनके दानजनित फलों का भागी बताते हैं (१ ४९, १०) । इन्द्रजित् के विरुद्ध युद्ध करते समय ये लोग भी लक्ष्मण की रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६४) । सीता की उपेक्षा करने पर राम के सम्मुख उपस्थित होकर इन लोगों ने उन्हें रामजाने का प्रयास किया (६ ११७, २-१०) । क्षीरसागर से ही स्वाहा तथा स्वर्गाभोदी पितरों की स्वधा प्रगट हुई (७ २३, २३) ।

पितृलोक जो दक्षिण में ऋषभ पर्वत के निवृत्त स्थित बनाया गया है । इस भूमि को यमराज की राजधानी और कटुप्रद अन्धकार से आच्छादित कहा गया है । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये दक्षिण जानेवाले वानर मूषपतियों को यहाँ जाने के लिये मना किया क्योंकि इनमें जङ्गल प्राणियों की गति नहीं मानी गई है (४ ४१, ४५-४६) ।

१. पिशाच, (कटु०)—श्रीराम के वननाम के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने इनका भी आनाहन किया (२ २५, १७) । ब्रह्मा न रावण को इनके द्वारा भी लक्ष्य रहने का वरदान दिया (३ ३२, १८-१९) । ये लोग रातभर राम और रावण के युद्ध को देखते रहे (६ १०७, ६५) ।

२. पिशाच, एक राक्षस प्रमुल का नाम है जो एक घोड़े पर गवार होकर

रावण ने सायं मुद्गभूमि में आया . 'योऽसौ ह्य काञ्चनचित्रभाण्डमारह्य सध्याभ्रगिरिप्रभास । प्रास समुद्यम्य मरीचिनद्ध पिशाच एषोऽशनितुण्यवेग ॥', (६ ५९, १८) ।

पुण्डरीका, एन बध्वरा का नाम है जिसने भरद्वाज के आवाहन पर भरत के सम्मुख नृत्य किया था (२ ९१, ४६) ।

पुञ्जिकस्थला—देखिये श्रद्धना ।

१. **पुण्ड्र**, पूर्व के एक देश का नाम है जहाँ सीता की लोज के लिये सुग्रीव ने वित्त को भेजा था (४ ४०, २२) ।

२. **पुण्ड्र**, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की लोज के लिये सुग्रीव ने बहद को भेजा था (४ ४१, १२) ।

पुरूरवस्, एक राजा का नाम है जिन्हें उर्वशी ने ठुकरा कर परवानाप किया था (३ ४८, १८) । इन्होंने दिनसतापूर्वक रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी (७ १९, ५) । "मित्र के शाप के कारण उर्वशी भूतल पर आकर इनकी पत्नी बन गई । ये काशिराज, बुध, के पुत्र थे (७ ५६, २२-२६) ।" इन्होंने उर्वशी के गर्भ से आयु गामक पुत्र उत्पन्न किया (७ ५६, २७) । इनके जन्म का उल्लेख (७ ८९, २३-२४) । इल के स्वर्गवास के बाद उनके इन्ही पुत्र ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया (७ ९०, २३) ।

पुलस्त्य, चौथे प्रजापति का नाम है जो ऋतु के बाद हुये थे (३ १४, ८) । विश्रवा इनके मानस पुत्र थे (५ २३, ६-७) । ये प्रजापति के पुत्र और वृत्तयुग में हुये थे 'पुरा वृत्तयुगे राम प्रजापतिमुत्त प्रभु । पुलस्त्यो नाम ब्रह्मपि साक्षादिव पितामह ॥', (७ २, ४) । ब्रह्मा के पुत्र होने तथा अपने उज्ज्वल गुणों के कारण ही ये देवों आदि के अत्यन्त प्रिय थे (७ २, ६) । "एक समय ये राजपि तृणविन्दु के आश्रम में गये और वही रहने लगे । वहाँ कुछ कन्याएँ इनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया करती थी जिससे क्रुष्ट होकर इन्होंने उन कन्याओं को शाप देते हुये कहा 'कल से जो कन्या यहाँ मेरे दृष्टिपथ में आयेगी वह निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी ।' राजपि तृणविन्दु की कन्या ने इस शाप को नहीं सुना और इनके सम्मुख चली गई जिससे उसने गर्भ धारण कर लिया । तृणविन्दु अपनी कन्या की दशा को देखकर अपनी तपस्या के प्रभाव से इनके शाप को जान गये । उन्होंने स्वयं जाकर इनमें अपनी कन्या को ग्रहण कर लेने के लिये कहा । उस कन्या के शीघ्र और सदाचार से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे अपने समान ही गुणसम्पन्न पुत्र प्राप्त करने का वर दिया । कालान्तर में इनकी इस पत्नी ने विश्रवा

नामक पुत्र उत्पन्न किया (७ २, ७-३४) ।" जब विश्वा को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ तब इन्होंने प्रसन्न होकर उग पुत्र का वैश्रवण नाम रखते हुये उ५ आगे चत्वर धनाध्यक्ष होने का आशीर्वाद दिया (७ ३, ६-८) । इन्होंने मध्यस्थ बनकर रावण और माण्डाता के बीच शान्ति स्थापित की (७ २३ग, ५६-५७) । 'स्वर्ग में देवताओं के मुख से इन्होंने सुना कि रावण को पतनना वायु को पकड़ने के समान है । महान् धैर्यशाली होने के विपरीत भी ये सन्तान प्रेम के कारण वायु के देग और मन की गति के समान, वायु-पथ का आश्रय लेकर, महिष्मती नगरी में आया । आकाश से उतरते समझ ये सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे और इनकी ओर देखना अभ्यत कटिन था । हैहयराज को जब इनके आगमन का समाचार मिला तब उसने इनका स्वागत-मन्त्र करने के पश्चात् इनके पधारने का प्रयोजन पूछा । इन्होंने हैहयराज अर्जुन से कहा कि वे इनके पीछे, दशासन रावण, को मुक्त कर दें । अर्जुन ने इनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए रावण को मुक्त करके उससे मैत्री गन्धर्व स्थापित किया । दशग्रीव रावण को दुहाकर ब्रह्मापुत्र पुत्रस्त्व पुत्र ब्रह्मगौर चत गये (७ ३३, १-२१) ।" जब इल को पुरुषत्व प्राप्त कराने के सम्बन्ध में महर्षि बुध अन्य मित्रों से परामश कर रहे थे तो य भी उनके आश्रम में पधारे (७ ९०, ९) । राम की सभा में इन्होंने भी सीता के शपथ ग्रहण को दत्ता (७ ९६, ३) ।

पुरपादका., नरमन्त्री राक्षसी के लिये प्रयुक्त हुआ है 'वर्णप्रावरणाश्चैव तथा चाप्योष्टकणवा । घोरालोहमुष्माश्चैव जवनाश्चैकपादका ॥ अथवा वक्त्रनश्च तथैव पुरपादका ।', (४ ४०, २५-२६) । सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने विनत को इनके निवास क्षेत्र में भेजा था ।

पुलह, एक प्रजापति का नाम है जो प्रचेना के बाद हुये थे (३ १४, ८) ।

पुलिनन्द, उत्तर के एक देश का नाम है जहाँ सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये सत्तल को भेजा था (४ ४३, ११) ।

पुलोमा, एक दानव का नाम है जो दक्षी का पिता था । अनुह्लाद ने दक्षकी पुत्री, दक्षी, का छत्रपूर्वक अपहरण कर लिया था और इन्द्र ने इसका वध किया था (४, ३९, ६-७) । इन्द्रजित् से युद्ध करने के समय जब जयन्त उममें पराजित होने लगा तो यह जयन्त को लेकर यहाँ में दूर चला गया (७ २८, १९-२०) ।

पुष्कर, एक तीर्थ का नाम है जहाँ विश्वामित्र तपस्या करने गये (१ ६१, ४) । रात्र अश्वमेध ने यहाँ विश्राम किया था (१ ६२, १) । यहीं शुन घोष ने विश्वामित्र का दर्शन करके उनसे अपनी रक्षा की याचना की (१ ६२, ४-७) । विश्वामित्र ने यहाँ और एक महत् वर्ष तक तपस्या की

(१ ६२, २८) । अन्नरा मेनका पुष्कर में आकर म्नान का उपक्रम करने लगी (१ ६३, ४) ।

पुष्कल, भरत के वीर पुत्र का नाम है (७ १००, १६) । राम ने इनका अभिषेक किया (७. १००, १९) । भरत की सेना के साथ ये भी गये (७ १००, २०) ।

पुष्कलावत, गान्धार के एक नगर का नाम है जिसकी भरत ने स्थापना की । इसका वर्णन (७ १०१, १०-१५) ।

पुष्पक, एक विमान का नाम है जिसपर श्रीराम ने लंका में अयोध्या की यात्रा की (१ १, ८६) । इस पर बैठकर श्रीराम इत्यादि नन्दीग्राम आये (१ १, ८८) । वाल्मीकि ने इनका पूर्वदर्शन किया (१ ३, २९) । राम द्वारा इनके अवरोधन की घटना का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया (१ ३, ३६) । पहले यह कुबेर की सम्पत्ति था जिसे रावण ने छीन लिया (३ ३२, १५) । यह आकाश में उड़ता था (३ ४८, ६) । 'पुष्पक नाम सुशोणि भ्रातुर्वैश्याणस्य मे । विमान सूर्यसकाश तरसा निजित रणे । विशाल रमणीय च तद्विमान मनोजवम् ।', (३ ५५, २९-३०) । "लंका में हनुमान् ने पुष्पक विमान को देखा जो मेघ के समान लंबा, गुर्वर्ण के समान सुन्दर, अपनी कान्ति से प्रज्वलित, अनेकानेक रत्नों से व्याप्त और विभिन्न प्रकार के पुष्पो से आच्छादित था । यह अत्यन्त सुन्दर और नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता था । इसमें भवन भवन, सुन्दर पुष्पो से सुशोभित पुष्कर, केसरयुक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत राश्वरो का भी निर्माण किया गया था । इस पर विविध रत्नों से ऐसे विहङ्गम बने हुये थे जो साक्षात् कामदेव के सहायक प्रतीत होते थे । इसमें तेजस्विनी लक्ष्मी की प्रतिमा भी थी जिसका हाथियों ने द्वारा अभिषेक हो रहा था । इसे देखकर हनुमान् अत्यन्त विस्मित हुये (५ ७, ५-१५) ।" "इनके गवाक्ष तपे हुये गुर्वर्ण से निर्मित थे और रचना-मौन्दर्य की दृष्टि से यह विष्वकर्मा की चरम कृति थी । जब यह आकाश में उड़कर वायुमार्ग में स्थित होता था तब सौरमार्ग के विहङ्ग-सुशोभित होता था । इसमें जो विशेषतायें थी वह देवताओं के विमानों में भी नहीं थी । मन में जहाँ भी जाने का सङ्कल्प उठता था वहीं यह विमान पहुँच जाता था । स्वामी के मन का अनुसरण करते हुये यह विमान अत्यन्त शीघ्र-गामी, दूमरो के लिये दुर्लभ, वायु के समान बेगरील और पुष्पवारी महारमाओं का आश्रय था । इसमें आश्चर्यजनक विचित्रवस्तुओं का सप्रह किया गया था । अनेक शिखरवाला यह विमान छोटे-छोटे शिखरों से युक्त किसी

पर्वन के समान सुशोभित होता था । कुण्डलो से सुशोभित मुखमण्डल, निमेष-रहित विशाल लोचन, अपरिमित भोजन करने, और रात में ही दिन के समान चलनेवाले सहस्रो भूतगण इसका भार वहन करते थे (५ ८, १-८) ।" विश्वकर्मा ने इसे ब्रह्मा के लिये निर्मित किया था और ब्रह्मा ने विशेष अनुकम्पा करके कुबेर को दे दिया जिनसे अन्ततः रावण ने हस्तगत कर लिया (५ ९, ११-१२) । "इसमें ईहामृगो की मूर्तियों से युक्त गोले चाँदी के सुन्दर स्तम्भ, सुमेरु और मन्दराचल के समान ऊँचे अनेकानेक गुप्त गृह, और मग्न भवन थे । इसका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था । इसमें सोने की सीढ़ियाँ, अत्यन्त मनोहर वेदियाँ, स्फटिक के वातायन आदि बने थे । इसका पर्ण मूंगे मणियों से निर्मित था । सुवर्ण के समान लाल रंग के सुगन्धयुक्त चन्द्रा से सयुक्त होने के कारण यह वालमूर्य के समान प्रतीत होता था । हनुमान ने इसमें प्रवेश करके इसकी शोभा का अवलोकन किया (५ ९ १३-२०) ।" इसका विस्तृत वर्णन (६ १२१, २३-२९) । 'खगतेन विमानेन हसयुक्तेन भास्वता । प्रहृष्टश्च प्रतीतश्च वभौ राम कुबेरवत् ॥', (६ १२२, २६) । श्रीराम की आज्ञा पाकर यह हसयुक्त उत्तम विमान् महान् शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा (६ १२३, १) । श्रीराम ने इसे कुबेर को लौटा दिया (६ १२७, ५७-५९) । कुबेर को पराजित करके रावण ने इसे हस्तगत कर लिया था इसका विस्तृत वर्णन (७ १५, ३६-४०) । श्वेतद्वीप में पहुँचने पर यह अस्थिर हो गया जिनसे रावण ने इसे लौटा दिया (७ ३७३, २४-२७) । कुबेर की आज्ञा से यह राम की सेवा के लिये उपस्थित हुआ (७ ४१, ३-१०) । इसका पूजन करने के पश्चात् राम ने इसे लौटा दिया (७ ४१, ११-१४) । राम की आज्ञा शिरोधार्य करके यह लौट गया (७ ४१, १५) । राम के स्मरण करने पर यह तत्काल उनके सम्मुख उपस्थित हुआ (७ ७५, ५-७) ।

पुष्पितक, "एक पर्वत का नाम है जो लका से आगे ही योजन विरतुत दक्षिण समुद्र के मध्य में स्थित था । यह परमशोभा से सम्पन्न तथा मिट्टी और चारणों से सेवित, चन्द्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान् तथा समुद्र की गहराई तक घुसा हुआ था । इसके विस्तृत शिखर आकाश में रेखा खींचने रूपे में प्रतीत होते थे । इस पर्वत के एक सुवर्णमय शिखर का प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते थे तथा एक रजतमय शिखर का चन्द्रमा । वृत्तघ्न, नृगस और नाम्निक पुरुष इस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते थे । मुषीव ने अद्भुत की इस पर्वत को मस्तक धुत्वाकर प्रणाम करके सावधानीपूर्वक सीता को दृग पर लौटने के लिये भेजा (४ ४१, २८-३१) ।"

पुष्पोत्कटा, सुमालिन् और केतुमती की पुत्री का नाम है (७ ५, ४१) ।

पूरु, मयाति और सभिष्ठा के प्रिय पुत्र का नाम है (७ ५८, १०-११) । अपने पिता की इच्छा पर इन्होंने महर्षि ही उनकी वृद्धावस्था को ग्रहण कर लिया था (७ ५९, ६-७) । इनके पिता ने दीर्घकाल के पश्चात् इनसे अपनी वृद्धावस्था वापस लेते हुये इनका राज्याभिषेक किया (७ ५९, १०-१२, १७) । ये काशी के राजा हुये (७ ५९, १९) ।

पूषन्, एक देवता का नाम है जिसका वनवास के समय श्रीराम की रक्षा करने के लिये कौसल्या ने आवाहन किया था (२ २५, ८) । ये आदिपयो मे मे एक थे, और राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये गये (७ २७, ३६) ।

पृथिवी—जब महादेव ने पूछा कि उनके म्बलित नैज को कौन धारण करेगा, तो देवों ने इनका नाम बताया (१ ३६, १४) । महादेव के तेज से पर्वत जोर बनो महिा सम्पूर्ण पृथिवी व्याप हो गई (१ ३६, १७) । उमा ने पृथिवी को बहूनों की भार्या तथा नि सन्तान होने का शाप दिया (१ ३६, २३-२४) । सगर के ६०,००० पुत्रों ने सम्पूर्ण पृथिवी पर यज्ञ-अश्व को छूँढने का आदेश दिया (१ ३९, १३) । राजा सगर के पुत्रों के विभिन्न आयुधों से अथल्ल प्रस्त होकर ये आर्तनाद करने लगे (१ ३९, १९) । यह विष्णु की महिमी है (१ ४०, २) । राजा दशरथ के शपथ-पूर्वक धर देने की प्रतिज्ञा करने पर कैकेयी ने सारी रहने के लिये इनका भी आवाहन किया (२ ११, १४) । राम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, १३) । राम ने कहा कि यशस्विनी पृथिवी ने उनका प्रिय करने के लिये ही जानकी के केश से गिरे पुण्यो को सुरक्षित रक्खा है (३ ६४, २७) । 'या चैय जगती माता सर्वलोकनगस्कृता । अरयाश्च चलन भूगेदुंश्यते कौसलेश्वर ॥', (३ ६६, ९) । शपथ-ग्रहण करते हुये सीता ने इनसे अपने भीतर स्थान देने की स्तुति की (७ ९७, १५-१७) । उक्त समय ये एक ऐसे सुन्दर सिंहासन पर अरूढ होकर राम की सभा मे प्रकट हुईं जिसे नागों ने धारण कर रक्खा था, और सीता को लेकर रसातल मे प्रवेश कर गईं (७ ९७, १८-२१) । जब श्रीराम परमवाग जाने लगे तो ये भी उनके साथ-साथ चली (७ १०९, ६) ।

पृथु, अनरण्य के पुत्र और विशङ्क के पिता का नाम है (१ ७०, २३) ।

पृथुग्रीव, खर के सेनापति का नाम है जो राम के साथ युद्ध करने गया (३ २३, ३२) । महाबलशाली बलाघ्न्यश्व पृथुग्रीव ने खर की आज्ञा से अपनी सम्पूर्ण सेना सहित राम पर आक्रमण किया (३ २६, २७-२८) ।

प्रघस, रावण के एक सेनापति का नाम है जिसने रावण के आदेश पर हनुमान् के साथ द्वन्द्व युद्ध किया (५ ४६, २ ३१-३५)। इसने सुग्रीव के साथ द्वन्द्व युद्ध किया (६ ४३, १०)। सुग्रीव ने इसका वध किया (६ ४३, २५)। यह सुमालिन् और वेतुमती का पुत्र था (७ ५, ३८-४१)।

प्रघसा, एक राक्षसी का नाम है, जिसने रावण को अस्वीकृत कर देने पर सीता को भक्षण कर लेने की घमकी दी (५ २४, ४२)।

प्रचेता, एक प्रजापति का नाम है जो अङ्गिरा के दाद हूये थे (३. १४, ८)।

१ प्रजङ्ग, एक वानर मूषपति का नाम है जो वानर सेना के दक्षिण की ओर जाते समय उसे प्रोत्साहित करता हुआ चल रहा था (६ ४, ३७)। इसने हनुमान् के साथ मित्र कर पश्चिमी फाटक पर युद्ध किया (६ ४१, ४०-४१)। राम ने इसका स्वागत मत्कार किया (७ ३९, २२)।

२ प्रजङ्ग, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसने सम्पाति से द्वन्द्व युद्ध किया था (६ ४३, ७)। इसने अपने प्रतिद्वन्द्वी को तीन वाणों से घीष दिया (६ ४३, २०)। रावण ने इसे कुम्भ और निवुम्भ के साथ युद्ध-भूमि में जाने का आदेश दिया (६ ७५, ४६)। शोणिताक्ष को अङ्गद द्वारा पराभूत होते देखकर यह उसकी महायता के लिये दौट पड़ा (६ ७६, १२)। यूपक्ष और शोणिताक्ष के साथ इसने भी अङ्गद के साथ युद्ध किया (६ ७६, १४-१५)। अङ्गद ने इसका वध कर दिया (६ ७६, १९-२७)। यह यूपक्ष का चाचा था (६ ७६, २८)।

प्रतर्दन—देखिये काशी ।

१ प्रतिष्ठान, एक नगर का नाम है जहाँ आकर शापभ्रष्ट उर्वशी अपने पति, पुरुरवा, से मिली (७ ५६, २६)। यह काशिराज की राजधानी थी (७. ५९, १९)।

२. प्रतिष्ठान, मध्यदेश के एक नगर का नाम है जिसकी राजा इल ने स्थापना की थी (७ ९०, २२)।

प्रतपन, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है, जिसने नल के साथ द्वन्द्व युद्ध किया था 'वीर प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुर्धर । समरे तीक्ष्णयेगेन नलेन समपुध्यत ॥', (६ ४३, १३)। नल ने इसकी आँखें निकाल ली (६ ४३, २३-२४)।

प्रभाय, सुग्रीव के एक विश्वासपात्र मन्त्री का नाम है। इन्होंने सुग्रीव से अपने कर्तव्य पर अटल रहने तथा सत्यप्रतिज्ञ बने रहकर लक्ष्मण के श्रेय का

शान्त करने की प्रार्थना की । ये उदार दृष्टिवाले, तथा सुप्रीव को अर्ध और धर्म के विषय में ऊँच नीच समझाने के लिये नियुक्त थे (४ ३१, ४२-४१) ।

प्रज्ञोज्य, एक वानर-प्रमुख का नाम है जिसकी देवताओं न राम की सहायता के लिये सृष्टि की थी (७ ३६, ५०) ।

प्रमत्ति, विनीषण के एक मंत्री का नाम है जिसने एक पक्षी का रूप धारण करके गुप्त रूप से राक्षस सेना की शक्ति का पता लगाया था (६ ३७, ७-१९) ।

१. प्रमाथी द्रुपण के एक मंत्री का नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध करने गया था (३ २३, ३४) । यह द्रुपण की सेना के आगे आगे चलनेवाला महाबली वीर था (३ २६, १७-१८) । इसने द्रुपण के मारे जाने पर हाथ में फरसा लेकर राम पर आक्रमण किया (३ २६, १८-१९) । श्रीराम ने इसको असत्य बाण समूहों से मथ डाला (३ २६, २०) ।

२. प्रमाथी, एक वानर मूषपति का नाम है जो राम की वानरी सेना में नमिदलित हुये थे । यह गंगा-तट पर विद्यमान उत्तरीवीज नामक पर्वत तथा गिरिश्रष्ट मन्दराचल पर निवास करते हुये हाथियों और वानरों के प्राचीन वीर न मरण करके गज मूषपतियों को भयभीत करते थे । इनके अधिकार में इस करोड़ वानर रहते थे (६ २७, २५-२१) । इन्होंने इन्द्रजित् के चांगे घोड़ों का तप करके उसके रथ को भी तोड़ डाला (६ ८९, ४८-५१) ।

प्रमुचि, एक दक्षिण दिशा के महर्षि का नाम है जो राम के वनवास से लौटने पर उनका स्वागत करने के लिये अयोध्या पधारे थे (७ १, ३) ।

प्रमोदन, एक मुनि का नाम है जिन्हें बुध ने इल के पुरुषत्व-प्राप्ति के विषय में परामर्श करने के लिये आमन्त्रित किया था (७ ९०, ५) ।

प्रयाग—श्रीराम ने अपने प्रयाग के निकट पहुँचने का अनुमान लगाया (२ ५४, ५) । श्रीराम और लक्ष्मण सूर्यास्त होने-होते गंगा-यमुना के संगम के मधीय भरद्वाज के आश्रम पर पहुँच गये (२ ५४, ८) । सेना-सहित भरत गंगा नदी को पार करके प्रयाग वन पहुँचे और सेना को वहीं विश्राम करने की आज्ञा देकर स्वयं भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गये (२ ८९, २१-२२) ।

प्रशुद्धक, मनु के पुत्र और अश्वरीय के पिता का नाम है (१ ७०, ४१) ।

प्रसभ, एक वानर-मूषपति का नाम है जो कुमुद की सहायता के लिये पूर्वा द्वार पर सज्ज हुआ (६, ४२, २४) ।

प्रस्थल, उत्तर के एक देश का नाम है जहाँ सुप्रीव ने सीता की खोज के लिये शनवल को भेजा (४ ४३, ११) ।

प्ररवण, एक पर्वत का नाम है जिससे अनेक नदियाँ निकली थी (३. ३०, २१) । सीता के अपहरण के पश्चात् श्रीराम ने इस पर्वत से भी

सीता का पना पूछा, परन्तु इसके चुप रहने पर इसे शाप दे दिया (३ ६४, २८-३४) । सुग्रीव के राज्याभियेक के पश्चान् श्रीराम और लक्ष्मण प्रलवण गिरि पर चले गये (४ २७, १) । 'शार्ङ्गलमृगसघुष्ट सिहैर्भीमरवैर्वृतम् । नानागुन्मलतागूढ दृष्टपादपसकुलम् ॥ ऋक्षानरगोपुच्छैर्माजरीश्व निपेक्षितम् । मेघराशिनिभ शंल नित्य शुचिवर शिवम् ॥' (४ २७, २-३) । इस पर्वत के प्राकृतिक सौन्दर्य का विस्तृत वर्णन (४ २७ ३-२५) । श्रीराम और लक्ष्मण ने चार महीने की वर्षाश्रितु की अवधि में इसी पर्वत पर निवास करने का निश्चय किया, क्योंकि यह विष्किन्धा के भी निकट था (४ २७, २५-२६) । 'बहृदप्रदगीकुञ्जे तस्मिन्प्रलवणे गिरी', (४ २७, २९) । इसे माल्यवान् पवन भी कहते हैं (४ २८, १) । राम और लक्ष्मण ने सीता का समाचार लाने के लिये भेजे गये दूतों की प्रतीक्षा में इस पर्वत पर एक गास तरु और निवाम किया (४ ४५, ३) । पूर्वादि तीन दिशाओं में गये दूतों वानर निरास होकर इसी पर्वत पर लौट आये (४ ४७, ६) ।

प्रहस्त, एक राक्षस-प्रमुल का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये थे (५ ६, १७) । हनुमान् ने इस मन्त्र तत्त्वज्ञ राक्षस को रावण के हिमामन के निकट देखा (५ ४९, ११) । रावण की आज्ञा से इमने हनुमान् से उनसे लका आने आदि का प्रयोजन पूछा (५-५०, ७-१२) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५ ५४, ८) । इस शूर सेनापति ने रावण को आश्वासन दिया कि यह अकेले ही वानरों का सम्पूर्ण पृथिवी से उन्मूलन कर सकता है (६ ८, १-५) । यह अस्त्र-शास्त्री से सुसज्जित होकर राम आदि के वध के लिये रावण की सभा में सन्नद्ध खड़ा था (६ ९, ३) । इमने रावण का चरण-स्पर्श किया जिसके पश्चात् रावण ने इसे यथायोग्य आसन प्रदान किया (६ ११, २९) । रावण की इच्छा के अनुसार इसने लका की रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के पदचात् रावण को इसका समाचार दिया (६ १२, ३-५) । राज्य का हित चाहनेवाले प्रहस्त की बात को सुनकर रावण ने अपने मुहूर्तो में विश्वास उत्पन्न किया (६ १२, ६) । श्रीराम से मन्त्रि करने के विभीषण के प्रस्ताव पर मन व्यक्त करते दूतों इमने कहा कि श्रीराम में भय का कोई कारण नहीं है (६ १४, ७-८) । इमने कैलास पर्वत पर मणिमद्र को पराजित किया था (६ १९, ११) । इसे लका के पूर्वी द्वार का रक्षक नियुक्त किया गया (६ ३६, १७) । 'प्रहस्त मुद्वोविदम्', (६ ५७, ४) । 'प्रहस्तो वाहिनीपति', (६ ५७, १२) । "रावण के पूछने पर इसने कहा 'हम लोग पहले ही इस निश्चय पर पहुँच चुके थे कि यदि आप सीता को नहीं लौटावेंगे तो निश्चय रूप से मुझ छिड़ जायगा । आपने सदैव ही मेरा

हित माधन किया है अतः मैं उसका ऋण चुकाने के लिये युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देने के लिये प्रस्तुत हूँ ।' इतना कहकर इसने विन्दिता सेनाध्यक्षों से अपने लिये सेना माँगी (६ ५७, १२-१८) । जब इमवी सेना तैयार हो गई तब यह अपने चार सेनापतियों के साथ एक सुन्दर रथ पर बैठकर सेना को आगे किये हुये पश्चिमी द्वार की ओर जागे बटा (६ ५७, २४-३३) । 'प्रहस्त त हि नियन्त प्रम्यातगुण-पौष्टपम् । युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाभ्यवर्तत ॥', (६ ५७ ४२) । युद्ध आरम्भ होने पर यह विजय की कभिलाषा से उसी प्रकार वानर सेना में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा जिस प्रकार शलभ अग्नि में प्रवेश करता है (४ ५७ ४२-४६) । 'म एष सुमहाकायो वनेन महता वृत । आगच्छति महावेगं विरूपवल्पीरुप ॥ आचक्ष्व मे महाबाहो वीर्यवन्त निशाधरम् । राघवस्य वधं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषण ॥ एष सेनापतिम्लत्स्य प्रहस्तो नाम राक्षसः । लङ्काया राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागवल्गमवृत ॥ वीर्यवानस्रविच्छुर मुप्रह्वयात-पराक्रम ॥ ततः प्रहस्तं नियन्त भीम भीमपसव्रमम् । गर्जन्त सुमहाकाय राक्षसैरभिसङ्गमम् ॥ ददसं मङ्गी सेना चानराणा बलीयसाम् । अभिसजातघो-षाणा प्रहस्तमभिगर्जन्तम् ॥', (६ ५८, २-६) । रथ पर बैठे हुये प्रहस्त ने वानरों का घोर सहार आरम्भ किया (५ ५८, २४) । नील को अपनी ओर आते देखकर इसने उन पर घाणों की वर्षा आरम्भ कर दी (५ ५८, ३४-३६) । जब नील ने इत पर एक वृक्ष से प्रहार किया तो इमने उन पर और अधिक घाणों की वर्षा आरम्भ की (६ ५८, ३९-४०) । जब नील ने इसके अश्वों का वध करके इसके घनुप तथा रथ को ध्वस्त कर दिया तब इसने हाथ में एक गदा लेकर नील के साथ द्रुत युद्ध आरम्भ किया परन्तु अन्त में नील ने एक पर्वत शिखर से इसका वध कर दिया (६ ५८, ४१-५५) । यह सुमालिन् और केतुमती का पुत्र था (७ ५, ३८-४०) । सुमालिन् के साथ यह भी रावण का आभिनन्दन करने के लिये गया (७ ११, २-३) । कुछ समय के पश्चात् इमने रावण से कुबेर को पराजित करके पुनः लका पर अधिकार कर लेने का परामर्श दिया (७ ११, १३-१९) । रावण की आज्ञा के अनुसार इमने लका में जाकर कुबेर से राक्षसों की सम्पत्ति रावण को लौटा देने के लिये कहा (७ ११, २३-३१) । जब कुबेर लका छोड़कर कैलास पर्वत पर चले गये तब इमने रावण को इसकी सूचना दी (७ ११, ४६-४८) । कुबेर के विरुद्ध युद्ध में यह भी रावण के साथ गया (७ १४, १-२) । इमने एक सहस्र यक्षों का वध किया (७ १५, ७) । यह राजा अनरण्य से पराजित होकर युद्ध भूमि से भाग गया (७ १९ १९) । "रावण

के आदेश पर इसने निर्दिष्ट भवन में प्रवेश करके उसके सातवें कक्ष में एक ज्वालामयी मूर्ति देखी जिसने इसे देखकर तीव्र अद्भुत क्रिया की। लौटकर इसने रावण को इसकी सूचना दी (७ २३क, ५-८) ।" इसने रावण के सदेश को सूर्य के द्वारपालों तक पहुँचाया (७ २३ख, ७-११) । मानघाता ने जब इस पर आक्रमण किया तब इसने भी उनपर प्रत्याक्रमण कर दिया (७ २३ग, ३४-३५) । चन्द्रलोक में पहुँच कर जब यह चन्द्रमा की शीतल किरणों से दग्ध होने लगा तब इसने लौटने की इच्छा प्रगट की (७ २३घ, १८-१९) । देवों के विरुद्ध युद्ध में यह भी सुमात्रिन् के साथ युद्ध भूमि में गया (७ २३, २८) । इसने नमदा में स्नान करने के पश्चात् रावण के लिये पुष्प एवम् क्रिये (७ ३१, ३४-३७) । इसने निदयतापूर्वक शत्रुओं का सहार किया (७. ३२, ३६) । इसने अर्जुन के साथ एक द्वन्द्व युद्ध किया जिसमें यह अर्जुन के गदा-प्रहार से बाहन होकर पृथिवी पर गिर पड़ा (७ ३२, ४२-४८) ।

प्रहास, वरुण के एक मन्त्री का नाम है जिसने रावण के अनेक बार पूछने पर कहा कि उम समय वरुण ब्रह्मलोक में सगीत सुनने के लिये गये हुए है (७ २३, ५१-५२) ।

प्रहाद, हिरण्यकशिपु के पुत्र, एक दैत्य प्रमुख का नाम है जिसके अपने पिता के साथ सघर्ष का उल्लेख है (७ २३क, ६८-६९) ।

प्रहेति, रावण के पूर्व लका में निवास करनेवाले एक राक्षस प्रमुख का नाम है जो अत्यन्त धर्मात्मा होने के कारण तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा (७ ४, १४-१५) ।

प्राग्घट, गंगा के तट पर स्थित एक नगर का नाम है जिसके निवृत्त भरत ने गंगा को पार किया था (७ ७१, ९-१०) ।

प्राग्ज्योतिष, मुवर्ण में बने हुये एक नगर का नाम है जो बीच पशुद में वराह पर्वत पर स्थित था । मुग्धिव ने सीता की खोज के लिये सुपेण को यहाँ भेजा था (४ ४२, २८-२९) ।

प्राजापत्य-पुरुष, महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के समय अग्निबुण्ड से प्रगट हुये दिव्य पुरुष का नाम है । इनके प्रगट होने का वर्णन (१. १६, ११-१४) । यह अपने हाथ में खीर से भरा हुआ एक सुवर्ण पात्र लिये हुये थे (१ १६, १५) । अपना परिचय देने हुये इन्होंने उस दिव्य खीर को दशरथ को प्रदान करते हुये उनमें अपनी रानियों को तिलाने के लिये कहा (१ १६, १६ १८-२०) । तदनन्तर वे अन्तर्धान हो गये (१ १६, २४) ।

प्रौष्ठपद, निधियों में से एक का नाम है जो रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये कुत्रैर के माय गये थे (७ १५, १७) ।

प्लव, सुग्रीव के एक विरहासपाय मन्त्री का नाम है जिसने लक्ष्मण का नोय धाम्न करने के लिये सुग्रीव की अगना वनन पूर्ण करने की प्रेरणा दी (४ ३१, ४२-५१) ।

व

वभ्रु, एक गन्धर्व प्रमुख का नाम है जो श्रुपभ पर्वन के चन्दन-वन में निवास करता था (४ ४१, ४३-४४) ।

वसु, एक दैत्य का नाम है जिसका इन्द्र ने अपने वज्र में बध किया था (३ ३०, २८) ।

बलि, विरोचन के पुत्र का नाम है, जो इन्द्र महिन समन्व देवताओं को पराजित करके त्रिलोकी का शासक बन गया (१ २९, ४-५) । "इन्द्र असुर-राज ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया । जब यह यज्ञ कर रहा था, उसी समय अग्नि आदि देवताओं ने विष्णु की वताया 'विरोचन-कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है । दन गमय जो भी याचक उसके पास उपस्थित होता है उसे वह मनोवाञ्छित वस्तुओं प्रदान करके सन्तुष्ट कर देता है । अतः आप अपनी योगमाया का आश्रय ले देवताओं के हिन के लिये यामन रूप धारण कर उस यज्ञ में जाइये और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिये ।' (१ २९, ६ १) । 'फलन्मरूप विष्णु ने वश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिया और दामन रूप में बलि के पास जाकर तीन पय भूमि की याचना की । इस प्रकार तीन पय से तीनों लोकों पर अधिकार कर विष्णु ने बलि का नियंत्रण करके इन्द्र की त्रिलोकी का शासक बना दिया (१ २९, १९-२१) ।' विष्णु द्वारा इनके बाँधे जाने का उल्लेख (३ ६१, २४) । 'एष वै परमोदार दूर-सम्पराक्रम । वीरो बहुगुणोपेत पाद्यहस्त इवान्तर् ॥ बालाकं इव तेजस्वी समरेष्वनिवर्तक । अगर्षो दुर्जपो जेता दलवान्गुणसागर ॥ प्रियवद संदिभाषी गुरविप्रप्रिय सदा । कालागङ्क्षी महासत्य सत्यवाकसौम्यदर्शन ॥ दक्ष सर्वगुणोपेत दूर स्वाभ्यामनत्पर । एष गच्छति वात्सेप ज्वलते तपने सदा ॥ देवैश्च भूतसङ्घैश्च पत्रगैश्च पवतिश्रिभि । भय यो नाभिजानाति तेन त्व योद्धु-मिच्छसि ॥ बलिना यदि ते योद्धु रोचते राक्षसेश्वर । प्रविश त्व महासत्व सग्राम कुरमा धिरम् ॥', (७ २३क, २२-२७) । इसने रावण का अट्टहास के साथ स्थापन करते हुये उसे अपने गोद में बैठाकर उसके आने का कारण पूछा । (७ २३क, २८-३१) । "रावण ने उत्तर देने पर इनने उससे बनाया 'मेरे द्वारपाल के रूप में विष्णु स्थित हैं जिन्होंने पूर्वकाल में अनेक बार पृथिवी को दानवों से रहित किया था ।' इस प्रकार विष्णु की प्रशंसा करते हुये इसने रावण से अग्नि के समान क्षीतिमान् एक चक्र उठा कर लाने

ने लिये कहा (७ २३४, ३४-५७) । ' 'रावण को लज्जा का अनुभव करते हुये देखकर इमने उससे कहा 'यह चक्र मेरे पितामह हिरण्यकशिपु का कुण्डल था, और अनेक अन्य दातवो के अनिरिक्त उही हिरण्यकशिपु का भी विष्णु ने वध कर दिया था । वही विष्णु मेरे द्वारपाल है (७ २३४, ५८-७३) ।' रावण के पूछने पर इमने बताया कि विष्णु ही त्रैलोक्य के विधाता, सर्वज्ञानी, सुरश्रेष्ठ और सबशक्तिमान् है (७ २३४, ७८-८६) ।

वर्षर—त्रिसिंठ के कहने पर उसी रात्रि गाय ने अपने धन से सम्प-
घारी वर्षरो को उत्पन्न किया (१ ५५, २) ।

वाण, विकृति के पुत्र और अतरण्य के पिता का नाम है (१ ७०, २३) ।

वाही, एक देग का नाम है जिस पर राजा इल का शासन था (७ ८७ ३) ।

वाहीक, एक देश का नाम है जो सुन्दर अश्वो के लिये प्रसिद्ध था (१ ६ २२) । "केकय जाते समय बसिष्ठ के दून इस देस से भी होते हुये गये थे । इस देस में बदविद् ब्राह्मण निवास करते थे (१ ६८, १८) ।" सीता की खोज के लिये नुरीच ने मुषेण मे इन देस मे भी जाने के लिये कहा (४ ४२, ६) ।

विन्दु, एक सरोवर का नाम है । अपनी जटा में स्थित गङ्गा को सित्र ने इसी सरोवर मे छोडा था । इमने मात नदियाँ निकली हैं (१ ४३, १०-११) ।

वहुदंष्ट्र, एक राक्षस प्रमुख का नाम है, जिसके भदन मे हनुमान् गये थे (५ ६, १९) ।

वहुपुत्र, एक प्रजापति का नाम है जो सथय के बाद हुये थे (१ १४, ७) ।

बुध, सोम के पुत्र का नाम है जिन्हे इला ने एक सरोवर मे स्नान करते देखा ये उदित होने हुये चन्द्रमा के समान सुन्दर थे (७ ८८, ९-१०) । "इला को देखकर ये उस पर अत्यधिक आसक्त हो गये । सरोवर मे बाहर निकल कर इन्होंने उसका परिचय पूछा और आश्रम मे आकर उसकी सन्निधा को विपुरषो होकर फल मूल खाने हुये आश्रम के निश्ट हो निवास करने की आज्ञा दी (७ ८८, १२-२४) ।" जब इला के साथ की किनुहदियाँ पर्वत के किनारे खड़ी गई तो इन्होंने इला से अपना प्रेम व्यक्त किया (७ ८९, ३-४) । इन्होंने एक मास का समय इला के साथ व्यतीत किया (७ ८९, ७-८) । एक मास के बाद जब इल पुत्र पुट्य हो गये और अपनी सेना आदि ने सम्बन्ध म पूछने लगे तब इन्होंने कहा 'राजन्' आपके समस्त सेवक एक भीरग अशम-वर्षा म मारे गये, और आपने किसी प्रकार बच कर मेरे आश्रम मे

शरण ली ।' (७ ८९, १२-१४) । इन्होंने मधुर अनुरोध करते हुए इला से एक वर्ष तक अपने आश्रम में ही रहने के लिये कहा (७, ८९, १९-२०) । 'बुधस्वाक्लिष्टकर्ण', (७ ८९, २१) । 'बुध परमबुद्धिमान महायज्ञा', (७ ९०, ४) । 'वाक्यजस्तत्त्वदर्शन', (७ ९०, ६) । पुरूरवा का जन्म होने के पश्चात् इन्होंने इल को पुरुषत्व प्राप्त कराने के उपाय के सम्बन्ध में अग्न मित्र, अन्य महर्षियों, से परामर्श किया (७ ९०, ४-७) ।

बृहद्रथ, देवराज के पुत्र और महावीर के पिता का नाम है (१ ७१, ६ ७) ।

बृहस्पति ने ब्रह्मा के आदेशानुसार तार नामक वानर-वृषपति को उत्पन्न किया (१ १७, ११) । श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौतल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, ११) । श्रीराम के वन के पथ में हनुमन् के उपस्थित होने पर सीता ने इन्हें नमस्कार किया (५ ३२, १५) । इन्होंने अनुरो के नाय मुद्ग में मारे गये देवों की विनिर्मा की (६ ५०, २८) ।

ब्रह्मदत्त, महर्षि बृहस्पति तथा गर्वर्षी सोमदा के पुत्र का नाम है (१ ३३, १८) । ये काम्पित्य नामक नगर में निवास करने थे (१ ३३, १९) । इन्होंने कुशनाम की एक सौ पुत्रियों के साथ विवाह किया (१. ३३, २१-२२) । कुशनाम ने इन्हें इनकी पत्नियों सहित विदा किया (१ ३३, २५) ।

ब्रह्ममाल, एव देव का नाम है जहाँ सीता की खोज करने के लिये सुग्रीव ने विगत से कहा था (४ ४०, २२) ।

ब्रह्म-राक्षस, (बटू)—ने लोग यज्ञों में विघ्न डालने थे (१ ८, १७) ।

ब्रह्मशत्रु, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने आग लगा दी थी (५ ५४, १५) ।

ब्रह्महत्या—जब इंद्र ने वृष का वध कर दिया तो ब्रह्महत्या तत्काल ही उनके पीछे लग गई (७ ८५, १६) । जब इंद्र ने अश्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा अपने को शुद्ध किया तो इगर्ने देशों से अपने निवास का स्थान पूछा (७ ८६, १०) । "देवों के आदेश पर इसने अपने जो चार भागों में विभक्त करके कहा मैं अपने एक अश्व ने बर्षों के चार मान जल में परिपूर्ण नदियों में निवास करूँगी । दूसरे भाग से मैं गदा और सब नमज नूमि पर निवास करूँगी । अपने तृतीय अश्व से मैं मुदावत्या से सुरोभिन् गर्भाली स्त्रियों में प्रतिमास तीन रात तक निवास करके उनके शर्पों को नष्ट करती हुई रहूँगी । चौथे भाग से मैं उन लोको पर आश्रमण करूँगी जो झूठ बोलकर किसी को कलङ्कित न करनेवाले ब्राह्मणों का वध करते हैं (७ ८६, १२-१६) ।"

ब्रह्मा—जब हनुमान् को राक्षसों ने जन्दी बना लिया तो उन्होंने ब्रह्मा की कृपा से अपने को मुक्त कर लिया (१ १, ७६) । 'आजगाम ततो ब्रह्मा लोकाकर्त्ता स्वयंप्रभु । चतुर्भुजो महातेजा द्रष्टु त मुनिपुगवम् ॥', (१ २ २३) । इन्होंने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान् होकर बाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी (१ २ २६) । इनकी आज्ञा में बाल्मीकि ने आसन ग्रहण किया (१ २, २७) । जब इन्हें देखकर बाल्मीकि क्रोधित पत्नी की घटना के सम्बन्ध में चिन्ता करने लगे तो इन्होंने उनकी मन स्थिति को समझ कर उन्हें रामायण की रचना का आदेश दिया (१ २ ३०-३८) । इन्होंने पूर्वकाल में जिम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था उसमें ऋत्विजों को प्रचुर दक्षिणा दी गई थी (१ १४, ४४) । दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में उपस्थित देवों गन्धर्वों, व्यादि ने इनकी स्तुति की (१ १५ ४-११) । इन्होंने देवताओं व्यादि को आश्वासन दिया कि दीर्घ ही एक मानव के हाथ से रावण मारा जायगा (१ १५, १२ १४) । 'येन तुष्टोऽनवद्ब्रह्मा लोकत्र्योत्पूर्वज', (१ १६ ४) । पिनामह ब्रह्मा के वर्दान से रावण को गर्व हो गया था (१ १६, ६-७) । जब विष्णु ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया तो इन्होंने गन्धर्वियों, अक्षराओं, यक्षिणियों, विद्याधरियों इत्यादि के गर्भ से मानव-पुत्र उत्पन्न करने की देवों को आज्ञा दी (१ १७, १-६) । इन्होंने बताया कि इन्होंने ऋषगज जाम्बवान की पहले ही गृष्टि कर दी है (१ १७, ७) । इन्होंने अपने मानसिक सकल्प से कैलास पर्वत पर 'मानस सरोवर को प्रकट किया (१ २४, ८) । जब महादेव अपनी पत्नी उमा के साथ व्रीडा विहार कर रहे थे तो अन्य देवताओं सहित वे उनके पास गये (१ ३६, ७-८) । देवों ने एक देव सेनापति के लिये इनसे निषेदन किया (१ ३७, १-४) । यद्यपि इन्होंने देवताओं को बताया कि देवी उमा का वाप निष्कल नहीं हो सकता, तथापि देवों को आश्वासन देते हुये उनको बताया कि उमा की घड़ी बहन आकाशगङ्गा से अग्निदेव एन ऐमे पुत्र को जन्म देंगे जो राक्षसों का दमन करने में समर्थ सेनापति हो सर्वगा (१ ३७ ५-८) । यज्ञ के घोड़े की खोज करने हुये जब सगर पुत्र विविध आयुधों से पृथिवी को खोदने लगे तो देवता इत्यादि हाहाकार करने हुये इनकी धारण में आये (१ ३९, २३-२६) । 'देवताओं की धान गुनकर इन्होंने कहा 'यह समस्त पृथिवी जिन भगवान् वामुदेव की वस्तु है वे ही कपिल मुनि का रूप धारण करके निरन्तर इस पृथिवी को धारण करने हैं । उन्हीं की कोषाग्नि से समस्त सगर-पुत्र जल कर भस्म हो जायेंगे ।' (१ ४० २-४) ।' भगीरथ की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें

वर दिया (१. ४२, १५-१७) । "भगीरथ को वर देने के पश्चात् इन्होंने उनमें महादेव को प्रसन्न करने के लिये कहा क्योंकि गङ्गा के गिरने के वेग को केवल महादेव ही सहन कर सकते थे । तदनन्तर इन्होंने गङ्गा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिये कहा (१ ४२, २२-२५) ।" "जब भगीरथ के प्रयास से गङ्गा के जल ने सगर-पुत्री की भस्म-राशि आप्लावित हो गई तो इन्होंने भगीरथ के सम्मुख उस रसातल में ही उपस्थित होकर उनके प्रयासों की प्रशंसा की । इन्होंने भगीरथ को बताया कि उस समय से गङ्गा इस लोक में भगीरथी के नाम से विख्यात होगी । इन्होंने यह भी बताते हुये कि भगीरथ ने गङ्गा को लाने में सफलता प्राप्त करके वह कार्य किया जिसमें भगीरथ के अन्य पूर्वज अनफल हो चुके थे, भगीरथ को अक्षय यश और कीर्ति का वरदान दिया । तदनन्तर इन्होंने भगीरथ से कहा कि वे गङ्गा में स्नान करके अपने पितामहों का तर्पण करे । (१ ४४, ३-१५) ।" भगीरथ से इस प्रकार कह कर सर्वलोक पितामह, महायज्ञस्यो देवेश्वर ब्रह्मा अपने लोक लौट गये (१. ४४, १६) । एक सहस्र वर्ष पूरा होने पर इन्होंने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर उन्हें सच्चा राजपि कहा (१. ५७, ४-७) । इन्होंने एक सहस्र वर्ष तक तपस्या कर चुके विश्वामित्र से कहा कि वे (विश्वामित्र) अपने कर्मों के प्रभाव से 'ऋषि' हो गये (१ ६३, १-३) । देवताओं के कहने पर इन्होंने विश्वामित्र को 'महर्षि' की उपाधि से विभूषित किया (१. ६३, १७-१९) । विश्वामित्र के पूछने पर इन्होंने बताया कि वे (विश्वामित्र) अभी जितेन्द्रिय नहीं हुंम है (१ ६३, २२) । इन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहते हुए उन्हें दीर्घायु प्रदान की (१. ६५, १८-१९) । 'अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा क्षास्वतो नित्य अव्यय,' (१ ७०, १९) । मरीचि इनके पुत्र थे (१. ७०, १९) । देवों के कौतूहल का निवारण करने के लिये इन्होंने शिव और विष्णु के बीच बैमनस्य उत्पन्न किया (१ ७५, १४-१६) । श्रीराम और परशुराम के द्वन्द्व युद्ध को देखने के लिए ये भी उपस्थित हुये (१ ७६ ९) । श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिए कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, ८) । 'सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा भूतकर्ता तपर्षय,' (२. २५, २५) । इन्होंने अपने पुत्रों, सप्तशत्रिणो यो वन में जाने की आज्ञा प्रदान की थी (२ ३४, २४) । जब श्रीराम ने तिमिष्वज के पुत्र का वध कर दिया तो इन्होंने राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किये (२ ४४, ११) । भरत-मेना के सत्कार के लिए भरद्वाज ने इनकी सेवा करनेवाली देवाङ्गनाओं का आवाहन किया (२ ९१, १८) । इनकी भेजी हुई २०,००० दिव्याङ्गनायें भरद्वाज के आश्रम पर उपस्थित हुईं (२ ९१, ४२) । विराघ की तपस्या से प्रसन्न होकर

इन्होंने उसे किसी भी प्रकार के शस्त्र से अवध्य रहने का वरदान दिया (३ ३, ६) । जब महर्षि शरभङ्ग अग्नि में प्रवेश करके ब्रह्मशोक धार्ये तो इन्होंने उनका अभिनन्दन किया (३ ५, ४२-४३) । भरद्वाजाश्रम में थीराम ने इनके स्थान को भी देखा (३ १२, १७) । दम सहस्र वर्षों तक तपस्या करने के बाद रावण ने इन्हे अपने मन्त्रको को बलि दे दी (३ ३२, १७-१८) । जब रावण ने सीता का केश पकड़ कर खींचा तब ये बोल उठे 'अब कार्य सिद्ध हो गया ' (३ ५२, १०) । सीता की जीवन रक्षा की दृष्टि में इन्होंने इन्द्र में सीता को दिव्य हविष्यान्न खिलाने के लिए कहा (३ ५६क, १-७) । कबन्ध की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे दीर्घायु होने का वर दिया (३ ७१, ८-९) । पूर्वकाल में इन्होंने ही ऋष्यमूक पर्वत की सृष्टि की थी (३ ७३, ३०) । 'गीतोऽयं ब्रम्हणा श्लोक सर्वलोकनमस्कृत,' (४ ३४, ११) इन्होंने इक्षु-सागर के असुरों को बहुत दिनों तक बुभुक्षित रहने का शाप दिया था (४ ४०, ३५) । ये ब्रह्मर्षियो से घिरे हुए उत्तर में सोमगिरि पर निवास करते हैं (४ ४३, ५७) । मयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे शिल्पशास्त्र में अन्यतम होने का वर दिया (४ ५१, १२) । मय की मृत्यु के पश्चात् इन्होंने उसके भवन और उपवन इत्यादि को हेमा को दे दिया (४ ५१ १५) । इन्होंने हनुमान् को किसी भी शस्त्र से अवध्य होने का वरदान दिया (४ ६६, २६) । सागरलङ्घन के पूर्व हनुमान् ने इन्हे नमस्कार किया (५ १, ८) । इन्होंने मुरमा को वर दिया था (५ १, १५९) । इन्होंने सिंहिका का विनाश करने के लिये हनुमान् की सृष्टि की (५ १, १९९) । लका की निशाचरी देवी को इन्होंने यह वर दिया था कि जिस दिन एक वानर उसे परास्त कर देगा उसी दिन उसे यह समझ लेना होगा कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया (५ ३, ४७-४८) । इनका वचन कभी निष्फल नहीं होता (५ ३, ४९) । विश्वकर्मा ने इनके लिए पुष्पक विमान बनाया था किन्तु इन्होंने उस कृपापूर्वक कुवेर को दे दिया (५ ९, ११-१२) । राम के दून के रूप में हनुमान् के उपस्थित होने पर सीता ने इन्हें नमस्कार किया (५ ३२, १५) । अश्विनो का मान रखने के लिए इन्होंने द्विविद और मन्द को अमरत्व का वर दिया था (५ ६०, २-३) । पुञ्जिकन्धला के माय बलात्कार करने के कारण इन्होंने रावण को शाप दिया (६ १३, १३-१४) । इन्होंने रावण को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसे मनुष्यों में भय प्राप्त होगा (६ ६०, ६-७) । इन्द्र सहित देवी की यात्रा मुनिकर जगत के वन्याण के लिए इन्होंने कहा कि बुम्भवर्ण सर्वदा सीता ही रहेगा, किन्तु रावण की प्रार्थना पर यह निर्णय दिया कि प्रति छ मास के बाद वह (बुम्भवर्ण) एक दिन के लिए

जाग जाया करेगा (६ ६१, १८-२९) । इन्द्रजित् की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे शोधगामी अश्व तथा ब्रह्माधिरस् अस्त्र प्रदान किया (६ ८५, १३) । "इन्होंने इन्द्रजित् को वर देते हुए उससे कहा 'निबुम्भिला नामक षट्-वृक्ष के पास पहुँचने तथा हवन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पूर्व ही जो शत्रु तुम्हें मारने के लिये आक्रमण करेगा उसी के हाथ तुम्हारा वध होगा ।' (६ ८५, १५-१६) ।" देवों की स्तुति से प्रसन्न होकर इन्होंने कहा कि उस दिन से समस्त राक्षस तथा दानव भय में युक्त होकर ही तीनों लोको में विचरण करेंगे (६ ९४, ३२-३३) 'कर्ता सर्वस्य लोबन्ध ब्रह्मा ब्रह्मविदा वर,' (६ ११७, ३) । सीता की उद्देशा करने पर श्रीराम के सम्मुख उपास्थित होकर इन्होंने भी उन्हें (राम को) समझाने का प्रयत्न किया (६ ११७, ३-१०) । राम के पूछने पर इन्होंने उन्हें विष्णु के तथा सीता को लक्ष्मी के साथ समीकृत करते हुए इस बात का स्मरण दिलाया कि इन्होंने रावण-वध के लिए ही मानव रूप ग्रहण किया है (६ ११७, १३-२४) । कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उनसे वर माँगने के लिए कहा (७ ३, १३-१४) । कुबेर की प्रार्थना स्वीकार करते हुए इन्होंने उन्हें चौथा लोह-पाल बनाया और पुष्पक विमान भी प्रदान किया (७ ३, १६-२३) । जल से प्राकृत हुए कमंड मे उत्पन्न ब्रह्मा ने पूर्वकाल में समुद्र-जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल-जन्तुओं की उत्पन्न किया (७ ४, ९) । गृजित प्राणियों ने जब इनसे अपने कार्य के सम्बन्ध में पूछा तो इन्होंने उन्हें यत्नपूर्वक जल की रक्षा करने के लिये कहा (७ ४, १०-११) : "उन सृजित प्राणियों में से कुछ ने कहा कि वे प्रस जल की रक्षा करेंगे, और गन्ध ने कहा कि वे इसका पूजन (यज्ञ) करेंगे । उनकी बात सुनकर इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही है वे 'राक्षस', तथा जिन लोगों ने यज्ञ की बात कही है वह 'यक्ष' के नाम से विख्यात होंगे (७ ४, १२-१३) ।" माल्यवान् आदि से प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें चिरजीवी और शत्रुओं पर विजयी होने का वर दिया (७ ५, १२-१६) । रावण को अपना दमर्षा मन्त्रक भेंट करने से रोकते हुये इन्होंने उसे वर देने की इच्छा प्रकट की (७ १०, १२-१४) । रावण को अमरत्व का वर देना अस्वीकार किया (७ १०, १७) । रावण को वरदान देते हुये इन्होंने उसके मस्तक को भी यथास्थान उत्पन्न कर दिया, साथ ही इन्होंने उसे इच्छानुसार रूप धारण करने का भी वर दिया (७ १०, १८-२५) । इन्होंने विभीषण को वर देने की इच्छा प्रकट की (७ १०, २७-२८) । विभीषण को चिरजीवी होने का वर देकर इन्होंने शुम्भवर्ण को भी वर देने की इच्छा प्रकट की

(७. १०, ३३-३५) । जब देवों ने इनसे कुम्भकर्ण को वर न देने की विनती की तो इन्होंने सरस्वती से कुम्भकर्ण की वाणी को प्रभावित करने के लिये कहा (७ १०, ४१-४३) । तदनन्तर इन्होंने कुम्भकर्ण से वर मांगने के लिये कहा (७ १०, ४३-४४) । इन्होंने कुम्भकर्ण को वर दिया (७ १०, ४५) । यम और रावण के युद्ध को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ २२, १७) । जब यम अपने कालदण्ड से रावण पर प्रहार करने को उद्यत हुए तो इन्होंने सृष्टि के कल्याण की दृष्टि से उन्हें ऐसा करने से रोका (७ २२, ३६-४५) । जब निवातकवचो और रावण का युद्ध सतत एक वर्ष तक चलता रहा तो इन्होंने दोनों के बीच सधि कराई (७ २३, १०-१३) । रावण को चन्द्र पर प्रहार करने में रोक्ते हुये इन्होंने उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक मन्त्र बताया (७ २३, २२-५०) । देवों मन्त्रित इन्होंने रावण के पास जाकर उससे इन्द्र को छोड़ देने का निवेदन किया (७. ३०, १-७) । इन्द्रजित् को अमरत्व का वर देना अस्वीकार कर दिया (७ ३०, ९-१०) । “जब ब्रह्मा के अनुरोध पर इन्द्रजित् ने इन्द्र को मुक्त कर दिया तो उस समय उनका तेज नष्ट हो गया । ब्रह्मा ने इन्द्र को बताया कि अहल्या के साथ बलात्कार ही उनके उस पराभव का कारण है । तदनन्तर इन्होंने इन्द्र को वैष्णव यज्ञ करके स्वर्ग लौटने का परामर्श दिया (७ ३०, १८-४८) ।” देवों के निवेदन पर इन्होंने वायु के कोप का वाग्ण बताया और उसके बाद वायु को प्रसन्न करने के लिये गये (७ ३५, ५७-६५) । वेदवेत्ता ब्रह्मा ने अपने लम्ब फँसे हुये, और आभरण-भूषित हाथ में वायु-देवता को उठा कर खड़ा किया तथा उनके उम शिशु पर भी हाथ फेरा (७ ३६, ३) । वायु देवता को प्रसन्न करने के लिये इन्होंने वहाँ एकत्र देवों से वायु-पुत्र को वर देने के लिये कहा (७ ३६, ७-९) । इन्होंने वायु के बालक को अस्त्र-शस्त्रों से अवध्य तथा चिरजीवी होने का वर दिया (७ ३६, १९-२०) । वायु-पुत्र हनुमान् को अनेक प्रकार का वर दे कर ये अपन एक चले गये (७ ३६, २१-२४) । इनका भवन मेरु-पर्वत के केन्द्रीय शिखर पर स्थित था (७ ३७, ७-८) । योग-साधना करते समय जब इन्होंने अपने नेत्रों में अगो पर गिरे अशुक्लित्नु को मला तो उससे एक वानर की उत्पत्ति हुई (७ ३७, ९-१०) । इन्होंने उस वानर को निन्द के शी पर्वता पर फल-मूल खाकर निरास करने के लिये कहा (७ ३७, ११-१३) । कदाराट् तथा उनके पुत्रों का अभिनन्दन करने के बाद इन्होंने उन्हें निश्चिन्ता में रहकर वानरों पर शासन करने के लिये कहा (७ ३७, ८४-५२) । जब निमित्त के शाप से दंष्ट्रीन हुये दक्षिण ने इनसे देह के लिये पुन प्रायश्चा की तो इन्होंने इसके

लिये उनसे मित्र और वधन के छोड़े हुये तेज में प्रविष्ट होने के लिये कहा (७ १६, ९-१०) । जब लवणामुर का वध करने के लिये शत्रुघ्न ने अमोघ बाण का सधान किया तो इन्होंने भयभीत देवताओं आदि को उस दिव्य बाण का इतिहास बताते हुये उनके भय का निवारण किया (७ ६९, २२-२९) । 'श्वेत क वृद्धने पर इन्होंने उनसे कहा 'तुम मर्त्यलोक में स्थित अपने ही शरीर का गुस्तादु मास प्रतिदिन खाया करो । ..जब दुर्घपं महर्षि अगम्य तुम्हारे वन में पधारण तब तुम इस कष्ट से मुक्त हो जाओगे ।' (७ ७८, १३-१८) । सीता के शाय ग्रहण की दैत्यों के लिये ये भी श्रीराम की समा में उपस्थित हुये (७ ९७, ७) । सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर इन्होंने राम को सान्त्वना देने हुये भावी जीवन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्हें रामायण के उत्तरकाण्ड के श्रवण का परामर्श दिया (७ ९८, ११-२३) । जब शरीर-न्याय के लिये श्रीराम सरयू के निकट आये तो इन्होंने करोड़ों दिव्य विमानों सहित उनका स्वागत किया (७ ११०, ३-४) । इन्होंने राम और उनके भ्राताओं का स्वागत करते हुये उन्हें विष्णु-तेज में सम्मिलित होने के लिये ब्रह्मन्वित किया (७ ११०, ८-११) । विष्णु के अनुरोध पर इन्होंने उनके अनुचरों को 'सनानक' नामक लोक में जाने का आशीर्वाद दिया (७. ११०, १८-२०) । इस प्रकार, वहाँ आये सब प्राणियों को सतानक लोक में स्थान देकर ब्रह्मा देवों सहित अपने लोक में चले गये (७ ११०, २८) ।

ब्राह्मण—'शत्रुघ्न की मयुरा नैजकर भगवान् राम जब भारत और लक्ष्मण के साथ राज्य का पालन कर रहे थे तो कुछ दिनों के पश्चात् एक वृद्ध ब्राह्मण, जो उसी जनपद का निवासी था, अपने मृत बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया और राजा को दीपी बताकर विलाप करने लगा । उसने कहा कि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी किसी की हिंसा नहीं की, और न कभी किसी प्राणी को बृष्ट पहुँचाया, अब उसके पुत्र की मृत्यु राजा के ही किसी दुष्कर्म के कारण हुई है (७. ७३, २-१९) ।'

भ

भग—वनवास के समय श्रीराम की रक्षा करने के लिये कौतल्या ने इनका जवाहन किया था (२. २१, ८) । श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान को भी देखा था (३. १२, १८) ।

भगीरथ, राजा दिलीप के सुपार्श्विक पुत्र का नाम है (१. ४२, ७, ७०, ३८) । इनके पिता ने इन्हें राजा बनाया (१ ४२, १०) । ये एक धर्मपरायण राजर्षि थे (१ ४२, ११) । गंगा को भूतल पर लाने तथा पुनः प्राप्ति के लिये इन्होंने गोकर्ण नामक तीर्थ पर दीर्घकाल तक तपस्या की

(१. ४२, ११-१३) । “ये दोनों मुझायेँ ऊपर उठाकर पश्वाग्नि का सेवन करते और इन्द्रियो को वश मे रखते हुये एक-एक मास पर आहार ग्रहण करते थे । इस प्रकार तपस्या करते हुये इनके एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो गये (१ ४२, १३-१५) ।” इनकी तपस्या से इन पर ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न हुये और इनके सम्मुख उपस्थित होकर इनसे वर माँगने के लिये कहा (१ ४२, १६) । इन्होंने ब्रह्मा से यह वर माँगा कि सगर-पुत्रो की भस्मराशि को इन्ही के हाथ से गगा का जल प्राप्त हो और इन्हे एक सन्तान भी मिले जिससे इनकी कुल-परम्परा नष्ट न हो (१ ४२, १८-२१) । ब्रह्मा ने इन्हें मनोवाञ्छित वर देते हुये, गगा के वेग को सहन करने मे एकमात्र समय शंकर को प्रसन्न करने का परामर्श दिया (१ ४२, २२-२५) । तदनन्तर ब्रह्मा ने गगा से इनपर अनुग्रह करने के लिये कहा (१ ४२, २६) । ब्रह्मा के चले आने पर इन्होंने पृथिवी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिका कर सडे हुये एक वर्ष तक भगवान् शंकर की उपासना की (१ ४३, १) । इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर ने गगा को अपने मस्तक पर धारण करने का आश्वासन दिया (१ ४३, ३) । गगा को शिव के जटाजूट मे ही उलझा हुआ देखकर इन्होंने पुन धोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर शिव ने अन्तत गगा को विन्दु-सरोवर मे छोड दिया (१ ४३, ७-११) । उस समय गगा की सात धाराओ मे से एक धारा भगीरथ के दिव्य रथ के पीछे-पीछे चलने लगी (१ ४३, १४-१५) । जिस समय गगा इनके रथ का अनुसरण कर रही थी तब ऋषि, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, देवता, दैत्य, दानव और अप्सरा इत्यादि भी गगा के साथ-साथ चल रहे थे (१ ४३, ३१-३३) । जब जल्लु ने गगा को अपने कान के छिद्रो द्वारा प्रकट किया तो वे पुन. इनके रथ का अनुसरण करती हुई चलने लगी (१ ४३, ३९) । ये गगा को उम रसातल प्रदेश मे ले गये जहाँ सगर-पुत्रो की भस्मराशि पडी हुई थी (१ ४३, ४०-४१) । “इस प्रकार गगा को साथ लेकर इन्होंने समुद्र तक जाकर रसातल मे प्रवेश किया जहाँ इनके पूर्वजो की भस्मराशि पडी हुई थी । जब वह भस्मराशि गगा के जल से आप्लावित हो गई तब ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित होकर इनकी उम कार्य मे सफलता प्राप्त कर लेने के लिये प्रशंसा की जिसमे इनके पूर्वज असफल हो चुके थे (१ ४४, ३-१५) ।” ‘तारिता नरसाईल दिवं याताश्च देववन्’, (१ ४४, ३) । पितामहाना सर्वेषा त्वमत्र मनुजाधिप । बुरुष्व मलिल राजप्रतिज्ञामपवर्जम् ॥’, (१ ४४, ७) । ‘पुनर्न शक्तिता नेतु गगा प्रायंयता-नय’, (१ ४४, ११) । ‘सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषपंभ’, (१ ४४, १२) । ‘भगीरथस्तु राजर्षि कृत्वा सलिलमुत्तमम् । यथात्रम यथाग्याय साग-

राणा महापशा ॥', (१ ४४, १७) । ब्रह्मा के देवलोक लौट जाने पर (१ ४४, १६) इन्होंने गंगा के पवित्र जल से क्रमशः सभी सगर-पुत्रों का विधिवत् तर्पण किया (१ ४४, १७) । इस प्रकार सफल मनोरथ होकर ये अपने राज्य को लौट गये और राज्य का शासन करने लगे (१. ४४, १८) । इनके पुत्र का नाम ककुत्स्थ था (१ ७०, ३९) ।

१. भद्र, उत्तर दिशा में स्थित हिम के समान श्वेत एक दिग्गज का नाम है जो अपने शरीर से इस पृथिवी को धारण किये था । सगर के साठ हजार पुत्रों ने श्मश्री प्रदक्षिणा की (१ ४०, २२-२३) ।

२. भद्र, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २) । राम के पूजने पर इसने बताया कि पुरवासी मुख्यतः रावण के दिनाश और राम की विजय की ही विशेष रूप से चर्चा करते हैं (७ ४३, ७-८) । राम के बहुत आग्रह करने पर इसने बताया कि नगर के लोग रावण द्वारा अपहृत होने के बाद भी सीता को पुनः ग्रहण करने को बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं (७ ४३, १२-२०) ।

भद्रमदा, क्रोधवशा और कश्यप की एक पुत्री का नाम है (३ १४, २१) । यह द्रावती की माता थी (३ १४, २४) ।

भय, यम की बहन का नाम है जिसका देती से विवाह हुआ था । इसने विश्वुकेश नामक पुत्र उत्पन्न किया (७ ४, १६-१७) ।

भरुवाड, एक यम का नाम है । केकय से लौटते समय भरत इससे होकर जाये थे (२ ७१, ५) ।

१. भरत, ध्रुवमण्डि के पुत्र और जमित के पिता का नाम है (१ ७०, २६) ।

२. भरत, उत्तर के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने शतबल को भेजा था (२ ४३, ११) ।

३. भरत, कँकेयी के गर्भ से उत्पन्न दशरथ के पुत्र का नाम है । कँकेयी ने इनके राज्याभिषेक तथा राम के वनवास का आग्रह किया (१ १, २२) । दशरथ की मृत्यु के पश्चात् बनिष्ठ आदि ब्राह्मणों ने इन्हें राजा बनाना चाहा परन्तु ये श्रीराम के अधिकार का अपहरण नहीं करना चाहते थे अतः वन में जाकर इन्होंने राम को लौटाने का प्रयास किया (१ १, ३३-३६) । जब राम ने पुनः अयोध्या लौटना अस्वीकार कर दिया तो ये उनकी चरण-पादुका लेकर लौट आये और नन्दिग्राम में निवास करने लगे (१ १, ३६-३९) । हेनुमान् इनके पास श्रीराम का समाचार लाये (१ १, ८७) । राम के वनवास के समय इनके वन में जाकर राम से मिलने की घटना का वात्मीक

ने पूर्वदर्शन किया (१ ३, १६) । इनके द्वारा राम की पादुकाओं के अभिषेक तथा नन्दिशाम में निवास का वान्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१ ३, १७) । ये कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए 'भरतो नाम कैकेय्या जज्ञे सत्यपराक्रम । साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुणै ॥', (१ १८, १२) । इनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ और ये सदैव प्रमद रहने थे (१ १८, १४) । दशरथ ने इनका नामकरण किया (१ १८, २१) । शत्रुघ्न को भरत प्राणों से भी अधिक प्रिय थे (१ १८, ३३) । विश्वामित्र की सम्मति (१ ७२, १-८) के अनुसार जनक ने कुशध्वज की कन्या का भरत के साथ पाणिग्रहण कराने की अनुमति दी (१ ७२, ९-१२) । ये रूप और दीर्घ से सम्पन्न, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी थे (१ ७२, ७) । इनके सगे मामा, केकय राजकुमार वीर युधाजित्, इन्हे देखने अयोध्या आये (१ ७३, १-५) । इनका माण्डवी के माथ विवाह हुआ (१ ७३, २९) । विवाह के पश्चात् जयोध्या लौटकर इन्होंने जनता का स्वागत ग्रहण किया (१ ७७, ६-९) । विवाहित जीवन का आनन्द प्राप्त करते हुये ये अपने पिता दशरथ की सेवा करने लगे (१ ७७, १४-१५) । दशरथ ने भरत को अपने मामा युधाजित् के साथ केकय जाने की आज्ञा दी (१ ७७, १६-१८) । दशरथ, श्रीराम, तथा अपनी माताओं से पूछकर, ये शत्रुघ्न के साथ वहाँ से चल दिये (१ ७७, १९-२०) । इनके मामा इनको पुत्र से भी अधिक स्नेह तथा लाडल्यार से रखते और इनकी समस्याओं की पूर्ति करते थे, किन्तु इन्हे अपने वृद्ध पिता दशरथ की सदैव स्मृति बनी रहती थी (२ १, २-३) । राजा दशरथ भी महेंद्र के समान पराक्रमी अपने पुत्र भरत का सदैव स्मरण किया करते थे (२ १, ४) । 'काम दलु सता वृत्ते भ्राता ते भरत स्थित । ज्वेष्टानुवर्ता धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रिय ॥', (२ ४, २६) । दशरथ श्रीराम का राज्याभिषेक भरत की अनुपस्थिति में ही कर देना चाहते थे (२ ४, २५-२७) । दशरथ के द्वितीय पुत्र होने के कारण ये श्रीराम के बाद ही राज्य के अधिकारी हो सकते थे (२ ८, ७) । 'ननु ते राघवस्तु'यो भरतेन महात्मना', (२, १२, २१) । 'न कथञ्चित् रामाद्भरतो राज्यमावसेत् । रामादपि हि त मन्ये धर्मतो बलवतरम् ॥', (२ १२, ६२) । 'भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वमूतप्रियवद ॥ भवतीमनुवर्तेत स हि धर्मत मदा ॥', (२ २४, २२) । 'पितृवशचरित्रज्ञ', (२ ३७, ३१) । 'स हि कन्याणचारित्र कैकेय्यानन्दवर्धन', (२ ४५, ७) । 'ज्ञानदृष्टो ययोवालो मृदुवीर्यगुणान्वित । अनुरूप म घो भर्ता मरिष्यति भयावह ॥', (२ ४५, ८) । 'स हि राजगुणैर्वृत्तो सुवराज समीक्षित', (२ ४५, ९) । 'भरत खलु धर्मात्मा', (२ ४६, ७) ।

राम के वनवास पर विलाप करती हुई अयोध्या की स्त्रियों द्वारा इनका वर्णन (२ ४८, २८) । राम ने गुमन्त्र को लीटाते हुये भरत के लिये सदेश भेजा (२ ५२, ३४-३६) । श्रीराम ने इनके सुखी जीवन का वर्णन किया (२ ५३, ११-१२) । दशरथ की उपस्थिति में गुमन्त्र ने भरत के प्रति श्रीराम का सदेश सुनाया (२ ५८, २१-२४) । 'वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दन । पितर यौधराज्यस्यो राज्यस्पमनुपालय ॥' (२ ५८, २२) । दशरथ की मृत्यु के समय ये केकय देश में थे (२ ६७, ७) । इनको केकय से अयोध्या लाने के लिये दूत भेजे गये (२ ६८, ३) । जिस रात दूतों ने केकय नगर में प्रवेश किया उसी रात इन्होंने एक अप्रिय स्वप्न देखा (२ ६९, १) । अप्रिय स्वप्न को देखकर ये मन ही मन अत्यन्त संतप्त हुये (२ ६९, २) । सहृदयों द्वारा इनकी अप्रसन्नता का कारण पूछ जाने पर इन्होंने अपने दु स्वप्न का वर्णन किया (२ ६९, ६-२२) । दूत केकय देश में भरत से जा मिले, और भरत ने उनका स्वागत किया (२ ७०, २) । 'भरत ने दूतों द्वारा लाई गई उपहार की वस्तुयें अपने मामा और नाना के लिये बर्णित कर दी । तत्पश्चात् इच्छानुसार वस्तुयें देकर दूतों का सत्कार करने के अनन्तर उनसे दशरथ, श्रीराम, लक्ष्मण, कौसल्या सुमित्रा और कैकेयी का कुशल-समाचार पूछा (२ ७०, ६-१०) ।' इन्होंने दूतों के समक्ष केकयराज से अयोध्या चलने की आज्ञा माँगने के प्रस्ताव को रक्खा (२ ७०, १३) । इन्होंने केकयराज से अयोध्या जाने की अनुमति माँगी (२ ७०, १४-१५) । जाने की शीघ्रता के कारण इन्होंने अपने नाना, केकयराज, के प्रदाग किये हुये धन का अभिनन्दन नहीं किया (२. ७०, २४) । दूतों के आगमन तथा दु स्वप्न देखने के कारण भरत अत्यधिक चिन्तित हो रहे थे (२ ७०, २५) । 'अपने आयामस्थान का परित्याग करके भरत राजमार्ग पर गये । तदनन्तर नाना, नानी, मामा युधाशित् और मामी से विदा लेकर सन्तुष्ट सहित रथ पर सवार हो अयोध्या के लिये प्रस्थित हुये । सेवकों ने भी इनका अनुसरण किया (२ ७०, २६-३०) ।' राजगृह से अयोध्या तक की इनकी यात्रा का वर्णन किया गया है (२. ७१, १-१८) । अयोध्या नगरी को उदास देखकर ये अत्यन्त मर्माहत हुये (२. ७१, १९-३१) । इन्होंने वैजयन्त-द्वार से पुरी में प्रवेश किया जहाँ द्वारपालों ने इनका स्वागत किया (२ ७१, ३२-३३) । नगर को उदास देखकर ये अत्यन्त उद्विग्न हो उठे (२. ७१, ३४-४३) । इन्होंने राजमण्डप में प्रवेश किया (२. ७१, ४४) । 'राजप्रासाद के उदाग और दु खी स्वरूप को देखकर ये अत्यन्त शोकग्रस्त हो उठे (२ ७१, ४५-४६) । पिता को उनके भवन में न देखकर ये अपनी माता के कक्ष में गये (२ ७१, १) । इन्होंने अपनी माता के शुभ चरणों में प्रणाम किया (२ ७२,

३) । इनकी माता ने इन्हें छाती से लगा लिया और इनका कुशल समाचार पूछा (२ ७२, ४-६) । 'भरत राजीवलोचन', (२ ७२, ७) । "कँकेयी के पूछने पर इन्होंने बताया कि नाना के घर से अयोध्या पहुँचने में इन्हें सात रात्रियाँ मार्ग में व्यतीत करनी पड़ी । इन्होंने यह भी बताया कि मार्ग में दूनों के जल्दी चलने के आग्रह के कारण इन्होंने अपने दल को पीछे ही छोड़ दिया । तदनन्तर इन्होंने पिता के सम्बन्ध में पूछा (२ ७२, ८-१३) । "तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्य धर्माभिजनवाञ्छुचि', (२ ७२, १६) । 'महाबाहु', (२ ७२, १७) । 'देवसकाश', (२ ७२, २२) । ये दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर बिलाप करते हुये भूमि पर गिर पड़े (२ ७२, १६-२२) । मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने इस पुत्र को भूमि पर पड़ा देखकर कँकेयी ने उठाया (२ ७२, २३) । "इन्होंने पूछा कि दशरथ की मृत्यु कैसे हुई ? श्रीराम कहाँ हैं ? और दशरथ के अन्तिम शब्द क्या थे ? (२ ७२, २६-३५) ।" इन्होंने राम आदि के सम्बन्ध में पुन पूछा (२, ७२, ३९-४०) । इन्होंने कँकेयी के वचन को सुनकर पुन राम आदि के सम्बन्ध में पूछा (२ ७२, ४३-४५) । 'दशरथ की मृत्यु और श्रीराम के वनवास के लिये कँकेयी को दोषी बताते हुये इन्होंने उसे फटकारा । तदनन्तर इन्होंने वन में जाकर श्रीराम को लौटाने तथा सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया (२ ७३, २-२७) ।" इस प्रकार कह कर ये पुन जोर-जोर से कँकेयी की फटकारने लगे (२ ७३, २८) । "इन्होंने अत्यन्त कटु शब्दों में कँकेयी को धिक्कारते हुये बताया कि उसने अपनी कुटिलता के कारण किस प्रकार माता कौसल्या को दुखी किया । तदनन्तर इन्होंने श्रीराम को राजसिंहासन पर बैठाकर स्वयं वन चले जाने का निश्चय किया जिसमें कँकेयी के पाप का प्रायश्चित्त हो सके (२ ७४, २-३४) ।" इस प्रकार कहते हुये ये क्रोध से मूर्च्छित हो गये (२ ७४, ३५-३६) । 'जब इन्हें पुन होश आया तो अपनी माता की ओर देखते हुये उसकी निन्दा की और मन्त्रियों से कहा : 'मुझे राज्य नहीं चाहिये । महात्मा श्रीराम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि यह सब और कैसे हुआ ।' (२ ७५, १-३) ।" इस प्रकार वह कर ये शत्रुघ्न के साथ कौसल्या के भवन में गये, जहाँ उन्हें अचेत देख कर उनकी गोद में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे (२ ७५, ७-९) । कौसल्या का शोकपूर्ण वचन सुनकर इन्होंने विविध प्रकार से शपथ खाते हुये अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने का प्रयास किया (२ ७५, १७-५८) । इस प्रकार अपने का पापपूर्वक निर्दोष सिद्ध करते हुये ये कौसल्या के चरणों में अचेत होकर गिर

पडे, और सारी रात उसी प्रकार शोक करते रहे (२ ७५, ६३-६४) । वसिष्ठ के कहने पर इन्होंने दशरथ के दाह-संस्कार की व्यवस्था करने की आज्ञा दी (२ ७६, ३) । दशरथ के शव को देखकर ये अत्यधिक विलाप करने लगे (२. ७६, ५-९) । वसिष्ठ के कहने पर ये कुछ शांत हुये (२ ७६, १२) । दशरथ की रातियो सहित इन्होंने दशरथ की जलाञ्जलि दी (२ ७६, २३) । दशाह ध्वनीन हो जाने पर इन्होंने ग्यारहवें दिन आत्मशुद्धि के लिये स्नान और श्राद्ध तथा बारहवें दिन अन्व श्राद्ध सम्पन्न करके ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया (२. ७७, १-२) । तेरहवें दिन जब ये पिता के चितास्थान पर आये तो फूट-फूट कर रोने लगे और भूमि पर गिर पडे (२ ७७, ४-९) । इनके मन्त्रियों ने इन्हे उठाया (२ ७७, ९-१०) । वसिष्ठ ने इन्हें सान्त्वना दी (२ ७७, २०-२३) । मन्त्रियों के आदेश पर इन्होंने अन्व क्रियायें सम्पन्न की (२ ७७, २५-२६) । शत्रुघ्न का कठोर वचन सुनकर भयभीत कैकेयी इनकी शरण में आई (२ ७८, २०) । इन्होंने मन्यरा को और अधिक यानता देने से शत्रुघ्न को रोका (२ ७८, २१-२३) । "दशरथ की मृत्यु के चौदहवें दिन जब राजकर्मचारियों ने इनसे राज्यसिंहासन ग्रहण करने का निवेदन किया तब इन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुये कहा कि राज्य के वास्तविक अधिकारी श्रीराम ही हैं । इन्होंने वन में जाकर श्रीराम को राजा बनाने तथा उन्हें लौटा कर अयोध्या लाने का निर्णय करते हुये सेवकों और शिल्पियों से एतदर्थ मार्ग ठीक करने के लिये कहा (२. ७९, ६-१३) । "उस दिन रात्रि के घोड़ा रोप रहने पर मूत्र और मागधों ने भरत को जाने के लिये स्तवन आरम्भ किया । इन ध्वनियों को सुनकर भरत जाग गये और 'मैं राजा नहीं हूँ, अब इनको बन्द करो', कह कर पुन विलाप करने लगे (२ ८१, १-७) ।" वसिष्ठ के कहने पर सनाभवन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, सेनापति, अन्य राजकुमार आदि एकत्र हुये, और इन लोगों ने वहाँ उपस्थित होने हुये भरत का दशरथ की ही भाँति अभिनन्दन किया (२ ८१, १३-१५) । उस समय वह सभा दशरथ-पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसे ही शोभित होने लगी जैसे पूर्व समय में राजा दशरथ की उपस्थिति पर शोभित होती थी (२ ८१, १६) । 'शानार्चणसंपूर्णं भरत प्रब्राह्म सभाम् । द्वदत्तं बुद्धिसम्पन्नं पूर्णचन्द्रा निशानिव ॥', (२ ८२, १) । "वसिष्ठ द्वारा राज्यसिंहासन-ग्रहण के आग्रह पर इन्होंने उनसे कहा कि राज्य-सिंहासन पर श्रीराम का ही वैध अधिकार है । तदनन्तर अपनी माता के कुर्म का प्रायश्चित्त करने के लिये इन्होंने वन में जाकर श्रीराम को लौटाने की इच्छा व्यक्त की (२ ८२, ९-१६) ।" "इन्होंने

यह भी कहा कि श्रीराम को लौटाने में असफल होने पर ये स्वयं वन में रहेंगे। इस कार्य के लिये इन्होंने तत्काल प्रस्थान करने का निश्चय किया (२ ८२, १८-२०)। इस प्रकार निश्चय करने इन्होंने सुमन्त्र को सेना आदि तैयार करने के लिये कहा (२ ८२, २१-२२)। इन्होंने अपना रथ लाने के लिये सुमन्त्र से कहा (२ ८२, २७)। इनकी आज्ञा से सुमन्त्र रथ लाये (२, ८२, २८)। तब मुद्गद, रात्य पराक्रमी, मत्स्यपरायण, और प्रतापी भरत ने वन में गये हुये अपने यशस्वी भ्राता श्रीराम को लौटा लाने के लिये यात्रा के उद्देश्य से सुमन्त्र को सेना तैयार कर दूसरे दिन ही कूच करने का आदेश दिया (२ ८२, २९-३०)। दूसरे दिन प्रातःकाल ये रथ पर आरूढ़ होकर दल-बल सहित वन के लिये प्रस्थित हुये (२ ८३, १-५)। गङ्गाजल से अपने पिता का तपण करने के उद्देश्य से इन्होंने शृङ्गवेरपुर में अपनी यात्रा भंग की (२ ८३, १९-२६)। सुमन्त्र के कहन पर इन्होंने गुह को बुलवाया (२ ८४, १४)। गुह के इनके स्वागत सत्कार करने के आग्रह को सुनकर इन्होंने उसे धन्यवाद दिया और उससे भरद्वाज के आश्रम का पता पूछा (२ ८५, १-४)। 'तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निर्मलः । भरत श्लक्ष्णया वाचा गुह वचनमब्रवीत् ॥', (२ ८५, ८)। गुह के पूछने पर इन्होंने बताया कि ये श्रीराम को अपने पिता के समान मानते हैं, और उन्हें लौटाने के लिये ही उनके पास वन में जा रहे हैं (२. ८५, ९-१०)। इन्होंने गुह की अत्यधिक प्रशंसा की (२ ८५, १२-१३)। रात्रि के समय इन्होंने शत्रुघ्न के साथ ही शयन किया (२ ८५, १४-१५)। शोक के कारण इन्हें रात भर नीद नहीं आई (२ ८५ १६-२१)। 'गुहेन सार्धं भरत समागतो महानुभावः सजन समाहित । मुदुर्मनास्त भरत तदा पुनः शनैः समाशवासयदप्रज प्रति ॥', (२ ८५, २२)। 'भरतायाप्रमेयाय', (२ ८६, १)। गुह का श्रीराम के जटाधारण आदि से सम्बन्ध रखनवाला वचन सुनकर ये चिन्तामग्न हो गये और श्रीराम के सम्बन्ध में ही चिन्तन करने लगे (२ ८७, १)। 'सुकुमारो महासत्त्व सिंहस्वन्धो महाभुजः । पुण्डरीकविशालाक्षस्तक्षण प्रियदर्शन ॥', (२. ८७, २)। गुह की बात सुनकर पहले तो इन्होंने धर्म धारण करने का प्रयास किया किन्तु फिर मूर्च्छित होकर गिर पड़े (२ ८७, ३)। चेतना लौटने पर इन्होंने कौमल्या को साम्त्वना दी और गुह से श्रीराम की राग्या तथा भोजनादिके सम्बन्ध में पूछा (२. ८७, १२-१३)। गुह ने राम का समाचार सुन कर इन्होंने इंद्रुदी वृक्ष के नीचे उम कुश समूह को देता जिम पर श्रीराम ने रात्रि के समय शयन किया था, और उसे अपनी मानाओ की भी दिखाया (२ ८८, १-२)। "श्रीराम सीता के वन के बटो की बल्पना करके इन्होंने

घोर विलाप करते हुये लक्ष्मण की भक्ति की सराहना की जो उस परिस्थिति में भी राम के साथ थे । इन्होंने कहा कि उस समय, जब सब लोग अयोध्या से दूर हैं, अयोध्यापुरी श्रीराम के बाहुबल से ही रक्षित है । तदनन्तर इन्होंने प्रतिज्ञा करते हुये कहा 'आज से मैं भी पृथिवी पर ही शयन, फल-मूल का भोजन, और बलरुल तथा जटा धारण करूँगा । वनवास के जितने दिन शेष हैं उतने दिन अब श्रीराम के स्थान पर मैं वन में रहूँगा और श्रीराम अयोध्या का गालन करेंगे । मैं श्रीराम के शरणों पर मस्तक रखकर उहे मनाने की चेष्टा करूँगा । यदि इस प्रकार आग्रह करने पर भी श्रीराम लौटने के लिये प्रसन्न न हों तो मैं भी दीर्घकाल तक वन में ही निवास करूँगा ।' (२ ८८, ३-३०) ।" शृङ्गवेरपुर में गङ्गा के तट पर एक रात्रि व्यतीत करके इन्होंने गङ्गा पार कराने के लिये शबुध्न से गुह को बुलाने के लिये कहा (२ ८९, १-२) । गुह के कुशल समाचार पूछने पर इन्होंने बताया कि रात को इन्हे भली प्रकार निद्रा आई, और इसके बाद गङ्गा-पार उतारने की व्यवस्था करने के लिये गुह से निवेदन किया (२, ८९, ६-७) । इन्होंने स्वस्तिक नामवाली गुह की नौका द्वारा गङ्गा को पार किया (२ ८९, १२) समस्त सेना के साथ गङ्गा को पार करके ये प्रयाग वन में पहुँचे जहाँ अपनी सेना को विभाम करने का आदेश देकर ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर गये (२ ८९, २०-२२) । भरद्वाज-आश्रम के निकट पहुँच कर इन्होंने केवल दो वस्त्र धारण किया और पुरोहितों को आगे कर के पैदल ही मुनि के आश्रम पर गये (२. ९०, १-२) । आश्रम के दृष्टिगत होने पर इन्होंने मन्त्रियों को भी पीछे छोड़ दिया और केवल पुरोहितों के साथ ही आगे गये (२ ९०, ३) । इन्होंने भरद्वाज को प्रणाम किया (२ ९०, ५) । विधिवत् स्वागत करते हुये भरद्वाज ने इनका कुशल-समाचार पूछा (२ ९०, ६-७) । इन्होंने भी भरद्वाज का कुशल-समाचार पूछा (२ ९०, ८) । "जब भरद्वाज ने राम के प्रति इनके उद्देश्यों पर शका प्रकट करते हुये इनसे वन में आने का कारण पूछा तो दुःख के कारण इनके नेत्रों से अश्रु छलक पड़े । इन्होंने बताया कि राम वादि को वनवास देने का निर्णय इनकी अनुपस्थिति में ही किया गया जिसके लिये ये क्षनिक भी दौपी नहीं और अब ये श्रीराम को वन से लौटाने के लिये ही जा रहे हैं (२, ९०, १४-१८) ।" भरद्वाज का निमन्त्रण स्वीकार करते हुये इन्होंने उन्हीं के आश्रम पर रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया (२ ९०, २३-२४) । जब भरद्वाज मुनि ने इन्हें आतिथ्य ग्रहण करने का निमन्त्रण दिया तो इन्होंने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा 'वन में जैसा आतिथ्य-सत्कार

सम्भव है वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और पत्त-मूल आदि देकर ऋही चुके हैं ।' (२ ९१, २) । भरद्वाज के पूछने पर इन्होंने बताया कि आश्रम में विघ्न न न उपस्थित हो इसलिए इन्होंने अपनी सेना को पीछे ही छोड़ दिया है (२ ९१, ६-९) । महर्षि भरद्वाज के आग्रह पर इन्होंने अपनी सेना को भी वहीं बुलवा लिया (२ ९१, १०) । भरद्वाज के आग्रह पर इन्होंने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित महल में प्रवेश किया और वहाँ की व्यवस्था देखकर अत्यन्त प्रमत्त हुए (२ ९१, ३५-३६) । "उस भवन में इन्होंने दिव्य राज सिंहासन, चँवर, और छत्र भी देखे तथा श्रीराम की भावना करके मन्त्रियो सहित उन समस्त राजकीय वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्रीराम के विराजमान होने की भावना से उमका पूजन करने के बाद ये अपने हाथ में चँवर लेकर मन्त्री के आसन पर बैठे (२ ९१, ३७-३८) ।" गन्धर्वों और अप्सराओं ने नर्तन तथा गायन से इनका मनोरंजन किया (२ ९१, ४०-४०) । दूसरे दिन प्राण काल प्रस्थान की आज्ञा लेने के लिये ये भरद्वाज मुनि के पास गये (२ ९२, १) । भरद्वाज के पूछने पर इन्होंने बताया कि आतिथ्य-भक्तार की सुन्दर व्यवस्था से ये तथा इनकी सेना अत्यन्त सन्तुष्ट हुई, और तदनन्तर इन्होंने मुनि से चित्रकूट में श्रीराम के निवास का पता बताने के लिये कहा (२ ९२, ४-८) । भरद्वाज के कर्तव्य पर इन्होंने उनसे अलग-अलग अपनी मानाओं का परिचय कराया (२ ९२, १९-२६) । कंकेशी का परिचय कराने समय ये श्रेय से भर कर फुफ्फुवारते हुए सर्प की भाँति लम्बी सास खींचने लगे (२ ९२, २७) । महर्षि भरद्वाज से आज्ञा लेकर इन्होंने अपनी सेना आदि को यात्रा के लिये सन्नद्ध होने का आदेश दिया (२ ९२, ३१) । ये स्वयं एक शिविका में बैठकर चले (२ ९२, ३६) । इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ, जो समुद्र जैसी प्रतीत हो रही थी, भरत ने यात्रा आरम्भ की (२ ९३, ३-४) । चित्रकूट के निकट पहुँचने पर इन्होंने उस स्थान के प्राकृतिक सौन्दर्य का वसिष्ठ तथा शत्रुघ्न से वर्णन किया (२ ९३, ६-१९) । तदनन्तर इन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण का पता लगाने के लिये अपने आश्रमियों को आदेश दिया (२ ९३, २०) । जब सैनिकों ने एक स्थान पर धूँआ उठना देखा देखा इन्हे सूचित किया तो अपने समस्त सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश देकर सुमन्त्र और धृति के साथ स्वयं उन स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की (२ ९३, २२-२५) । जहाँ से धूँआ उठ रहा था उस स्थान पर इन्होंने अपनी दृष्टि स्थिर की (२ ९३, २६) । इनको और इनकी सेना को देखकर लक्ष्मण ने रोपपूर्ण उद्गार प्रकट किये (१ ९६, १७-३०) । 'सुमरव्य तु सोमिन्नि लक्ष्मणं श्रेयमूर्च्छितम्', (२ ९७, १) । 'महाबने महोमाहे भरते

स्वयमारगते', (२ ९७, २) । 'मन्येऽहमागतोऽप्योघ्या भरतो ध्रातृवल्ल १ मम प्राणात्प्रियतर कुलधर्मंश्नुस्मरन् ॥', (२ ९७, .९) । इन्होंने सेना से उत्त स्थान की शान्ति को भङ्ग न करते हुये विश्राम करने की आज्ञा दी (२ ९७, २९) । "अपनी सेना को एक स्थान पर ठहराने का आदेश देने के पश्चात् इन्होंने रामुष्ण तथा गुह और उसके अनुचरो से श्रीराम के आश्रम का पता लगाने के लिये कहा । ऋषियज्ञो और मन्त्रियो रहित इन्होंने भी आश्रम का पता लगाने का निश्चय करते हुये कहा कि जब तक श्रीराम आदि का पता नहीं चल जाता इनके मन को शान्ति नहीं मिल सकती (२ ९८, १-१३) ।" इस प्रकार व्यवस्था करके इन्होंने पैदल ही वन में प्रवेश किया और एक साल-वृक्ष पर चढ़कर श्रीराम की कुटिया को देखा (२ ९८, १४-१६) । श्रीराम का पता चल जाने पर ये अत्यन्त हर्षित हो साधियो सहित उनके स्थान की ओर चले (२ ९८, १७-१८) । "अपनी सेना को ठहरा कर ये श्रीराम के दसन के लिये रामुष्ण के साथ चले । उस समय ये रामुष्ण से मार्ग का वणन करने जाते थे (२ ९९, १) । इन्होंने—गुरुवत्सल—महर्षि वसिष्ठ से कहा कि वे इनकी माताओ को लेकर आये (२ ९९, २) । श्रीराम की कुटिया को देखकर इन्होंने समझ लिया कि ये अब मन्दाकिनी के तट पर विशाल ऋषियो तथा ऋषि मुनियो से सेविन उस स्थान पर पहुँच गये हैं जिनका मुनि भरद्वाज ने निर्देश किया था (२ ९९, ४-१३) । "मन्दाकिनी के तट पर स्थित चित्रकूट में पहुँचकर यह इस बात को सोचकर विलाप करने लगे कि श्रीराम को इन्हीं के कारण वनवास मिला । इन प्रकार सोचकर इन्होंने श्रीराम, सीता तथा लक्ष्मण के चरणो में गिरकर उन लोगो को मनाने का निश्चय किया (२ ९९, १४-१७) ।" इस प्रकार विलाप करते हुये कुटिया के सम्मुख खड़े होकर इन्होंने देखा कि वेदी पर श्रीराम वीरासन में, सीता तथा लक्ष्मण के साथ, विराजमान हैं (२ ९९, १८-२८) । "श्रीराम को देखने ही इनका धर्म समाप्त हो गया और ये शोक के आवेग को रोक नहीं सके । इन्होंने अश्रु बहाते हुये गद्गद वाणी में कहा 'जो सर्वथा सुख-वैभव के ही योग्य हैं वे श्रीराम मेरे कारण ऐसे दुःख में पड़ गये हैं । मेरे इस लोकनन्दित जीवन को धिक्कार है ।' (२ ९९, २९-३६) ।" इतना कहते हुये ये 'आर्य !' कह कर भूमि पर गिर पड़े और शोक के कारण इसके अतिरिक्त कोई शब्द इनके मुत्त से निकल नहीं सका (२ ९९, ३७-३९) । श्रीराम ने इन्हे छाती से लगाते हुये अपनी गोद में बैठा लिया (२ ९९, ४०; १००, १-३) । श्रीराम ने कुशल प्रश्न के बहाने इन्हे राजनीति का उपदेश दिया (२, १००, ४-७६) । बन्कल धारण करने, जटा-जूटा रखने, तथा वन में आने का जब श्रीराम और लक्ष्मण

ने इनसे कारण पूछा तो इन्होंने श्रीराम से अयोध्या लौट कर राजसिंहासन ग्रहण करने का निवेदन किया (२ १०१, ४-१३) । इन्होंने पुन श्रीराम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हुये पिता की मृत्यु का समाचार दिया और उनसे पिता का अन्तिम सम्कार आदि करने का निवेदन किया (२ १०२, १-९) । पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर जब श्रीराम मूर्च्छित हो गये तो इन्होंने उन्हें सहारा दिया (२ १०३, ५) । इन्होंने श्रीराम से पिता को जलाञ्जलि आदि देने के लिये कहा (२ १०३, १७) । पिता को जलाञ्जलि देन व लिये ये भी श्री राम के साथ मन्दाकिनी के तट पर गये (२ १०३, २४-२५) । जब श्रीराम और वसिष्ठ ने अपना-अपना वासन ग्रहण कर लिया तो अपने अनुचरों सहित ये हाथ जोड़कर बैठे (२ १०४, २९-३०) । समस्त रात्रि शोकपूर्वक व्यनीत करने के पश्चात् इन्होंने श्रीराम से अयोध्या लौटकर सिंहासन ग्रहण करने के लिये कहा (२ १०५, १-१२) । “जब श्रीराम ने अयोध्या न लौटने का अपना दृढनिश्चय व्यक्त किया तब इन्होंने उनसे बरबद होकर चरणों में शीश नवाते हुये एक बार पुन राज्य सिंहासन ग्रहण करके क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करने के लिये कहा । साथ ही इन्होंने इस प्रकार निवेदन किया ‘आप पिता की योग्य सतान बने रहे और उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें । कैंबेयी, मैं, पिताजी, सुहृद्गण, बन्धु-बान्धव, पुरवासी, तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिये आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें । आज आप मेरी माता के कलङ्क को धो डालें तथा पिता को भी निन्दा से बचायें । यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी आपके साथ वन चूँगा ।’ (२ १०६, २-३२) ।” श्रीराम ने इन्हें समझाकर अयोध्या लौटने का आदेश दिया (२ १०७, १-१९) । “श्रीराम को अपने निश्चय पर दृढ देखकर इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किये उसी प्रकार सत्पात्रह करने का विचार प्रकट किया जिस प्रकार साहूकार के द्वारा निर्धन किया हुआ ग्राह्यण उसके घर के द्वार पर मुह ठँक कर बिना अन्न-जल के पड़ा रहता है । इस प्रकार निश्चय करके इन्होंने सुमन्त्र से श्रीराम की कूटिया के द्वार पर कुआ बिछाने के लिये कहा (२ १११, १२-१४) ।” सुमन्त्र को सकोष करते देतकर इन्होंने स्वयं ही कुआ बिछाया (२ १११, १५) । जब श्रीराम ने इनसे अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया तो इन्होंने नगर और जनपद के लोगों से कहा कि वे लोग भी श्रीराम को समझायें (२ १११, १९) । पिता के वचन की रक्षा के लिये इन्होंने श्रीराम के स्थान पर स्वयं वन में रहने की इच्छा प्रकट की (२ १११, २४-२६) । उस समय अन्तरिक्ष में अदृश्य नाव से गढ़े हुए मुनियों तथा प्रत्यग रूप से बैठे महर्षियों की बात सुनकर इन्होंने श्रीराम से बरबद प्रार्थना

की कि ये मिहासन को स्वीकार करके वनवाम श्री अवधि के लिये अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दें (२ ११२, ९-१३) । यह कह कर ये श्रीराम के चरणों पर गिर कर उनसे अपनी वान मानने के लिये प्रबल आग्रह करने लगे (२ ११२, १४) । "इन्होंने श्रीराम से कहा 'ये दो सुवर्णभूषित पादुकाएँ आपके चरणों में जपिन है, आप दूनपर अपने चरण रख दें । ये ही सम्पूर्ण जगत् के योग-जैम का निर्वाह करेंगी ।' (२ ११२, २१) ।"

"श्रीराम की चरण-पादुका को ग्रहण करने लिये इन्होंने श्रीराम से कहा 'मैं भी चौदह वर्ष तक जटा और चीर धारण करके फलमूल का आहार करता हूँ। आपके आगमन की प्रतीक्षा मैं नगर से बाहर ही निवास कहूँगा । यदि चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझ आपका दर्शन न मिला तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा ।' (२ ११२, २३-२५) ।"

इन्होंने श्रीराम की चरण-पादुकाओं को राजकीय हाथी के मस्तक पर स्थापित किया और श्रीराम से विदा ली (२ ११२, २९) । श्रीराम की दोनों चरण-पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर ये शत्रुघ्न के साथ रथ पर बैठे (२ ११३, १) । चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करके ये महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे (२ ११३, ३-५) । इन्होंने आदरपूर्वक महर्षि का अभिवादन किया (२ ११३, ६) । महर्षि के पूछने पर इन्होंने बताया कि श्रीराम ने अयोध्या न लौटने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और बमिष्ठ जी के कहने पर अपनी जन्मस्थिति में अपनी चरण-पादुकाओं को अपना प्रतिनिधि मानता स्वीकार किया (२ ११३, ८-१४) । 'भरतस्य महात्मनः,' (२ ११३, १५) । इनके उच्च विचारों की महर्षि भरद्वाज ने अत्यन्त प्रशंसा की (२ ११३, १६-१७) । इन्होंने महर्षि भरद्वाज से विदा ली (२ ११३, १८-१९) । यमुना तथा गङ्गा को पार करने के पश्चात् शृङ्गवेरपुर होते हुए ये अयोध्या आये जो निरस्ताह, अन्धकारपूर्ण और उदास दिखाई पड़ रही थी (२ ११३, २०-२४) । इन्होंने अयोध्या को उदास देखा (२ ११४, १९-२६) । इन्होंने अध्रुपूरित नेत्रों के साथ दशरथ से रहित महल में प्रवेश किया (२ ११४, २७-२९) । अपनी माताओं को पहुँचा कर इन्होंने श्रीराम के लौटने तक नन्दियाम में निवास करने का निश्चय व्यक्त किया (२ ११५, १-३) । जब मन्त्रियों ने इसकी स्वीकृति दे दी तो इन्होंने सारथि से अपना रथ तैयार करने के लिए कहा (२ ११५, ७) । माताओं से विदा लेकर इन्होंने शत्रुघ्न और मन्त्रियों-सहित नन्दियाम के लिए प्रस्थान किया । (२ ११५, ८-९) । भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर श्रीराम की चरण-पादुका लिए हुए रथ पर बैठ कर सीधता से नन्दियाम की ओर चले

(२ ११५, १२) । नन्दिग्राम पहुँच कर इन्होंने गुरुजनो से कहा 'मेरे भ्राता ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है, और उनकी ये चरण-पादुकायें ही सत्रके योग-श्रेय का निर्वाह करने वाली हैं।' (२. ११५, १३-१४) । तदनन्तर मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति धरोहरस्वरूप राज्य को समर्पित करते हुए इन्होंने समस्त प्रकृतिमण्डल से भी यही बात कही (२ ११५, १५-२०) । बल्कल, जटा, तथा मुनि का वेश धारण करके भरत अपने मन्त्रियों सहित नन्दिग्राम में पादुकाओं को श्रीराम का प्रतिनिधि मानते हुये निवास करने लगे (२ ११५, २१-२४) । इनके तपस्या के इस व्रत की लक्ष्मण ने सराहना की 'अस्मिस्तु पुरुषध्याघ्न काले दुःखसमन्वित । तपश्चरति-धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरत पुरे ॥' (३ १६, २७) । 'अत्यन्तमुखसवृद्ध सुकुमारो हिमादित,' (३ १६, ३०) । 'पद्यपत्रेक्षण श्याम श्रीमान्निरुदरो महान् । धर्मज्ञ सत्यवादी च ह्रीनिपेयो जितेन्द्रिय ॥ प्रियामिभापी मधुरो दीर्घबाहुर-रिदम । मत्पुत्र्य विविधान्मोगानार्यं सर्वात्मना श्रित ॥,' (३ १६, ३१-३२) । इन्होंने इस उक्ति को मिथ्या प्रमाणित कर दिया कि 'मनुष्य प्रायः पिता के नहीं वरन् माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं।' (३, १६, ३४) । राम उस दिन की उद्विग्नतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे जब उनका इनसे पुनर्मिलन होगा (३, १६ ३९-४०) । 'ता पालयति धर्मात्मा भरत मत्पवागुजु । धर्मकामार्थतत्त्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रत ॥ नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन्सत्य च सुस्थितम् । विक्रमश्च यथा ऋष्ट स राजा देशकालविन् ॥,' (४. १८, ७-८) 'यस्मिन्पतिशार्दूले भरते धमवत्ससे,' (४ १८, १०) । श्रीराम ने इनका स्मरण किया (४ २८, ५५) । 'अयोध्या से एक कोस की दूरी पर हनुमान् ने आश्रमवासी भरत को देखा जो चीर-वस्त्र और काला मृग-चर्म धारण किये हुए दुःखी एवं दुर्बल दिखाई पड़ रहे थे । उनके मस्तक पर बड़ी हुई जटा और शरीर पर मैल थी । भ्राता के यतवास क दुःख ने उन्हें बहुत वृषा कर दिया था । फल-भूल हो उनका आहार था । वे इन्द्रियों का दमन करके तपस्या में लीन तथा धर्माचरण करते थे । उनके सर पर जटा का भार बहुत ऊँचा हो गया था, और उनका शरीर भी बल्ल तथा मृग-चर्म से ढँका था । वे बड़े समय से रहते थे । उनका अन्न-करण अन्यन्त निर्मल था, और वे एन व्रतार्थि के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे । वे श्रीराम की चरण-पादुकाओं की आगे रक्षकर पृथिवी का शासन करते थे । (६ १२५, २९-३४) । 'जब हनुमान् ने इन्हें श्रीराम के सकुशल लौट आने का समाचार दिया तो पहले तो वे हर्ष से मूर्छित हो गये किन्तु चेतना लौटने पर हनुमान् का आच्छिन्न करके उन्हें अधुओं से निश्चिन्त कर दिया । तदनन्तर इन्होंने हनुमान् को वरुण

उपहार दिये (६ १२५, ४०-४६) ।' बनेक वर्षों के पश्चात् श्रीराम का नाम सुनकर इन्होंने अपार हर्ष हुआ, और इन्होंने हनुमान् से पूछा कि श्रीराम और वानरो की मैत्री किस प्रकार हुई (६ १२६, १-३) । हनुमान् से समस्त वृत्तान्त सुन कर इन्होंने कहा कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो गई (६ १२६, ५६) । 'श्रुत्वा तु परमानन्द भरत सत्यविक्रम,' (६ १२७, १) । 'इन्होंने अशुभ से कहा 'शुद्धाचारी पुरुष कुल-देवताओं तथा नगर के समस्त देवस्थानों का सुनन्धित पुष्पो द्वारा ससमारोह पूजन करें । नगर को मलीभाँति सजाया जाय, तथा समस्त पुरवासी श्रीराम के स्वागत के लिए नगर से बाहर चले ।' इनकी बात को सुन कर अशुभ ने तदनु रूप व्यवस्था करने की आज्ञा दी (६ १२७, १-५) ।' ये श्रीराम की चरण-पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके माताओं, अयोध्यावासियों, मंत्रियों इत्यादि के साथ श्रीराम के स्वागत के लिए मन्दिग्राह आये (६ १२७, १४-१९) । कुछ दूर चलने के पश्चात् इन्होंने हनुमान् से पूछा कि उन्होंने सत्य समाचार दिया था या नहीं, क्योंकि उस समय तक श्रीराम का कोई चिन्ह नहीं लक्षित हुआ (६ १२७, २०-२१) । जब श्रीराम का विमान इनकी ओर बढ़ा तो ये उसपर दृष्टि लगा कर करवद्ध खड़े हो गये और दूर से ही अर्घ्य पात्र आदि से श्रीराम का विधिवत् पूजन किया (६ १२७, ३०-३२) । "जब श्रीराम का विमान भूमि पर उतरा तो इन्होंने एक बार पुन श्रीराम का अभिवादन करने के बाद उनका आलिङ्गन किया । इसके बाद लक्ष्मण तथा सीता का अभिवादन करके इन्होंने वानरसूयपतियों का आलिङ्गन तथा सुग्रीव और विभीषण का स्वागत किया (६ १२७, ३५-४४) ।" इन्होंने श्रीराम की चरण-पादुकायें उनके चरणों में पहना दी और बोले 'मेरे पास घोरोहर के रूप में रक्खा हुआ समस्त राज्य आज मैंने आपके श्रीचरणों में लौटा दिया जिससे मेरा जन्म सफल हो गया' (६ १२७, ५०-५३) । इन्होंने करवद्ध होकर श्रीराम से प्रार्थना की कि वे अब राज्य-निहासन ग्रहण करें (६ १२८, १-११) । तदनन्तर इन्होंने स्नान आदि करके नवीन वस्त्र धारण किया (६ १२८, १४-१५) । ये श्रीराम के रथ के सारथि बने (६ १२८, २८) । राम की आज्ञा से इन्होंने सुग्रीव को श्रीराम के अशोकवाटिका से घिरे हुए भवन में प्रवेश कराया तथा श्रीराम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिये उनसे वानरों को भेजने के लिये कहा (६ १२८, ४६-४८) । लक्ष्मण के जम्बीकार करने पर इन्होंने पुत्रराज-पद पर अभिषिक्त किया गया (६ १२८, ९३) । राम के राज्याभिषेक के दूसरे दिन अन्य भ्राताओं के साथ ये भी उनकी सभा में उपस्थित हुये (७ ३७, १७) । वन में सीता के अपहरण का समाचार

सुनकर इन्होंने अनेक भूपालो को राक्षसो पर आक्रमण करने के लिये एकत्र किया था (७ ३८, २४) । राजाओ ने जो रत्नादि के उपहार दिये थे उन्हें लेकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित ये अयोध्या आये (७ ३९, ११-१२) । इन्होंने श्रीराम के विलक्षण प्रभाव के अन्तर्गमन अयोध्या की समृद्धि के लिये श्रीराम की प्रशंसा की (७ ४१, १७-२२) । राम के बुलाने पर ये तत्काल उनसे मिलने के लिये पैदल ही उनके भवन की ओर चल पडे (७ ४४, ७-८) । "राम के पास पहुँच कर इन्होंने उन्हें अत्यन्त उद्विग्न देखा । उनके चरणो मे प्रणाम करने के पश्चात् इन्होंने आमन ग्रहण किया (७. ४४, १४-१८) ।" राम के शब्दो को सुनकर इनको यह उत्सुकता हुई कि श्रीराम क्या कहना चाहते हैं (७ ४४, २१) । श्रीराम के पूजने पर ये स्वयं लवणामुर वा वध करने के लिये प्रस्तुत हुये (७ ६२, ९) । राम के आदेश पर इन्होंने शत्रुघ्न के अभिषेक की आवश्यक व्यवस्था की (७. ६३, १२) । ये शत्रुघ्न को पहुँचाने के लिये गये (७. ७२, २१) । श्रीराम के उपस्थित होने पर ये उनके दर्शन के लिये गये (७ ८३, १-२) । श्रीराम द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव करने पर इन्होंने विनम्रतापूर्वक विरोध करते हुये कहा कि इस प्रकार के यज्ञ से भूमण्डल के समस्त राजवंशो का विनाश हो जायगा (७ ८३, ९-१५) । श्रीराम द्वारा इल की कथा कहने पर इन्होंने उत्सुक होकर पूछा कि वाद मे इल का क्या हुआ (७ ८८, १-३) । किपुरुष जाति की उत्पत्ति का प्रसंग सुनकर लक्ष्मण सहित इन्होंने अत्यन्त आश्चर्य प्रगट किया (७ ८९, १) । पुरूरवा के जन्म का वृत्तान्त सुनने के पश्चात् इन्होंने पुन श्रीराम से इल के सम्बन्ध मे पूछा (७. ९०, १-२) । राम के आदेश के अनुसार ये उम म्यान पर गये जहाँ यज्ञ की व्यवस्था हो रही थी (७ ९१, २७) । यज्ञ के समय ये शत्रुघ्न के साथ धामन्त्रित राजाओ के स्वागत सत्कार के लिये नियुक्त किये गये थे (७ ९२, ५) । राम के आदेश पर इन्होंने अपने पुत्रो सहित एक विशाल सेना लेकर गन्धर्वों के देश के लिये प्रस्थान किया (७. १००, २०-२४) । ये पन्द्रह दिन के पश्चात् केकय पहुँचे (७. १००, २५) । युधाजित् के साथ मिलकर इन्होंने गन्धर्वों के देश पर आक्रमण किया (७ १०१, १-३) । सप्तहान्त तक इन्होंने तीन करोड गन्धर्वों का विनाश कर दिया (७ १०१, ५-८) । "गन्धर्वं देशं विजित् करके इन्होंने उमकी दो राजधानियो, तक्षशिला और पुण्ड्रलावत्, की स्थापना की जहाँ से इनके पुत्रगण मगधार देश पर शासन करने लगे । तदनन्तर पाँच वर्षों के पश्चात् इन्होंने अयोध्या लौटकर श्रीराम को सम्पूर्ण वृत्तान्त से अवगत किया (७ १०१, १०-१८) । श्रीराम के कहने पर इन्होंने

राजकुमार अद्भुत वी काश्यप का जीर राजकुमार चन्द्रकेतु को चन्द्रकान्त का दासक बनाने का प्रस्ताव किया (७ १०२, ५-६) । 'तनो राम परा प्रीति लक्ष्मणो भरतस्तथा । ययुर्द्वे दुरावर्षा अभिपेक च चक्रिरे ॥', (७. १०२, १०) । एक वर्ष तक चन्द्रकेतु के साथ रहने के पश्चात् ये अयोध्या लौटे (७. १०२, १२-१४) । इस प्रकार, ये दस सहस्र वर्ष तक आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे (७ १०२, १५-१७) । जब इन्होंने यह समाचार सुना कि श्रीराम इन्हें राज्य सौंप कर घन चले जाना चाहते हैं तो ये जैसे राजाहीन हो गये (७ १०७, १-५) । राज्य को अम्बीकार करते हुये इन्होंने लव और कुश का राज्याभिषेक करने का प्रस्ताव रक्खा, और शीघ्रगामी दूतों के द्वारा श्रीराम सहित अपनी महायात्रा का समाचार शत्रुघ्न के पास भेजा (७. १०७, ५-८) । श्रीराम के परमधाम जाने के समय ये भी उनके साथ गये (७ १०९, ११) ।

१. भरद्वाज, एव ऋषि का नाम है जिनके परामर्श पर ही श्रीराम ने चित्रकूट में अपना आश्रम बनाया (१ १, ३१) । लड्डा से लौटते समय श्रीराम ने इन्हीं के आश्रम में एक बार हनुमान् के द्वारा भरत के पास अपने आगमन का समाचार भेजा (१ १, ८७) । इनके साथ श्रीराम के मिलन की घटना का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१. ३, १५-३७) । इनकी पर्णशाला में प्रवेश करके श्रीराम ने, तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की समस्त बातों को देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेनेवाले एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण वनघारी महात्मा भरद्वाज का, दर्शन किया जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुये आसन पर विराजमान थे (२ ५४, ११-१२) । श्रीराम आदि का हादिक स्वागत करने के पश्चात् इन्होंने उन लोगों को विविध उपहार दिये (२ ५४, १७-१९) । इन्होंने श्रीराम से बताया कि ये उन लोगों के वनवास का कारण जानते हैं, और इसके बाद इन्होंने उन लोगों को अपने आश्रम में रहने के लिये आमन्त्रित किया (२ ५४, २१-२२) । श्रीराम के आपत्ति करने पर इन्होंने उन्हें चित्रकूट नामक स्थान पर आवास बनाने का परामर्श दिया (२ ५४, २८-३२) । 'श्रभाताया तु शर्वयां भरद्वाजमुपागमन् । उवाच नरसार्दूलो मुनिं ज्वलितनेजसम् ॥ शर्वरी भगवन्नच सयशील तवाश्रमे । उषिता. स्मेह वननिमनुजानातु नो भवान् ॥', (२ ५४, ३६-३७) । दूसरे दिन प्रातः काल श्रीराम के पूजने पर इन्होंने चित्रकूट का वर्णन करने हुये पुनः उनी का उल्लेख किया (२ ५४, ३८-४३) । जब श्रीराम आदि चित्रकूट के लिये प्रस्थान करने लगे तो इन्होंने उन लोगों का 'स्वस्त्ययन' किया (२ ५५, १-२) । चित्रकूट के मार्ग पर विस्तृत वर्णन करने के पश्चात् ये लौटे

आये (२ ५५, ३-१०) । भरत ने गुह से इनके आश्रम का मार्ग पूछा (२ ८५, ४) । 'भरद्वाजमृषिप्रवर्षम्', (२ ८९, २१) । 'स द्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य । ददर्श रम्योऽजवृक्षदेश महद्वन प्रियवरस्य रम्यम् ॥', (२ ८९, २२) । महर्षि वसिष्ठ को देखकर महानपस्वी भरद्वाज अपने आसन से उठ खड़े हुये और अपने शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य लाने के लिये कहा (२ ९०, ४) । जब भरत ने इनके चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने इन्हे पहचान लिया (२ ९०, ५) । इन्होंने वसिष्ठ और भरत को अर्घ्य, पाद तथा फल आदि निवेदन करने के पश्चात् उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा (२ ९०, ६) । यह दशरथ की मृत्यु का समाचार जान गये थे अतः उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछा (२ ९०, ७) । 'भरद्वाजो महायशा', (२ ९०, ९) । इन्होंने राम के प्रति भरत के उद्देश्यों पर दाका प्रगट करते हुये उनसे एतद्विषयक प्रश्न किये (२ ९०, ९-१३) । भरत के उत्तर से अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्होंने श्रीराम का पता बताते हुये भरत को अपने आश्रम में ही वह रात्रि व्यतीत करने के लिये आमन्त्रित किया (२ ९०, १९-२३) । इन्होंने भरत का सत्कार करने की इच्छा प्रगट की (२ ९१, १) । जब भरत ने इनके इस प्रस्ताव पर कुछ सकोच का अनुभव किया तब इन्होंने उनकी सेना का सत्कार करने का प्रस्ताव करते हुये पूछा कि उन्होंने सेना को पीछे क्यों छोड़ दिया है (२ ९१, ३-५) । इन्होंने भरत से सेना को आश्रम में ही बुलाने के लिये कहा (२ ९१, १०) । इन्होंने अपनी अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन करने के पश्चात् भरत के आतिथ्य-सत्कार के लिये विश्व कर्मा तथा अन्य देवताओं, गन्धर्वों आदि का आवाहन किया (२ ९१, ११-२२) । इन्होंने भरत से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भवन में प्रवेश करने का अनुरोध किया (२ ९१, ३५) । जो फूल देवताओं के उद्यानों और चंद्ररथ वन में उत्पन्न हुआ करते थे वे महर्षि भरद्वाज के प्रनाप से प्रयाग में दृष्टिगत होने लगे (२ ९१, ४७) । दूसरे दिन प्रातः काल इन्होंने गन्धर्वों तथा समस्त सुन्दरी आसुराओं आदि को विदा किया (२ ९१, ८२) । प्रातः काल, जब भरत वरबद्ध होकर इनके सम्मुख उपस्थित हुये तो इन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें रात्रि में ठीक से निद्रा आई अथवा नहीं (२ ९२, २-३) । 'श्रुपि मुत्तमतेजसम्', (२ ९२, ४) । 'भरद्वाजो महातपा', (२ ९२, ९) । भरत के पूछने पर इन्होंने चित्रकूट के मार्ग का वर्णन किया (२ ९२, १०-१४) । जब भरत भी माताओं ने इन्हे प्रणाम किया तब इन्होंने भरत से उनका परिचय कराने के लिये कहा (२ ९२, १४-१९) । 'भरद्वाजो महर्षिस्त भवन्त भरत तदा । प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमर्षवत् ॥', (२ ९२, २८) ।

इन्होंने भरत को यह परामर्श देने हुये कि उन्हें कैंकेयी पर बाधेग नही करना चाहिये, यह बताया कि श्रीराम का वनवास वास्तव मे देवो, दानवो और ऋषियो के कल्याण के लिये ही हुआ है (२ १२, २९-३०) । चित्रकूट से लौटते समय भरत पुन इनके आश्रम पर आये (२, ११३, ५) । भरत के प्रणाम करने पर इन्होंने उन्हे पूछा कि वे श्रीराम से मिले अथवा नहीं (२-११३, ६-७) । इन्होंने भरत के श्रेष्ठ और उच्च विचारो के लिये उनकी प्रशंसा की (२ ११३, १६-१७) । "श्रीराम के पूछने पर इन्होंने बताया कि अयोध्या मे सब कुशल है । इन्होंने यह भी बताया कि श्रीराम का वनवास आरम्भ होने के समय से अब तक की समस्त घटनायें भी इन्हें ज्ञान हैं । तदनन्तर इन्होंने श्रीराम मे वह रात्रि अपने आश्रम मे ही व्यतीत करने का अनुरोध किया (६ १२४, ४-१७) । इन्होंने राम को उनके द्वारा माँगा हुआ वरदान दिया (६ १२४, २०) । श्रीराम के अयोध्या लौटने पर ये उत्तर दिशा से उनके अभिवादन के लिये उपस्थित हुये (७ १, ६) । इन्होंने अपनी पुत्री, देववर्णिनी, का विश्रवा के साथ विवाह किया (७ ३, ३) । सीता के शपथ-ग्रहण के समय ये भी श्रीराम की सभा मे उपस्थित थे (७ ९६, ४) ।

२. भरद्वाज, वाल्मीकि मुनि के एक शिष्य का नाम है जो तमसा नदी के तट पर अपने गुरु के साथ उपस्थित थे (१. २, ४) ।

भार्गव—इनका अपनी पत्नी रेणुका से मिलनेका उल्लेख (१. ५१, ११) । ये श्रीराम के दर्शन के लिये मुमन्त्र को अपने आगमन की सूचना देते हैं (७. ६० ४) । श्रीराम ने उत्तर मे भार्गव यादि ऋषियो से उनके कार्य को सिद्ध करने के लिये पूछा (७ ६१, १) । इन्होंने लवणामुर के बल तथा मत्याचार का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिये श्रीराम से प्रार्थना की (७ ६१, २-२५) । दानुज्ज ने यमुना-तट पर भार्गव आदि मुनियो के साथ कथा-वार्ता द्वारा कालशेष करते हुये निवास किया (७. ६६, १६) । सीता के शपथ ग्रहण के समय ये श्रीराम के दरवार मे उपस्थित थे (७ ९६ ३) ।

भास्करण, रावण के एक सेनापति का नाम है । इसने रावण की आज्ञा-नुसार (५ ४६, १-१४) प्रथम को साथ लेकर हनुमान् पर आक्रमण किया परन्तु हनुमान् ने इसका वध कर दिया (५ ४६, ३१-३५) । यह केतुमती और मुमालिन् का पुत्र था (७ ५, ३८-४०) ।

भासी, ताम्बा और कश्यप की एक पुत्री का नाम है (३. १४, १७) । इसने भास नामक पक्षियो को जन्म दिया (३ १४, १८) ।

भीम, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन वा हनुमान् ने दर्शन किया था (५ ६, २३) ।

१. **भृगु**, हिमालय पर्वत के एक शिखर का नाम है (१ ३८, ५) ।

२. **भृगु**, एक महर्षि का नाम है जिन्होंने राजा सगर और उनकी पत्नी के सौ वर्ष तपस्या करने से प्रमत्त होकर वर दिया (१ ३८, ६) । इन्होंने सगर को वरदान देते हुए बताया कि उनकी एक पत्नी एक पुत्र को, और द्वितीय पत्नी ६०,००० पुत्रों को जन्म देगी (१ ३८, ७-८) । 'भृगु सत्यवता वर', (१ ३८, ६) । 'भाषमाण नरव्याघ्र राजपुत्र्यौ प्रसाद्य तम्', (१ ३८, ९) । 'भृगु परमधामिन', (१ ३८, ११) । सगर की पत्नियों के यह पूछने पर कि किसको एक पुत्र और किसको ६०,००० पुत्र उत्पन्न होंगे, इन्होंने बताया कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है (१. ३८, ९-१२) । आश्रम में उपद्रव-पूर्ण कार्य करने के कारण इनके दराजों ने हनुमान् को शाप दे दिया (७ ३६, ३२-३४) । विष्णु द्वारा इनकी पत्नी का वध कर देने पर इन्होंने विष्णु को शाप दे दिया (७ ५१, ११-१६) । शाप की विफलता के भय से पीड़ित होकर भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान् विष्णु की आराधना की (७, ५१, १६-१७) । राजर्षि निमि ने अपना यज्ञ कराने के लिये इन्हे आमन्त्रित किया (७ ५५, ९) । यज्ञ समाप्त होने पर सन्तुष्ट होकर इन्होंने निमि के जीव-चैतस्य को पुनः उनके शरीर में ला देने के लिये कहा (७ ५७, १२) ।

भृगु-पत्नी—इवासुर-सम्राट् में देवताओं से पीड़ित हुये दैत्यों को भृगु-पत्नी ने अभय प्रदान किया जिससे कुपित होकर विष्णु ने चक्र से उनका (भृगु पत्नी का) सर काट लिया (७ ५१, ११-१३) ।

भृगुतुङ्ग, एक पर्वत का नाम है जहाँ पत्नी और पुत्रों के साथ बैठे हुये ऋषीक मुनि का अम्बरीष ने दर्शन किया (१ ६१, ११) ।

भोगवती, पाताल की एक नगरी का नाम है जो नागराज वासुकि की राजधानी थी । रावण ने इस पर आक्रमण करके इसे अपने अधिनार में कर लिया था (३ ३२, १३) । "कुञ्जर पर्वत पर स्थित यह पुरी दुर्जय थी । इसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत थी । यह सब ओर से सुरक्षित थी और तीक्ष्ण दाढ़ों वाले महाविपैते सर्प इसकी रक्षा करने थे (४, ४१, ३६-३८) ।" यहाँ सर्पराज वासुकि निवास करते थे । मुषीक ने अङ्गद को विशेष रूप से इन नगरी में प्रवेश करने सीता को खोजने के लिये भेजा (४ ४१, ३८) । यह नागों से सुरक्षित थी (५ ३, ५) । रावण द्वारा इस नगरी में प्रवेश करके युद्ध में नागों को पराजित कर देने का उल्लेख (६. ७, ४; ७ २३, ५) ।

म

मकराक्ष, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने आग लगा दी थी (५ ५४, १४) । यह तर का पुत्र था (६ ७८, २) । वानरो सहित राम और लक्ष्मण का वध करने की रावण की आज्ञा (६ ७८, २-३) को इसने स्वीकार कर लिया (६ ७८, ४) । इसने रावण की आज्ञा पर सेनाप्यक्ष से रथ और सेना लेकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले निशाचरो के साथ युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया । इस समय इसके मार्ग में बहुत से अप्सरानु हूये (६ ७८, ५-२१) । "वानरो और राक्षसों का युद्ध हुआ । इसने वानरो को बाणसमूहों से घायल कर दिया जिससे वे युद्धभूमि से इधर-उधर भागने लगे (६ ७९, १-७) ।" इसने राम के पास जाकर उन्हें दृढ़ युद्ध के लिये ललकारा (६ ७९, ९-१६) । "इसका राम के साथ युद्ध हुआ । राम ने इसके धनुष, रथ और शूल के टुकड़े-टुकड़े करके अन्त में अपने आग्नेयास्त्र से इसका वध कर दिया (६ ७९, २१-४१) ।"

मगध, एक देश का नाम है जहाँ के शूरवीर, सर्वशास्त्र विद्यारद, परम उदार और पुरुषों में श्रेष्ठ राजा, प्राप्तिज्ञ, को दशरथ ने अपने अश्वमेध यज्ञ में आमन्त्रित किया था (१ ३३ २६) । शोण नदी का इस देश में बहने के कारण 'मगधी' का नाम पड़ा (१ ३२, ८-९) । दशरथ का यहाँ आधिपत्य था, अतः उन्होंने नैकेयो को धान्त करने के लिये इस देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिये कहा (२ १०, ३९-४०) । सुग्रीव ने विनत को यहाँ सीता की खोज के लिये भेजा था (४ ४०, २२ ।।

मङ्गल, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरंजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३ २) ।

मखि-भद्र, कुबेर के सेनापति का नाम है जिसे रावण के सेनापति प्रहस्त ने कैलास पर्वत पर घटित हुये युद्ध में पराजित किया था (६ १९, ११) । कुबेर की आज्ञा पर (७ १५, १-२) इन्होंने ४,००० यक्षों को साथ लेकर राक्षसों पर आक्रमण किया (७ १५, ३-६) । "इन्होंने धूम्राक्ष पर मदा का प्रहार करके उसे पराजित कर दिया, जिस पर दुषित हुये रावण ने इसके मुकुट पर प्रहार किया । रावण के इस प्रहार से इनका मुकुट क्षिप्त कर पार्वत में आ गया जिससे वे 'वासवंमौलि' के नाम से प्रसिद्ध हुये (७ १५, १०-१५) ।"

मतङ्ग, एक ऋषि का नाम है जिनका आश्रम श्रीशारण्य से ३ कोस दूर पूर्व में स्थित था (३ ६९, ८) । इनके नाम पर प्रसिद्ध मतङ्ग वन पम्पा सरोवर के तटवर्ती ऋष्यभूक पर्वत पर स्थित था जिरामे इस ऋषि की इच्छा

सम्भव है वह तो आप पात्र, अर्घ्य और फल-मूल आदि देकर कर ही चुके हैं ।' (२ ९१, २) । भरद्वाज के पूछने पर इन्होंने बताया कि आश्वमेध में विघ्न न न उपस्थित हो इसलिये इन्होंने अपनी सेना को पीछे ही छोड़ दिया है (२ ९१, ६-९) । महर्षि भरद्वाज के आग्रह पर इन्होंने अपनी सेना को भी वहीं बुलवा लिया (२ ९१, १०) । भरद्वाज के आग्रह पर इन्होंने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित महल में प्रवेश किया और वहाँ की व्यवस्था देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुये (२ ९१, ३५-३६) । "उस भवन में इन्होंने दिव्य राज-मिहासन, चँबर, और छत्र भी देखे तथा श्रीराम की भावना करके मन्त्रियों सहित उन समस्त राजकीय वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्रीराम के विराजमान होने की भावना से उमका पूजन करने के बाद ये अपने हाथ में चँबर लेकर मन्त्री के आसन पर बैठे (२ ९१, ३७-३८) ।" गन्धर्वों और अप्सराओं ने नर्तन तथा गायन से इनका मनोरंजन किया (२ ९१, ४०-४०) । दूसरे दिन प्रातः काल प्रस्थान की आज्ञा लेने के लिये ये भरद्वाज मुनि के पास गये (२ ९२, १) । भरद्वाज के पूछने पर इन्होंने बताया कि आतिथ्य-सत्कार की सुन्दर व्यवस्था से ये तथा इनकी सेना अत्यन्त सन्तुष्ट हुई, और तदनन्तर इन्होंने मुनि से चित्रकूट में श्रीराम के निवास का पता बताने के लिये कहा (२ ९२, ४-८) । भरद्वाज के बहर्ने पर इन्होंने उनसे अलग अलग अपनी मानाओं का परिचय कराया (२ ९२, १९-२६) । कैंकेयी का परिचय कराने समय ये क्रोध से भर कर फुफकारते हुए सपं की भाँति लम्बी सास खींचने लगे (२ ९२, २७) । महर्षि भरद्वाज से आज्ञा लेकर इन्होंने अपनी सेना आदि को यात्रा के लिये सन्नद्ध होने का आदेश दिया (२ ९२, ३१) । ये स्वयं एक शिविका में बैठकर चले (२ ९२, ३६) । इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ, जो समुद्र जैसी प्रतीत हो रही थी, भरत ने यात्रा आरम्भ की (२ ९३, ३-४) । चित्रकूट के निकट पहुँचने पर इन्होंने उस स्थान के प्राकृतिक सौन्दर्य का वसिष्ठ तथा शत्रुघ्न से वर्णन किया (२ ९३, ६-१९) । तदनन्तर इन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण का पता लगाने के लिये अपने आदिमियों को आदेश दिया (२ ९३, २०) । जब सैनिकों ने एक स्थान पर धूँआ उठता हुआ देखकर इन्हे सूचित किया तो अपने समस्त सैनिकों को वही स्थान वा आदेश देकर मुमन्त्र और धृति के साथ स्वयं उन स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की (२ ९३, २२-२५) । जहाँ से धूँआ उठ रहा था उस स्थान पर इन्होंने अपनी दृष्टि स्थिर की (२ ९३, २६) । इनकी और इनकी सेना को देखकर लक्ष्मण ने रोपपूर्ण उद्गार प्रकट किये (१. ९६, १७-३०) । 'मुमन्त्र्यं तु सीमित्रि लक्ष्मण श्रोधमूर्च्छितम्', (२ ९७, १) । 'महाबले महोत्साहे भरते

स्वयमाग्ने', (२ ९७, २) । 'मन्येऽहमागतोऽप्योष्या भरतो भ्रातृवत्सल । मम प्राणात्प्रियतर कुलधर्मंमनुस्मरन् ॥', (२ ९७, ०९) । इन्होंने सेना से उस स्थान की शान्ति को भङ्ग न करते हुये विश्राम करने की आज्ञा दी (२ ९७, २९) । "अपनी सेना को एक स्थान पर ठहरने का आदेश देने के पश्चात् इन्होंने शत्रुघ्न तथा गृह और उनके अनुचरों से श्रीराम के आश्रम का पता लगाने के लिये कहा । ऋत्विजों और मन्त्रियों सहित इन्होंने भी आश्रम का पता लगाने का निश्चय करते हुये कहा कि जब तक श्रीराम आदि का पता नहीं चल जाता तब तक मन की शान्ति नहीं मिल सकती (२ ९८, १-१३) ।" इस प्रकार व्यवस्था करके इन्होंने पैदल ही वन में प्रवेश किया और एक साल-बृक्ष पर चढ़कर श्रीराम की कुटिया को देखा (२ ९८, १४-१६) । श्रीराम का पता चल जाने पर ये अत्यन्त हर्षित हो साधियों सहित उनके स्थान की ओर चले (२ ९८, १७-१८) । "अपनी सेना को ठहरा कर ये श्रीराम के दशरथ के लिये शत्रुघ्न के साथ चले । उस समय ये शत्रुघ्न से मार्ग का वर्णन करते जाते थे (२ ९९, १) । इन्होंने—गुरुपरसल—महर्षि वसिष्ठ से कहा कि ये इनकी माताओं को लेकर आये (२ ९९, २) । श्रीराम की कुटिया को देखकर इन्होंने समझ लिया कि ये अब मन्दाकिनी के तट पर विशाल हाथियों तथा ऋषि-मुनियों से सेवित उस स्थान पर पहुँच गये हैं जिसका मुनि भरद्वाज ने निर्देश किया था (२ ९९, ४-१३) । "मन्दाकिनी के तट पर स्थित चित्रकूट में पहुँचकर यह इस बात को सोचकर विलाप करने लगे कि श्रीराम को इन्हीं के कारण वनवास मिला । इस प्रकार सोचकर इन्होंने श्रीराम, सीता तथा लक्ष्मण के चरणों में गिरकर उन लोगों को मनाने का निश्चय किया (२ ९९, १४-१७) ।" इस प्रकार विलाप करते हुये कुटिया के सम्मुख खड़े होकर इन्होंने देखा कि वेदी पर श्रीराम वीरासन में, सीता तथा लक्ष्मण के साथ, विराजमान हैं (२ ९९, १८-२८) । "श्रीराम को देखते ही इनका धैर्य समाप्त हो गया और ये शोक के आवेग को रोक नहीं सके । इन्होंने अधु बहाते हुये गद्गद वाणी में कहा 'जो सर्वथा सुख-वैभव के ही योग्य हैं वे श्रीराम मेरे कारण ऐसे दुःख में पड़ गये हैं । मेरे इस लोकनन्दित जीवन को धिक्कार है।' (२ ९९, २९-३६) ।" इतना कहते हुये ये 'आर्य !' कह कर भूमि पर गिर पड़े और शोक के कारण इसके अतिरिक्त कोई शब्द इनके मुख से निकल नहीं सका (२ ९९, ३७-३९) । श्रीराम ने इन्हे छाती से लगाते हुये अपनी गोद में बैठा लिया (२ ९९, ४०, १००, १-३) । श्रीराम ने कुशल-प्रश्न के बहाने इन्हें राजनीति का उपदेश दिया (२, १००, ४-७६) । बल्कल धारण करने, जटा-जूटा रखने, तथा वन में आने का जब श्रीराम और लक्ष्मण

ने इनसे कारण पूछा तो इन्होंने श्रीराम से अयोध्या लौट कर राजसिंहासन ग्रहण करने का निवेदन किया (२ १०१, ४-१३) । इन्होंने पुनः श्रीराम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हुये पिता की मृत्यु का समाचार दिया और उनसे पिता का अन्तिम सस्कार आदि करने का निवेदन किया (२ १०२, १-९) । पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर जब श्रीराम मूर्च्छित हो गये तो इन्होंने उन्हें सहारा दिया (२ १०३, ५) । इन्होंने श्रीराम से पिता को जलाञ्जलि आदि देने के लिये कहा (२ १०३, १७) । पिता को जलाञ्जलि देने के लिये वे भी श्रीराम के साथ मन्दाकिनी के तट पर गये (२ १०३, २४-२५) । जब श्रीराम और वसिष्ठ ने अपना-अपना आसन ग्रहण कर लिया तो अपने अनुचरो सहित ये हाथ जोड़कर बैठे (२ १०४, २९-३०) । समस्त रात्रि शोकपूर्वक व्यतीत करने के पश्चात् इन्होंने श्रीराम से अयोध्या लौटकर सिंहासन ग्रहण करने के लिये कहा (२ १०५, १-१२) । “जब श्रीराम ने अयोध्या न लौटने का अपना दृढनिश्चय व्यक्त किया तब इन्होंने उनसे करबद्ध होकर चरणो में धीरा नवाते हुये एक बार पुनः राज्य-सिंहासन ग्रहण करके क्षत्रियो के कर्तव्य का पालन करने के लिये कहा । साथ ही इन्होंने इस प्रकार निवेदन किया ‘आप पिता की योग्य सतान बने रहे और उनके अनुचित काम का समर्थन न करें । कैंकेयी, मैं, पिताजी, सुहृदगण, बन्धु-बान्धव, पुरवासी, तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिये आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें । आज आप मेरी माता के कलङ्क को धो डालें तथा पिता को भी निन्दा से बचायें । यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी आपके साथ वन चलूँगा ।’ (२ १०६, २-३२) ।” श्रीराम ने इन्हे समझाकर अयोध्या लौटने का आदेश दिया (१ १०७, १-१९) । “श्रीराम को अपने निश्चय पर दृढ़ देखकर इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किये उसी प्रकार सत्याग्रह करने का विचार प्रकट किया जिस प्रकार साहूवार के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के द्वार पर मुह डँक कर बिना अन्न जल के पडा रहता है । इस प्रकार निश्चय करके इन्होंने मुमन्त्र से श्रीराम की कुटिया के द्वार पर कुत्त बंधाने के लिये कहा (२ १११, १२-१४) ।” मुमन्त्र को सकोच करते देखकर इन्होंने स्वयं ही कुत्ता बंधाया (२ १११, १५) । जब श्रीराम ने इनसे अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया तो इन्होंने नगर और जनपद के लोगों से कहा कि वे लोग भी श्रीराम को समझायें (२ १११, १९) । पिता के वचन की रक्षा के लिये इन्होंने श्रीराम के स्थान पर स्वयं वन में रहने की इच्छा प्रकट की (२ १११, २४-२६) । उस समय अन्तरिक्ष में अरुण्य भाव से सखे हुये मुनियो तथा प्रत्यक्ष रूप से बैठे महर्षियो की बात सुनकर इन्होंने श्रीराम से करबद्ध प्रार्थना

की कि वे मिहामन को स्वीकार करके वनवास की अवधि के लिये अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दें (२ ११२, ९-१३) । यह कह कर ये श्रीराम के चरणों पर गिर कर उनसे अपनी वात मानने के लिये प्रबल आग्रह करने लगे (२ ११२, १४) । “इन्होंने श्रीराम से कहा ये दो गुवर्णभूषित पादुकायें आपके चरणों में उपरि हैं, आप इनपर अपने चरण रख दें । ये ही सम्पूर्ण जगत् के योग-राम का निर्वाह करेंगी ।” (२ ११२, २१) । “श्रीराम की चरण-पादुका को ग्रहण करत हुए इन्होंने श्रीराम से कहा ‘मैं भी चौदह वर्ष तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का आहार करता हुआ आपके आग्रह की प्रतीक्षा न नगर से बाहर ही निवास करूँगा । यदि चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होने पर तीन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन न मिला तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा ।” (२ ११२, २३-२५) ।” इन्होंने श्रीराम की चरण-पादुकाओं को राजकीय हाथी के मस्तक पर स्थापित किया और श्रीराम से विदा ली (२ ११२, २९) । श्रीराम की दोनों चरण-पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर ये शत्रुघ्न के साथ रथ पर बैठे (२ ११३, १) । चित्रकूट पर्वत की परिष्कमा करके ये महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे (२ ११३, ३-५) । इन्होंने आदरपूर्वक महर्षि का अभिवादन किया (२ ११३, ६) । महर्षि के पूछने पर इन्होंने बताया कि श्रीराम ने अयोध्या न लौटने का दृढ निश्चय कर लिया था और वशिष्ठ जी के कहने पर अपनी अनुपस्थिति में अपनी चरण-पादुकाओं को अपना प्रतिनिधि मानना स्वीकार किया (२ ११३, ८-१४) । ‘भरतस्य महात्मनः,’ (२ ११३, १५) । इनके उच्च विचारों की महर्षि भरद्वाज ने अत्यन्त प्रशंसा की (२ ११३, १६-१७) । इन्होंने महर्षि भरद्वाज से विदा ली (२ ११३, १८-१९) । समुद्र तथा मञ्जा को पार करने के पश्चात् शृङ्गवरपुर होते हुए य अयोध्या आये जो निहत्लाह, अन्वकारपूर्ण और उदास दिखाई पड़ रही थी (२ ११३, २०-२४) । इन्होंने अयोध्या को उदास देखा (२ ११४, १९-२६) । इन्होंने अधुनूरित मेरु के साथ दशरथ से रहित महल में प्रवेश किया (२. ११४, २७-२९) । अपनी माताओं को पहुँचा कर इन्होंने श्रीराम के लौटने तक नन्दिग्राम में निवास करने का निश्चय व्यक्त किया (२ ११५, १-३) । जब मन्त्रियों ने इसकी स्वीकृति दे दी तो इन्होंने सारथि से अपना रथ तैयार करने के लिए कहा (२ ११५, ७) । माताओं से विदा लेकर इन्होंने शत्रुघ्न और मन्त्रियों सहित नन्दिग्राम के लिए प्रस्थान किया । (२ ११५, ८-९) । भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर श्रीराम की चरण-पादुका लिए हुए रथ पर बैठ कर सीधे नन्दिग्राम की ओर चले

(२ ११५, १२) । नन्दिग्राम पहुँच कर इन्होंने गुरुजनो से कहा 'मेरे भ्राता ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है, और उनकी ये चरण-पादुकायें ही सबके योग-श्रेम का निर्वाह करने वाली हैं।' (२ ११५ १३-१४) । तदनन्तर मस्तक झुकाकर उन चरण-पादुकाओं के प्रति धरोहरस्वरूप राज्य को समर्पित करते हुए इन्होंने समस्त प्रकृतिमण्डल से भी यही बात कही (२ ११५, १५-२०) । बल्कल, जटा, तथा मुनि का वेश धारण करके भरत अपने मन्त्रियों सहित नन्दिग्राम में पादुकाओं को श्रीराम का प्रतिनिधि मानते हुये निवास करने लगे (२ ११५, २१-२४) । इनके तपस्या के इस क्रम की लक्ष्मण ने सराहना की 'अस्मिस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःखसमन्वित । तपश्चरति-धर्मान्मा त्वद्भक्त्या भरत पुरे ॥,' (३ १६, २७) । 'अत्यन्तसुप्तसदृश सुकुमारो हिमादित,' (३ १६, ३०) । 'पश्यन्नेक्षण श्याम श्रीमान्निरुदरो महान् । धर्मज्ञ सत्यवादी च ह्रीनिषेधो जितेन्द्रिय ॥ प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहुर-रिदम । सत्यज्य विविधाभोगानार्थं सर्वात्मना श्रित ॥,' (३ १६ ३१-३२) । इन्होंने इस उक्ति को मित्या प्रमाणित कर दिया कि 'मनुष्य प्रायः पिता के नहीं वरन् माता के गुणों का ही अनुकरण करते हैं।' (३, १६, ३४) । राम उम्र दिन की उद्विग्नतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे जब उनका इनसे पुनर्मिलन होगा (३, १६, ३९-४०) । 'ता पालयति धर्मात्मा भरत गत्यवागृजु । धर्मकामार्थनस्त्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रत ॥ नयश्च वितयश्चोभौ यस्मिन्मत्य च सुस्थितम् । विक्रमश्च यथा शृणु सा राजा देशकालवित् ॥,' (४, १८, ७-८) 'यस्मिन्पतिशाहूँले भरते धमवत्सले,' (४ १८, १०) । श्रीराम ने इनका स्मरण किया (४ २८, ५५) । 'अयोध्या से एक कोस की दूरी पर हनुमान् ने आश्रमवासी भरत को देखा जो चौर-वस्त्र और काला मृग-चर्म धारण किये हुए दुःखी एवं दुर्मल दिखाई पड़ रहे थे । उनके मस्तक पर बड़ी हुई जटा और शरीर पर मैल थी । भ्राता के वनवास के दुःख ने उन्हें बहुत कृश कर दिया था । फल-मूल ही उनका आहार था । वे इन्द्रियों का दमन करते तपस्या में लिप्त तथा धर्माचरण करते थे । उनके सर पर जटा का भार बहुत ऊँचा हो गया था, और उनका शरीर भी बल्कल तथा मृग-चर्म से ढँका था । वे बड़े मदन से रहते थे । उनका अन्न करण अत्यन्त निर्मल था, और वे एक ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे । वे श्रीराम की चरण-पादुकाओं को आगे रखकर पृथिवी का शासन करते थे । (६ १२५, २९-३४) । 'जब हनुमान् ने इन्हें श्रीराम के सबुल लोट आने का समाचार दिया तो पहले तो ये हृष्य से मूर्च्छित हो गये किन्तु चेतना लौटने पर हनुमान् का आश्रित बन कर उन्हें अधुओं से सिचिन कर दिया । तदनन्तर इन्होंने हनुमान् को वदुमूय

उपहार दिये (६ १२५, ४०-४६) ।" बनेक वर्षों के पश्चात् श्रीराम का नाम सुनकर इन्होंने अपार हर्ष हुआ, और इन्होंने हनुमान् ने पूछा कि श्रीराम और वानरों की मैत्री किस प्रकार हुई (६ १२६, १-३) । हनुमान् से समस्त वृत्तान्त सुन कर इन्होंने कहा कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो गई (६ १२६, ५६) । 'श्रुत्वा तु परमानन्द भरत सत्यविक्रम,' (६ १२७, १) । "इन्होंने शत्रुघ्न ने कहा 'शुद्धाचारी पुरुष कुल-देवताओं तथा नगर के समस्त देवम्यानों का मुनिचिन्तन पूष्या द्वारा सममारोह पूजन करें । नगर को मलीभांति सजाया जाय, तथा समस्त पुरवामी श्रीराम के स्वागत के लिए नगर से बाहर चलें ।' इनकी वान को सुन कर शत्रुघ्न ने तदनुरूप व्यवस्था करने की आज्ञा दी (६ १२७, १-५) । 'ये श्रीराम की चरण-पादुकाओं की अपने मस्तक पर धारण करके मानार्ज, अगोष्वावामियों, मयियों इत्यादि के साथ श्रीराम के स्वागत के लिए नन्दिग्राम आये (६ १२७, १४-१९) । कुछ दूर चलने के पश्चात् इन्होंने हनुमान् से पूछा कि उन्होंने सत्य समाचार दिया था या नहीं, क्योंकि उस समय तक श्रीराम का कोई चिन्ह नहीं लक्षित हुआ (६ १२७, २०-२१) । जब श्रीराम का विमान इनकी ओर बढ़ा तो वे उसपर दृष्टि लगा कर करबद्ध सड़ हो गये और दूर से ही अर्घ्य-पाद्य आदि से श्रीराम का विधिवत् पूजन किया (६ १२७, ३०-३२) । "जब श्रीराम का विमान भूमि पर उतरा तो इन्होंने एक बार पुनः श्रीराम का अभिवादन करने के बाद उनका आलिङ्गन किया । इसके बाद लक्ष्मण तथा सीता का अभिवादन करके इन्होंने वानरसूययतियों का आलिङ्गन तथा सुग्रीव और विभीषण का स्वागत किया (६ १२७, ३५-४४) ।" इन्होंने श्रीराम की चरण-पादुकाओं उनके चरणों में पहना दी और बोले 'मेरे पाम घरोहर के रूप में रक्खा हुआ समस्त राज्य आज मैंने आपके धीचरणों में लौटा दिया जिसमें मेरा जन्म मफल हो गया' (६ १२७, ५०-५३) । इन्होंने करबद्ध होकर श्रीराम से प्रार्थना की कि वे अब राज्य मिहामन ग्रहण करें (६ १२८, १-११) । तदनन्तर इन्होंने स्नान आदि करके नवीन वस्त्र धारण किया (६ १२८, १४-१५) । ये श्रीराम के रथ के सारथि बने (६ १२८, २८) । राम की आज्ञा से इन्होंने सुग्रीव को श्रीराम के अशोकपाटिका से घिरे हुए भवन में प्रवेश कराया तथा श्रीराम के अभिषेक के निमित्त जल लान के लिये उनसे वानरों की भेजने के लिये कहा (६. १२८, ४६-४८) । लक्ष्मण के अश्वीकार करने पर इन्हें मुबराज-पद पर अभिषिक्त किया गया (६ १२८, ९३) । राम के राज्याभिषेक के दूसरे दिन अन्य आताओं के साथ वे भी उनकी समा में उपस्थित हुये (७ ३७, १७) । वन में सीता के अपहरण का समाचार

सुनकर इन्होंने अनेक भूपालों को राक्षसों पर आक्रमण करने के लिये एकत्र किया था (७ ३८, २४) । राजाओं ने जो रत्नादि के उपहार दिये थे उन्हें लेकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित ये अयोध्या आये (७ ३९, ११-१२) । इन्होंने श्रीराम के विलक्षण प्रभाव के अन्तर्गत अयोध्या की समृद्धि के लिये श्रीराम की प्रशंसा की (७ ४१, १७-२२) । राम के बुलाने पर ये तत्काल उनसे मिलने के लिये पैदल ही उनके भवन की ओर चल पड़े (७ ४४, ७-८) । "राम के पास पहुँच कर इन्होंने उन्हें अत्यन्त उद्दिग्ध देखा । उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात् इन्होंने आसन ग्रहण किया (७ ४४, १४-१८) ।" राम के शब्दों को सुनकर इनको यह उत्सुकता हुई कि श्रीराम क्या कहना चाहते हैं (७ ४४, २१) । श्रीराम के पूछने पर ये स्वयं लवणामुर का वय करने के लिये प्रस्तुत हुये (७ ६२, ९) । राम के आदेश पर इन्होंने शत्रुघ्न के अभिप्रेक की आवश्यक व्यवस्था की (७ ६३, १२) । ये शत्रुघ्न को पहुँचाने के लिये गये (७ ७२, २१) । श्रीराम के उपस्थित होने पर ये उनके दर्शन के लिये गये (७ ८३, १-२) । श्रीराम द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव करने पर इन्होंने विनम्रतापूर्वक विरोध करते हुये कहा कि इस प्रकार के यज्ञ से भूमण्डल के समस्त राजवंशों का विनाश हो जायगा (७ ८३, ९-१५) । श्रीराम द्वारा इल की कथा कहने पर इन्होंने उत्सुक होकर पूछा कि वाद म इल का क्या हुआ (७ ८८, १-३) । किपुष्प जाति की उत्पत्ति का प्रसंग सुनकर लक्ष्मण सहित इन्होंने अत्यन्त आश्चर्य प्रगट किया (७ ८९, १) । पुष्करवा के जन्म का वृत्तान्त सुनने के पश्चात् इन्होंने पुनः श्रीराम से इल के सम्बन्ध में पूछा (७ ९०, १-२) । राम के आदेश के अनुसार ये उस स्थान पर गये जहाँ यज्ञ की व्यवस्था हो रही थी (७ ९१, २७) । यज्ञ के समय ये शत्रुघ्न के साथ आमन्त्रित राजाओं के स्वागत सत्कार के लिये नियुक्त किये गये थे (७ ९२, ५) । राम के आदेश पर इन्होंने अपने पुत्रों सहित एक विशाल सेना लेकर गन्धर्वों के देश के लिये प्रस्थान किया (७ १००, २०-२४) । ये पन्द्रह दिन के पश्चात् केकय पहुँचे (७ १००, २५) । युधाजित् के साथ मिलकर इन्होंने गन्धर्वों के देश पर आक्रमण किया (७ १०१, १-३) । सप्ताहान्त तक इन्होंने तीन करोड़ गन्धर्वों का विनाश कर दिया (७ १०१, ५-८) । "गन्धर्व देश को विजित करके इन्होंने उसकी दो राजधानियों, तक्षशिला और पुष्करवादी की स्थापना की जहाँ से इनके पुत्रगण गांधार देश पर शासन करने लगे । तदनन्तर पाँच वर्ष के पश्चात् इन्होंने अयोध्या लौटकर श्रीराम की सम्पूर्ण वृत्तान्त से अवगत किया (७ १०१, १०-१८) । श्रीराम के कहने पर इन्होंने

राजकुमार अङ्गद को काश्यप का और राजकुमार चन्द्रकेतु को चन्द्रकान्त का शासक बनाने का प्रस्ताव किया (७ १०२, ५-६) । 'ततो राम परा प्रीति लक्षणो भरतस्तथा । ययुर्द्वि दुरापर्षा अभियेक य चक्रिरे ॥', (७. १०२, १०) । एक वर्ष तक चन्द्रकेतु के साथ रहने के पश्चात् ये अयोध्या लौटे (७. १०२, १२-१४) । इस प्रकार, ये दस महत्त्व वर्षों तक आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे (७ १०२, १५-१७) । जब इन्होंने यह समाचार सुना कि श्रीराम इन्हें राज्य तौर पर बन चले जाना चाहते हैं तो ये जैसे सत्ताहीन हो गये (७ १०७, १-५) । राज्य को अन्वीकार करते हुये इन्होंने लव और कुश का राज्याभिषेक करने का प्रस्ताव रक्खा, और शीघ्रगाम्भी द्वीप के द्वारा श्रीराम सहित अपनी महात्माया का समाचार शत्रुघ्न के पास भेजा (७. १०७, ५-८) । श्रीराम के परमपाम जाने के समय ये भी उनके साथ गये (७ १०९, ११) ।

१. भरद्वाज, एक ऋषि का नाम है जिनके परामर्श पर ही श्रीराम ने चित्रकूट में अश्वना जाधम बनाया (१ १, ३१) । लड्डा से लौटते समय श्रीराम न इन्ही के आश्रम में रुक कर हनुमान् के द्वारा नरत के पास अपने आगमन का समाचार भेजा (१ १, ८७) । इनके साथ श्रीराम के मिलन की घटना का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१. ३, १५-३७) । इनकी परमात्म्या में प्रवेश करके श्रीराम ने, तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की समस्त बाधाओं को दूर करने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सेनेवाले एकप्रचित्त तथा तीक्ष्ण बन्धारी महात्मा भरद्वाज का, दर्शन किया जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुये आसन पर बिराजमान थे (२ ५४, ११-१२) । श्रीराम आदि का हार्दिक स्वागत करने के पश्चात् इन्होंने उन लोगों को विविध उपहार दिये (२ ५४, १७-१९) । इन्होंने श्रीराम से बनाया कि ये उन लोगों के वनवास का कारण जानते हैं, और इसके बाद इन्होंने उन लोगों को अपने आश्रम में रहने के लिये आमन्त्रित किया (२ ५४, २१-२२) । श्रीराम के आवृत्ति करने पर इन्होंने उन्हें चित्रकूट नामक म्यान पर आवास बनाने का परामर्श दिया (२ ५४, २८-३२) । 'प्रभाताया तु शर्वरीं भद्राजकुपामनत् । उवाच नरसादूलो मुनि ज्वलितनेत्रजम् ॥ शर्वरीं नायतत्र सप्तरीं तत्राश्रमे । उदिना स्नेह वसतिमनुजानानु नो भवान् ॥', (२ ५४, ३६-३७) । दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीराम के पूछने पर इन्होंने चित्रकूट का वर्णन करते हुये पुनः उगी का उल्लेख किया (२ ५४, ३८-४३) । जब श्रीराम आदि चित्रकूट के लिये प्रस्थान करने लगे तो इन्होंने उन लोगों का 'स्वम्लयन' किया (२. ५५, १-२) । चित्रकूट के मार्ग का विस्तृत वर्णन करने के पश्चात् ये लौटे

आये (२ ५५, ३-१०) । भरत ने गुह से इनके आश्रम का मार्ग पूछा (२ ८५, ४) । 'भरद्वाजमृषिप्रवर्धम्', (२ ८९, २१) । 'स ब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य । ददर्श रम्पोटजवृक्षदेश महद्भन प्रियवरस्य रम्यम् ॥', (२ ८९, २२) । महर्षि वसिष्ठ को देखकर महातपस्वी भरद्वाज अपने आसन से उठ खड़े हुये और अपने शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य लाने के लिये कहा (२ ९०, ४) । जब भरत ने इनके चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने इन्हें पहचान लिया (२ ९०, ५) । इन्होंने वसिष्ठ और भरत को अर्घ्य, पाद तथा फल आदि निवेदन करने के पश्चात् उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा (२ ९०, ६) । यह दशरथ की मृत्यु का समाचार जान गये थे अत उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछा (२ ९०, ७) । 'भरद्वाजो महायशा', (२. ९०, ९) । इन्होंने राम के प्रति भरत के उद्देश्यों पर शका प्रगट करते हुये उनसे एतद्विषयक प्रश्न किये (२ ९०, ९-१३) । भरत के उत्तर से अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्होंने श्रीराम का पता बताते हुये भरत को अपने आश्रम में ही वह रात्रि व्यतीत करने के लिये आमन्त्रित किया (२ ९०, १९-२३) । इन्होंने भरत का सत्कार करने की इच्छा प्रगट की (२ ९१, १) । जब भरत ने इनके इस प्रस्ताव पर कुछ सकोच का अनुभव किया तब इन्होंने उनकी सेना का सत्कार करने का प्रस्ताव करते हुये पूछा कि उन्होंने सेना को पीछे क्यों छोड़ दिया है (२ ९१, ३-५) । इन्होंने भरत से सेना को आश्रम में ही बुलाने के लिये कहा (२ ९१, १०) । इन्होंने अपनी अग्निशाखा में प्रवेश करके जल का आचमन करने के पश्चात् भरत के आतिथ्य-सत्कार के लिये विश्व-कर्मा तथा अन्य देवताओं, गन्धर्वों आदि का आवाहन किया (२ ९१, ११-२२) । इन्होंने भरत से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भवन में प्रवेश करने का अनुरोध किया (२ ९१, ३५) । जो फूल देवताओं के उद्यानों और चंद्ररथ वन में उत्पन्न हुआ करते थे वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दृष्टिगत होने लगे (२ ९१, ४७) । दूसरे दिन प्रातः काल इन्होंने गन्धर्वों तथा समस्त सुन्दरी अप्सराओं आदि को विदा किया (२ ९१, ८२) । प्रातः काल, जब भरत करबड़ होकर इनके सम्मुख उपस्थित हुये तो इन्होंने उनसे पूछा कि उन्हे रात्रि में ठीक से निद्रा आई अथवा नहीं (२ ९२, २-३) । 'ऋषि-मुत्तमतेजसम्' (२ ९२, ४) । 'भरद्वाजो महातपा', (२ ९२, ९) । भरत के पूछने पर इन्होंने चित्रकूट के मार्ग का वर्णन किया (२ ९२, १०-१४) । जब भरत की माताओं ने इन्हें प्रणाम किया तब इन्होंने भरत से उनका परिचय कराने के लिये कहा (२ ९२, १४-१९) । 'भरद्वाजो महर्षिस्तु भुवन्त भरत तदा । प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमयं वत् ॥', (२ ९२, २८) ।

इन्होंने भरत को यह परामर्श देते हुये कि उन्हें कंकणी पर आश्रय नहीं करना चाहिये, यह बताया कि श्रीराम का वनवास वास्तव में देवों, दानवों और ऋषियों के कल्याण के लिये ही हुआ है (२. १२, २९-३०) । चित्रकूट से लौटते समय भरत पुनः इनके आश्रम पर वाये (२. ११३, ५) । भरत के प्रणाम करने पर इन्होंने उनसे पूछा कि वे श्रीराम से मिले अथवा नहीं (२. ११३ ६-७) । इन्होंने भरत के श्रेष्ठ और उच्च विचारों के लिये उनकी प्रशंसा की (२. ११३, १६-१७) । "श्रीराम के पूछने पर इन्होंने बताया कि अयोध्या में सब कुशल है । इन्होंने यह भी बताया कि श्रीराम का वनवास आरम्भ होने के समय से अब तक की समस्त घटनाएँ भी इन्हें ज्ञान है । तदनन्तर इन्होंने श्रीराम से यह रात्रि अपने आश्रम में ही व्यतीत करने का अनुरोध किया (६. १२४, ४-१७) । इन्होंने राम को उनके द्वारा माँगा हुआ बरदान दिया (६. १२४, २०) । श्रीराम के अयोध्या लौटने पर ये उत्तर दिशा से उनके अभिवादन के लिये उपस्थित हुये (७. १, ६) । इन्होंने अपनी पुत्री, देवप्रियत्री, का विश्रवा के साथ विवाह किया (७. ३, ३) । सीता के शपथ-ग्रहण के समय ये भी श्रीराम की सभा में उपस्थित थे (७. १६, ४) ।

२. भरद्वाज, वाल्मीकि मुनि के एक शिष्य का नाम है जो तमसा नदी के तट पर अपने गुरु के साथ उपस्थित थे (१. २, ४) ।

भार्गव—इनका अपनी पत्नी रेणुका से मिलने का उल्लेख (१. ५१, ११) । ये श्रीराम के दर्शन के लिये सुमन्त्र को अपने आगमन की सूचना देते हैं (७. ६० ४) । श्रीराम ने उत्तर में भार्गव आदि ऋषियों से उनके कार्य की सिद्ध करने के लिये पूछा (७. ६१, १) । इन्होंने लक्ष्मणामुर के बल तथा अत्याचार का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिये श्रीराम से प्रार्थना की (७. ६१, २-२५) । शत्रुघ्न ने यमुना-तट पर भार्गव आदि मुनियों के साथ कथा-वार्ता द्वारा कालक्षेप करते हुये निवास किया (७. ६६, १६) । सीता के शपथ-ग्रहण के समय ये श्रीराम के दरवार में उपस्थित थे (७. १६ ३) ।

भास्करा, रावण के एक सेनापति का नाम है । इसने रावण की आज्ञा-नुसार (५. ४६, १-१४) प्रपन्न को साथ लेकर हनुमान् पर आक्रमण किया परन्तु हनुमान् ने इनका वध कर दिया (५. ४६, ३१-३५) । यह केतुमती और मुमालिन् का पुत्र था (७. ५, ३८-४०) ।

भासी, ताम्रा और कश्यप की एक पुत्री का नाम है (३. १४, १७) । इसने भास नामक पशियों को जन्म दिया (३. १४, १८) ।

भीम, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन का हनुमान् ने दर्शन किया था (५ ६, २३) ।

१. **भृगु**, हिमालय पर्वत के एक गिखर का नाम है (१ ३८, ५) ।

२. **भृगु**, एक महर्षि का नाम है जिन्होंने राजा सगर और उनकी पत्नी के सौ वर्ष तपस्या करने से प्रसन्न होकर वर दिया (१ ३८, ६) । इन्होंने सगर को वरदान देते हुए बताया कि उनकी एक पत्नी एक पुत्र को, और द्वितीय पत्नी ६०,००० पुत्रों को जन्म देगी (१ ३८, ७-८) । 'भृगु सत्यवता वर', (१ ३८, ६) । 'भाषमाण नरव्याघ्र राजपुत्र्यौ प्रसाद्य तम्', (१ ३८, ९) । 'भृगु परमधामिक', (१ ३८, ११) । सगर की पत्नियों के यह पूछने पर कि किसको एक पुत्र और किसको ६०,००० पुत्र उत्पन्न होंगे, इन्होंने बताया कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है (१. ३८, ९-१२) । आश्रम में उपद्रव-पूर्ण कार्य करने के कारण इनके वराजो न हनुमान् को शाप दे दिया (७ ३६, ३२-३४) । विष्णु द्वारा इनकी पत्नी का वध कर देने पर इन्होंने विष्णु को शाप दे दिया (७ ५१, ११-१६) । शाप की विफलता के भय में पीड़ित होकर भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान् विष्णु की आराधना की (७, ५१, १६-१७) । राजर्षि निमि ने अपना यज्ञ कराने के लिये इन्हें आमन्त्रित किया (७ ५५, ९) । यज्ञ समाप्त होने पर सन्तुष्ट होकर इन्होंने निमि के जीव-चैतस्य को पुनः उनके शरीर में ला देने के लिये कहा (७ ५७, १२) ।

भृगु-पत्नी—दवासुर-संग्राम में देवताओं में पीड़ित हुये दैत्यों को भृगु-पत्नी ने अभय प्रदान किया जिससे क्रुपित होकर विष्णु ने चक्र से उनका (भृगु पत्नी का) सर काट लिया (७ ५१, ११-१३) ।

भृगुतुङ्ग, एक पर्वत का नाम है जहाँ पत्नी और पुत्रों के साथ बैठे हुये ऋचीक मुनि का अम्बरीष न दर्शन किया (१ ६१, ११) ।

भोगवती, पाताल की एक नगरी का नाम है जो नागराज वासुकि की राजधानी थी । रावण ने इस पर आक्रमण करके इसे अपने अधिकार में कर लिया था (३ ३२, १३) । "कुञ्जर पर्वत पर स्थित यह पुरी दुर्जय थी । इसकी मड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत थी । यह मव ओर से मुरक्षिण थी और तीखी दाढ़ों वाले महाविपैले सर्प इसकी रक्षा करते थे (४, ४१, ३६-३८) ।" यहाँ मर्पराज वासुकि निवास करते थे । सुग्रीव ने अङ्गद को विशेष रूप से इस नगरी में प्रवेश करके सीता को खोजने के लिये भेजा (४ ४१, ३८) । यह नागों से मुरक्षित थी (५ ३, ५) । रावण द्वारा इस नगरी में प्रवेश करके मुद्ग में नागों को पराजित कर देने का उल्लेख (६. ७, ४, ७ २३, ५) ।

म

मकराक्ष. एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने जाग लगा दी थी (५ ५४, १४) । यह मर का पुत्र था (६ ७८, २) । वानरों सहित राम और लक्ष्मण का वध करने की रावण की आज्ञा (६ ७८, २-३) को इमने स्वीकार कर लिया (६ ७८, ४) । इसने रावण की आज्ञा पर सेनाध्यक्ष से रथ और सेना लेकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले निशाचरों के साथ युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया । इस समय इसके मार्ग में बहुत से अपसवृत्त हुये (६ ७८, ५-२१) । "वानरों और राक्षसों का युद्ध हुआ । इमने वानरों को बाणमूहों में घायल कर दिया जिससे वे युद्धभूमि से इधर-उधर भागने लगे (६ ७९, १-७) ।" इमने राम के पास जाकर उन्हें द्वन्द्व युद्ध के लिये ललकारा (६ ७९, ९-१६) । "इसका राम के साथ युद्ध हुआ । राम ने इमके धनुष, रथ और झूल के टुकड़े-टुकड़े करके अन्त में अपने आत्मयात्र से इसका वध कर दिया (६ ७९, २१-४१) ।"

मगध. एक देश का नाम है जहाँ के शूरवीर, सर्वज्ञान-विद्यारत्न, परम उदार और पुण्य में श्रेष्ठ राजा, प्राज्ञ, को दशरथ ने अपने अरथमेघ यज्ञ में आमन्त्रित किया था (१ १३ २६) । शोण नदी का इस देश में बहने के कारण 'मागधी' का नाम पड़ा (१ ३२, ८-९) । दशरथ का यहाँ आविपत्य था, अतः उन्होंने कन्येयों को प्राप्त करने के लिये इस देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुयों भी प्रस्तुत करने के लिये कहा (२ १०, ३९-४०) । सुग्रीव ने धिनन को यहाँ सीता की खोज के लिये भेजा था (४ ४०, २२ । ।

मङ्गल, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३ २) ।

मणि-भद्र, कुबेर के सेनापति का नाम है जिसे रावण के सेनापति प्रहस्त ने कलास पर्वत पर पठित हुये युद्ध में पराजित किया था (६ १९, ११) । कुबेर की आज्ञा पर (७ १५, १-२) इन्होंने ४,००० यथों को साथ लेकर राक्षसों पर आक्रमण किया (७ १५, ३-६) । "इन्होंने घुमास पर भद्रा का प्रहार करके उसे पराजित कर दिया, जिस पर कुपित हुये रावण ने इनके मुट्ट पद प्रहार किया । रावण के इस प्रहार से इनका मुट्ट लिखक कर पारस में आ गया जिससे वे 'पारसमौलि' के नाम से प्रसिद्ध हुये (७ १५, १०-१५) ।"

मतङ्ग, एक ऋषि का नाम है जिनका आश्रम त्रैश्वारम्य से ३ कोस दूर पूर्व में स्थित था (३ ६९, ८) । इनके नाम पर प्रसिद्ध मतङ्ग वन पम्पा सरोवर के तटवर्ती ऋष्यभूक पर्वत पर स्थित था जिसमें इस ऋषि की इच्छा

के अनुसार गजराजों से कोई भी भय नहीं था (३ ७३ २८-३०) । यह वन मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु-पक्षियों से युक्त था (३, ७४, २१) । इस वन में इनके शिष्यगण निवास करती थी और यहीं शबरी भी रहती थी (३ ७४, २२-२७) । दुन्दुभि के मृत शरीर से निकले दूधे रक्त-विन्दु जब हवा से उड़कर इनके आश्रम में आ गिरे तब इन्होंने उन वानरों को इस वन में प्रवेश करने पर मृत्यु हो जाने का शाप दे दिया जिनके कारण वे रक्त-विन्दु इनके आश्रम में आ गिरे थे (४ ११, ४८-५८) । जब वालिन् क्षमा-याचना के लिये इनके आश्रम में आया तो इन्होंने उससे मिलना अस्वीकार कर दिया (४ ११, ६२-६३) । वालिन् को दिये गये इनके शाप को हनुमान् ने दुहराया और सुग्रीव ने भी उसका स्मरण किया (४ ४६, २२) ।

मत्त, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् पधारें थे (५ ६, २५) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५ ५४, १३) । रावण ने इसको अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिये युद्धभूमि में भेजा (६ ६९, १६) । इसने ऋषभ के साथ युद्ध किया जिसमें ऋषभ ने इसका वध कर दिया (६ ७०, ४९-६५) । यह माल्यवान् और सुन्दरी का पुत्र था (७ ५, ३५-३७) ।

मत्स्य, एक समृद्धिशाली देश का नाम है । दशरथ ने वैकेयी को शान्त करने के लिये इस देश में उत्पन्न होनेवाली बहुमूल्य वस्तुयें भी प्रदान करने के लिये कहा (२ १०, ३९-४०) । सुग्रीव ने अङ्गद को यहाँ सीता की खोज के लिये भेजा (४ ४१, ११) ।

१. मद्यन्ती, मित्रसह की रानी का नाम है जिसने मासयुक्त भोजन को वसिष्ठ के सामने रखवा (७ ६५, २६) । इसने राजा सोदास को वसिष्ठ को शाप देने से रोक दिया (७. ६५. २९-३०) । इसने वसिष्ठ को प्रणाम करके बताया कि उनका रूप धारण करके किसी ने इसे ऐसा भोजन देने के लिये प्रेरित किया था (७ ६५, ३३) ।

२. मद्यन्ती, सोदास की भक्तिमती पत्नी का नाम है (५ २४, १२) । **मद्रक**, उत्तर दिशा के एक देश का नाम है जहाँ सुग्रीव ने सतयुग का सीता की खोज के लिये भेजा था (४ ४३, ११) ।

१. मधु, एक दैत्य का नाम है जिसका विष्णु ने दिव्य बाण से वध किया था (७ ६३, २२, ६९, २७) । इसके अस्त्रि-समूहों से भरी हुई पर्वतों सहित पृथिवी प्रगट हुई (७ १०४, ६) ।

२. मधु, एक शक्तिशाली राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसने रावण की मोसेरी बहन, कुम्भीनसी, का अपहरण किया था (७ २५, २२-२७) । कुम्भीनसी

की मध्यस्थता से रावण ने इससे सन्धि कर ली (७ २५, ३८-५१) । “लोला का ज्येष्ठ पुत्र मधु अत्यन्त ब्राह्मणभक्त तथा शरणागतबल्ल था । इसकी बुद्धि सुस्वियर, और अत्यन्त उदार स्वभाववाले देवताओं के साथ इसकी अनुलनीय मित्रता थी । बल-विक्रम से सम्पन्न यह एकाग्रचित्त होकर धर्मानुष्ठान में लगा रहता था । इमने भगवान् शिव की आराधना की जिससे उन्होंने अद्भुत वर दिया (७ ६१, ३-६) ।” इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने एक शक्तिशाली शूल देते हुये बनाया कि जब तक यह ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करेगा तब तक ही वह शूल इसके पास रहेगा अन्यथा अशुभ हो जायगा (७ ६१, ७-९) । इसने शिव से प्रार्थना की कि वह परम उत्तम शूल इसके वसत्रों के पास भी सदैव रहे (७ ६१, १०-२१) । “इसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुये शिव ने बनाया कि वह शूल इसके पुत्र लवण के पास रहेगा । इमने एक दीप्तिमान् भवन बनवाया तथा विन्ध्यावसु और जनला की पुत्री कुम्भीनसी से विवाह किया । अपने पुत्र लवण की जहृष्टता पर क्रोध से जलते हुये मधु ने वह शूल लवण को दे दिया (७ ६१, १४-२०) ।”

मधुमत्त, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरञ्जन करता था (७ ४३, २) ।

मधुमन्त, राजा दण्ड की राजधानी का नाम है (७ ७९, १७-१८) ।

मधुरा, एक नगरी का नाम है जिसे मधुपुत्र लवणासुर के मारे जाने के पश्चात् शूरसेन-जनपद में शत्रुघ्न ने बसाया था । इसे बसाने में १२ वर्ष लगे । यह ममुना के पट पर अर्धचन्द्राकार बनी और अनेकानेक सुन्दर गृहों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से सुशोभित थी । इममें चारों धर्मों के लोग निवास करते थे तथा विभिन्न प्रकार के शान्तिजन्य-व्यवसाय इस पुरी की शोभा बढ़ाते थे । यह पौराणिक ही समृद्धिपालिनी हो गई (७. ७०, ५-१४) ।

मधुवन—सुग्रीव के इस वन की उनके मामा, दधिमुल्ल नामक वानर, रक्षा करते थे । सीता की खोज के लिये यहाँ गये हुये वानरों ने इस वन को देखकर दधिमुल्ल से इसके मधु का पान करने की अनुमति माँगी (५ ६१, ७-१२) ।

मधु-स्पन्द, विश्वामित्र के ‘सत्यवधपरायण’ पुत्र का नाम है जिनका जन्म उस समय हुआ था जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे (१ ५७, ३-४) । त्रिशङ्कु के लिये यज्ञ की व्यवस्था करने की विश्वामित्र ने इन्हें आज्ञा दी (१ ५९, ६) । इन्होंने बलि के लिये शुन श्रेष्ठ का स्थान लेना अस्वीकार कर दिया जिनपर विश्वामित्र ने इन्हें वसिष्ठ के पुत्रों की भाँति कृत्त के मांस खानेवाली मुष्टिक आदि जानियों में जन्म लेकर एक सहस्र वर्ष तक पृथिवी पर रहने का शाप दे दिया (१. ६२, ८-१७) ।

१ मनु, एक प्रजापति का नाम है जो विवस्वान् के पुत्र और इक्ष्वाकु के पिता थे (१ ७०, २०-२१)। श्रीराम ने उम भूमि को देखा जो इन्होंने इक्ष्वाकु को दी थी (२ ४९, १२)। इन्होंने अयोध्या की स्थापना की (२ ७१, १७)। वाल्मिन् के प्रति अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने के लिये श्रीराम ने इनकी सहिता का उल्लेख किया (४ १८, ३२)। 'पुरा वृत्रयुगे राम मनुर्दण्डधर प्रनु', (७ ७९, ५)। अपने पुत्र को राज्यसिंहासन देने के पदवान् इन्होंने उन्हें प्रजाजनो को दण्ड देने में विशेष सनक रहने का आदेश देने हुये स्वयं स्वर्गलोक के लिये प्रस्थान किया (७ ७९, ५-११)।

२ मनु, दक्ष की एक पुत्री का नाम है जो कश्यप को विवाहित थी (३ १४, १०-११)। इसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र जातिवाले मनुष्यों को जन्म दिया (३ १४, २९)।

मन्त्रपाल, भरत के एक मंत्री का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके स्वागत के लिये नगर ने बाहर आये (६ १२७, ११)।

१. मन्थरा, विरोचन की पुत्री का नाम है। जब इसने पृथिवी का नाश करने की इच्छा की तब इन्द्र ने इसका वध कर दिया (१ २५ २०)।

२. मन्थरा, एक दासी का नाम है जिसे कँकेयी ने अपने पिता से प्राप्त किया था। इसने राज प्रामाद के ऊपर चढ़कर श्रीराम के अभिषेक के लिये नगर में हो रहे उत्सवों तथा आयोजनों को देखा (२ ७, १-६)। श्रीराम की धार से जब इसको यह ज्ञान हुआ कि दूसरे दिन ही श्रीराम का युवराज के पद पर अभिषेक होनेवाला है तब यह क्रोध में भर कर छत्र से नीचे उतरी और सीधे कँकेयी के कक्ष में गई (२ ७, १२-१३)। "इसने कँकेयी से कहा 'तू क्या सो रही है ? तुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुरवस्था का बोध नहीं है। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाते हैं मानो समस्त सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परन्तु तेरे पीछे वे तेरा अनिष्ट ही करते हैं। जैसे ग्रीष्मऋतु में नदी का प्रवाह सूख जाता है उसी प्रकार तेरा सौभाग्य भी समाप्त होनेवाला है।' (२ ७, १४-१५)।" कँकेयी के पूछने पर इसने राम को युवराजपद पर अभिषिक्त करने के दशरथ के विचार को पणपातपूर्ण बनाने हुये कँकेयी को अपने पुत्र के अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिये उक्तावने का प्रयास किया (२ ७ १९-३०)। क्रोध में आकर इसने कँकेयी द्वारा प्रदत्त आभूषणों आदि को फेंक दिया (२ ८, १)। "इसने कँकेयी से कहा 'तुम अपनी मौत के पुत्र की समृद्धि को देखकर भी चुप हो। ऐसी स्थिति सोनेली माँ के लिये माघान् मृत्यु के समान है। इस राज्य पर भरत और राम दोनों का समान अधिकार है। राम

तुम्हारे पुत्र के प्रति जो श्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे उसे सोचकर मैं भय से काँप उठती हूँ। कौसल्या भूमण्डल का निष्कण्टक राज्य-पद पाकर प्रसन्न होगी और तुम्हें दाम्नी के रूप में उनके निःकट उपस्थित रहना होगा। भरत को भी श्रीराम की सेवा करनी होगी और इस प्रकार उनके प्रभुत्व के नाश होने से तुम्हारी वधुमें शोकमग्न हो जायेंगी।' (२ ८, २-१९)।" कँकेयी के यह बताने पर कि राम ही मित्रासन के वास्तविक अधिकारी हैं और राम की राज्य-प्राप्ति के सो वर्षों के पश्चात् भरत को निश्चित रूप से राज्य मिलेगा ही, इन्होंने कहा कि राजा ही जाने पर राम अपने मार्ग से भरत के कण्टक को समाप्त कर देना चाहेंगे, अब कँकेयी को चाहिये कि वह श्रीराम के निर्वाचन की योजना बनाये (२ ८, १३-३९)। कँकेयी के पूछने पर इन्होंने उससे अपने परामर्शों पर ध्यान देने के लिये कहा (२ ९, ५-७)। "इन्होंने कँकेयी को देवामुर-सग्राम में इन्द्र के मित्र के रूप में शम्बर से युद्ध करते समय दशरथ की प्राण रक्षा करने के कारण उनके द्वारा दो वर देने के वचन का स्मरण कराया। इन्होंने कँकेयी से कहा कि वह दशरथ से उसी वचन को पूरा करने का आग्रह करते हुये उनसे एक वर के अन्तर्गत श्रीराम को चौदह वर्षों का वनवास और दूसरे के अन्तर्गत भरत को राज्य माँगे। इस अभीष्टसिद्धि के लिये उसने कँकेयी को यह परामर्श दिया कि वह मीले वस्त्र-धारण करके क्रोधागार में चली जाय क्योंकि दशरथ अपना प्राण देकर भी उसे प्रसन्न करना चाहेंगे। इन्होंने अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन स्वीकार न करने के लिये भी कहा (२ ९, ११-३६)।" कँकेयी ने जब इसके परामर्शों को स्वीकार कर लिया तब इन्होंने उनमें शीघ्रता करने के लिये कहा (२ ९, ५४)। "इन्होंने कँकेयी से कहा कि यदि राम राज्य प्राप्त कर लेंगे तो यह भरत और उसके लिये अत्यन्त सन्ताप का विषय होगा। अब इन्होंने भरत को राज्य दिलाने के लिये हर प्रकार का प्रयत्न करने के लिये कँकेयी को परामर्श दिया (२ ९ ६०-६१)।" इसकी बातों को स्वीकार करके कँकेयी ने इससे अपना सारा मन्तव्य बतला दिया (२ १०, २)। कँकेयी की योजना को सुनकर यह ऐसी प्रसन्न हुई मानो समस्त कार्य मिट्ट हो गया (२ १०, ४-५)। यह समस्त आभूषणों से विभूषित हो राजभवन से पूर्वद्वार पर खड़ी हो गई (२ ७८, ५-७)। द्वारपालों ने इसे पकड़ लिया और घसीटते हुये शत्रुघ्न के पास लाकर कहा कि वे इसके साथ यथोचित व्यवहार करें (२ ७८, ८-९)। शत्रुघ्न ने इसको बलपूर्वक पकड़ लिया जिससे भयभीत होकर यह आर्तनाद करने लगी (२ ७८, १२)। शत्रुघ्न ने इसे भूमि पर पटक कर घसीटा जिससे यह खोर-खोर से चीत्कार करने लगी (२ ७८, १६)। जब शत्रुघ्न इसे घसीट रहे थे तो उस समय इसके विविध आभूषण

टूट-टूटकर बिखरने लगे (२ ७८, १७) । भरत के कहने पर शत्रुघ्न ने इसे छोड़ा (२ ७८, २४) । यह कँकेयी के पैरों पर गिर कर घोर विलाप करने लगी (२ ७८, २५) । कँकेयी ने इसे सान्त्वना दी (२ ७८, २६) । चित्रकूट में श्रीराम के पास आकर समस्त पुरवासियों के नेत्र आँसुओं से भीग गये और वे मन्वरा सहित कँकेयी की निन्दा करने लगे (२ १०३, ४६) ।

१. मन्दाकिनी, एक नदी का नाम है जो चित्रकूट पर्वत के उत्तर में स्थित थी (२ ९२ ११) । श्रीराम ने इसकी तटवर्ती शोभा का सीता से वर्णन किया (२ ९५, ३-११) । भरत इसके तट पर पहुँचे (२ ९९, १४) । 'नदी मन्दाकिनी राया सदा पुष्पितकाननाम् ॥ शीघ्रस्रोतसमासाद्य तीर्थ शिवमकदमम् ।' (२ १०३, २४-२५) । श्रीराम और लक्ष्मण ने इसके जल में प्रवेश करके अपने पिता को जल और तदनन्तर इसके तट पर आकर इङ्गदी का पिण्ड दिया (२ १०३, २५-२९) । राम से विदा लेकर भरत चित्रकूट की परिक्रमा करते हुये रमणीक मन्दाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुये (२ ११३, ३) । इसकी धारा की विपरीत दिशा में कुछ और ऊपर महर्षि मुतीषण का आश्रम था (३. ५, ३६) । इसके तट पर निवाम करनेवाले ऋषियों की राक्षस गण अत्यन्त क्रुद्ध किया करते थे (३ ६, १७) ।

२ मन्दाकिनी, एक सुरम्य और उत्तम नदी का नाम है जो कैलाश पर्वत पर स्थित थी । इसका जल सुवर्ण-कमलो तथा अन्य सुगन्धित पुष्पों से व्याप्त, तथा तट गन्धर्वों और देवों इत्यादि से सेवित था (७ ११, ४१-४४) ।

मन्दार, एक पर्वत का नाम है जिसे सागर-मन्थन के समय मथनी बनाया गया था (१ ४५, १८) । मन्थन के समय यह पर्वत पाताल में प्रवेश कर गया (१ ४५, २७) । कच्छप के रूप में विष्णु ने इसे धारण किया (१ ४५, २९-३०) । सुग्रीव ने हनुमान् से इस पर्वत पर निवास करनेवाले वानरों को भी आमन्त्रित करने के लिये कहा (४ ३७, २) । सुग्रीव ने वित्त से इस पर्वत के शिखर पर स्थित ग्रामों में मोना की खोज करने के लिये कहा (४ ४०, २४) । प्रमाथी नामक वानर-यूथपति इस पर्वत पर निवाम करता था (६ २७, २७ ३०) ।

मन्देश, एक राक्षस वर्ग का नाम है जो लोहित सागर में निवास करते थे । प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते थे, परन्तु सूर्य मण्डल के ताप से सन्तप्त तथा ब्रह्मतेज से निहत हो समुद्र के जल में गिर पड़ते थे । तदनन्तर वहाँ से पुन जीवित होकर दल शिखरों पर लटक जाते थे । इनका बारम्बार यही क्रम चला करता था (४. ४०, ३९-४०) ।

मन्दोदरी, रावण की रूप-सम्पन्ना महिषी का नाम है जिसे हनुमान् ने सोने देवा (५ १०, ५०) । 'मुक्तामणिममायुक्तं नूपणं मुमुषिष्ठाम् । विभूषयन्तीमिव च स्वधिया भवनोत्तमम् ॥', (५. १०. ५१) । 'गौरी कनकवर्णा-भामिष्ठामन्व-पुरेण्वगेम् । कपिमन्दोदरी तत्र दायाना चारुहृषिणीम् ॥', (५ १०, ५२) । 'हृषयोवनसंपदा', (५ १०, ५३) । यह मय की पुत्री थी (६ ७, ७) । इतने मुझ भूमि में अपने पति की मृत्यु पर विलाप किया (६ १११, १-९०) । इनके पिता ने रावण के साथ इसका विवाह किया (७. १२, १६-२३) । इनने मेघनाद को जन्म दिया (७ १२, २८) ।

मय—रावण ने सीता का हरण करने के पश्चात् लंका लाकर उन्हें अपने अन्न पुर में इन प्रकार रख दिया मानो मयासुर ने भूर्तिमती आमुरी माया को वहाँ स्थापित कर दिया हो (३ ५४, १३) । इनने मीनाक पर्वत पर अपना भवन बनाया (४ ४३, ३०) । 'मयो नाम महातेजा मायावी दानरपंभ । तेनेहं निमित्तं ऋद्धं मायया वाञ्छन् वरम् ॥', (४ ५१, १०) । 'पुरा दानव-पुत्र्याना विश्वकर्मा बभूवह । देनेद वाञ्छन् दिव्यं निमित्तं भवनोत्तमम् ॥', (४ ५१, ११) । 'इमने एक सहस्र वर्ष तक वन में धीरे तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान के रूप में ऋष्याचार्य का समस्त शिल्प-र्विद्वत् प्राप्त कर लिया था । सम्पूर्ण कामनाओं के स्वामी, इस बलवान् असुर ने, श्रृंगबिल के क्षेत्र में स्थित समस्त वस्तुओं का निर्माण करके उस महान वन में कुछ कालतक मुखपूर्वक निवास किया था । आगे चलकर इस दानव का हेमा नामक अप्सरा के साथ सम्पर्क हो गया जिसके कारण देवेश्वर इन्द्र ने अपने बज्र के द्वारा इसका वध कर दिया (४. ५१, १०-१४) ।' इसने रावण से भयभीत होकर उसे मित्र बना लेने की इच्छा करते हुए अपनी पुत्री को उसे समर्पित कर दिया (६ ७, ७) । 'एक दिन रावण जब वन में भ्रमण कर रहा था तो उसने मयासुर तथा उसकी पुत्री मन्दोदरी को देखा (७ १२, ३-४) ।' 'रावण के पूछने पर इसने बताया कि बहुत दिन तक हेमा पर आसक्त होकर उसके पास रहने के पश्चात् एक दिन वह स्वर्गलोक चली गई और चौदह वर्ष व्यतीत होने पर भी लौटी नहीं । इमने यह भी बताया कि उसकी पुत्री मन्दोदरी उनी हेमा के गर्भ में उत्पन्न हुई थी जिसके लिए वह अब उपयुक्त वर की चिन्ता कर रहा है । तदनन्तर इमने रावण से उसका परिचय पूछा (७ १२, ५-१४) । रावण का परिचय प्राप्त करने के पश्चात् इमने मन्दोदरी का उसके साथ विवाह कर दिया (७. १२, १६-१९) ।

मरौचि, ब्रह्मा के पुत्र जीर कश्यप के पिता का नाम है (१. ७०, १९) । यह एक प्रजापति थे जो स्याणु के बाद हुए थे (३ १४, ८) ।

१. मरु, वीरग के पुत्र और प्रशुश्रुक के पिता का नाम है (१ ७०, ४१) ।

२ मरु, हर्यश्व के पुत्र और प्रतीग्वक के पिता का नाम है (१ ७१, ९) ।

मरुत्त, एक राजा का नाम है जिसे उशीर देश में देवताओं के साथ यज्ञ करने हुये रावण ने देखा (७ १८, २) । मरुत्त के पास पहुँच कर रावण ने इनमें युद्ध करने अथवा अधीनता स्वीकार कर लेने के लिये वृथा (७ १८, ६-७) जिसे सुनकर मरुत्त ने रावण से उसका परिचय पूछा (७ १८, ८) । रावण की चुनौती को स्वीकार करके जय ये रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये तैयार हुये तब सवत्त ने यज्ञ की दीक्षा ले चुकने के कारण इन्हे युद्ध से विरत कर दिया (७ १८, ११-१७) । 'ये सवत्त के शिष्य थे । इन्होंने इला को पुरुषत्व-प्राप्ति के निमित्त बुध के आश्रम के निकट अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया (७ ९०, १४-१५) ।

मरुद्गण—जब महादेव मरुद्गणों के साथ सरयू-गंगासगम पर जा रहे थे तब काम ने उन पर आक्रमण किया (१ २३, ११) । वलि ने इन्हे विजित कर लिया था (१ २९, ४) । कुमार वृत्तिकेय को दूध पिलाने के लिए इन्होंने छोटी वृत्तिकाओं को नियुक्त किया (१ ३७, २४) । राजा भगीरथ वे ब्रह्माजी से वर प्राप्त करने के पश्चात् ये भी भगीरथ के साथ स्वर्गलोक को चले गये (१ ४२, २६) । अदिति ने इन्द्र से यह वर माँगा कि उसके गर्भस्थ शिशु के सात खण्ड सात व्यक्ति होकर सातों मरुद्गणों के स्वामी का पालन करनेवाले हो जाय, और इन्द्र ने इसे स्वीकार किया (१ ४७, ३-८) । इन्होंने बन्धवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर इन्द्र की अण्डकोश से युक्त करने की प्रायश्चा की (१ ४९, ५) । राम के वनगमन के समय उनकी रक्षा करने के लिए कौमल्या ने इनका भी आवाहन किया था (२ २५, ८) । ये सायकाल में पर्वत पर आकर सूर्यदेव का उपस्थापन करते थे (४ ४२, ३९) । इन्होंने धीराम के राज्याभिषेक के समय आकाश में स्थित होकर स्तम्भ की मधुर ध्वनि का श्रवण किया (६ १२८, ३०) । इन्द्र की आज्ञानुसार (७ २७, ४) ये रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गये (७ २७, ५) । ये युद्ध के लिए तैयार होकर अमरावती पुरी से बाहर निकले (७ २७, २२) । ये रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये इन्द्र के साथ हो लिये (७ २८, २७) । इन्होंने राक्षस सेना का सहार किया (७ २८, ३७ ४१) । सीता के शपथ-ग्रहण के समय ये भी राम की समा में उपस्थित हुए (७ ९७, ८) । इन्होंने विष्णुरूप में स्थित हुये धीराम की पूजा की (७ ११०, १३) ।

मलद—'जब पूर्वकाल में वृत्रामुर का वध करने के पश्चात् इन्द्र मनु से श्रित हो गये तब देवताओं ने गंगा-जल से भरे हुये बल्लसों द्वारा स्नान कराकर

यही उनका मल (और काश्यप-धुवा) छुड़ाया जिससे यह जनपद मलद नाम से प्रसिद्ध हुआ (१ २४, १८-२३) । 'यह जनपद दीर्घकाल तक समृद्धिशाली, और घन-वान्य से सम्पन्न रहा । कुछ समय के अनन्तर इच्छागुप्ता रूप धारण करनेवाली यक्षिणी ताटका और उसके पुत्र मारीच ने आकर यहाँ की प्रजा को त्राम पहुँचाना आरम्भ किया (१ २४, २४-२७) । विश्वामित्र ने श्रीराम को बताया कि यह देश अत्यन्त रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता (१. २४, ३१) ।

मस्य, एक पर्वत का नाम है जहाँ हनुमान् का वात्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, २८) । भरद्वाज के आश्रम में इस पर्वत का स्पर्श करके बहनेवाली वायु घीरे-घीरे बही (२ ९१, २४) । पर्वतराज ऋष्यमूक पर श्रीराम और लक्ष्मण के पवारने से मयभीन होकर अपने शिष्यों सहित सुग्रीव इस पर्वत पर चले आये (४ २, १४) । ऋष्यमूक पर्वत के एक मिसर का नाम है (४ ५, १) । इस पर्वत के सभी म्यानों में मुन्दर चन्दन के वृक्ष हैं, यहाँ सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये अङ्गद को भेजा था (४. ४१, १४) । अमस्य ऋषि इसके समीप निवास करते थे (४ ४१, १५-१६) । हनुमान् ने इसका दर्शन किया (५ १) । बानर सेना के साथ श्रीराम ने इसके विचित्र कान्तो, नदियों, तथा झरनों की शोभा देखते हुये माया की (६ ४, ७३) ।

महा-कपाल, द्रुपण के एव सेनापति का नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध करने के लिये आया था (३ २३, ३४) । द्रुपण की मृत्यु के पश्चात् सेना के आगे चलने वाले महाकपाल ने एक विशाल शूल से श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, १७-१८) । श्रीराम ने इसका मिर एव कपाल काट दिया (३ २६, २०) ।

महा-ग्राम—सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये विनय को कोशल, विवेक, मालव, काशी आदि देशों के महाग्रामों में भेजा (४ ४, २२) ।

महादेव—स्थानु—ने सरयू और गङ्गा के संगम-क्षेत्र में घोर तपस्या की (१ २३, १०) । एक दिन जब ये समाधि में उठकर मरुद्गणों के साथ नहीं जा रहे थे तो कान्वर्ष ने इनके मन का विचलित करने का प्रयास किया जिस पर क्रुद्ध होकर इन्होंने उसे (कान्वर्ष को) भस्म कर दिया (१ २३, ११-१३) । 'पुरा राम वृत्रोद्घाह शितिकण्ठो महागपा । दृष्ट्वा च भगवान्देवी मैयुतायोवचनम् ॥ तस्य तत्रोद्भानस्य महादेवस्य धीमत । शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्य वर्षयान गतम् ॥', (१. ३६, ६-७) । जब देवी उमा के साथ श्रीराम करते इनको सौ वर्ष व्यतीत हो गये किन्तु कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ

सब देवों ने चिन्तित होकर इनसे निवेदन किया कि त्रिलोकी के हित के लिये ये अपने तेज को स्वयं अपने में ही धारण करें (१ ३६, ७-१२) । 'सर्वलोक महेश्वर', (१ ३६ १३) । देवताओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुये इन्होंने कहा कि समस्त लोकों के शान्ति-लाभ के लिये उमा सहित ये अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे (१ ३६, १४) । इन्होंने देवों से पूछा कि यदि इनका तेज स्थान्ति हो जाय तो उसे कौन धारण करेगा (१ ३६ १५) । जब देवों ने इस कार्य के लिये पृथिवी का नाम बनाया तो इन्होंने अपने तेज को छोड़ दिया, जिससे पर्वत और वनों-महित यह सम्पूर्ण पृथिवी व्याप्त हो गई (१ ३६, १६-१७) । "देवताओं के अनुरोध करने पर उम तेज को अग्नि ने अपने भीतर रख लिया । इस प्रकार अग्नि से व्याप्त होकर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया और वही सरकण्डो का वन भी प्रकट हुआ जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था । इसी वन में अग्नि-जनित महा-तेजस्वी कानिकेय का प्रादुर्भाव हुआ । तदनन्तर ऋषि-सहित देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्न हो उमा देवी और महादेव का पूजन किया (१ ३६, १८-२०) ।" उमा के शाप से देवों और पृथिवी को पीड़ित देखकर ये उमा के साथ उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे (१ ३६, २५-२६) । 'शंकर', (१. ३९ ४) । ब्रह्मा ने भगीरथ से कहा कि वे स्वर्ग से गङ्गा के गिरने के वेग को धारण करने के लिये महादेव को प्रसन्न करें क्योंकि अन्य किसी में इसकी सामर्थ्य नहीं जो गङ्गा के वेग को रोक सके (१ ४२, २४-२५) । 'अथ सवत्सरे पूर्णं सर्वलोकनमस्कृत । उमापति पशुपती राजानमिदमब्रवीत् ॥', (१ ४३, २) । भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें गङ्गा को धारण करने का वचन दिया (१ ४३, २-३) । "स्वर्ग से पृथिवी पर आने के समय गंगा ने यह विचार किया कि वे अपने वेग से शंकर को लिये-दिये पाताल में प्रवेश कर जायेंगी, परन्तु इन्होंने उनके इस अभिप्राय को जान कर उन्हें अपने जटा-जाल में ही वर्षों तक उलझा रक्खा । इनके जटामण्डल में गङ्गा को इस प्रकार अटश्य देखकर भगीरथ ने इन्हें प्रसन्न करने के लिये पुनः तपस्या की जिम पर प्रसन्न होकर इन्होंने गङ्गा को सिन्धु सरोवर में छोड़ दिया (१ ४३, ४-१०) ।" सागर मन्थन के समय वामुकि नाग के विष से प्रकट हलाहल का देवों और विष्णु के आग्रह पर इन्होंने ग्रहण किया (१ ४५, २१-२५) । ये तपस्या कर रहे विद्वामित्र के समक्ष प्रकट हुये (१ ५५, १३) । इन्होंने विश्वामित्र को उनके मनोवृत्त बर दिया (१ ५५, १८) । दश-यज्ञ के दिग्ब्रह्म के समय इन्होंने अपने महान् धनुष को उठाकर उससे देवों का मस्तक काट देने की धमकी दी जिम पर देवों ने इनकी स्तुति

करके इन्हें प्रसन्न और इन से इनका घनुष भी प्राप्त किया (१ ६६, ९-१२) । त्रिपुरामुर का वध करने के लिये देवों ने इन्हें एक महान शीव घनुष दिया (१. ७५, १२) । "एक बार देवों ने ब्रह्मा से पूछा कि शिव और विष्णु में से कौन अधिक बलशाली है । इस पर दोनों के बलाबल का परोक्षण करने के लिये ब्रह्मा ने इनमें (शिव और विष्णु में) विरोध उत्पन्न कर दिया । परिणाम-स्वरूप दोनों में भयकर युद्ध हुआ । उस समय विष्णु ने अपनी हृद्धार से शिव के घनुष को सिपिल करके उन्हें भी स्तम्भित कर दिया । शिव के घनुष को सिपिल हुआ देख कर देवों ने विष्णु को श्रेष्ठ माना । तदनन्तर क्रुपित हुए रुद्र ने बाण सहित अपने उस घनुष को विदेहराज देवरात को दे दिया (१ ७५, १४-२०) ।" कौपत्या ने बनाया कि वे अन्य देवों सहित शिव का भी सदैव पूजन करती हैं (२ २५ ४३) । गङ्गा इनके जटाजूट में उलझी रही (२ ५०, २५) । श्रीराम ने चित्रकूट में इनका भी पूजन किया (२ ५६, ३१) । इन्होंने श्वेतवन में अन्धकासुर को जलाकर भस्म कर दिया (३ ३०, २७) । इन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था (३ ५६, १०) । इनके द्वारा त्रिपुरामुर के वध का उल्लेख (३ ६४, ७२) । पूर्वकाल में इन्होंने हिमालय पर्वत पर स्थित एक विशाल वृक्ष के नीचे यज्ञ किया था (४ ३७, २८) । ये उत्तर के सोमगिरि पर निवास करते थे (४ ४३, ५५) । इन्होंने त्रिपुरामुर का वध किया था (५ ५४, ३१) । इन्होंने अन्धकासुर के साथ युद्ध किया था (६ ४३, ६) । देवताओं के स्तुति करने पर इन्होंने उन्हें आप्रवासन दिया कि राक्षसों के विनाश के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा (६ ९४, ३४-३५) । सीता का अनादर करने पर इन्होंने राम के सम्मुख उपस्थित हो उन्हें समझाया (६ ११७, २-८) । जब श्रीराम ने सीता को ग्रहण कर लिया तब इन्होंने उन्हें अयोध्या लौट कर इक्ष्वाकुवंश का प्रवर्तन तथा अश्वमेध यज्ञ करने का परामर्श देते हुए इन्द्रलोक से आये राजा दशरथ को दिखाया (६ ११९, १-८) । "एक समय जब ये वैश्व पर आसूठ होकर पार्वती के साथ आकाश-मार्ग से जा रहे थे तो सालकटकुटा के बालक, सुकेश, के रोने की आवाज सुना । उस समय पार्वती की प्रेरणा में उस बालक पर दया करते हुए इन्होंने उसे आयु में मुवा बना दिया । इतना ही नहीं, उसे अमरत्व प्रदान करते हुए निवास के लिए आकाशचारी नगराकार एक विमान भी दिया (७ ४, २७-३०) ।" सुकेश आदि राक्षसों से प्रसन्न होकर देवता उन महादेव की धरण में गये जो जगत् की सृष्टि और सहार करनेवाले, अजन्मा, अद्व्यक्त, सम्पूर्ण जगत् के आधार, आराम्य देव, परम गुरु, वामनासक, त्रिपुरविनाशक, प्रबोधक और त्रिनेत्रधारी हैं (७ ६, १-४) । 'वपरी नीललोहित ।' (७ ६, ९) । देवों की स्तुति पर

इन्होंने माह्यवान् का वध करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये उन लोगो को विष्णु की शरण में जाने के लिए कहा (७, ६, ९-१२) कुवेर की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया (७ १३, २६-३१) । जब रावण ने उस पर्वत को उठाने का प्रयाग किया जिम पर ये श्रोटा करते थे, तो इन्होंने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया जिमसे रावण की भुजायें उसी पर्वत के नीचे दब गईं (७ १६, २५-२८) । 'रावण की स्तुतियो से प्रसन्न होकर इन्होंने उसकी भुजाओ को मुक्त करते हुए उससे कहा 'तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यन्त भयानक आर्तनाद (राव) किया था इसलिये तुम 'रावण' के नाम से प्रसिद्ध होगे । अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो, निर्भय होकर जा सकते हो ।' तदनन्तर रावण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुये इन्होंने उसे चन्द्रहास नामक खड्ग और उसकी आयु के व्यतीत अक्ष को भी पुनः प्रदान कर दिया । (७ १६ ३२-४४) । "ब्रह्मा के कहने पर इन्होंने हनुमान् को अपने आयुधो से अवध्य होने का धरदान दिया (७ ३६, १८) । मधु की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे एक शूल देते हुए कहा कि जब तक वह (मधु) ब्रह्मणा और देवताओ से विरोध नहीं करेगा तब तक ही वह शूल उसके पास रहेगा (७ ६१, ५-१०) । मधु के इस अनुरोध पर कि वह शूल उसके वंशजो के पास भी रहे, इन्होंने उससे पुत्र, लवणामुर, के पास तक ही शूल को रहने देना स्वीकार किया (७ ६१, ११-१६) । 'जिस स्थान पर कार्तिकेय का जन्म हुआ था वहाँ य स्त्रीरूप में रहकर उमा का मगोरञ्जन करते थे । अन्य जो कोई भी उम स्थान पर जाता था, स्त्रीरूप में परिणत हो जाता था (७ ८७, ११-१४) ।' राजा इल उस क्षेत्र में अपने को स्त्री-रूप में परिणत हुआ देख कर इनकी शरण में गये, परन्तु इन्होंने उन्हें पुरुषत्व के अतिरिक्त ही अन्य कोई वर मांगने के लिए कहा (७, ८७, १६-१९) । "इल के लिए मरुत्त द्वारा किये गये अवधमेध से प्रसन्न होकर इन्होंने ऋषियो से राजा इल की सहायता करने का उपाय पूछा । तदनन्तर ऋषियो के अनुरोध पर इन्होंने राजा को पुनः पुरुषत्व प्रदान किया (७ ९०, १३-२०) ।"

महानदी, दक्षिण दिशा की एक नदी का नाम है, जहाँ सुग्रीव ने अङ्गद को सीता की खोज के लिये भेजा था (४ ४१, ९) ।

महानाद, प्रहस्त के एक सचिव का नाम है जिमने अपने स्वामी के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान किया (६ ५७ ३१) । इमने निर्दयतापूर्वक वानरों का वध किया (६ ५८, १९) । जाम्बवान ने इसका वध कर दिया (६, ५८, २२) ।

महापद्म, अपने मस्तक पर पृथिवी को धारण करनेवाले दक्षिण दिशा के एक दिग्गज का नाम है जिसकी, भूमि का भेदन करते हुये सगर-पुत्रो ने, दर्शन करके प्रदक्षिणा की (१. ४०, १७-१८) ।

महापार्वी, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन का हनुमान् ने दर्शन किया (५. ६, १७) । हनुमान् ने इसको रावण के सिंहासन के समीप स्थित देखा (५. ४९, ११) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५. ५४, ९) । यह रावण की राजसभा में कबचो से सुसज्जित होकर राम आदि का वध करने के लिये समर्थ खड़ा था (६. ९, १) । 'महापार्वी महाबल', (६. १३, १) । इसने रावण की सीता पर बलात्कार करने के लिये लकसाया (६. १३, १-८) । इसे लका के दक्षिण-द्वार की रक्षा के लिये नियुक्त किया गया (६. ३६, १७) । राम के वाणों से आहत होकर इसने मुद्गभूमि से पलायन किया (६. ४४, २०) । कुम्भकर्ण के वध पर इसने शोक प्रगट किया (६. ६८, ८) । यह छ. अग्य महाबली राक्षसों के साथ राम के विरुद्ध युद्ध करने के लिये गया (६. ६९, १९) । यह हाथ में गदा लेकर मुद्गस्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभित हुआ (६. ६९, ३२) । रावण की आज्ञा पर (६. ९५, २१) । इसने सेनापतियों से सेना को शीघ्र ही प्रस्थान करने की आज्ञा देने के लिये कहा (६. ९५, २२) । रावण की आज्ञा प्राप्त करके यह रपाहट हुआ (६. ९५, ३९) । 'महोदर के वध से संतप्त होकर इसने वानर-सेना का भयकर सहार करते हुए गवाक्ष और जाम्बवान् को सत-विशत कर दिया । अन्तत अङ्गद के साथ युद्ध करते हुये इसका अङ्गद ने वध कर दिया (६. ९८, १-२२) ।' देवों के विरुद्ध युद्ध करते हुये सुमाली का इसने साथ दिया (७. २७, २८) । इसने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुये रावण का अनुसरण किया (७. ३२, २२) ।

महामाली, सर के एक सेनापति का नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध करने गया था (३. २३, ३३) । सर की आज्ञा से इस महावीर बलाघ्न ने सेना सहित राम पर आक्रमण किया (३. २६, २७-२८) ।

महारुण, एक पर्वत का नाम है जहाँ रहनेवाले वानरों को बुलाने के लिये सुग्रीव ने हनुमान् को आज्ञा दी (४. ३७, ७) ।

महारौमा, कीर्तिराम के पुत्र और स्वर्णरौमा के पिता, एक राजा, का नाम है (१. ७१, ११-१२) ।

महावीर, बृहद्रथ के शूरवीर और प्रतापी पुत्र, तथा सुवृति के पिता का नाम है (१. ७१, ७) ।

मही, एक नदी का नाम है जहाँ सुग्रीव ने विनत को सीता की खोज के लिय भेजा था (४ ४०, २१) ।

महीधक, विबुध के पुत्र और कीर्तिरात के पिता का नाम है (१ ७१, १०-११) ।

महेन्द्र, एक पर्वत का नाम है जहाँ परशुराम, कश्यप को पृथिवी का दान करने के पश्चान् आश्रम बनाकर रहते थे (१ ७५, ८ २५-२६) । परशुराम महेन्द्र पर्वत से शिव के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर श्रीराम के पास उनकी शक्ति की परीक्षा लेने आये (१ ७५, २६) । श्रीराम ने पराजित होकर परशुराम शीघ्र ही महेन्द्र पर्वत पर चले गये (१ ७६, २२) । यहाँ निवास करनेवाले बानरो को बुलाने के लिये सुग्रीव ने हनुमान् को आज्ञा दी (४ ३७, २) । अगस्त्य ने समुद्र के भीतर इस पर्वत को स्थापित किया (४ ४१, २०) । 'चित्रसानुनग श्रीमाण्महेन्द्र पर्वतोत्तम । जातरूपमय श्रीमानवगाढो महार्णवम् ॥ नानाविधैर्नगैः फुल्लैर्लताभिश्चोपशोभितम् । देवपियक्षप्रवरैरप्स-रोभिश्च सेवितम् ॥ सिद्धचारणसङ्घैश्च प्रकीर्णं सुमनोहरम् ।', (४ ४१, २१-२३) । सहस्र नेत्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्व के दिन इस पर्वत पर पदार्पण करते थे (४ ४१, २३) । सुपाश्वं मास प्राप्त करने की इच्छा से महेन्द्रपर्वत के द्वार को रोक कर खड़ा हो गया (४ ५९, १२) । 'नगस्यास्य शिलासकट-पालिन', (४ ६७, ३६) । 'येषु वेग गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम् । नाना-द्रुमविकीर्णेषु घातुनिष्पन्दसोभिषु ॥', (४ ६७, ३७) । 'वृत्त नानाविधं पुष्पंमृगसेवितशाद्वलम् । लताकुसुमसबाध नित्यपुष्पफलद्रुमम् ॥', (४ ६७, ४०) । 'सहस्रार्दूलसहित भक्तमातङ्गसेवितम् । मत्तद्विजगणोद्घुष्ट सलिलो-त्पीडसकुलम् ॥', (४. ६७, ४१) । 'नीललोहितमाङ्गिष्ठपपवर्णं सितासितं । स्वभावसिद्धैर्विमलैर्धानुभिः समलकतम् ॥ कामरूपिभिराविष्टमभोदण सप-रिच्छदं । यक्षकिन्नरगन्धर्वदेवकल्पैश्च पद्मगं ॥', (५ १, ५-६) । हनुमान् इस पर्वत के समतल प्रदेश में, समुद्र के उस पार जाने के लिये, सड़े हुए (५ १, ७) । "जय हनुमान् ने इस पर्वत पर स्थित होकर विशाल रूप धारण किया तो उनके भार से यह पर्वत काँपने लगा और कुछ समय तक डगमगाता रहा । इसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे उनकी शाखाओं के अधभाग में लगे फूल भी उस समय नीचे गिर गये जिससे आच्छादित होकर यह ऐसा प्रतीत होना लगा मानो पुष्पो का ही बना हो । इस प्रकार, हनुमान् के चरणों से दबकर इस पर्वत के जलस्रोत प्रवाहित होने लगे और बड़ी-बड़ी शिलायें भी टूट कर गिर पड़ी । उस समय इस पर स्थित समस्त जीव गुफाओं में प्रवेश करके तीव्र आर्तनाद करने लगे (५ १, १२-१७) ।" लम्बा से लौटते समय हनुमान् ने

इस पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की (५. ५७, १४) । श्रीराम ने इस पर्वत के समीप पहुँचकर भाँति-भाँति के वृक्षों से सुशोभित इसके शिखर पर चढ़कर शत्रुओं और मत्स्यों से भरे हुये समुद्र को देखा (६ ४, ९५-९६) ।

१. महोदय, एक नगर का नाम है जिसे कुश के पुत्र कुरानाम ने बसाया था (१. ३२, ५) ।

२. महोदय—इन्होंने विश्वरूप के पक्ष में सम्मिलित होने के लिये विश्वामित्र के निमन्त्रण को अस्वीकार कर दिया (१ ५९, ११) । विश्वामित्र ने इन्हें दीर्घकाल तक सर लोका में निन्दित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर, और दयाशून्य निपादयों को प्राप्त करके कुर्मन्ति भोगने का शाप दे दिया (१ ५९, २०-२१) ।

महोदर, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन को हनुमान् ने देखा था (५ ६, १९) । यह रावण की सभा में कवचों से सुसज्जित होकर राम आदि का वध करने के लिये सन्नद्ध खड़ा था (६ ९, १) । रावण का आदेश पाकर इसने शीघ्र ही गुप्तचरों को रावण के समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा दी (६ २९, १६) । इसने नगर के दक्षिण द्वार की रक्षा का भार ग्रहण किया (६. ३६, १७) । राम के बाणों से जाह्न होकर यह मुटभूमि से भाग गया (६ ४४, २०) । जिसके मेत्र प्रातःकाल उदित हुये सूर्य के समान लाल हैं तथा जिनकी आवाज घण्टे की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आहूट होकर जोर-जोर से गर्जना करता हुआ यह महामनस्वी वीर मुटभूमि में रावण के साथ हो लिया (६ ५९, १७) । 'महोदरो नैर्ऋतयोध-मुत्स्य', (६ ६०, ८२) । कुम्भकर्ण के बड़े हुये दोष रोष से युक्त बहद्धारपूर्ण वचन सुनकर (६ ६०, ८०-८१) इसने कुम्भकर्ण को बताया कि पहले रावण की बात सुनकर गुण-दोष का विचार करने के पश्चात् ही वह मुट में शत्रुओं को परान्त करे (६ ६०, ८२-८३) । राजा के सम्मुख कुम्भकर्ण द्वारा पाण्डित्य प्रदर्शन करने पर इसने उक्त फटकारा (६ ६४, १-१०) । कुम्भकर्ण के इस वचन का कि वह अकेले ही मुटभूमि में जाकर शत्रुओं की पराजित करेगा, इसने उपहाम करते हुये उसे मूर्खनापूर्ण वधाग (६ ६४, ११-१८) । तदनन्तर इसने रावण को छलपूर्वक सीता को विजित करने का परामर्श दिया (६ ६४, १९-३६) । इसने अपने भ्राता, कुम्भकर्ण, की मृत्यु पर शोक प्रकट किया (६ ६८, ८) । यह एक हाथी पर आहूट हो अतिक्रम, निगिरा, और देवान्तक आदि राक्षसों के साथ, मुट के लिये पुरी से बाहर निकला (६ ६९, १९-२१) । नरान्तक का वध हो जाने पर यह हाथी पर

थारूड ही अङ्गद की ओर झपटा (६ ७०, १-२) । "अङ्गद द्वारा फेंके गये वृषों को इसने अपने परिष के अग्रभाग से तोड़ डाला । तदनन्तर इसने एक बाण से अङ्गद के हृदय को भी बौध दिया (६ ७०, ६-१९) । इसने नील में द्वन्द्वयुद्ध किया जिसमें यह गम्भीर रूप से आहत हुआ (६ ७०, २८-३२) । रावण को आज्ञा से यह एक रथ पर आरूढ हुआ (६ ९५, ३९) । रावण की आज्ञा का पालन करते हुये इसने वानर-सेना पर आक्रमण कर के उमका भीषण सहार किया, किन्तु अन्न म मुषीव न इसका वध कर दिया (६. ९७, ६-३४) । रावण के अभिनन्दन के लिये सुमाली के साथ यह भी गया (७ ११, २) । कूबर क विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी रावण के साथ गया (७ १४, १-२) । इसने यक्षों का भीषण सहार किया (७ १४, १६) । इसने एक सहस्र यक्षों का वध किया (७ १५, ७) । वरुण-मुत्रों के विरुद्ध युद्ध के समय इसने उन सब को रथ विहीन कर दिया किन्तु स्वयं भी आहत हुआ (७, २३, ३६-४१) । मान्धाता के विरुद्ध युद्ध में इसने भीषण पराक्रम दिखाया (७ २३ग, ३५) । देवों के विरुद्ध युद्ध के लिये यह भी सुमाली के साथ गया (७ २७, २८) । नर्मदा में स्नान करके इसने रावण के लिये पुष्प एकत्र किये (७ ३१, ३४-३६) । अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में यह भी रावण के साथ गया (७ ३२, २२) ।

माण्डरूणि—“दण्डक वन में निवास करने वाले एक मुनि का नाम है जिनके तप से अत्यन्त व्यथित होकर अग्नि आदि सब देवताओं ने इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिय पाँच प्रधान अप्सराओं को भेजा । उन अप्सराओं ने देवों का कार्य सिद्ध करने के लिये इन्हें काम के अधीन कर दिया । तदनन्तर तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुये इन मुनि ने पन्चाप्सरस सरोवर, जिसका इन्होंने अपने तप के प्रभाव से निर्माण किया था, के अन्दर बने हुये भवन में अप्सराओं के साथ सुखपूर्वक निवास किया (३ ११, ११-१९) ।”

माण्डवी, जनक द्वारा भरत को विवाहित कुण्डवज की पुत्री का नाम है (१ ७३, २९) । कीचल्या आदि इन्ह सवारी से उतार कर मगलगाम के साथ राजभवन में ले गईं (१ ७७, ११-१२) । इन्होंने ददमन्दिरो में दवताओं का पूजन करके सास पत्रगुर आदि के चरणों में प्रणाम किया (१ ७७, १३-१४) । इन्होंने अपने पति के साथ एकान्त में अत्यन्त खानन्द के साथ समय व्यतीत किया (१. ७७, १४) ।

मातलि, इन्द्र के सारथि का नाम है । इन्होंने इन्द्र की आज्ञानुसार (६ १०२, ६-७) मृतल पर इन्द्र के दिव्यरथ को श्रीराम के समक्ष ले जाकर

उनसे अपने को सारथि के रूप में ग्रहण करने के लिये कहा (६ १०२, ८-१७)। रावण ने इन्हे अपने बाण-मनुष्य से घायल कर दिया (६ १०२, २९)। श्रीराम की इच्छा के अनुसार (६ १०६, ८-१२) देवताओं के श्रेष्ठ सारथि, मातलि ने अत्यन्त सावधानी के साथ रथ हाँका (६ १०६, १३)। रावण द्वारा छोटे गये वेगशाली बाण युद्धस्थल में मातलि के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा-सा भी व्यथित न कर सके (६ १०७, ४०)। जब श्रीराम रावण के नवीन उत्पन्न सिरो को काटते जाने में सफलता न मिलने के कारण चिन्तित हुये (६ १०७, ५४-६७) तब मातलि ने उनसे ब्रह्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की प्रार्थना की (६ १०८, १-२)। राम की आज्ञा से (६ ११२, ४) ये दिव्यरथ पर आरुढ़ होकर पुनः दिव्यलोक को लौट गये (६ ११२, ५-६)। देवराज इन्द्र की आज्ञा पर (७ २८, २३) ये स्वयं विशाल रथ लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुये (७ २८, २४)। इन्द्रजित् ने इन्हे अपने उत्तम बाणों से घायल कर दिया (७ २९, २४)।

मातङ्गी, क्रोधवृत्ता और कश्यप की पुत्री का नाम है (३ १४, २२)। इसने हाथियों को जन्म दिया (३ १४, २६)।

१. मानस—कैलास पर्वत पर स्थित एक सुन्दर सरोवर का नाम है जिसे ब्रह्मा ने अपने मानसिक सकल्प से प्रगट किया था। मन के द्वारा प्रगट होने से ही यह उत्तम सरोवर 'मानस' कहलाता है (१. २४, ८)। इसी सरोवर से सरयू नदी निकली है (१. २४, ९)।

२. मानस, कैलास पर्वत के समीप स्थित एक पर्वत शिखर का नाम है जहाँ शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं रह जाते। इसके शिखरों और घाटियों में सीता को खोजने के लिये गुह्रीव ने शतवलि को भेजा था (४. ४३, २८-२९)।

मान्धाता, युवनाश्व के पुत्र और सुमन्थि के पिता, एक राजा, का नाम है (१. ७०, २४-२५)। इन्होंने एक श्रमण को पाप करने के कारण बँडोर दण्ड दिया (४ १८, ३५)। 'म तु राजा महातेजा समष्टीपेशवरो महान्', (७ २३०, २२)। इन्होंने सोमलोक में रावण के विरुद्ध एक भयंकर युद्ध लिया जिसे पुलस्त्य और मालव ने ह्मन्क्षेप करते हुये रोका (७ २३०, २६-५६)। ये अयोध्या के राजा थे और इन्होंने सम्पूर्ण पृथिवी को अपने अधिकार में करके देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरम्भ किया (७ ६७, ५-६)। इन्द्र ने मान्धाता से कहा 'तुम समस्त पृथ्वी को वश में किये बिना ही देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो?' (७ ६७, ७-११)। मान्धाता ने इन्द्र से कहा - वतादये इत्त पृथिवी पर कर्तां मेरे जादेश की

अपहेलना हुई है' (७ ६७, १२) । इन्द्र ने बताया कि मधुयन मे मधु का पुत्र लवणासुर उसकी आज्ञा नहीं मानता (७ ६७, १३) । इन्द्र के कथन को सुनकर ये लवणासुर के विरुद्ध युद्ध करने के लिये आगे बढ़े किन्तु लवणासुर ने अपने दूल से सेवक, सेना और सवारियों सहित इनको भस्म कर दिया (७ ६७, १४-२२) ।

मायाविन्, दुन्दुभि के पुत्र, एक राक्षस, का नाम है जिसका वालिन् के साथ वैर था (४ ९, ४) । इसने एक दिन अर्धरात्रि के समय वालिन् को युद्ध के लिये ललकारा (४ ९, ५) । यह वालिन् और सुग्रीव को देखकर भयभीत हुआ और भागकर एक विशाल बिल मे प्रविष्ट हो गया (४ ९, ९-११) । वालिन् ने इसका समस्त वधु-बान्धवो सहित वध कर दिया (४. १०, २०) । ऐसा भी उल्लेख है कि यह मय और हेमा का पुत्र तथा दुन्दुभि का भ्राता था (७ १२, १३) ।

१. मारीच, एक राक्षस का नाम है । अपने बन्धु बान्धवो का श्रीराम के द्वारा वध होने का समाचार सुनकर रावण ने इससे सहायता मांगी (१ १, ४९-५०) । इसने रावण को समझाने का प्रयास किया परन्तु रावण ने इसकी बातों को स्वीकार नहीं किया (१ १, ५१) । फिर भी, यह रावण के साथ श्रीराम के आश्रम मे गया और कपटमृग बनकर राम और लक्ष्मण को आश्रम मे दूर बुला लिया जिससे रावण सीता का हरण करने मे सफल हुआ (१ १, ५२) । वाल्मीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शन कर लिया था (१, ३, २०) । यह विश्वामित्र की यज्ञवेदी पर रक्त और मांस फेककर उनके यज्ञ मे विघ्न डाला करता था (१ १९, ५-६) । 'वीर्योत्सिक्त', (१ १९, १२) । यह सुन्द का पुत्र था (१ २०, २७) । यह ताटका के गर्भ से उत्पन्न हुआ था 'नो हि यशस्य कन्याया जाती दैत्यकुलोद्भवा । मारीचश्च सुवाहुरश्च वीर्यवन्ता सुसिद्धिती ॥ तयोरन्यतर योद्धु यास्यामि समुहद्वयग । अन्यथा त्वदुनेष्यामि भवन्त सहबान्धव ॥', (१ २०, २७-२८) । 'ताटका नाम भद्र ते भार्या सुन्दस्य धीमता । मारीचो राक्षस पुत्रो यस्या सन्नराश्रम ॥ वृत्तदाहमहाशीर्षो त्रिपुलास्यतनुर्महान् । राक्षसो भैरवाकारो नित्य प्राप्तये प्रजा ॥ इमो जनपदो नित्य विनाशयति राघव । मलदाश्व कृत्पाश्व नाटका दुष्टवादिनी ॥', (१ २४, २६-२८) । यह अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया था (१, २५, ५) । सुन्द की मृत्यु होने पर यह अगस्त्य मुनि की आर क्षपटा जिम पर क्रुद्ध होकर मुनि ने इसे राक्षस बना दिया (१ २५, १०-१२) । युद्ध होकर यह अगस्त्य के आयास-शोण वा विध्वस्त करने लगा (१ २५, १४) । "जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे सा इष्टने आवास मे स्थित

होकर भयकर शब्द किया। तदनन्तर यह सब ओर अपनी माया फैलाते हुये अपने अनुचरो के साथ विश्वामित्र के यज्ञस्थल पर रक्त की वर्षा करने लगा। उस समय श्रीराम ने इसे आकाश में स्थित देखा (१ ३०, १०-१३)। राम ने मानवास्त्र से इसकी छानी पर प्रहार किया (१ ३०, १७)। मानवास्त्र के प्रहार से अचेत होकर यह दूर समुद्र में जा गिरा (१, ३०, १७-१९)। इसने रावण का पशोषित सत्कार करते हुये उसके अममय पधारने का कारण पूछा (३ ३१, ३६-३८)। जब रावण ने सीता के हरण के लिये इसकी सहायता माँगी तब इसने नरव्याघ्र श्रीराम का विरोध करने से रावण का विरस करने का प्रयास किया (३ ३१, ४०-४९)। यह समुद्र के उस पार एक मुन्दर आश्रम में निवास करता था (३ ३५, ३७)। 'तत्र कृष्णाजिनवर जटावत्कलधारिणम् । ददर्श नियताहार मारीच नाम राक्षसम् ॥', (३ ३५, ३८)। रावण का उचित सत्कार करने के पश्चात् इसने उद्यते इतने शीघ्र पुन आन का कारण पूछा (३ ३५, ३९-४१)। 'तत्सहायो भव त्व मे समर्थो ह्यस्ति राक्षस । कीर्ये ब्रुहे च वपे च न ह्यस्ति सद्गुणवत् ॥ उपायतो महाशब्दरो महामायाविशारद । एतदर्थमह प्राप्तस्वत्समीप निशाचर ॥', (३ ३६, १५-१६)। 'उस्य रामकथा श्रुत्वा मारीचस्य महात्मन । शुष्क समभवद्भव परि- त्रस्तो बभूव च ॥', (३ ३६, २२)। रावण के प्रस्ताव से अत्यन्त चिन्तित होकर इसने उसे सत्परामर्श दिया (३ ३६, २२-२४)। "इसने रावण को श्रीराम के गुण और प्रभाव को बताया और उसे सीताहरण के उद्योग से रोकने का प्रयास किया (३ ३७, १०)।" इसने श्रीराम की शक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर रावण को उनके प्रति अपराध करने से विरत करने का प्रयास किया (३, ३८)। "अपने गत अनुभवों को, जब इसने दण्डकारण्य में श्रीराम पर आक्रमण किया था, बताते हुये कहा कि उस समय राम ने इसके साथियों का वध कर दिया था और यह किसी प्रकार भाग का अपनी प्राणरक्षा करने में सफल हुआ। इसने कहा कि उभी समय से राम के भय में त्रस्त होकर इसने सन्यास ले लिया क्योंकि इस भय के कारण इसे सर्वत्र श्रीराम खड़े दिखाई देने हैं। तदनन्तर इसने रावण को राम के साथ युद्ध न करने के लिये प्रेरित करते हुये कहा कि यदि शूर्पणाखा का प्रनिशोध लेने के लिये तर ने श्रीराम पर आक्रमण किया और उसके फलस्वरूप मारा गया तो इसमें राम का क्या अपराध है (३ ३९)।" पहले तो इसने रावण की उसके कुटिल अभिप्राय के लिये व्यर्थविक मतसंना की परन्तु बाद में सीताहरण के कार्य में सहायता देना स्वीकार कर लिया (३ ४१, ४२, १-४)। रावण ने इसकी प्रसन्ना की (३ ४२, ६-८)। यह रावण के साथ रथ पर बैठकर अनेक देशों से होता

हुआ दण्डकारण्य में श्रीराम के आश्रम के निकट पहुँचा (३ ४२, ९-११) । “रावण के आदेश पर इनने एक सुन्दर सुवर्ण मृग का रूप धारण किया जो देखने में अत्यन्त अद्भुत था जिसकी सींग के ऊपरी भाग इन्द्र नीलमणि के बने हुये प्रतीत हो रहे थे, जिसके मुखमण्डल पर श्वेत और काले रंग की बूँदें थी, जिसके सूर वैदूर्यमणि के समान और जिसकी देह-कान्ति अत्यन्त मनोहर थी । इस प्रकार के अद्भुत मृग का रूप धारण करके यह सीता को लुभाने के उद्देश्य से उनके निकट ही विचरने लगा । विविध प्रकार से शींटा करता हुआ यह अन्य मृगों का भी भक्षण नहीं करना था यद्यपि मारीच मृगों के वध में अत्यन्त प्रवीण था । उस समय पुष्पो को चुनती हुई सीता ने इस रत्नमय मृग को देखा और अत्यन्त स्नेह से इसकी ओर निहारने लगी (३ ४२, १४-३५) । ‘एतेन हि नृशसेन मारीचेनाकृतात्मना । बने विचरता पूर्वं हिंसिता मुनिपुङ्गवा ॥’, (३ ४३, ३९) । “श्रीराम को आते देखकर यह सुवर्ण मृग विभिन्न प्रकार से छिपते और प्रगट होने हुये भागने लगा । यह कभी श्रीराम के अत्यधिक निकट आ जाता था और कभी भय से आकाश में उछल कर दूर चला जाता था । कभी पूरी तरह दृष्टिगत होने लगता था और कभी सघन वन में छिप जाता था (३ ४४, ४-७) ।” इस प्रकार प्रगट और अप्रगट होते हुये श्रीराम को आश्रम से बहुत दूर हटा ले गया (३. ४४, ८) । तदनन्तर यह मृगों से घिरा हुआ पुनः प्रगट हुआ जिससे श्रीराम इसे पकड़ने के लिये अत्यन्त उद्विग्न हो गये, परन्तु ज्यों ही राम ने इसे पकड़ने का प्रयास किया यह पुनः भागकर दूर चला गया (३-४४, १०-११) । जब यह पुनः प्रगट हुआ तब श्रीराम ने इसके हृदय को विदीर्ण कर दिया (३. ४४, १५) । बाण के प्रहार से इसने अपने कृत्रिम शरीर का त्याग कर दिया और ताड़ के बराबर उछल कर पुनः पृथिवी पर गिर पड़ा (३ ४४, १६) । मृत्यु के समय इसने अपने कपट रूप का परित्याग करके रावण के आदेशानुसार ‘हा सीते, हा लक्ष्मण ।’ कहकर पुकारा और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया (३ ४४, १७-२१) । रावण का अभिनन्दन करने के लिये सुमाली के साथ यह भी गया (७ ११, २) । कुवेर के विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी रावण के साथ गया (७ १४, १-२) । इसने सयोधकण्ठक नामक यक्ष के साथ द्रुपद युद्ध करके उसे पराजित किया (७ १४, २१-२३) । इसने २,००० यक्षों का वध किया (७. १५, ८) । जब विमान की गति अवच्छेद हो जाने पर रावण चकित हुआ तब इसने कहा कि विमान के रक्ते का कारण कुवेर का न होना है क्योंकि वह कुवेर का ही वाहन है (७ १६, ६-७) । अनरण्य के विरुद्ध युद्ध में यह उन्हें देखते ही भाग खड़ा हुआ (७ १९, १९) । जब यम को पराजित

करके रावण सोटा तो इसने उसका अभिनन्दन किया (७ २३, ३) । देवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी सुग्रीव के साथ युद्धभूमि में गया (७. २७, २८) ।

२. मारीच, एक वानर वृक्षपति का नाम है जो महर्षि मरीचि का पुत्र था । सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने इसे पश्चिम दिशा की ओर भेजा था—
'मरीचिपुत्र मारीचमनिष्पन्नं महाकपिम् । वृक्ष कपिवरं दूरमहेन्द्रसत्पादुनिम् ॥
बुद्धिविक्रमसपन्नं दैनतेयसमद्युतिम् । मरीचिपुत्रान्मारीचानचिर्मात्मान्महाबलान् ॥'
(४. ४२, ३-४) ।

मासत, आयुदेवता का नाम है जो रावण के भय से उसके पास जोर से नहीं बहते थे (१ १५, १०) । ब्रह्माजी की इच्छानुसार इन्होंने श्रीराम की सहायता के लिए अपने सपुत्र के रूप में हनुमान् को जन्म दिया (१ १७, १६) इन्द्र ने दिति के उदर में प्रविष्ट होकर उसमें रियत हुए गर्भ के सात टुकड़े कर दिये (१ ४६, १८) । दिति ने इन्द्र से कहा कि उसके गर्भ के वे सातों खण्ड सात व्यक्ति होकर सातों महर्षियों के स्वानों का पालन करनेवाले हो जायें (१ ४७, ३) । "दिति ने इन्द्र से कहा 'ये मेरे दिव्यरूप धारी पुत्र मासत नाम से विख्यात होकर आकाश में सुप्रसिद्ध सान वानरकण्ठों में विचरें । इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में, द्वितीय इन्द्रलोक में और तृतीय दिव्यवायु के नाम से सुप्रसिद्ध हो अन्तरिक्ष में विचरण करें, तथा शेष चार पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार सम्पूर्ण दिशाओं में संचार करें ।' (१. ४७, ४-६) ।" इन्द्र ने रोते हुए गर्भस्थ शिशु से 'मा रुद.' कहा इसलिए उसका नाम 'मासत' पड़ा (१ ४६, २०) ।

मार्कण्डेय, दशरथ के एक ऋत्विज का नाम है—'मार्कण्डेयस्तु क्षीर्षा-युस्तथा,' (१ ७, ५) । जब दशरथ मिथिला जा रहे थे तो उक्त समय इनका रथ भी उनके आगे-आगे चल रहा था (१ ६९, ४-५) । दशरथ की मृत्यु होने पर दूमरे दिन प्रातः काल इन्होंने राजसभा में उपस्थित होकर वसिष्ठ को दूनरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया (२ ६७, ३-८) । राम के बुलाने पर ये उनके सभाभवन में गये जहाँ राम ने इनका मत्कार किया (७ ७४, ४-५) । श्रीराम की सभा में सीता के रापयग्रहण के समय ये भी साक्षी थे (७ ९६, ३) ।

मासत, एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने विनत को भेजा था (४ ४०, २२) ।

मालिनी, अपरताल नामक गिरि के दक्षिण और प्रलम्ब गिरि के उत्तर, दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली एक नदी का नाम है । केकय जाते समय वसिष्ठ के दृग इसके तट से होकर गये थे (२. ६८, १२) ।

माली, मुक्ता और देववती के शक्तिशाली पुत्र का नाम है जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अजेयत्व तथा चिरजीवत्व का वर प्राप्त करके देवताओं और असुरों को कष्ट देना आरम्भ किया; इसने विश्वकर्मा से अपने आवास के लिए एक नगर का निर्माण करने के लिए भी कहा (७ ५, ४-२१) । विश्वकर्मा के परामर्श पर इमने लका पर अपना अधिकार किया (७ ५, २७-३०) । इमने नर्मदा की पुत्री, वसुदा, से विवाह करके चार पुत्र उत्पन्न किये (७ ५, ४२-४४) । इसी प्रकार यह देवताओं और ऋषि मुनियों को श्रम करता हुआ विचरण करने लगा (७ ५, ४५-४६) । माल्यवान् के अनुरोध पर इमने राक्षसों के विरुद्ध विष्णु को उकसानेवाले देवों का तत्काल विनाश कर देने का परामर्श दिया (७ ६, ३९-४४) । अनेक अपशक्तों के विपरीत भी इमने स्वर्गलोक पर आक्रमण के लिये लका से प्रस्थान किया (७ ६, ४५-६२) । इसने विष्णु के साथ द्वन्द युद्ध करते हुये गरुड को आहत कर दिया, परन्तु अन्ततः विष्णु ने अपने मुद्राचक्र से इमका वध किया (७ ७, ३१-४३) ।

माल्यवती, एक नदी का नाम है जो चित्रकूट से होकर बहती थी (२ ५६ ३५) ।

१. माल्यवान्, एक पर्वत का नाम है जहाँ से केसरी गोकर्ण पर्वत पर चले गये (५ ३५, ८०) ।

२. माल्यवान्, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जो रावण का नाना था (६ ३५, ६) । इसने विविध प्रकार के तर्कों से रावण को सीता को लौटा कर श्रीराम से सन्धि कर लेने के लिये समझाया (६, ३५, ६-२८) । रावण के पटकारने पर यह बहुत लज्जित हुआ और रावण को विजय मूचक आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया (६ ३६, १-१५) । रावण का अग्येष्टि सत्कार करने में इसने विभीषण की सहायता की (६ १११, १०६) । यह मुक्ता और देववती का पुत्र था (७ ५, ५-६) । ब्रह्मा को तपस्या से प्रसन्न करके इसने अपराजेयता तथा चिरजीवन का वर प्राप्त किया (७ ५, ९-१६) । तदनन्तर इसने देवों और असुरों को अत्यन्त श्रम करते हुए विश्वकर्मा से अपने निवास के लिये एक भव्य निवाम-स्थान बनाने के लिये कहा (७ ५, १७-२१) । विश्वकर्मा के कहने पर (७ ५ २२-२८) यह लङ्कापुरी में आकर रहने लगा (७ ५, २९-३०) । इसने नर्मदा की पुत्री, मुन्दगी, के साथ विवाह करके उसके गर्भ से अनेक सन्तान उत्पन्न की (७ ५, ३५-३७) । इस प्रकार, यह अपने पुत्रों तथा अन्यान्य निशाचरों के साथ रहकर इन्द्र आदि देवताओं, महर्षियों, नागों तथा यक्षों को पीडा देने लगा (७ ५, ४५-४६) । राक्षसों का विनाश करने के देवों के प्रयास के सम्बन्ध में सुन कर

इसने अपने भ्रान्ताओं से देवों को पराजित करने के विषय पर परामर्श किया (७, ६, २३-३८)। अपकुशानों की चिन्ता किये बिना यह देवलोक पर आक्रमण करने के लिये लड्डू से बाहर निकल पड़ा (७, ६, ४५-६२)। मात्स्य की मृत्यु हो जाने पर यह भाग कर लड्डू चला आया (७, ७, ४५)। भागती हुई सेना का वध करने के कारण इसने विष्णु की भर्त्सना की और क्रुद्ध होकर उनसे युद्ध करने लगा (७, ८, १-५)। इसने विष्णु के साथ भयकर द्रुग्द्रुद्ध करते हुये उन्हें तथा उनके वाहन, गरुड, को आहन कर दिया, किन्तु क्रुद्ध होकर गरुड ने अपने पंखों को वेगपूर्वक हिलाकर वायु के वेग से इसे उड़ा दिया (७, ८, ९-२०)।

माहिषक, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की सौज करने के लिये सुषोम ने अङ्गद से कहा (४, ४१, ११)।

मिश्र, एक देवता का नाम है जो वरुण के साथ रहकर समस्त देवत्वरो द्वारा पूजित होने से (७, ५६, १२)। इनके साथ मिलने का निश्चय करके भी जब उषंती परण के साथ झीठा करती रही तो इन्होंने क्रुद्ध होकर उसे यह नाप दे दिया कि यह पृथिवी पर गिर राजा पुरुखा की पत्नी बन जाएगी (७, ५६, २२-२५)। इन्होंने राजभूष यज्ञ का अनुष्ठान करके परण का पद प्राप्त किया था (७, ८३, ६)।

मित्रघ्न, एक राजत-अमुल का नाम है जिसने श्रीराम से युद्ध किया (६, ४३, ११)। श्रीराम ने इसका वध किया (६, ४३, २७)।

मिथि, निमि के पुत्र और जनक के पिता का नाम है (१, ७१, ४)। इनका जन्म निमि के मूत्र शरीर के मन्दन से हुआ था, इसीलिये इनका नाम 'मिथि' पड़ा और जनक वध भी मँथिल कहलाया (७, ५७, १७-२०)।

मिथिला, एक देश का नाम है जहाँ राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र आये (१, ४८, ९)। यहाँ पहुँच कर जनक की इस पुरी की शोभा देख सभी महर्षि साधु-साधु कहकर इसकी प्रशंसा करने लगे (१, ४८, १०)। श्रीराम आदि ने अहल्या के बाधम के उत्तर-मूर्ख में स्थित इस देश के लिये प्रस्थान किया (१, ४९, २३; ५०, १)। सीता के साथ विवाह की इच्छा रखनेवाले निरमूह राजाओं ने इस पर एक वर्ष तक वेरा डाल रखा था, किन्तु अन्त में देव-सेना की सहायता से जनक ने उन राजाओं से इसे मुक्त करा लिया (१, ६६, १७, २०-२४)। कुछ काल के पश्चात् पराक्रमी राजा मुषन्वा ने सातगण नगर में आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया (१, ७१, १६)।

मिश्रकेशी, एक अप्सरा का नाम है जिसका मरुदाज मुनि ने भरत-सेना के सन्कार के लिये आवाहन किया था (२, ९१, १७)। मरुदाज की आज्ञा से इसने भरत के समक्ष नृत्य किया (२, ९१, ४६)।

सुरचीपत्तन, पश्चिम के एक नगर का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने सुपेण आदि को भेजा था (४ ४२, १३) ।

मुष्टिक, एक जाति के लोगो का नाम है जो कुत्ते का मांस खानेवाले, मृतकों की रखवाली करनेवाले, और निर्दय थे (१. ५९, १९) ।

मृगमन्दा, कश्यप और श्रोधवशा की पुत्री का नाम है (३ १४, २१) । यह रोषों, मृमरों और चमरों की माता हुई (३ १४, २३) ।

मृगी, कश्यप और श्रोधवशा की पुत्री का नाम है (३ १४, २१) । यह मृगों की माता हुई (३ १४, २३) ।

मृत्यु—रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी प्राप्त और मुग्धर आदि लेकर यम के साथ गये (७ २२, ३) । रावण ने इन्हें आहूत कर दिया (७. २२, २०) । “जब रावण ने यम को भी आहूत कर दिया तो इन्होंने यम से कहा ‘आप आज्ञा दीजिये । मैं समराज्जण मे इस पापी राज्ञस रावण का अभी वध कर डालूँगा ।’ इस प्रकार इन्होंने रावण का वध करने के लिये यम से आज्ञा माँगी (७ २२, २३-३०) ।”

मेघला, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने अङ्गद को भेजा था (४ ४१, १०) ।

मेघ, एक पर्वत का नाम है जिसके उस पार ६०,००० पर्वतों के बीच मेघ पर्वत स्थित था (४ ४२, ३३) ।

मेघनाद—इसकी मृत्यु का बाल्मीकि ने पूर्वदशान किया (१ ३, ३५) । हनुमान ने इसके भवन को देखा (५ ६, २०) । रावण के आदेश पर यह अपने बंधु बान्धवों को लेकर हनुमान् के विरुद्ध युद्ध करने गया (५ ४८) ‘मन समाधाय स देवकल्प समादिदेशेन्द्रजित सरोप’, (५ ४८, १) । ‘त्वमस्त्र विष्टस्त्रभृता वरिष्ठ सुरामुराणामपि शोक्दाता । सुरेषु सेद्रेषु च दृष्टवर्मा पितामहाराघनसचितास्त्र ॥’ (५ ४८, २) । ‘न कश्चित्त्रिषु लोकेषु समुगेन गन्धम । भुजवीर्याभिगुत्तश्व तपसा चाभिरक्षित ॥ देवनालप्रधानद्व त्वमेव मनिमत्तम ।’, (५ ४८, ४) । ‘तत पितुस्त्रचन निगम्य प्रदत्तिय दशमुन-प्रभाव । चकार मर्त्तारमनित्वरेण रणाय वीर प्रतिपन्नयुद्धि ॥’, (५ ४८, १६) । ‘श्रीमान्पद्मविशालानो राणसाधिपते सुत । निर्जंगाम यद्वाजेना समुद्र इव पर्वणि ॥’, (५ ४८, १८) । मह चार सिंहो से जुते द्वये उत्तम रथ पर आरुढ हुआ ‘स पक्षिराजोपमनुन्यवेगैर्व्यालैश्चतुभि स तु सीमणददृष्ट । ग्य समायुक्तमसह्यवेग समारोहद्रजिन्द्रकल्प ॥ ग रथी घन्विता श्रेष्ठ दस्त्र-जोऽन्त्रविदा धर । रथेनाभिययी क्षिप्र हनुमान्यत्र सोऽभवत् ॥’, (५, ४८ १९-२०) । ‘हनुमन्तमभिप्रेत्य जगाम रणपण्डित’, (५ ४८, २२) । यह

तीखे अग्रभाग वाले सायको को लेकर हनुमान् पर टूट पड़ा (५ ४८, २२-२६) और उनपर बाणवर्षा आरम्भ कर दी (५ ४८, २९) । 'तावुमो वेगमपतो रणकमविचारदो', (५ ४८, ३३) । 'परस्पन् निविपही बभूवतु समेत्य ती देवसमानविगमो', (५ ४८, ३४) । 'जब लक्ष्यवेध के लिये चलाये हुए इसके अपने बमोघ बाण ध्वस्य होकर गिर पड़े तब इसने हनुमान् को अवध्य समझकर उन्हे ब्रह्मास्त्र से बांध लिया (५ ४८, ३३-३८) ।' राक्षसों द्वारा जब बलकल के रस्से से बांध जाने पर हनुमान् ब्रह्मास्त्र के बन्धन से मुक्त हो गये, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का बन्धन किसी दूसरे बन्धन के साथ नहीं रहता, तब इसे महान् चिन्ता हुई (५ ४८, ५०-५१) । यह हनुमान् को राक्षस के समक्ष लाया (५ ४८, ५४) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५ ५४, १०) । इसन माहेश्वरयज्ञ का अनुष्ठान किया, इन्द्र को विजित करके धन्दी बनाकर लवा ले आया (६ ७, १९-२३) । यह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राम आदि का वध करने के लिये रावण के दरबार में सन्नद्ध खड़ा था (६ ९, २) । राक्षस के समक्ष विभीषण द्वारा सीता को श्रीराम को लौटा देने के परामर्श पर (६ १४, ९-२२) इसने विभीषण का उपहास करते हुये उन्हे कायर, डरपोक तथा शीघ्र और तेज से रहित कहा (६ १५, १-७) । 'ततो महात्मा वचन वभाष तनेद्रजिर्नैऋतयुषमुख्य', (६ १५, १) 'अधेन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महोजसस्तद्वचन निराम्य', (६ १५, ८) । 'इसने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त की थी जिससे यह गोहू के चमड़े के बने हुये दस्ताने पहनकर और अवध्य कवच धारण किये हुये हाथ में धनुष लेकर सग्राम में अदृश्य रूप से शत्रुओं पर प्रहार करता था (६ १९, १२-१३) । यह महामायावी लका के पश्चिम-द्वार की रक्षा के लिये सन्नद्ध था (६ ३६, १८) । इसने अङ्गद के साथ द्वन्द्वयुद्ध किया (६ ४३, ६) । अङ्गद ने इसको घायल करके इसक सारपि तथा अश्वों का वध कर दिया (६ ४४, २८) । इसने क्रुपित होकर सर्पाकार बाणों की वर्षा से श्रीराम और लक्ष्मण को नामपाश में आवद्ध कर दिया (६ ४४, ३२-४०) । 'इन्द्रजित्तु तदानेन निजितो', (६ ४४, ३३) । 'सोऽन्तर्धानगत पापो रावणो रणकशिन । ब्रह्मदत्तवरो वीरो रावणि क्रोधमूर्च्छित ॥', (६ ४४, ३७) । 'अदृश्य सर्वभूताना कृत्योपी निशाचर', (६ ४४, ३९) । इसने बाणों की वर्षा करके अपने अस्त्रों द्वारा उन वेगवान् वानरों के वेग को रोक दिया जो इसका अनुसन्धान कर रहे थे (६ ४५, ५) । 'पर्यन्तरक्ताशो भिग्नाञ्जनचयोपम', (६ ४५, १०) । अलक्ष्य रहते हुये इसने राम और लक्ष्मण को कल्पप्रयुक्त बाण के जाल में

फेंना लिया (६ ४५, १०-१२) और उन पर बाणवर्षा करने लगा (६. ४५, १३-१५) । 'तमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे । ददशान्तिहित वीर वरदानाङ्घ्रि-भीषण ॥', (६ ४६, १०) । "युद्धभूमि मे मूर्च्छिते राम और लक्ष्मण को मृत समझ कर इसे महान प्रसन्नता हुई । इमने समस्त वानर-यूथपतिगों को भी बाणवर्षा करके घायल कर दिया । युद्धभूमि से आते देख राक्षसों ने इसकी उन्मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की (६. ४६, १२-२९) ।" 'ननाद बलवास्तत्र महा-सत्त्व स रावणि', (६ ४६, २३) । 'हर्षेण तु समाविष्ट इन्द्रजित्समितिजय', (६ ४६, २९) । इसने अपने पिता, रावण, के पास जाकर राम और लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुनाया (६ ४६, ४६-४७) । इस प्रिय समाचार को सुनकर रावण ने इसे अपने हृदय से लगा लिया (६ ४६, ४८) । वरदान के प्रभाव से प्रबल हुआ यह सिंह वे बिल्ल में चिह्नित रथ पर आरूढ़ होकर रावण के साथ युद्धभूमि में आया (६ ५९, १५) । देवान्तक, त्रिशिरा और अतिक्रम्य आदि राक्षस-प्रमुखों के वध का समाचार सुनकर शोक-निमग्न और चिन्तित रावण को (६ ७३, १-२) इमने विभिन्न प्रकार से आश्वासन देकर विशाल राक्षस-सेना के साथ युद्धभूमि के लिये प्रस्थान किया (६ ७३, ३-१५) । "युद्धभूमि में पहुँचकर इमने अग्नि की स्थापना करके चन्दन, पुष्प तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया । तदनन्तर विधिपूर्वक श्रेष्ठ मन्त्रों का उच्चारण करते हुये उस अग्नि में हृदय की आहुति दी । आहुति देने के पश्चात् धनुष, बाण, रथ, खड्ग, अश्व और सारथि सहित आकाश में अदृश्य हो गया (६ ७३, १६-२७) ।" "इसके बाद यह अश्व और रथों से व्याप्त तथा पताकाओं से सुशोभित होकर राक्षस-सेना में गया । इसने वहाँ राक्षसों से कहा कि वे वानरों से युद्ध करें (६ ७३, २८-२९) ।" "इसने स्वयं भी वानरों का भीषण संहार आरम्भ किया । इसने अनेक वानर-यूथपतिगों तथा श्रेष्ठ वानरों को बाणों से मारकर अत्यन्त व्यथित कर दिया । इस प्रकार इसके बाणों से विदीर्ण होकर अनेक वानर आहत और हत हो गये । इसने हनुमान्, सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवान्, सुषेण, मल, नील आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को आहत कर दिया (७ ७३, ३१-६०) ।" "इसने राम और लक्ष्मण को भी विविध अस्त्रों से अत्यन्त प्रस्त करते हुये सुग्रीव की समस्त सेना को परा-जित कर दिया । इस प्रकार, गद्गम में वानरों की सेना तथा राम और लक्ष्मण को आहत करके यह लकापुरी में लौट आया (७. ७३, ६१-६९) ।" "अपने पिता की आज्ञा से इमने यज्ञभूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधिपूर्वक हवन किया । तदनन्तर अग्नि में आहुति दे आभिषारिक यज्ञ सम्बन्धी देवता, दानव तथा राक्षसों को मृत करने के पश्चात् यह अश्वघर्षि

होने की शक्ति से सम्पन्न सुन्दर रथ पर आरूढ़ हुआ । इस प्रकार सन्नद्ध होकर यह युद्धभूमि में आया और अपने रथ को आकाश में स्थित करके अदृश्य रूप से राम तथा लक्ष्मण और उनकी सेना पर भीषण बाण-वर्षा करने लगा (६ ८०, १-३३) । "श्रीराम के अग्रिप्राय को जानकर यह युद्ध से निवृत्त हो लक्ष्मण चला गया परन्तु अनेक बलवान् राक्षसों के वध का समाचार सुनकर नगर के पश्चिम-द्वार से पुन बाहर आया । उस समय इसने एक मायामयी सीता का निर्माण करके अपने रथ पर बैठा लिया और सबके सामने ही उसके वध का उपक्रम करने लगा (५ ८१, १-६) । "वानर सेना को अपनी ओर बढ़ने देख इसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और मायामयी सीता का केश पकड़ कर उन्हे धसीटने लगा । उस समय रथ पर बैठी वह मायामयी स्त्री 'हा राम ! हा राम ! हा राम !' कहती हुई आत्तनाद कर रही थी और यह सबके समक्ष उतकी पीट रहा था (६ ८१, १५-१६) । "हनुमान् के फटकारन पर इसने कहा कि यह वह सब कुछ करने पर तुला हुआ है जिससे हनुमान् आदि को कट हो । इस प्रकार कह कर भीषण गर्जना करते हुये इसने उस मायामयी सीता का अपनी तलवार से वध कर दिया (६ ८१, २७-३६) । 'राक्षस सेना को वानरों के आक्रमण से भ्रत देगकर इसने शत्रु सेना पर भीषण आक्रमण किया और विविध आयुधों से अनेक का वध कर दिया (६ ८२, १६-१८) । जब इसके आक्रमण से पराजित होकर वानर-सेना पीछे हट गई तो यह पत्र करने के लिये निकुम्भिला के स्थान पर चला गया (६ ८२, २५-२८) । अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके इसने ब्रह्माक्षिरस नामक अस्त्र और मनोनुकूल गति से चलने वाले अश्व प्राप्त किये (६ ८५, १३) । ब्रह्मा ने इसे यरदान देते हुये कहा था कि निकुम्भिला नामक बट वृक्ष के निकट पहुँचने तथा हवन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पूर्व जो शत्रु इस पर आक्रमण करेगा उसी के हाथों इतका वध होगा (६ ८५, १५-१६) । 'स हि ब्रह्मास्त्रवित्प्राप्तो महाभायो महाबल । करोत्यसंज्ञान्शत्रामे देवांसवरुणा-नपि ॥', (६ ८५, १८) । 'अपनी सेना को शत्रुओं द्वारा पीडित देखकर यह अपना अनुष्ठान समाप्त करने के पूर्व ही युद्ध के लिये उद्यत हो रथ पर बैठकर युद्धभूमि में उपस्थित हुआ । इसे रथ पर आरूढ़ देखकर इसकी सेना भी इसके चतुर्दिक् सन्नद्ध हो गई (६ ८६, १४-१७) । "अपने सैनिकों को हनुमान् के द्वारा पराजित होने देखकर इसने सारथि को अपना रथ हनुमान् की ओर ले चलने के लिये कहा । हनुमान् के निकट पहुँच कर इसने विभिन्न प्रकार के आयुधों से हनुमान् के मस्तक पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया (६ ८६, २५-२८) ।" लक्ष्मण ने इसे अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठे हुये कथक,

खड्ग और ध्वजा आदि से युक्त देखा (६ ८७, ८) । लक्ष्मण द्वारा युद्ध के लिये ललकारने पर इसने वहाँ विभीषण को भी उपस्थित देखकर उनसे कहा : 'तुम मेरे पिता के भ्राता और मेरे चचा हो, अतः तुम मुझसे क्यों द्रोह करते हो ?' (६ ८७, ९-१७) । "विभीषण के शब्दों का कठोर शब्दों में उत्तर देते हुये यह लक्ष्मण की ओर देखकर अपने घनूप पर टक्कार देता हुआ बोला : 'आज मैं तुम सब लोगों को यमलोक पहुँचा दूँगा । उस दिन, रात्रि युद्ध में, जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे भ्राता राम को रणभूमि में मूर्च्छित कर दिया था वह घटना कदाचित् अब तुम्हें स्मरण नहीं है । तुम इस समय जो मुझसे युद्ध करने के लिये उपस्थित हो गये हो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सीध ही यमलोक जाने के लिये उद्यत हो ।' (६ ८८, १-११) ।" लक्ष्मण के साथ कठोर शब्दों का आदान-प्रदान करते हुये जब भीषण युद्ध में यह आहत हुआ तब इसका मुख उदास हो गया (६ ८८, २६-३९) । इसने बिना कवच के ही और सर्वथा रक्तरजित होकर भी लक्ष्मण के साथ लगातार घोर युद्ध किया (६ ८८, ४२-७८) । इसने लक्ष्मण के साथ घोर द्वन्द्व युद्ध किया जिसमें यह रथ और उसके अश्वों से रहित हो गया । तदनन्तर इसने पैदल ही युद्ध करना आरम्भ किया (६ ८९, २६-५२) । जब राक्षस और वानर एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे तब यह नगर में जाकर सीध ही एक नवीन रथ पर बैठकर पुनः लक्ष्मण और विभीषण के निवृत्त युद्ध के लिये उपस्थित हुआ (६ ९०, १-१२) । "इसने क्रोध में आकर निर्दयतापूर्वक वानरों का सहार किया जिसमें दो बार इसके घनूप, रथ, सारथि और रथाश्व आदि नष्ट हुये । उस समय इसने लक्ष्मण के ललाट को तीन बाणों से वीध दिया । तदनन्तर इसने विभीषण को भी आहत किया । इस प्रकार घोर युद्ध करने के विपरीत भी लक्ष्मण ने ऐन्द्रास्त्र से इसका वध कर दिया (६ ९०, १४-७३) ।" इसका वध हो जाने पर देवता, गन्धर्व, और दानव, सब ने सन्तुष्ट होकर कहा कि अब ब्राह्मण निश्चिन्त और क्लेश-शून्य होकर विचरण करेंगे (६ ९०, ८९) । 'यह मन्दोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और जन्म के समय ही रोते हुये मेघ के समान गम्भीर नाद करने लगा । इसके मेघ-नुन्य नाद से समस्त लका जडवत् स्तब्ध हो गई थी जिससे इसके पिता, रावण, ने स्वयं ही इसका नाम मेघनाद रक्खा था । रावण के सुन्दर अन्तपुर में माता पिता को महान् हर्ष प्रदान करता हुआ यह श्रेष्ठ नारियों से सुरक्षित हो बाष्प से आच्छादित अग्नि के समान विकसित होने लगा (७ १२, २८-३२) ।" "शर को राक्षसों की भयंकर सेना और बहूना शूर्पणखा को सान्तरना देकर रावण ने निकुम्भिला नामक उत्तम उपवन में जाकर उषाना (शुत्राचार्य) की सहायता

से मेघनाद को यज्ञ करते देखा । इस यज्ञ के फलस्वरूप इसने एक दिव्य रथ, अभिचारीय शक्तियाँ, अक्षय तरकस तथा अन्य अनेक आयुध प्राप्त किये (७ २५, २-१३) । यह अपने पिता के आदेश पर राजमवन लौटा (७ २५, १६) । मधु के विरुद्ध युद्ध में यह समस्त सैनिकों को लेकर सेना के आगे-आगे चला (७ २५, ३४) । “मुमाली की मृत्यु हो जाने पर इसने राक्षस-सेना को एक बार पुनः एकत्रित करने देवताओं पर आक्रमण किया । उस समय इसके सम्मुख कोई भी बड़ा नहीं हो सकता था (७ २८, १-५) । “इसने जयन्त के राघव इन्द्रपुत्र करते हुए भीषण बाणवर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया । तदनन्तर इसने माया से चारों ओर भीषण अग्निकार उत्पन्न किया जिससे समस्त शत्रुसेना अस्त-व्यस्त हो कर आपस में ही एक दूसरे का वध करने लगी (७ २८, ८-१८) ।” जब जयन्त के अपहृत हो जाने पर देवगण भागने लगे तो इसने उनका पीछा किया (७ २८, १९-२२) । यह जानकर कि इसके पिता रावण इन्द्र के चंगुल में फँस गये हैं, इसने अत्यन्त श्रेयपूर्वक शत्रुसेना में प्रवेश करके अपनी अभिचारीय शक्तियों से इन्द्र को भी बन्दी बना लिया (७ २९, १३-२७) । ‘अपने पिता के शरीर को बाणों के प्रहार से जर्जर देखकर इसने उससे कहा—‘अब हम लोग घर चले क्योंकि हमारी विजय हो गई और मैंने इन्द्र को बन्दी बना लिया है । आप अब इच्छानुसार तीनों लोकों के राज्य का उपभोग कीजिये । यहाँ व्यर्थ श्रम करना निरर्थक है ।’ (७ २९, ३२-३५) ।” यह अपने बन्दी, इन्द्र, को लेकर लंका लौटा (७ २९ ४०) । ब्रह्मा के वर देने पर इसने अमरत्व का वर माँगा (७ ३०, १-८) । “जब ब्रह्मा ने यह वर देना अस्वीकार कर दिया तब इसने उनसे कहा—‘मेरे विषय में यह सदा के लिए निषम बन जाय कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूँ और मन्त्रयुक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव का पूजन करूँ तो उस समय अग्नि से मेरे लिये ऐसा रथ प्रकट हो जाय जो अश्वों आदि से मुक्त रहे । उस रथ पर बैठकर मैं जब तक युद्ध करता रहूँ तब तक कोई मेरा वध न कर सके । जब युद्ध के निमित्त शत्रु जानेवाले अथ और होम की पूर्ण किये बिना ही मैं समराङ्गण में युद्ध करने लूँ तभी मेरा विनाश हो ।’ (७ ३०, १०-१५) ।” जब ब्रह्मा ने इसको यह वर दे दिया तब इसने इन्द्र को मुक्त कर दिया (७ ३०, १६) ।

मेघातिथि के पुत्र एक महर्षि थे, जो धीराम के बयोध्या लौटने पर उनका अभिवादन करने के लिए पूर्वदिशा से पचारे थे (७ १, २) ।

मेनका, एक प्रतिष्ठित अष्टरा का नाम है । जब यह पुष्कर में स्नान करने

का उपक्रम करने लगी तब महर्षि विश्वामित्र इसके अप्रतिम सौन्दर्य को देखकर इस पर आसक्त हो गये (१ ६३, ३-६) । इसने कामत्रीडा करते हुये विश्वामित्र के साथ दस वर्ष व्यतीत किये (१ ६३, ७-९) । जब विश्वामित्र ने देखा कि इसकी उपस्थिति से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ रहा है तब उन्होंने इसे विदा कर दिया (१ ६३, १०-१४) ।

मेना, मेरु की पुत्री और हिमवान् की पत्नी का नाम है (१ ३५, १५) । इसने दो पुत्रियो, गङ्गा और उमा, को जन्म दिया (१ ३५, १६) ।

मेरु, मेना के पिता का नाम है (१ ३५, १५) । पूर्वकाल में वामन अवतार के समय विष्णु ने अपना दूसरा पैर इस पर्वत के शिखर पर रक्खा था (४ ४०, ५६) । "यह ६०,००० पर्वतो के मध्य में स्थित था । पूर्वकाल में सूर्य ने इसे यह वर दिया था कि जो इसके आश्रय में रहेगा वह सुवर्ण के समान कान्तिमान होकर सूर्य का भक्त हो जायगा । विश्वेदेव, वसु, मरुद्वण तथा अन्य देवता सायकाल इस उत्तम पर्वत पर आकर सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं । अस्ताचल इस पर्वत में १०,००० योजन की दूरी पर स्थित है । इसके शिखर पर विश्ववर्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य भवन है जो वरुण का निवासस्थान है । इस पर्वत पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरुसार्वाणि भी निवास करते हैं । सुग्रीव ने सुपेण आदि से इस पर्वत पर सीता की खोज करने के लिये कहा (४ ४२, ३४ ३६-४७) ।" वालिनू के भय से भागते हुये सुग्रीव इस पर्वत पर भी आये थे (४ ४६, २०) । 'मेरुनंगवर श्रीमाञ्जाम्बूनदमय शुभ । तस्य यन्मध्यम शृङ्ग सर्वदेवतपूजितम् ॥' (७ ३७क, ७) ।

मेरुसार्वाणि, 'एक महर्षि का नाम है जो मेरुगिरि पर निवास करते थे । ये धर्म के ज्ञाता थे । इन्होंने तपस्या से उच्च स्थिति प्राप्त की थी और प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि थे । सुग्रीव ने सुपेण तथा अन्य वानरों से सूर्यतुल्य तेजस्वी इन महर्षि के चरणों में प्रणाम करके इनसे सीता का पता पूछने के लिए कहा (४ ४२, ४६-४७) ।" इनकी पुत्री का नाम स्वयंप्रभा था जो ऋक्ष-विल में निवास करती थी (४ ५१, १६) ।

मैनाक, एक पर्वत का नाम है । वाल्मीकि ने थीराम के इस पर पधारने का पूर्वदर्शन किया (१ ३, २७) । "यह कौञ्चगिरि के उस पार स्थित था । मयासुर का भवन इसी पर निर्मित था । इस पर घोड़े के समान मुखवाली किन्नरियाँ निवास करती थी । सुग्रीव ने शतवलि आदि वानरों से इसके शिखरों, मैदानों, और बन्दराओं में सीता की खोज करने के लिये कहा (४ ४३, १०-३१) । 'हिरण्यनाम मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम्,' (५, १, ९२) । "दिवराज इन्द्र ने इसे पानालवासी असुरों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिये परिघरूप-से स्थापित

क्रिया था। इसमें ऊपर-नीचे और अगल-बगल, सब ओर बढ़ने की शक्ति थी (५ १, १२-१५)। समुद्र के अनुरोध पर इमने हनुमान् के विश्राम के लिये वृक्षों से आच्छादित अपने सुवर्णमय शिखर को ऊपर उठाया (२. १, ९६-१०७)। "समुद्र के बीच में अत्रिलम्ब उठकर सामने लड़े हुये मैनाक पर्वत को देखकर हनुमान् ने इसे कोई नवीन विघ्न समझा, अतः उन्होंने अपनी छाती के पत्रके से इसे नीचे गिरा दिया। हनुमान् के पराक्रम को देखकर इतने मनुष्य रूप धारण करके हनुमान को अपने शिखर पर कुछ क्षण विश्राम करने के लिये आमन्त्रित किया। इमने बताया कि हनुमान् के साथ इसका सम्बन्ध भी है क्योंकि पूर्वकाल में हनुमान् के पिता, वायु देवता, ने इसकी उस समय रक्षा की थी जब इन्द्र अपने वज्र से इसके पक्षी को काट देना चाहते थे। इस प्रकार इमने अनेक प्रकार से हनुमान् को विश्राम के लिये प्रेरित किया (५ १, १०८-१०३)।" हनुमान् का आतिथ्य-सत्कार करने के इसके इम आग्रह को इन्द्र ने प्रशंसा की (२. १, १३८-१४४)। लङ्का से लौटने समय हनुमान् ने इसका स्पर्श किया (५. ५७, १३ सुनाभ)। श्रीराम का विमान इस पर से भी होकर उड़ा (६ १२३, १९ 'हिरण्यनाभ')।

मैन्द, एक वानर का नाम है जिसको अश्विनीकुमारों ने श्रीराम की सहायता के लिये जन्म दिया था (१ १७, १४)। इन्होंने सुग्रीव के अभिषेक में भाग लिया था (४ २६, ३४)। लङ्गण ने किष्किण्या में इनके अत्यन्त मुट्ट और श्रेष्ठ भवन को देखा (४. ३३, ९)। महाबली मैन्द दस अरब वानर सैनिकों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुये (४ ३९, २५)। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये इन्हे दक्षिण दिशा में भेजा (४ ४१, ४)। विन्ध्य-पर्वत पर सीता को खोजते हुये जल के लिये इन्होंने श्रद्धाविल गुफा में प्रवेश किया (४. ५०, १-८)। अङ्गद द्वारा समुद्र-लङ्घन की शक्ति पूछने पर (४ ६४, १५-१९) इन्होंने बताया कि ये साठ योजन तक एक छलाग में कूद सकते हैं (४ ६५, ७)। इन्होंने ब्रह्मा से अमरत्व का वर प्राप्त करके देवों की विराल सेना को मथ कर अमृत का पान किया था (५ ६०, १-४)। वानरसेना का सरक्षण करते हुये इन्होंने समुद्र तट पर पड़ाव डाला (६. ५, २)। श्रीराम के पूछने पर इन्होंने बताया कि विभीषण को ग्रहण करने के पूर्व उनके अभिप्राय को जान लेना आवश्यक है (६. १७, ४७-४९)। यह एक अप्रतिम योद्धा थे जिन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा से अमृत पान किया था (६ २८, ६-७)। इन्होंने नील के नेत्र में पूर्वद्वार पर मुद्र किया (६ ४१, ३८)। इन्होंने बज्रमुष्टि के साथ इन्द्रमुद्र किया (६ ४३, १२)। इन्होंने मुष्टि-ग्रहण से अपने शत्रु का मथ कर दिया (६ ४९, २९)। यह भी उस स्थान पर आये

जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण मूर्च्छित पड़े थे (६ ४६, ३) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहूत किया (६ ४६, १९) । इन्होंने राक्षस-सेना का भीषण संहार किया (६ ५५, ३०) । इन्होंने अनिकाय पर आक्रमण किया किन्तु आहूत होकर युद्धभूमि में हट गये (६ ७१, ३९-४२) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहूत किया (६ ७३, ४४) । अङ्गद को राक्षसों में बिरा देखकर यह उनकी सहायता के लिये दौड़े (६ ७६, १६) । इन्होंने युद्ध करत हुये यूपशक का वध किया (६ ७६, ३२-३४) । इन्होंने कुम्भ के माथ भीषण युद्ध किया जिसमें अन्ततः बुरी तरह आहूत हुए (६ ७६, ४३-४६) । राम के द्वारा मरुत होकर ये किष्किन्धा लौटे (६ १२८, ८८) । श्रीराम की सहायता के लिये ही देवों ने इनकी सृष्टि की थी (७ ३६, ४९) । राम ने इनका आदर्श-सत्कार किया (७ ३९, २१) । श्रीराम ने इन्हें कलियुग अथवा प्रलय आन तक पृथिवी पर जोड़ित रहने का आशीर्वाद दिया (७ १०८ ३४) ।

मौद्गल्य, एक राजकर्त्ता और ब्राह्मण का नाम है (२ ६०, ३) । दशरथ की मृत्यु हो जाने पर दूगर् दिन प्रातः काल राजसभा में उपस्थित होकर इन्होंने वसिष्ठ को दूमरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया (२ ६७, ५-८) । राम के आमन्त्रण पर य सभामवन में उपस्थित हुये जहाँ राम ने इनका सत्कार किया (७ ७४, ४) । इन्होंने श्रीराम की नभा में सीता के शयन-ग्रहण को देखा (७ ९६, ३) ।

इन्हेच्छों की, वसिष्ठ की गाय के रोमकूपों में उत्पत्ति हुई थी (१. ५५, ३) । ये भी दशरथ की रामना में बैठकर दशरथ की उर्ध्वमिता कर रहे थे (२ ३ २५) । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये शनबलि को इनके उत्तर दिया में स्थित प्रदेश में भेजा था (४. ४३, ११) ।

य

यक्ष—रावण को ब्रह्मा या यह वरदान था कि वह यक्षों से अवध्य रहेगा (१ १५, १३) । रावण का विनाश कराने के उद्देश्य में ये भी विष्णु की शरण में गये (१ १५, २४) । ब्रह्मा ने देवों को यक्षिणियों के गर्भ से वानर-मन्त्रा उत्पन्न करने का आदेश दिया (१ १७, ५) । 'अन्यवीर्या यदा यमी श्रूयन्ते मुनिपुङ्गव । कथं नागगहक्षम्व धारयन्त्यवला बलम् ॥' (१ २५, २) । ये रात्रि के समय विचरण करनेवाले प्राणी हैं (१. ३४, १८) । इन्होंने भी गगावतरण के दृश्य को देखा (१. ४३, १८) । ये गगा की धारा का अनुसरण करते हुये चलने लगे (१ ४३, ३२) । श्रीराम और परशुराम के युद्ध को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (१. ७६, १०) । अगस्त्य का आश्रम इनमें सेवन था (३ ११, ९२) । श्रीराम विहार के लिये ये मुदगन

सरोवर के क्षेत्र में जाते थे (४ ४०, ४४) । महेन्द्रगिरि इनसे सेवित था (४ ४१, २२, ५-१, ६) । हनुमान् द्वारा सागर का लक्ष्मण करते समय इन लोगों ने उनका प्रशस्ति-गायन किया (५ १, ८७) । ये अन्तरिक्ष क्षेत्र में निवास करते थे (५ १, १७८) । हनुमान् के हाथों ब्रह्म को मारा गया देखकर इन लोगों ने आश्चर्य प्रगट किया (५ ४७, ३७) । हनुमान् और इन्द्रजित् का युद्ध देखने के लिये इनका भी दल उपस्थित हुआ (५ ४८, २४) । अरिष्ट पर्वत इनसे सेविता था (५ ५६, ३५) । जब हनुमान् के भार से अरिष्ट पर्वत बँसने लगा तब ये योग उत्त पर से हट गये (५, ५६, ४७) । इनकी आकाशरूपी सागर के पुष्पित कमलों के साथ तुलना की गई है (५ ५७, ३) । जब श्रीराम ने कुम्भकर्ण का वध कर दिया तब ये लोग बड़े प्रसन्न हुये (६ ६७, १७५) । महोदर का वध कर देने पर ये लोग सुभीव को वाञ्छयंपूर्वक देखने लगे (६ ९७, ३८) । ये लोग सारी रात श्रीराम और रावण का युद्ध देखते रहे (६ १०७, ६५) । जब ब्रह्मा ने जलजन्तुओं की सृष्टि की तो उस समय इन लोगों ने कहा था कि ये 'यक्षण' (पूजन) करेंगे, अत इनका नाम यक्ष पडा (७ ४, १२-१३) । जब विष्णु माल्यवान् आदि का वध करने के लिये निकले तब इन लोगों ने विष्णु की स्तुति की (७ ६, ६७) । इन लोगों ने कुवेर को रावण के कैलास पर्वत पर आने का समाचार दिया और कुवेर की वाता में ही उनमें युद्ध करने गये (७ १४, ४-६) । रावण ने इन्हें पराजित करके छिन्न-भिन्न कर दिया (७ १४, १४-१९) । शैतव्या नाम में ही हनुमान् को सूर्य की ओर उड़कर जाते हुये देखकर इनको भी विस्मय हुआ (७, ३५, २५) । वायु देवता को गोद में अपने आहत शिषु को लिये हुये देखकर इन लोगों को भी उन पर अत्यधिक दया आई (७ ३५, ६५) । भयभीत होकर ये लोग भी राजा इल की सेवा करते थे (७, ८७, ५-६) । विष्णु के पुन अपने लोक में लौट आने पर इन लोगों ने हर्ष प्रगट किया (७ ११०, १४) ।

यज्ञकोष. एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जो श्रीराम आदि का वध करने के लिये अस्त्र-यस्त्रों से सुमज्जित होकर रावण की सभा में सज्ज हो जाया (६ ९ १) । इसने राम के साथ युद्ध किया (६, ४३, ११) । श्रीराम ने इसका वध किया (६ ४३, २७) । यह माल्यवान् और सुन्दरी का पिता था (७ ५, ३५-३७) ।

१ यज्ञसूत्र, सर के एक सेनापति का नाम था जो श्रीराम से युद्ध करने के लिये उपस्थित हुआ (३, २३, ३२) । इस महावीर बलाघ्न्य ने सर के आदेश पर अपनी सेनासहित श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २६-२८) ।

२. यज्ञसूत्र, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने आग लगा दी थी (५ ५४, १५)। श्रीराम के द्वारा आहन होकर यह युद्धभूमि से भाग गया (६ ४४, २०)।

यदु, ययाति और देवयानी के पुत्र का नाम है, जिन्होंने अपने सीनेले भ्राता के प्रति पिता के पक्षपात को देखकर आत्महत्या करने का निश्चय किया (७ ५८, १०-१४)। अपने पिता के प्रस्ताव को (७ ५९, १-३) अस्वीकृत करते हुये इन्होंने उनसे कहा 'आप अपने प्रिय पुत्र, पूरु, से ही यह प्रार्थना करें क्योंकि आपकी वही अधिक प्रिय है।' (७ ५९, ४-५)। अपने पिता के शाप के अनुसार यह शौचवन में चले गये और वहाँ अनेक राक्षसों को उत्पन्न किया (७ ५९, २०)।

यम—श्रीराम को वनवास दिये जाने पर अन्यन्त विलाप करते हुये वीमल्या ने कहा कि उनके लिये अब यमलोक में भी कोई स्थान नहीं है अन्यथा उनकी मृत्यु क्यों न हो जाती (२ २०, ५०)। श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, २३)। 'त रथस्थ धनुष्पाणि राक्षसं पर्यवस्थिनम् । ददुशु सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम् ॥', (३, २८, ११)। 'अजेयं समरे घोरं व्यात्ताननमिवान्तकम्', (३ ३२, ६)। 'कालचक्रमिवान्तक', (४ १६, ३२)। पितृलोक को इनकी राजधानी कहा गया है (४ ४१, ४५)। ये दक्षिण दिशा के अधिपति हैं (४ ५२, ७)। कुम्भकर्ण ने इन्हें पराजित किया (६ ६१, ९)। सीता का तिरस्कार करने पर इन्होंने श्रीराम को समझाया (६ ११७, २-९)। रावण के भय से एक कौये का रूप धारण करके ये मरुत्त के यज्ञ में उपस्थित हुये (७ १८, ४-५)। रावण के चले जाने के पश्चात् इन्होंने अपने रूप में प्रकट होकर कौओं को वरदान दिया (७ १८, २५)। जब रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिये नारद मुनि यमलोक पधारे तब इन्होंने नारद का आतिथ्य-सत्कार करने के पश्चात् उनसे पूछा 'हे देवपि ! कुशल तो है ? धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है ? आपके शुभागमन का क्या उद्देश्य है ?' (७ २१, २-४)। जब रावण ने इनकी सेना का विनाश करना आरम्भ किया तो ये कालदण्ड तथा अन्य आयुध धारण कर मृत्यु के साथ रथ पर बैठकर युद्धभूमि में आये (७ २२, १-८)। इन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र-घस्त्रा का प्रहार करते हुये सतत् सात रात्रियों तक रावण के साथ युद्ध किया (७ २२, १५)। यद्यपि इस युद्ध में इन्होंने शत्रुओं को अत्यधिक पीड़ित और आहत किया, तथापि जब इनके मर्मस्थानों को रावण ने गहरी क्षति पहुँचाई तब इनके मुख से क्रोध अग्नि बनकर प्रगट हुआ जो ज्वाल-मालाओं से मण्डित,

श्वासवायु से समुक्त तथा धूम से आच्छन्न दिखाई देता था (७ २२, १६-२१)। 'मृत्यु के पूछने पर इन्होंने कहा 'तुम ठहरो, मैं स्वयं ही इसका वध कर डालता हूँ।' इस प्रकार कहकर इन्होंने अमोघ कालदण्ड को हाथ से उठाया, परन्तु ज्यों ही वे उससे रावण पर प्रहार करने के लिये उद्यत हुये, ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित होकर इन्हें रोका (७ २२, ३१-४५)।" तदनन्तर ये युद्धभूमि से अग्न्यर्धान हो गये (७ २२, ४६-४८)। 'मया प्रेतेश्वरो दृष्ट कृतान्न सह मृत्युना । पाशहस्तो महाज्वाल ऊर्ध्वरोमा भयानक ॥ दष्टानो विद्युज्जिह्वश्च मर्षवृषिचक्रोमवान् ॥ रक्ताक्षो भीमवेगवच सर्वसंशयमथकर । आदित्य इव दुःप्रैक्ष्य समरेष्वनिवर्तक ॥ पापानां शाभिता चैव समथा युधि निर्जित । न च मे तत्र भी काचिदया वा दानवेश्वर ॥', (७ २३क, ७५-७७)। ब्रह्मा की आज्ञा पर (७ ३६ ७-९) इन्होंने हनुमान् को अपन दण्ड से अवध्य और निरोग होने का वर दिया (७ ३६, १६)।

यमल, एक असुर का नाम है जिसका विष्णु ने वध किया था (७ ६, ३५)।

यमुना—श्रीराम आदि उस स्थान की ओर अग्रसर हुये जो गंगा और यमुना का संगम था (२ ५४, २)। गंगा और यमुना के जलो के मिलन से उत्पन्न शब्द को सुनकर श्रीराम यह समझ गये कि वे संगम-स्थल पर आ गये हैं (२ ५४, ६)। भरद्वाज का आश्रम गंगा और यमुना के संगम पर स्थित था (२ ५४, ८)। 'अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्यो समागमे । पुण्यश्च रमणीयश्च वसतिहृ मवान्मुखम् ॥', (२ ५४, २२)। 'गगायमुनयो सधिभासाद्य मनु-जर्षभौ । कालिन्दीमनुगच्छेता नदी परवान्मुखाभिताम् ॥', (२ ५५, ४)। श्रीराम आदि ने देहे में बैठकर इसे पार किया (२ ५५, १८)। 'कालिन्दी शीघ्रज्जोनस्विनी नदीम्', (२ ५५, १३)। गीता ने इसकी स्तुति की (२ ५५, १९-२०)। श्रीराम आदि इसके दक्षिण तट पर आये (२ ५५, २१)। 'तत प्लवेनाशुमनी शीघ्रगाम्भिमालिनीम् । तीरजैर्बहुभिर्बुलै सतेर्यमुना नदीम् ॥', (२ ५५, २२)। 'विचित्रबालुकजला हससारमनादिताम् । रेभे जनकराजस्य सुता प्रैक्ष्य तवा नदीम् ॥', (२ ५५, ३१)। 'केवय से लोटते समय भरत ने इसे पार किया था । इन्होंने इसमें स्नान और जल्पान करने के पश्चात् इसका जल भी अपने साथ लिया (२ ७१, ६-७)।" चिन्कूट से लौटने समय भरत ने इस ऊर्मिमालिनी नदी का पुनः पार किया (२ ११३, २१)। यह यामुन पर्वत से निकली है, और सुग्रीव ने विनत को इसके सेतु में सीता की छोड़ करने के लिये कहा (४ ४०, २०)।

ययाति, नहुष के पुत्र और नाभाग के पिता का नाम है (१ ७०, ४२)। पूर्वकाल में ये स्वर्गलोके का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आये परन्तु सत्य

के प्रभाव से फिर स्वर्ग लौट गये (२ २१, ४७ ६२) । ये इन्द्र के समान लोक प्राप्त करने में समर्थ हुये थे (३ ६६, ७) । 'नहृपस्य सुतो राजा ययाति पौरवर्धन', (७ ५८, ७) । 'अग्न्या तूशनस पत्नी ययाने पुरुषर्षभ । न तु सा दयिता राजो देवयानी मुमध्यमा ॥', (७ ५८, ९) । शुक्राचार्य के शाप के कारण जीर्ण, वृद्ध, और शिथिल हो जाने के कारण इन्होंने अपने पुत्र यदु से कहा कि वे इनकी वृद्धावस्था को कुछ समय के लिये ले लें (७ ५८, २२-२५, ५९, १-३) । यदु के अस्वीकार कर देने पर इन्होंने अपने दूसरे पुत्र, पूरु, से यही प्रस्ताव किया (७ ५९, ६) । "अपने वृद्धत्व को पूरु को देकर इन्होंने अनेक वर्षों तक सुखभोग किया । तदनन्तर अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर पूरु का राज्याभिषेक किया और स्वयं मग्यास ले लिया । मृत्यु के पश्चान् ये स्वर्गलोक को चले गये (७ ५९, ८-१८) ।"

यवक्रीत, एक ऋषि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये पूर्व दिशा से पधारें थे (७ १, २) ।

यवद्वीप, सान राज्यों में मुशोभित एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये मुश्रीव ने विनत को भेजा था (४ ४०, २८-२९) ।

यवन—विश्वामित्र की सेना का संहार करने के लिये वसिष्ठ की शबली गाय ने यवनों को उत्पन्न किया जो अत्यन्त तेजस्वी, सुवर्ण के समान बान्निमान्, सुवर्ण वस्त्रों से विभूषित, तीक्ष्ण खड्गों से युक्त तथा पट्टिद्य आदि लिये हुये थे (१ ५४, २०-२२) । विश्वामित्र न इन पर अनेक अस्त्रों से प्रहार किया जिससे ये अत्यन्त व्याकुल हो उठे (१ ५४, २३) । ये वसिष्ठ की शबली गाय के मोनि देश से उत्पन्न हुये थे (१ ५५, ३) । मुश्रीव ने शतबलि को इनके नगरो में भी सीता की खोज करने के लिये कहा (४ ४३, १२) ।

यामुन, एक पर्वत का नाम है जहाँ से यमुना निकली है । मुश्रीव ने सीता की खोज के लिये विनत को इसके क्षेत्र में भेजा (४ ४०, २०) ।

युद्धोन्मत्त, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये थे (५ ६, २५) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी थी (५ ५४, १३) । गवण ने राक्षस-कुमारों के साथ युद्धभूमि में जाने के लिये इसमें अनुरोध किया (६ ६९, १६) ।

युधाजित्—श्रीराम के विवाह के एक दिन पूर्व ये भी कैकय से मिलिया पधारें (१ ७३, १) । ये कैकय के राजकुमार और भरत के मामा थे (१ ७३, २) । ये पहले भरत को देखने के लिये अयोध्या पधारें और वही से मिलिया आये (१ ७३, ४-५) । दत्तरथ ने इनका हार्दिक स्वागत किया (१ ७३, ६) । ये भरत और दानुष्म के सेवर कैकय लौट गये (१. ७७, १७-

२०) । इन्होंने वमिष्ठ के दूतों का हादिक स्वागत किया (२ ७०, २) । इन्होंने भरत को विदा किया (२. ७०, २८) । कैशेयी ने भरत से इनका कुशल समाचार पूछा (२ ७२, ६) । वमिष्ठ ने इन्हें बुलवाया (२ ८१, १३) । राम ने उचिन आदर-मत्कार के साथ इन्हें विदा किया (७. ३८, ८-१४) । इन्होंने अपने पुरोहित, गार्ग्य, के द्वारा बनेक उपहार और समाचार राम के पास भेजे (७ १००, १-३) । भरत के आने पर इन्होंने भी उनके साथ सम्मिलित होकर गन्धर्व देश में प्रवेश किया (७ १०१, १-३) ।

युवनाश्व, धनुमार के पुत्र तथा मान्धाना के महातेजस्वी और महारथी पिता का नाम है (१ ७०, २४) ।

यूपाक्ष, रावण के एक सेनापति का नाम है जिसने रावण के आदेश पर हनुमान् से द्वन्द्व युद्ध किया और बाह्य हुआ (५ ४६, १-१७ २९-३२) । रावण के एक सचिव का नाम है (६ ६०, ७२) । कुम्भकर्ण के पूछने पर इमने बताया कि किस प्रकार बानरो ने लका को घेर लिया है और राक्षसों का मनुष्यों के हाथ बिगास होने वाला है (६ ७, ७२-७८) । रावण ने कुम्भ और निकुम्भ के साथ इसे भी युद्धभूमि में जान का आदेश दिया (६ ७५, ४६) । शोणिताक्ष को अङ्गद के द्वारा प्रस्त देखकर यह उसकी सहायता के लिये दौड़ पड़ा (६ ७६, १२) । इसने अङ्गद और शोणिताक्ष के साथ मिलकर अङ्गद से युद्ध किया (६ ७६, १४-१५) । मैन्द ने इसका वध किया (६ ७६, २८-३३) ।

यौगन्धर, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अश्व का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ६) ।

र

रंह, एक बानर वृषपति का नाम है जो किष्किन्धा में सुग्रीव के समस्त उपस्थित हुए थे (४ ३९ ३८, गीता प्रेस संस्करण) ।

रति, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अश्व का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१. २८, ८) ।

१. **रमस**, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अश्व का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ४) ।

२. **रमस**, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम आदि के वध की प्रतिज्ञा करके अश्व राक्षसों से मुसज्जित हो रावण के समीप उपस्थित हुआ (६ ९, १) ।

३. **रमस**, एक बानर-प्रमुख का नाम है जो बानरी सेना को आगे धड़ने की प्रेरणा देता हुआ चल रहा था (६ ४, ३७) ।

रम्भ, एक वानर यूथपति का नाम है जो प्रातःकाल के सूर्य की भाँति रक्त-वर्ण था यह ग्यारह हजार एक सौ वानरो की सेना लेकर सुग्रीव के पास आया (४, ३९-३३) । 'सारण ने रावण को इसका परिचय देने हुये कहा 'यह सिंह के समान पराक्रमी, वपिल वण, जिसकी ग्रीवा पर लम्बे लम्बे बाल हैं और जो लका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो उसे भस्म कर देगा, रम्भ नामक वानर यूथपति है । यह निरन्तर विन्ध्य, कृष्णगिरि, सह्य और मुदशन आदि पर्वतों पर रहा करता है । इसके युद्ध के लिये प्रस्थान करने पर एक करोड़ तीस श्रेष्ठ भयकर, अत्यन्त क्रोधी, प्रचण्ड, और ऐसे पराक्रमी वानर इसका अनुसरण करते हैं जो सबके सब अपने बल से लका को मसल डालने के लिये इसको घेर कर खड़े हैं ।' (४ २६, ३१-३३ ।' इसने सावधानी के साथ अपनी सेना की व्यूह रचना करके हाथ में वृक्ष लिये हुये श्रीराम की रक्षा की (६ ४७, २) ।

रम्भा, एक अप्सरा का नाम है जिसे इन्द्र ने विश्वामित्र की तपस्या भङ्ग करने का आदेश दिया (१ ६४, १) । इसने इन्द्र से विश्वामित्र के प्रति अपने मद्य को प्रगट किया (१ ६४, २-५) । इन्द्र के आश्वासन पर इसने विश्वामित्र को मोहित करना आरम्भ किया परन्तु विश्वामित्र ने देवों का अभिप्राय समझकर इसे दस सहस्र वर्षों तक पाषाण प्रतिज्ञा बनी रहने का शाप दे दिया और कहा कि इस अवधि के पश्चात् एक तपोबल-सम्पन्न ब्राह्मण इसका उद्धार करेंगे (१ ६४, ८-१५) । 'विराध ने बताया कि वह पहले तुम्बुरु नामक गन्धर्व था । रम्भा के प्रति आसक्ति के कारण वह कुबेर की सेवा में उचित समय पर नहीं पहुँच सका, जिससे कुबेर ने उसे राक्षस बन जाने का शाप दिया (३ ४, १८) ।' "एक समय रावण कैलास पर्वत पर सेना सहित रुका । विविध कुसुमों के मधुर मकरन्द तथा पराग से मिश्रित वहाँ की वायु ने रावण को कामवासना को उद्दीप्त कर दिया । उसी समय रम्भा—दिव्याभरणभूषिता । सर्वाप्सरोवरा रम्भा पूर्णचन्द्रनिभानना—उस मार्ग से आ निकली (७. २६, १ ११ १४)' । दिव्यचन्दनलिताङ्गी मदारवृत्-मूर्धजा । दिव्योत्पलवक्रानारम्भा दिव्यपुष्पविभूषिता ॥ चक्षुर्मनोहर पीत मेखला-दामभूषितम् । समुद्रहन्तीजघन रतिप्राभृतमुत्तमम् ॥ वृत्तविशेषकैरार्द्र पद्भु-कुसुमोद्भव ॥ वभावग्यतमेव श्री कान्तिश्रीश्रुतिकीर्तिभि । नील सतोपमेघाम वस्त्र समवगुण्डिता ॥ यस्या वक्त्र शशिनिभ भ्रुवो चापनिभे शुभे । ऊरु करिकराकारो करो पल्लवक्रोमलौ ॥' (७ २६, १५-१९) । "उस समय रावण इसे देखकर इस पर आसक्त हो गया । रावण के समापम का प्रस्ताव करने पर इसने बताया कि यह रावण की पुत्र-वधू है नयोंकि उस समय यह

रावण के भ्राता, कुबेर, के पुत्र नलकूबर से मिलने जा रही है। रावण ने इसके अनेक अनुनय विनय करने पर भी इसके साथ बलात्कार किया। उपभोग के बाद रावण ने इसे छोड़ दिया। उस समय इसकी दशा उम नदी के समान हो गई जिसे किसी गजराज ने शीड़ा करके मथ डाला हो। इस दयनीय अवस्था में नलकूबर के पास जाकर इसने समस्त वृत्तान्त बताया जिस पर क्रुद्ध होकर नलकूबर ने रावण को शाप दिया (७. २६, १९-५३) ।”

रश्मिकेतु, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में सीता की खोज करते हुये हनुमान् ने प्रवेश किया (५. ६, २१)। हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५. ५४, १२)। यह भी अन्य राक्षसों के साथ अस्त्र-शस्त्रों से मुग्धगिन होकर श्रीराम आदि क वध की प्रतिज्ञा करके रावण की सभा में उपस्थित था (६. ९, २)। इसने श्रीराम पर आक्रमण किया (६. ४३, ११-२७)। श्रीराम ने इसका वध कर दिया (६. ४३, २८)। विभीषण ने यानरों को इसके वध का समाचार बताया (६. ८९, १३)।

राजगृह, केकय देश की राजधानी का नाम है। वसिष्ठ के दूत यहाँ पहुँचे (२. ७०, १)। यहाँ से निकल कर पराक्रमी भरत ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया (२. ७१, १)।

रात्रि—श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिए कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२. २५, १४)। ‘शशिना विमलेनेव शारदी रजनीयथा’, (२. १०१, ११)। अग्नि-परोक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय सीता ने अपने चरित्र को शुद्धता प्रमाणित करने के लिए इनका भी आवाहन किया (६. ११६, २८, गीताप्रेस संस्करण)।

राधेय, एक बहुमायावी राक्षस का नाम है जिसे विष्णु ने पराजित किया था (७. ६, ३५)।

राम—सम्पूर्ण रामायण में श्रीराम के ही जीवन-वृत्त और चरित्र का वर्णन है। इनके जन्म के उल्लेख के पश्चात् स तो प्रायः सभी सर्गों में इनका किसी न किसी रूप में वर्णन है ही, जन्म-पूर्व सर्गों में भी इनके जन्म तथा जीवन की घटनाओं की पूर्वपीठिका है। अतः उन समस्त स्थलों का उल्लेख करना, जहाँ इनका नाम या प्रसङ्ग आता है, सम्पूर्ण रामायण का सारांश प्रस्तुत करना होगा। अधिकांश ऐसे सर्गों में भी जिनमें ये एक पात्र के रूप में उपस्थित नहीं हैं, अन्य पात्र इनके लिये या इनका नाम लेकर ही अपना काम करते हैं। फिर भी, यहाँ हम ऐसे स्थलों का उल्लेख कर रहे हैं जहाँ एक प्रमुख पात्र के रूप में वे उपस्थित हैं : नगरद्वीप ने बाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्रीराम चरित्र सुनाया (१. १)। लम्बा के तट पर शौचवध से सतप्त हुये

महर्षि वाल्मीकि का शोक श्लोक-रूप में प्रगट हुआ तथा ब्रह्माजी ने उन्हें रामचरित्रमय वाक्य के निर्माण का आदेश दिया (१. २) । महर्षि वाल्मीकि ने चौबीस हजार श्लोको से युक्त रामायण-वाक्य का निर्माण करके उसे लक्ष और कुश को पढाया जिसे उन लोगोने राम दरबार में सुनाया (१. ४) । श्रीराम आदि के जन्म, सत्कार, शील-स्वभाव एवं सद्गुणों का वर्णन (१. १८) । विश्वामित्र के मुख से श्रीराम को साय ले जाने की माँग सुनकर राजा दशरथ दुःखित एवं मूर्च्छित हो गये (१. १९) । दशरथ ने विश्वामित्र को अपने पुत्र श्रीराम को देना अस्वीकार कर दिया जिस पर विश्वामित्र क्रुपित हो गये (१. २०) । "राजा दशरथ ने स्वस्तिवाचनपूर्वक राम को मुनि के साथ भेज दिया । मार्ग में श्रीराम को विश्वामित्र से 'बला' और 'अतिबला' नामक विद्या की प्राप्ति हुई (१. २२) ।" श्रीराम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ सरयू-गंगा सगम के समीप पुण्य आश्रम में रात्रि व्यतीत की (१. २३) । "लक्ष्मण सहित श्रीराम ने गंगा पार करते समय विश्वामित्र से जल में उठती हुई तुमुलध्वनि के विषय में प्रश्न किया । विश्वामित्र ने उन्हें इसका कारण बताया तथा मलद, वरूप एवं ताटका-वन का परिचय देने हुये ताटकावध के लिए आज्ञा प्रदान की (१. २४) ।" श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्र ने उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह, एवं दाप आदि का प्रसङ्ग सुनाकर उन्हें ताटका-वध के लिये प्रेरित किया (१. २५) । श्रीराम ने ताटका का वध कर दिया (१. २६) । विश्वामित्र ने श्रीराम को दिव्यास्त्र प्रदान किये (१. २७) । "विश्वामित्र मुनि ने श्रीराम को अस्त्रों की सहार-विधि बताकर अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश दिया । श्रीराम ने मुनि से एक आश्रम एवं यज्ञस्थान के विषय में प्रश्न किया (१. २८) ।" विश्वामित्र ने श्रीराम से सिद्धाश्रम का पूर्ववृत्तान्त बताया तथा राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम पर पहुँचकर सुशोभित हुये (१. २९) । श्रीराम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का सहार किया (१. ३०) । लक्ष्मण, ऋषियो, तथा विश्वामित्र के साथ श्रीराम ने मिथिला को प्रस्थान किया और मार्ग में सन्ध्या होने पर शोणमद्र-तट पर विधाम किया (१. ३१) । श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्र ने उन्हें गंगाजी की उत्पत्ति की कथा सुनाई (१. ३५, १२. २४) । राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियो सहित श्रीराम मिथिलापुरी में पहुँचे और वहाँ सुने आश्रम के विषय में प्रश्न करने पर विश्वामित्र ने श्रीराम को अहल्या की दाप प्राप्त होने की कथा सुनाया (१. ४८) । श्रीराम ने अहल्या का उद्धार और गौतम-ऋषिनी ने राम का सत्कार किया (१. ४९, ११-२२) । श्रीराम आदि के मिथिलापुरी जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र का सत्कार करके श्रीराम और लक्ष्मण के

विषय में जिज्ञासा प्रगट करते हुये उनका परिचय प्राप्त किया (१ ५०) । शनानन्द के पूछने पर विश्वामित्र ने उन्हें श्रीराम के द्वारा अहल्या के उद्धार का समाचार बताया तथा शनानन्द ने श्रीराम का अभिनन्दन करते हुये विश्वामित्र के पूर्वचरित्र का वर्णन किया (१ ५१) । राजा जनक ने श्रीराम-लक्ष्मण, और विश्वामित्र का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय दिया और धनुष चढ़ा देने पर सीता के साथ श्रीरामके विवाहका निश्चय प्रकट किया (१ ६६) । श्रीराम ने धनुर्भङ्ग किया (१ ६७) । राजा दशरथ के अनुरोध से वसिष्ठ ने सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मण के लिए सीता और ऊर्मिला का वरण किया (१ ७०) । राजा जनक ने अपने कुल का परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मण के लिए सीता और ऊर्मिला को देने का निश्चय किया (१ ७१) । राजा दशरथ ने अपने श्रीराम आदि प्रत्येक पुत्र के मंगल के लिये एक-एक लाख गौएँ दान की (१ ७२, २२-२५) । श्रीराम आदि चारों भ्राताओं का विवाह हुआ (१ ७३) । राजा दशरथ की बात अनमूनी करके परशुराम ने श्रीराम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारा (१. ७५) । श्रीराम ने वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अयोध वाण द्वारा परशुराम के तप से प्राप्त पुण्यलोकोंका नाश किया (१ ७६) । "श्रीराम ने वधुओं सहित भ्राताओं के साथ अयोध्या में प्रवेश किया । इनके श्ववहार से सबको सतोष हुआ । श्रीराम तथा सीता के पारस्परिक प्रेम का उल्लेख (१ ७७) ।" "श्रीराम के सद्गुणों का वर्णन । राजा दशरथ ने श्रीराम को युवराज बनाने का निश्चय किया तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपद के लोगों को मन्त्रणा के लिए बुलाया (२ १) ।" राजा दशरथ ने श्रीराम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव किया तथा सभासदों ने श्रीराम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहर्ष सुक्तियुक्त समर्पण किया (२. २) । "दशरथ ने वसिष्ठ और वामदेव को श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहा और उन्होंने सेवकों को तदनुरूप आदेश दिया । राजा की आज्ञा से सुमन्त्र श्रीराम को राजसभा में बुला लाये । श्रीराम के आने पर राजा दशरथ ने उन्हें हितकर राजनीति की शिक्षा दी (२ ३) ।" "श्रीराम को राज्य देने का निश्चय करके दशरथ ने सुमन्त्र द्वारा श्रीराम को पुनः बुलाकर उन्हें आवश्यक बातें बताया । श्रीराम ने कौसल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताया और भाना से आशीर्वाद प्राप्त करके लक्ष्मण से प्रेमपूर्वक वार्तालाप करने के पश्चात् अपने महल में प्रवेश किया (२. ४) ।" दशरथ के अनुरोध से वसिष्ठ ने सीता सहित श्रीराम को उपवास-व्रत की शिक्षा दी (२ ५) । "सीता सहित श्रीराम नियमपरायण हो गये । श्रीराम के राज्या-

अभिषेक का समाचार सुनकर समरत पुरवासी अत्यन्त प्रसन्न होकर अयोध्या को सजाने में लग गये । राज्याभिषेक देखने के लिए अयोध्यापुरी में जनपद-वासी मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई (२ ६) । श्रीराम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मन्थरा ने कँकेयी को उभारा (२ ७, १-३०) । "मन्थरा द्वारा पुन श्रीराम के राज्याभिषेक को कँकेयी के लिए अनिष्टकारी बताने पर कँकेयी ने श्रीराम के गुणों को बताने के उनके अभिषेक का समर्थन किया । तदनन्तर कुब्जा ने पुन श्रीरामराज्य को भरत के लिए भयकारक बताकर कँकेयी को भड़काया (२ ८) ।" कँकेयी ने दशरथ को पहले उनके दिये हुए दो वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिये अभिषेक और राम के लिये चौदह वर्षों का वनवास मांगा (२, ११) । कँकेयी द्वारा वरों की पूर्ति का दुराग्रह करने पर दशरथ ने वसिष्ठ के आगमन के पश्चात् सुमन्त्र को श्रीराम को बुलाने के लिए भेजा (२ १४) । राजा दशरथ की आज्ञा से सुमन्त्र श्रीराम को बुलाने के लिए उनके भवन में गये (२ १५) । सुमन्त्र ने श्रीराम के भवन में पहुँच कर महाराज का सदेश सुनाया और श्रीराम ने सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथारूढ होकर गाजे-बाजे के साथ स्त्री पुरुषों की बानें सुनते हुए प्रस्थान किया (२. १६) । श्रीराम ने राजपथ की शोभा देखते और सुहृदों की बानें सुनते हुए पिता दशरथ के भवन में प्रवेश किया (२ १७) । श्रीराम द्वारा कँकेयी से पिता के चिन्तित होने का कारण पूछने पर कँकेयी ने कठोरतापूर्वक अपने मांगे हुये वरों का वृत्तान्त सुनाकर श्रीराम को वनवास के लिये प्रेरित किया (२ १८) । श्रीराम कँकेयी के साथ वार्तालाप और वन में जाना स्वीकार करके माता कौसल्या के पाम आज्ञा लेने के लिये गये (२. १९) 'श्रीराम ने कौसल्या के भवन में जाकर उन्हें अपने वनवास की बात बताया जिससे कौसल्या अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी । श्रीराम के उठा देने पर उन्होंने राम की ओर देखकर विलाप किया (२ २०) ।" रोप में भरे हुये लक्ष्मण ने श्रीराम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिये प्रेरित किया परन्तु श्रीराम ने पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माना और लक्ष्मण को समझाया (२ २१) । श्रीराम ने लक्ष्मण को समझाते हुये अपने वनवास में दैव को ही कारण बताया और अभिषेक की सामग्री को हटा देने का आदेश दिया (२ २२) । लक्ष्मण, राम के समझ दैव का खण्डन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन करके श्रीराम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यत हुये (२ २३) । विलाप करती हुई कौसल्या ने श्रीराम से अपने को भी साथ ले चलने का आग्रह किया परन्तु 'पतिसेवा ही नारी का धर्म है' यह बताकर श्रीराम ने उन्हें वन जाने से विरत करके अपने वन

जाने की अनुमति मांगी । (२ २४) । “कौसल्या ने श्रीराम की वनयात्रा के के लिए मङ्गलकामना पूर्वक स्वस्तिवाचन किया । श्रीराम ने उन्हें प्रणाम करके सीता के भयन की ओर प्रत्यान किया (२ २५) ।” श्रीराम को उदास देखकर सीता ने उनसे इसका कारण पूछा । श्रीराम ने इसके उत्तर में पिता की आज्ञा से घन जाने का निश्चय बताते हुये सीता को घर में रहने के लिये ही समझाया (२ २६) । सीता ने श्रीराम से अपने को भी साथले चलने की प्रार्थना की (२ २७) । श्रीरामने वनवास के कष्टों का वर्णन करते हुए सीता को वहाँ चलने से मना किया (२ २८) । सीता ने श्रीराम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताया (२ २९) । “सीता का वन में चलने के लिये अविक्र आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्रीराम ने उन्हें साथ चलने की स्वीकृति दे दी । पिता-माता और गुरुजनो की सेवा का महत्व बताते हुये श्रीराम ने सीता को वन में चलने की तैयारी के लिये घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा दी (२ ३०) ।” “श्रीराम और लक्ष्मण का सवाद हुआ । राम की आज्ञा से लक्ष्मण गृहों से दूध और दिव्य आभूषण लेकर वनगमन के लिये तैयार हुये । श्रीराम ने लक्ष्मण से ब्राह्मणों को घन बाँटने का विचार व्यक्त किया (२ ३१) ।” सीता सहित श्रीराम ने वसिष्ठपुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिये बहुमूल्य आम्रपण, रत्न और घन आदि का दान, तथा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और गृहजनों को घन का वितरण किया (२. ३२) । सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम दुःखी नगरवाहियों के मुख से तरह-तरह की बातें सुनते हुये पिता के दर्शन के लिये कँकेयी के महल में गये (२ ३३) । “सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम ने रात्रियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिये विदा मांगी । दशरथ शोक सजत हो मूर्च्छित हो गये । श्रीराम ने उन्हें समझाया तथा दशरथ श्रीराम को हृदय से लगाकर पुन मूर्च्छित हो गये (२. ३४) ।” “जब दशरथ ने श्रीराम के साथ सेवा और सजावा भेजने का आदेश दिया तो कँकेयी ने इसका विरोध किया । सिद्धार्थ ने कँकेयी को समझाया तथा दशरथ ने श्रीराम के साथ जाने की इच्छा प्रकट की (२ ३६) ।” श्रीराम आदि ने वस्त्र-वस्त्र धारण किया (२ ३७, १-१४) । श्रीराम ने दशरथ से कौमल्या पर शपादृष्टि रखने के लिये अनुरोध किया (२ ३८, १४-१७) । “राजा दशरथ ने राम के वनवास पर विलाप करना आरम्भ किया । दशरथ की आज्ञा से राम के लिये सुमन्त्र रथ जोत कर लाये । श्रीराम ने अपनी मान्ग से पिता के प्रति शोषदृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी वन-गमन की विदा मांगी (२ ३९, १-१३ ३३-४१) ।” सीता और

लक्ष्मण सहित श्रीराम ने दशरथ की परिक्रमा करके कौसल्या आदि को प्रणाम तथा रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान किया (२ ४०) । श्रीराम के वनगमन से अन्त पुर की स्त्रियो ने विलाप तथा नगरवासियो ने शोक प्रगट किया (२ ४१) । दशरथ ने श्रीराम के लिये विलाप किया तथा सेवकी की सहायता से कौसल्या के भवन में आकर वहाँ भी दुःख का ही अनुभव किया (२ ४२) । "श्रीराम ने पुरवासियो से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेमभाव रखने का अनुरोध करते हुये लौट जाने के लिये कहा । नगर के बुद्ध ब्राह्मणो ने श्रीराम से लौट चलने के लिये आग्रह किया तथा उन सबके साथ श्रीराम तमसा तट पर पहुँचे (२ २५) ।" सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम ने रात्रि में तमसा-तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिये चिन्ता, तथा पुरवासियो को सोते छोडकर वन की ओर प्रस्थान किया (२ ४६) । "नगरवासियो की बातें सुनते हुये श्रीराम कौसल जनपद को लौघते हुये आगे गये । वेदधृति, गोमती एव स्थन्दिवा नदियो को पार करके सुमन्त्र से कुछ कहा (२ ४९) ।" "श्रीराम ने मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा माँगी और शृङ्गवेरपुर में गंगा तट पर पहुँच कर रात्रि में निवास किया । निषादराज गुह ने उनका सत्कार किया (२ ५०) ।" "श्रीराम की आज्ञा से गुह ने नौका मँगायी । श्रीराम ने सुमन्त्र को समझा-बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने की आज्ञा देने हुये माता पिता आदि के लिये सदेश दिया । सुमन्त्र के वन में ही चलने का आग्रह करने पर श्रीराम ने उन्हें युक्तिपूर्वक समझा कर लौटने के लिये विवश किया और तदनन्तर नौका पर बैठे । सीता ने गंगाजी की स्तुति की । नौका से उतकर श्रीराम आदि वत्सदेश में पहुँचे और सायकाल एक वृक्ष के नीचे रहने के लिये गये (२ ५२) ।" "श्रीराम ने राजा को उपालम्भ देते हुये कैकेयी से कौसल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने का प्रयत्न किया । लक्ष्मण ने श्रीराम के बिना अपना जीवन असम्भव बताकर वहाँ जाना अस्वीकार किया । श्रीराम ने उन्हें वनवास की अनुमति प्रदान की (२ ५२) ।" "लक्ष्मण और सीता सहित श्रीराम प्रयाग में गंगा यमुना के संगम के समीप भरद्वाज-आश्रम में गये । भरद्वाज मुनि ने उनका आदर स्तार कर उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एव शोभा का वर्णन किया (२ ५४) ।" "भरद्वाज ने श्रीराम आदि के लिये स्वस्तिवाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताया । श्रीराम आदि ने अपने ही बनाये हुये बेटे से यमुना को पार करने के बाद उसके किनारे के मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में भ्रमण तथा उसके समतल तट पर रात्रि में निवास किया

(२ ५५) । "वन की शोभा देखते-दिलवाते हुये श्रीराम आदि चित्रकूट पहुँचे । वाल्मीकि का दर्शन करके श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण ने पर्णशाला का निर्माण तथा वास्तुशान्ति करके सबने कुटी में प्रवेश किया (२ ५६) ।" सुमन्त्र के अयोध्या लौटने पर उनके मुख से श्रीराम का संदेश सुनकर पुरवागियों ने विलाप किया, राजा दशरथ और कौसल्या मूर्च्छित हो गये तथा अन्तपुर की रानियों ने भातनाद किया (२ ५७) । महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमन्त्र ने श्रीराम और लक्ष्मण के संदेश सुनाये (२ ५८) । सुमन्त्र द्वारा श्रीराम के लोक से जड़-धेतन एव अयोध्यापुरी की दुखदस्था का वर्णन सुनकर राजा दशरथ ने विलाप किया (२ ५९) । ननिहाल से लौटकर भरत ने राम के विषय में पूछा जिम्का उत्तर देते हुये कँकेयी ने श्रीराम के वनगमन के वृत्तान्त से भरत को अवगत कराया (२ ७२, ४०-५४) । भरत ने श्रीराम की ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लाने के लिये चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सेवा की जो आज्ञा दी (२ ७९, ८-१७, ८२, ११-३१) । भरत द्वारा गृह से श्रीराम आदि के भोजन और घयन आदि के विषय में पूछने पर गृह ने उन्हें समस्त बातों का उत्तर दिया (२ ८७, १३-२४) । श्रीराम की कुशल शय्या देखकर भरत ने शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी ब्रल्लस और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट किया (२ ८८) । भरत ने भरद्वाज मुनि से श्रीराम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानकर सेना सहित चित्रकूट के लिये प्रस्थान किया (२ ९२) । श्रीराम ने सीता को चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराया (२ ९४) । श्रीराम ने सीता से मन्दाकिनी नदी की शोभा का वर्णन किया (२ ९५) । वनजन्तुओं के भागने का कारण जानने के लिये श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण ने साल-वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखा और उनके प्रति श्रीराम के समक्ष अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट किया (२ ९६) । "श्रीराम ने लक्ष्मण के रोष को शान्त करके भरत के सद्भाव का वर्णन किया । लक्ष्मण लज्जित होकर श्रीराम के पास सड़े हो गये (२ ९७) ।" भरत ने श्रीराम के आश्रम की खोज का प्रबन्ध किया और अन्तत उन्हें आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ (२ ९८) । "भरत ने सन्मुख आदि के साथ श्रीराम के आश्रम पर जाकर उनकी पर्णशाला का दर्शन किया तथा रोते-रोते श्रीराम के चरणों में गिर पड़े । श्रीराम ने उन सबको हृदय से लगाकर आलिङ्गन किया (२ ९९) ।" श्रीराम ने भरत को कुशल-प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश दिया (२ १००) । श्रीराम के भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछने पर भरत ने उनसे राज्य-ग्रहण करने के लिये कहा जिसे श्रीराम ने

अस्वीकार कर दिया (२ १०१) । भरत ने पुन श्रीराम से राज्य ग्रहण करने का अनुरोध करके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताया (२ १०२) । पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रीराम आदि ने विलाप, जलाञ्जलि, पिण्डदान और विलाप किया (२ १०३) । श्रीराम आदि माताओं की चरण-वन्दना तथा वसिष्ठ को प्रणाम करके सबके साथ बैठे (२. १०४, १८-३२) । भरत ने श्रीराम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिये कहा परन्तु श्रीराम ने जीवन की अनिश्चिता बताते हुये पिता की मृत्यु के लिये शोक न करने का भरत को उपदेश दिया और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिये ही स्वयं राज्य-ग्रहण न करके वन में रहने का दृढ़ निश्चय बताया (२ १०५) । भरत ने पुन, श्रीराम से अयोध्या लौटने और राज्य-ग्रहण करने की प्रार्थना की (२. १०६) । श्रीराम ने भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश दिया (२ १०७) । जाबालि ने नास्तिकों के मत का अवलम्बन करके श्रीराम को समझाया (२. १०८) । श्रीराम ने जाबालि के नास्तिक मत का खण्डन करके आस्तिक मत की स्थापना की (२ १०९) । वसिष्ठ ने ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करके श्रीराम से राज्य ग्रहण करने के लिये कहा (२ ११०) । "वसिष्ठ के समझाने पर भी श्रीराम पिता की आज्ञा के पालन से विरत नहीं हुये । भरत के घरना देने को तैयार होने पर श्रीराम ने उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा दी (२. १११) ।" "ऋषियों ने भरत को श्रीराम की आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह दी । भरत ने श्रीराम के चरणों में गिर कर पुन लौट चलने की प्रार्थना की । श्रीराम ने भरत को समझाया और अपनी चरणपादुका देकर सबको विदा किया (२. ११२) ।" भरत ने नन्दिग्राम में जाकर श्रीराम की चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदनपूर्वक राज्य कार्य किया (२ ११५) । श्रीराम आदि अग्नि मुनि के आश्रम पर गये जहाँ मुनि ने उनका तथा अनसूया ने सीता का सत्कार किया (२ ११७) । अनसूया की आज्ञा से सीता उनके दिये हुये वस्त्राभूषणों को धारण करके श्रीराम के पास आई, तथा श्रीगम आदि ने रात्रि में आश्रम पर निवास करके प्रातः काल अन्यत्र जान की ऋषियों से विदा की याचना की (२ ११९) । श्रीराम आदि का तापसों के आश्रम-मण्डल में सत्कार (३ १) । वन के भीतर श्रीराम आदि पर विराध ने आक्रमण किया (३ २) । विराध और श्रीराम का वार्तालाप, श्रीराम और लक्ष्मण द्वारा विराध पर प्रहार तथा विराध का इन दोनों भ्राताओं को साथ लेकर दूसरे वन में चला जाना (३ ३) । श्रीराम और लक्ष्मण ने विराध का वध कर दिया (३ ४) । श्रीराम आदि शरभङ्ग मुनि के आश्रम पर गये जहाँ देवताओं का

दर्शन करके मुनि से सम्मानित हुये (३. ५) । वानप्रस्थ मुनियों की राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना पर श्रीराम ने उन्हें आशवासन दिया (३. ६) । भ्राता तथा पत्नी सहित श्रीराम ने सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे वार्त्तालाप तथा सत्कृत हो रात्रि में वहीं विश्राम किया (३. ७) । प्रातःकाल सुतीक्ष्ण से विदा लेकर श्रीराम आदि ने वहाँ से प्रस्थान किया (३. ८) । सीता ने श्रीराम से निरपराध प्राणियों को न मारते और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिये अनुरोध किया (३. ९) । श्रीराम ने ऋषियों की रक्षा के लिये राक्षसों के वध के निमित्त की हुई प्रतिज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का विचार प्रकट किया (३. १०) । विभिन्न आश्रमों में घूम कर श्रीराम आदि सुतीक्ष्ण के आश्रम पर आये और वहाँ कुछ समय तक निवास करके उनकी आज्ञा से अगस्त्य के भ्राता तथा अगस्त्य के आश्रम पर गये (३. ११) । श्रीराम आदि को अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश करने पर आतिथ्य-सत्कार तथा मुनि की ओर से दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्राप्त हुये (३. १२) । "महर्षि अगस्त्य ने श्रीराम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रशंसा की । श्रीराम के पूछने पर मुनि ने उन्हें पञ्चवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश दिया । श्रीराम आदि ने प्रस्थान किया (३. १३) ।" पञ्चवटी के मार्ग में जटायु ने श्रीराम को अपना विस्तृत परिचय दिया (३. १४) । पञ्चवटी के रमणीय प्रदेश में श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण ने सुन्दर पणशाला का निर्माण किया जिसमें श्रीराम आदि निवास करने लगे (३. १५) । श्रीराम आदि ने गोदावरी नदी में स्नान किया (३. १६, ४१-४३) । श्रीराम के आश्रम में आकर शूर्पणखा ने उनका परिचय प्राप्त किया और अपना परिचय देकर उनसे अपने को मार्या के रूप में ग्रहण करने के लिये अनुरोध किया (३. १७) । श्रीराम ने शूर्पणखा की प्रणय-व्याधना अस्वीकृत कर दी (३. १८, १-५) । शूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्दशा का वृत्तान्त सुनकर शीघ्र में भरे हुये खर ने श्रीराम आदि के वध के लिये चौदह राक्षसों को भेजा (३. १९) । श्रीराम ने खर के भेजे गये चौदह राक्षसों का वध कर दिया (३. २०) । शूर्पणखा ने खर को राम का भय दिखाकर मुद्ग के लिये उत्तेजित किया (३. २१, १४-२२) । राक्षस-सेना श्रीराम के आश्रम के समीप पहुँची (३. २३, ३४) । श्रीराम तात्कालिक षड्गुणों द्वारा राक्षसों के विनाश और अपनी विजय की सम्भावना करके सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफा में भेज मुद्ग के लिये उद्यत हुये (३. २४) । राक्षसों ने श्रीराम पर आक्रमण किया, श्रीराम ने राक्षसों का संहार किया (३. २५) । श्रीराम ने द्रुपण सहित चौदह सहस्र राक्षसों का वध कर दिया

(३ २६) । श्रीराम द्वारा त्रिशिरा का वध (३ २७) । खर के साथ श्रीराम का भयंकर युद्ध हुआ (३ २८) । श्रीराम के खर को फटकारने पर खर ने भी उन्हें कठोर उत्तर देते हुये उनके ऊपर गदा का प्रहार किया जिससे कुपित हो श्रीराम ने उस गदा का खण्डन किया (३ २९) । " श्रीराम के व्यङ्ग करने पर खर ने उन्हें फटकार कर उनके ऊपर सालवृक्ष का प्रहार किया । श्रीराम ने उस वृक्ष को काटकर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराया । देवताओं और महर्षियों ने श्रीराम की प्रशंसा की (३ ३०) ।" शूर्पणखा ने रावण को श्रीराम आदि का परिचय दिया (३ ३४) । रावण ने मारीच से श्रीराम का अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण में उसकी सहायता मांगी (३ ३६) । मारीच ने रावण को श्रीराम का गुण और प्रभाव बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण के उद्योग से रोक (३ ३७) । श्रीराम की शक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर मारीच ने रावण को श्रीराम का अपराध न करने के लिये समझाया (३ ३८) । मारीच सुवर्णमय मृग का रूप धारण करके श्रीराम के आश्रम पर गया (३ ४२) । "सीता ने उम मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिये श्रीराम को प्रेरित किया । श्रीराम, लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंप उस मृग का वध करने गये (३ ४३) ।" श्रीराम ने मारीच का वध कर दिया । मारीच के द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्रीराम को चिन्ता हुई (३ ४४) । सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण श्रीराम के पास गये (३ ४५) । सीता ने रावण के समक्ष श्रीराम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाया (३ ५६, १-२३) । मारीच का वध करके लौटते समय श्रीराम मार्ग में अप्सकुन देखकर चिन्तित हुये तथा लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उठाहना देकर उन्होंने सीता पर सकट आने की आशङ्का प्रकट की (३ ५७) । मार्ग में अनेक प्रकार की आशङ्का करते हुये लक्ष्मण सहित श्रीराम आश्रम आय और वहाँ सीता को न पाकर व्यथित हुये, वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछा, और भ्रान्त होकर रुदन करते हुये बारम्बार उनकी खोज की (३ ६०) । श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता की खोज की और उनके न मिलने पर श्रीराम व्याकुल हो उठे (३ ६१) । श्रीराम ने विनाप किया (३ ६२, ६३) । " श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता की खोज की । श्रीराम ने शोकोदगार किया । मृगों द्वारा सकेत पाकर दोनों भ्रान्त दक्षिण दिशा की ओर गये । पर्वत पर क्रोध करके सीता के बिल्वरे हुये पुण, आभूषणों के बण और युद्ध के चिह्न देखकर श्रीराम ने देवी आदि महिन समस्त त्रिलोकी पर

रोष प्रकट किया (४ ६४) । लक्ष्मण ने श्रीराम को समझा-बुझा कर शान्त किया (३ ६५-६६) । श्रीराम और लक्ष्मण की पक्षिराज जटायु से भेंट हुई तथा श्रीराम ने उन्हें गले के लगाकर विलाप किया (३ ६७) । जटायु के प्राणत्याग पर श्रीराम ने उनका दाह-संस्कार किया (३ ६८) । श्रीराम और लक्ष्मण कवच के दाह-वन्ध में पड़कर चिन्तित हुये (३. ७०. २६-५१) । "श्रीराम और लक्ष्मण ने विचार करके कवच की दोनों भुजायें बाट डाली । कवच न उनका स्वागत किया (३ ७०) ।" अपनी आत्मकथा सुनाकर अपने शरीर का दाह हो जाने पर कवच ने श्रीराम को सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन दिया (३ ७१) । श्रीराम और लक्ष्मण ने चिता की ज्वलि में कवच का दाह-संस्कार किया । उसने दिव्य रूप में प्रकट होकर श्रीराम को सुप्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया (३. ७२) । दिव्य रूपधारी कवच ने श्रीराम और लक्ष्मण को ऋष्यमूक और पम्पा सरोवर का मार्ग बताया तथा मत्स्यमुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान किया (३ ७३) । "श्रीराम और लक्ष्मण ने पम्पा सरोवर के तट पर मत्स्य वन में शबरी के आश्रम पर जाकर उसका संस्कार ग्रहण किया और उनके साथ मत्स्यवन को देखा । श्रीराम की कृपा से शबरी ने अपने शरीर की ग्राहृति देकर दिव्यधाम को प्रस्थान किया (३ ७४) ।" श्रीराम और लक्ष्मण का 'वार्तालाप हुआ तथा दोनों भ्राता पम्पासरोवर के तट पर गये (३ ७५) । "पम्पा सरोवर के दर्शन से व्याकुल हुये श्रीराम ने लक्ष्मण से पम्पा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन किया । लक्ष्मण ने श्रीराम को समझाया । दोनों भ्राताओं को ऋष्यमूक की ओर आने देखा सुप्रीव तथा अन्य वानर भयभीत हो गये (४. १) ।" सुप्रीव ने हनुमान्जी को श्रीराम और लक्ष्मण के पास उनका भेट लाने के लिये भेजा (४. २, २५-२९) । "हनुमान् ने राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछा तथा अपना और सुप्रीव का परिचय दिया । श्रीराम ने उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से वार्तालाप करने की आज्ञा दी (४. ३) ।" "लक्ष्मण ने हनुमान् को श्रीराम के वन आने का कारण तथा सीताहरण का इत्तान्त सुनाया । हनुमान् उन्हें आश्वासन देकर अपने साथ ले गये (४ ४) । श्रीराम और सुप्रीव की मैत्री तथा श्रीराम ने वाल्मि-वध की प्रतिज्ञा की (४ ५) । सुप्रीव ने श्रीराम को सीता के आभूषण दिखाये तथा श्रीराम ने शोक एवं रोषपूर्ण वचन कहा (४. ६) । सुप्रीव ने श्रीराम को समझाया और श्रीराम ने सुप्रीव को उनकी कार्यसिद्धि का विश्वास दिलाया (४. ७) । सुप्रीव ने श्रीराम से अपने दुःख का निवेदन किया और

श्रीराम ने उन्हें आश्वासन देने हुये दोनो भ्राताओ मे वैर होने का कारण पूछा (४ ८) । सुग्रीव ने श्रीराम को वालिन् के साथ अपने वैर का कारण बताया (४ ९ १०) । श्रीराम ने दुन्दुभि के अस्थि-समूह को दूर फेंक दिया और सुग्रीव ने उनमे साल-भेदन के लिये आग्रह किया (४ ११, ८४-९३) । "श्रीराम ने सात साल-वृक्षो का भेदन किया । श्रीराम की आज्ञा से सुग्रीव ने किष्किन्धा मे जाकर वालिन् को ललकारा और युद्ध मे पराजित हो भागने पर श्रीराम ने उन्हें आश्वासन देते हुए गले मे पहचान के लिये गजपुष्पी माला डालकर पुन युद्ध के लिये भेजा (४ १२) । श्रीराम आदि ने मार्ग मे वृक्षो, विविध जन्तुओ, जलाशयो तथा सतजन आथम का दूर से दर्शा करते हुये पुन किष्किन्धापुरी मे प्रवेश किया (४ १३) । वालिन् के वध का श्रीराम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया (४ १४) । तारा ने वालिन् को सुग्रीव और श्रीराम के साथ मैत्री करने के लिये समझाया (४ १५) । वालिन् श्रीराम के बाण से घायल होकर पृथिवी पर गिर पडे (४ १६, ३५-३९) । वालिन् ने श्रीराम को फटकारा (४. १७) । 'श्रीराम ने वालिन् की बात का उत्तर देते हुये उसे दिये गये दण्ड का औचित्य बताया । वालिन् ने निहत्तर होकर अपने अपराध के लिये क्षमा मांगते हुये अङ्गद की रक्षा के लिये प्रार्थना की । श्रीराम ने उन्हें आश्वासन दिया (४. १८) ।' 'सुग्रीव ने शोक-मग्न होकर श्रीराम से प्राणत्याग के लिये आज्ञा मांगी । तारा ने श्रीराम से अपने वध के लिये प्रार्थना की और श्रीराम ने उसे समझाया (४. २४) ।' लक्ष्मण सहित श्रीराम ने सुग्रीव, तारा और अङ्गद को समझाया तथा वालिन् के दाह-संस्कार के लिये आज्ञा प्रदान की (४. २५, १-१८) । "हनुमान् ने सुग्रीव के अभियेक के लिय श्रीराम से किष्किन्धा मे पधारने की प्रार्थना की । श्रीराम ने पुरी में न जाकर केवल अनुमति प्रदान की (४ २६) ।" प्रलवण गिर पर लक्ष्मण और श्रीराम का परस्पर वार्त्तालाप (४ २७) । श्रीराम ने वर्षाशत्रु का वर्णन किया (४ २८) । श्रीराम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश दिया (४ २९) । सुग्रीव पर लक्ष्मण के रोष करने पर श्रीराम ने उन्हें समझाया (४ ३०, १-८) । सुग्रीव ने अपनी लघुता तथा श्रीराम की महत्ता बनाते हुये लक्ष्मण से क्षमा मांगी (४. ३६, १-११) । "लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने भगवान् श्रीराम के पाम आकर उनके घरणो मे, प्रणाम किया । श्रीराम ने उन्हें समझाया । सुग्रीव ने अपने किये सैन्यसमूह विषयक उद्योग को बताया जिसे सुनकर श्रीराम प्रमग्न हो गये (४ ३८) ।" श्रीराम ने सुग्रीव के प्रति वृत्तज्ञता प्रकट की (४. ३९, १-७) । श्रीराम की आज्ञा से सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये वानरों को पूर्व दिशा मे भेजा

(४. ४०) । श्रीराम ने हनुमान् को अंगूठी देकर सीता की खोज के लिये भेजा (४. ४४) । सुग्रीव ने श्रीराम से अपने भूमण्डल-भ्रमण का वृत्तान्त बताया (४. ४६) । अङ्गद ने सम्पाति को राम-सुग्रीव की मित्रता का वृत्तान्त सुनाया (४. ५७) । निशाकर मुनि ने सम्पाति को भावी श्रीराम के कार्य में सहायता देने के लिये जीवित रहने का आदेश दिया (४. ६२) । हनुमान् ने श्रीराम को सीता के न मिलने की सूचना देने से अनर्थ की सम्भावना बता कर पुनः सीता को खोजने का विचार किया (५. १३, २३-२५) । सीता ने रावण को समझाते हुये ज्ये श्रीराम के सामने नगण्य बनाया (५. २१) । त्रिजटा ने श्रीराम की विजय का स्वप्न देखा (५. २७) । हनुमान् ने सीता को सुनाने के लिये श्रीराम-वधा का वर्णन किया (५. ३१) । हनुमान् ने सीता के सन्देह को दूर करने के लिये उनके समक्ष श्रीराम के गुणों का गान किया (५. ३४) । सीता के पूछने पर हनुमान् ने श्रीराम के शारीरिक चिह्नों और गुणों का वर्णन करते हुए नर-वानर की मित्रता का प्रसङ्ग सुनाया (५. ३५) । "हनुमान् ने सीता को श्रीराम की दी हुई मुद्रिका दी और सीता ने उत्सुक होकर पूछा, 'श्रीराम कब मेरा उद्धार करेंगे' । हनुमान् ने श्रीराम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करके उन्हें सान्त्वना दी (५. ३६) ।" "सीता ने हनुमान् से श्रीराम को शीघ्र मुला लाने के लिये अनुरोध किया और चूडामणि दी । पहचान के रूप में उन्होंने चित्रकूट पर्वत पर घटित हुये एक कौये के प्रसंग को भी सुनाया (५. ३८) ।" चूडामणि लेकर जाने हुये हनुमान् से सीता ने श्रीराम को उत्माहित करने के लिये कहा (५. ३९, १-१२) । सीता ने श्रीराम से कहने के लिये पुनः सन्वेदा दिया (५. ४०, १-११) । हनुमान् ने रावण के समक्ष अपने को श्रीराम का दूत बताया (५. ५०, १३-१९) । हनुमान् ने श्रीराम के प्रभाव का वर्णन करते हुये रावण को समझाया (५. ५१) । सुग्रीव ने वानरों को देखकर, तथा हनुमान् ने श्रीराम को प्रणाम करके सीता के दर्शन का समाचार बताया (५. ६४, २७-४५) । हनुमान् ने श्रीराम को सीता का समाचार सुनाया (५. ६५) । चूडामणि को देख तथा सीता का समाचार पाकर श्रीराम ने उनके लिये विलाप किया (५. ६६) । हनुमान् ने श्रीराम को सीता का सदेश सुनाया (५. ६७) । हनुमान् की प्रशंसा करके श्रीराम ने उन्हें हृदय से लगाया और समुद्र पार करने के लिये चिन्तित हो गये (६. १) । सुग्रीव ने श्रीराम को उत्सङ्ग प्रदान किया (६. २) । हनुमान् ने श्रीराम से सेना को न्यून करने की आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की (६. ३, ३३) । श्रीराम आदि के साथ वानर-सेना ने प्रस्थान किया (६. ४) । श्रीराम ने सीता के लिये

शोक और विलाप किया (६ ५) । राक्षसों ने रावण को इन्द्रजित् द्वारा श्रीराम पर विजय पाने का विश्वास दिलाया (६ ७, २४-२५) । विभीषण ने रावण से श्रीराम की अजेयता का वर्णन कर उससे सीता को लौटा देने का अनुरोध किया (६ ९-१४) । विभीषण श्रीराम की शरण में आये और श्रीराम ने अपने मन्त्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार किया (६ १७) । श्रीराम शरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बताकर विभीषण से मिले (६ १८) । 'विभीषण ने आकाश से उतर कर भगवान् श्रीराम के चरणों में शरण ली । श्रीराम के पूछने पर उन्होंने रावण की शक्ति का परिचय दिया तथा श्रीराम भी रावण-वध और विभीषण को लका के राज्य पर अभिषिक्त करने की प्रतिज्ञा करके उनकी सम्मति से समुद्र तट पर सत्याग्रह करने बैठे (६ १९) ।' रावण दून शुक की जब वानरो ने दुर्दशा कर दी तब वह श्रीराम की कृपा से सबट मुक्त हुआ (६ २०, १५-२०) । 'श्रीराम ने समुद्र के तट पर कुश बिछाकर तीन दिनों तक सत्याग्रह किया । फिर भी समुद्र के प्रकट न होने पर क्रुपित होकर उसे बाणों के प्रहार द्वारा विधुब्ध कर दिया (६ २१) ।' नल द्वारा सागर पर बनाये गये पुल से श्रीराम वानर-सेना सहित समुद्र पार हो गये (६ २२, ८१-८९) । श्रीराम ने लक्ष्मण से उत्पातसूचक लक्षणों का वर्णन और लका पर आक्रमण किया (६ २३) । "श्रीराम ने लक्ष्मण से लङ्का की शोभा का वर्णन करके सेना को व्यूहबद्ध खड़ी होने के लिये आदेश दिया । श्रीराम की आज्ञा से बन्धन मुक्त हुये शुक ने रावण के पास जाकर राम की सैन्य शक्ति की प्रबलता का उल्लेख किया (६. २४) ।" श्रीराम की कृपा से रावण के शुक और सारण नामक गुप्तचरों ने छुटकारा पाया और श्रीराम के संदेश सहित लङ्का लौटकर रावण को समझाया (६ २५, १३-३३) । शुक ने रावण को श्रीराम का परिचय दिया (६. २८, १८-२३) । रावण के भेजे गये गुप्तचर श्रीराम की दया से ही वानरों के चणुल से छूटकर लका आये (६ २९) । रावण ने सीता को मायारचित्त श्रीराम का बटा मस्तक दिखाकर मोह में डालने का प्रयत्न किया (६ ३१) । श्रीराम के मारे जाने का विश्वास करके सीता ने विलाप किया (६ ३२, १-३३) । सरमा ने सीता को श्रीराम के आगमन का प्रिय समाचार सुनाया और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाया (६ ३३) । मान्धवान् ने रावण को श्रीराम से संधि कर लेने के लिये समझाया (६ ३५) । विभीषण ने श्रीराम से रावण द्वारा किये गये लका के रक्षा के प्रवन्ध का वर्णन किया तथा श्रीराम ने लका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिये अपने सेनापतियों की नियुक्ति की (६ ३७) । श्रीराम ने प्रमुख वानरों के साथ सुबल वर्णन पर चढ़कर वहाँ

रात्रि में निवास किया (६ ३८) । वानरो सहित श्रीराम ने सुबेल सिंघर से लकापुरी का निरीक्षण किया (६ ३९) । श्रीराम ने सुग्रीव को दुसाहस से रोका और लका के चारों द्वारों पर वानर सैनिकों की नियुक्ति की (६ ४१) । इन्द्रजित् के वाणों से श्रीराम और लक्ष्मण जचेत हो गये (६ ४५, ४६, १-७) । वानरो ने श्रीराम और लक्ष्मण की रक्षा की, तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों ने सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्रीराम और लक्ष्मण का दर्शन कराया (६ ४७) । विलाप करती हुई सीता को त्रिजटा ने राम-लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाया (६ ४९) । श्रीराम ने सचेत हाकर लक्ष्मण के लिये विलाप किया और स्वयं प्राण-त्याग का विचार करके वानरो की लौट जाने की अनुमति दी (६ ४९) । गरुड ने श्रीराम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर दिया (६ ५०, ३८-६५) । श्रीराम के बन्धनमुक्त होने का समाचार पाकर चिन्तित हुये रावण ने धूम्राक्ष को युद्ध के लिये भेजा (६ ५१) । श्रीराम से परास्त होकर रावण ने लका में प्रवेश किया (६ ५९, १२६-१४६) । विभीषण ने श्रीराम से कुम्भकर्ण का परिचय दिया और श्रीराम को आज्ञा से वानर युद्ध के लिये लका के द्वारों पर हट गये (६ ६१) । रावण ने राम से भय बताकर कुम्भकर्ण को वानु-सेना के विनाश के लिये प्रेरित किया (६ ६२) । भयकर युद्ध करते हुये कुम्भकर्ण का श्रीराम ने वध कर दिया (६ ६७) । इन्द्रजित् के प्रह्लास से वानर-सेना सहित श्रीराम और लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये (६ ७३) । हनुमान् द्वारा लाये गये दिव्य औषधियों की वध में श्रीराम आदि ने चेतना प्राप्त की (६ ७४) । श्रीराम ने मकराक्ष का वध कर दिया (६ ७९) । घोर युद्ध करते हुये इन्द्रजित् के वध के विषय में श्रीराम और लक्ष्मण का वार्तालाप (६ ८०) । हनुमान् वानरो सहित मुद्धभूमि से श्रीराम के पास आये (६ ८२, २२-२४) । सीता के मारे जाने का समाचार सुनकर श्रीराम शोक से मूर्च्छित हो गये तथा लक्ष्मण उन्हें भगवाते हुये पुरुषार्थ के लिये उद्यत हुये (६, ८३) । विभीषण ने श्रीराम को इन्द्रजित् की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाया (६ ८४, १-१३) । विभीषण के अनुरोध पर श्रीराम ने लक्ष्मण को इन्द्रजित् का वध करने के लिये जाने की आज्ञा दी (६ ८५) । लक्ष्मण और विभीषण आदि ने श्रीराम के पास आकर इन्द्रजित् के वध का समाचार सुनाया तथा प्रसन्न हुये श्रीराम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनकी प्रशंसा की (६ ९१) । श्रीराम ने राक्षस-सेना का सहार किया (६ ९३) । श्रीराम और रावण का युद्ध (६ ९९, १००) । रावण द्वारा मूर्च्छित किये गये लक्ष्मण के लिए श्रीराम ने विलाप किया (६ १०१,

१-३३) । इन्द्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर श्रीराम ने रावण के साथ युद्ध किया (६, १०२) । श्रीराम ने रावण को फटकारा तथा आहत कर दिया (६, १०३) । अगस्त्य मुनि ने श्रीराम को विजय के लिये 'आदित्यहृदय' के पाठ की सम्मति दी (६, १०५) । "रावण के रथ को देखकर श्रीराम ने मातलि को सावधान किया । राम की विजय सूचित करने वाले शुभ षडकुनो का वर्णन (६, १०६) ।" श्रीराम और रावण का घोर युद्ध (६, १०७) । श्रीराम द्वारा रावण का वध (६, १०८) । श्रीराम ने विलाप करते हुए विभीषण को समझाकर रावण के अत्येष्टि-संस्कार के लिए आदेश दिया (६, १०९) । श्रीराम की आज्ञा द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक तथा श्रीराम ने सीता के पास सदेश लेकर हनुमान् को भेजा (६, ११२) । हनुमान् ने लौट कर सीता का सदेश श्रीराम को सुनाया (६, ११३) । श्रीराम की आज्ञा से विभीषण, सीता को उनके समक्ष लाये (६, ११४) । सीता के चरित्र पर सदेह करके श्रीराम ने उन्हें ग्रहण करना अस्वीकार करते हुए अन्यत्र जाने की अनुमति दी (६, ११५) । सीता ने श्रीराम को उपालम्भपूर्ण उत्तर देकर सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया (६, ११६) । श्रीराम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा ने उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं स्तवन किया (६, ११७) । मूर्तिमान् अग्निदेव सीता को लेकर चिता से प्रकट हुये और श्रीराम को समर्पित करके उन के सतीत्व का प्रतिपादन किया जिससे श्रीराम ने सीता को सहर्ष स्वीकार कर लिया (६, ११८) । महादेव की आज्ञा से श्रीराम और लक्ष्मण ने विमान द्वारा आये हुये राजा दशरथ को प्रणाम किया और दशरथ ने उनको आवश्यक सदेश दिया (६, ११९) । श्रीराम के अनुरोध से इन्द्र ने मृत वानरो को जीवित किया (६, १२०) । श्रीराम अयोध्या जाने के लिए उद्यत हुए और उनकी आज्ञा से विभीषण ने पुष्पक विमान मंगाया (६, १२१) । श्रीराम की आज्ञा से विभीषण ने वानरों का विशेष सत्कार किया तथा विभीषण और सुधीव सहित वानरो को साथ लेकर श्रीराम ने पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान किया (६, १२२) । अयोध्या की यात्रा करते समय श्रीराम ने सीता को मार्ग के स्थान दिखाये (६, १२३) । श्रीराम भरद्वाज आश्रम पर उतरकर महर्षि से मिले और उनसे वर प्राप्त किया (६, १२४) । हनुमान् ने निपादराज गुह और भरत को श्रीराम के आगमन की सूचना दी (६, १२५, १-३९) । हनुमान् ने भरत को श्रीराम आदि के वन्दनान् सम्बन्धी समस्त वृत्तान्त सुनाये (६, १२६) । "अयोध्या में श्रीराम के स्वागत की तैयारी । भरत के साथ सभी लोग श्रीराम के स्वागत के लिये नन्दिशाम पहुँचे । श्रीराम का आगमन तथा भरत आदि के साथ उावा मिलाप हुआ

(६ १२७) ।" भरत ने धीराम को राज्य लौटाया, श्रीराम नगरयात्रा की और उनका राज्याभिषेक हुआ (६ १२८) । श्रीराम के दरबार में महर्षियों का आगमन तथा श्रीराम ने उनके साथ वार्त्तालाप और प्रश्न किये (७ १) । धीराम ने अगस्त्य आदि ऋषियों से अपने यज्ञ में पधारने के लिए प्रस्ताव करके उन्हें विदा दिया (७ ३६, ५५-६३) । श्रीराम के द्वारा राजा जनक, युपाजित्, प्रतर्दन तथा अन्य नरेशों की विदाई (७ ३७) । राजाओं ने श्रीराम के लिए भेंट अर्पित किया और धीराम ने वह सब लेकर अपने मित्रों, बानरो रीछों और राजसों को बांट दिया (७ ३९) । "कुबेर के भेजे हुए पुष्पक विमान का आगमन हुआ और श्रीराम से पूजित एवं अनुगृहीत होकर अदृश्य हो गया । भरत ने श्रीरामराज्य के विलक्षण प्रभाव का वर्णन किया (७ ४१) ।" अमोकवाटिका में श्रीराम और सीता का विहार, गर्भिणी सीता के तपोवन देखने की इच्छा प्रगट करने पर श्रीराम ने उसके लिए स्वीकृति प्रदान की (७ ४२) । भद्र ने पुरवासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से धीराम को अवगत कराया (७ ४३) । श्रीराम के बुलाने पर ममस्त भ्राता उनके पास उपस्थित हुए (७ ४४) । श्रीराम ने भ्राताओं के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोकापवाद की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को आदेश दिया (७ ४५) । सीता ने लक्ष्मण को श्रीराम के लिये आदेश दिया (७ ४८, १२-१८) । अयोध्या के राजभवन में पहुँच कर लक्ष्मण ने दुःखी श्रीराम से मिलकर उन्हें सान्त्वना दी (७ ५२) । धीराम ने कायाधी पुरुषों की उपेक्षा से राजा नृग को मिलने वाले शाप की कथा सुनाकर लक्ष्मण को देखभाल के लिये आदेश दिया (७ ५३) । श्रीराम के द्वार पर एक कार्याधी कुत्ता आया और श्रीराम ने उसे दरबार में लाने का आदेश दिया (७ ५९ क) । कुत्ते के प्रति श्रीराम ने न्याय किया तथा उसकी इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले ब्राह्मण को मठाधीश बना दिया (७ ५९ ख) । "श्रीराम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभागमन । श्रीराम ने उनका सरकार करके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा और ऋषियों ने उनकी प्रशंसा की (७ ६०) ।" ऋषियों ने मधु को प्राप्त हुए वर तथा लवणामुर के बल और अत्याचार का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिए धीराम से प्रार्थना की (७ ६१) । श्रीराम ने ऋषियों ने लवणामुर के बाहार विहार के विषय में पूछा और शत्रुघ्न की दक्षिण जानकर उहे लवण-बंध के कार्य में नियुक्त किया (७, ६२) । श्रीराम ने शत्रुघ्न का राज्याभिषेक तथा लवणामुर के शूल से बचने के उपाय का प्रतिपादन किया (७ ६३) । श्रीराम की आज्ञा के अनु-

सार शत्रुघ्न ने सेना को आगे भेजकर एक मास के पश्चात् स्वयं भी प्रस्थान किया (७ ६४) । शत्रुघ्न ने मधुरापुरी को बसाकर वहाँ से चारहवें वर्ष श्रीराम के पास आने का विचार किया (७ ७०) । वाल्मीकि से विदा लेकर शत्रुघ्न अयोध्या में जाकर श्रीराम आदि से मिल (७ ७२) । एक ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक को राज द्वार पर लाया और राजा (राम) को हो दोषी बताकर विलाप करने लगा (७ ७३) । नारद ने श्रीराम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु में कारण बताया (७ ७४) । श्रीराम ने पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्मों का पता लगाया किन्तु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुँचे (७, ७५) । "श्रीराम ने शम्बूक का वध कर दिया । देवताओं ने उनकी प्रशंसा की । अगस्त्याश्रम पर महर्षि अगस्त्य ने उनका सत्कार और उनके लिये आभूषणदान दिया (७ ७६) ।" श्रीराम अगस्त्य आश्रम से अयोध्यापुरी वापस आये (७ ८२) । भरत के कहने से श्रीराम राजसूय-यज्ञ करने के विचार से निकल दूधे (७ ८३) । श्रीराम ने लक्ष्मण को राजा हल की कथा सुनाई (७ ८७) । श्रीराम के आदेश से अश्वमेध यज्ञ की तैयारी (७ ९१) । श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ में दान मान की विनोदना (७ ९२) । श्रीराम के यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि का आगमन और उनका रामायण गान के लिये कुश और लव को आदेश (७ ९३) । लव और कुश द्वारा रामायण के गान को श्रीराम ने भरी सभा में सुना (७ ९४) । श्रीराम ने सीता से उनकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये क्षय कराने का विचार किया (७ ९५) । "सीता के लिये श्रीराम ने खेद प्रगट किया । ब्रह्मा ने उन्हें समझाया और उत्तरकाण्ड का वीथ अश मुनने के लिये प्रेरित किया (७ ९८) ।" सीता के रमातल प्रवेश के पश्चात् श्रीराम की जीवन-वर्षा, रामराज्य की स्थिति तथा माताओं के परलोक आदि का वर्णन (७ ९९) । श्रीराम की आज्ञा से कुमारों सहित भरत ने गन्धर्व देश पर दायक्रमण करने के लिये प्रस्थान किया (७ १००) । श्रीराम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण ने अङ्गद और चन्द्रकेतु की काश्यप देश के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति की (७ १०२) । श्रीराम के यहाँ काल का आगमन और एव कठोर दान के साथ उसकी श्रीराम के साथ वार्ता (७ १०३) । बाल ने श्रीराम को ब्रह्मा का सदेश सुनाया और श्रीराम ने उसे स्वीकार किया (७ १०४) । 'दुर्वासा के क्षय के मय से लक्ष्मण ने निषम भङ्ग करके श्रीराम के पास उनके आगमन का समाचार दिया । श्रीराम ने दुर्वासा मुनि को भोजन कराया और उनके चले जाने पर लक्ष्मण के लिये विनित्त हुये

(७ १०५) । श्रीराम के त्याग देने पर लक्ष्मण ने सदासीर स्वर्गगमन किया (७ १०६) । वसिष्ठ के कहने से श्रीराम ने पुरवासियों को अपने साथ ले जाने का विचार तथा कुश और लव का राज्याभिषेक किया (७ १०७) । श्रीराम ने भ्राताभो, मुश्रीव आदि वानरो, तथा रीछों के साथ परमघाम जाने का निश्चय किया और विभीषण, हनुमान्, जाम्बवान्, मैन्द एव द्विविद को इत भूतल पर ही रहने का आदेश दिया (७. १०८) । परमघाम जाने के लिये निकले हुये श्रीराम के साथ समस्त अयोध्यावासियों ने प्रस्थान किया (७ १०९) । भ्राताभो सहित श्रीराम ने विष्णुस्वरूप में प्रवेश किया तथा उनके साथ आये हुये सब लोगों को सन्तानक लोक की प्राप्ति हुई (७ ११०) ।

रावण—जनस्थान निवासी शपने कुटुम्ब के राक्षसों के वध का समाचार सुनकर यह क्रोध से मूर्च्छित हो उठा (१ १, ४९) । मारीच के मना करने पर भी इनने सीता का अपहरण कर लिया और मार्ग में जटायु का भी वध किया (१ १, ५०-५३) । इसके द्वारा सीता का हरण तथा जटायुवध, हनुमान् का इसके मद्यपात-स्थान में जाना तथा इसके अन्तपुर की स्त्रियों को देवता, इसके सेरकों का हनुमान् द्वारा सहार तथा बन्दी होकर इसकी सभा में जाना; विभीषण का श्रीराम को इसके वध का उपाय बताना और श्रीराम के द्वारा रावण के विनाश का वाल्मीकि द्वारा पूर्वदर्शन (१. ३, २० २९ ३०. ३२ ३३ ३५ ३६) । दशरथ के वध में अदृश्य रूप में उपस्थित होकर देवताओं ने इसके अत्याचारों का वर्णन करते हुये इसके विनाश का पल करने का निवेदन किया (१, १५, ६-१४) । देवताओं ने विष्णु के इसका वध करने का उपाय करने के लिये कहा (१. १५, २२-२५. ३२-३३) । विष्णु ने देवों से इसके वध का उपाय पूछा (१ १६, १-२) । यह विभवा मुनि का बोरस पुत्र और कुवेर का भ्राता था (१ २०, १८) । युद्ध में देव, दानव आदि कोई भी इसके वेग को सहन नहीं कर सकते थे (१ २०, २३) । श्रीराम साक्षात् मनातन विष्णु थे जो इसके वध की अभिलाषा रखनेवाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्यलोक में अवतीर्ण हुये (२ १, ७) । पर नामक राक्षस इसका छोटा भ्राता था, और जनस्थान में रहनेवाले तापसों को कष्ट देता था (२ ११६, ११) । सूर्यणता ने राम को अपना परिचय देते हुये इसे अपना भ्राता बताया (३. १७, ६. २२) । जनस्थान के राक्षसों का वध हो जाने के पश्चात् अकम्पन ने लंका में आकर इसे एतद्विषयक समाचार दिया (३ ३१, १) । इस समाचार को सुनकर यह अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा और उन सब लोगों का वध कर देने की धमकी दी जिन्होंने राक्षसों का विनाश किया था (३. ३१, ३-७) । अकम्पन के परामर्श पर यह सीता का अपहरण करने के लिये गया, परन्तु मारीच के कहने से पुन.

लका लौट आया (३ ३१ १२-५०) । जनस्थान के राक्षसों का विनाश हो जाने के पश्चात् सहायता के लिये शूर्पणखा ने लका में आकर रावण—इसके पराक्रम पूर्वकर्मों तथा शोभा का विस्तृत वर्णन है—को देखा और इससे अपनी दुर्दशा का वर्णन किया (३ ३२ ४-३२) । शूर्पणखा ने इसे फटकारा जिस पर यह बहुत देर तक सोच विचार करना हुआ चिन्तित रहा (३ ३३) । शूर्पणखा की बात सुनकर समद्रतवर्ती प्रातः की शोभा देखते हुये यह पुनः मारीच के पास गया (३ ३५) । इगने मारीच से श्रीराम के अपराध को बताने की सीता के अपहरण में उसकी सहायता माँगी (३ ३६) । मारीच ने श्रीराम के गुण और प्रभाव का वर्णन करते हुये इसे सीता हरण के उद्योग से रोकने का प्रयास किया (३ ३७-३९) मारीच के परामर्श को अस्वीकार करते हुये इसने उसे फटकारा और सीताहरण के बाध में सहायता करने की आज्ञा दी (३ ४०) । मारीच ने विनाश का भय दिखाकर इसे पुनः समझाने का प्रयास किया (३ ४१) । 'मारीच ने सीताहरण में सहायक बनने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जिस पर इसने मारीच की प्रशंसा की और उसे लेकर श्रीराम के आश्रम पर आया । आश्रम के निकट पहुँच कर इसने मारीच को कपटमृग बनने का आदेश दिया (३ ४२, १-१३) ।' 'लक्ष्मण को भी आश्रम से चले जाने के पश्चात् यह सीता के समीप आया । उस समय इसे देखकर जनस्थान के वृशो ने हिलना बंद कर दिया और हृत्वा का वेग रुक गया । गोदावरा नदी भी भयप्रस्त हो धीरे धीरे बहने लगी । इसने सीता की प्रशंसा करते हुये उनका परिचय पूछा और सीता ने भी इसे आतिथ्य ग्रहण करने के लिये आमन्त्रित किया (३ ४६) ।' सीता ने इसे अपने पति का परिचय देते हुये वन में आने का कारण बताया जिस पर इसने सीता को अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु सीता ने इसे फटकारा (३ ४७) । सीता के समक्ष इसने अपने पराक्रम का वर्णन किया परन्तु सीता ने इसे कड़ी फटकार दी (३ ४८) । इसने सीता का कठोर वचन सुनकर अपने सौम्य रूप का परिचय कर दिया और सीता का अपहरण करके आकाशमार्ग से जाने लगा (३ ४९, १-२३) । जटायु ने पहले तो इस सीताहरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिये समझाया परन्तु जब यह विरत नहीं हुआ तो युद्ध के लिये ललकारा (३ ५०) । जटायु के क्षाप घोर युद्ध करने के पश्चात् इसने उनका वध कर दिया (३ ५१) । यह जटायुवध करने के पश्चात्, विलाप करती हुई सीता का अपहरण करके आकाशमार्ग में चला (३, ५२) । सीता ने इसे धिक्कारा (३ ५३) । इगने सीता को लका लाकर अपने अन्तःपुर में रक्खा तथा जनस्थान में गुप्तचर के रूप में रहने

के लिये आठ राजसौ गो भेजा (३ ५४) । इसने सीता को अपने अन्तपुर का दर्शन कराया और अपनी भार्या बन जाने के लिये आप्रार्थ किया (३. ५५) । सीता ने इसे फटकारा जिस पर इसने राक्षसियों को सीता को अशोकवाटिका में ले जाकर डराने-धमकाने का आदेश दिया (३ ५६, २६-३२) । जब विलाप करते हुये श्रीराम ने गोदावरी नदी से सीता का पता पूछा तो वह रावण के भय से चुप रही (३ ६४, ७-९) । गोदावरी के तट पर श्रीराम ने उस स्थल को देखा जहाँ रावण के भय से सत्रस्त सीता इधर-उधर भागती फिरी थी (३ ६४, ३७) । जटामु ने श्रीराम को इसके द्वारा सीता-हरण, इसके साथ अपने पुत्र, तथा इनके द्वारा आहत हो जाने का सम्पूर्ण वृत्तान्त बताया (३ ६७, १५-२१) । श्रीराम ने इनके द्वारा आहत जटामु को देखा (३ ६८, १) । श्रीराम ने इसके द्वारा सीता-हरण की लक्ष्मण से चर्चा करते हुये जटामु के लिये विलाप किया (३ ६८, ५ ९) । श्रीराम ने कहा कि यदि सीता को लेकर रावण दिति के गर्भ में जाकर छिप जाय तो भी वे उसका वध कर देंगे (४ १, १२१) । हनुमान् ने सुग्रीव को इसके द्वारा सीताहरण का समाचार देते हुये श्रीराम का परिचय दिया (४ ५ ६) । सुग्रीव ने सीता द्वारा निगये हुये वस्त्राभूषण आदि श्रीराम को दिखाते हुये कहा कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया (४. ६, ३) । सुग्रीव ने इसके वध वा श्रीराम को आपवाजन दिया (४ ७, ४) । श्रीराम ने सुग्रीव ने इसका पता लगाने के लिय कहा (४ ७, १९) । 'शरत्काल प्रतीक्षस्व प्रावृत्कालोऽयमागत । तत्र सराष्ट्रं सगण रावणं त वधिष्यसि ॥', (४. २७, ३९) । 'स्फुरन्ती रावणस्याद्धे वैदेहीव तपस्विनी,' (४ २८, १२) । 'अहत्वा तावथ दुर्यपन्त्रिाससाम्कामरुपिण । अशक्यो रावणो हन्तु येन सा मैथिली हता ॥', (४ ३५, १६) । 'सीता प्राप्स्यति घमतिमा वधिष्यति च रावणम्', (४ ३६, ७) । 'गच्छन्तो रावणं हन्तु वैरिणं सुपुरःसरम्', (४ ३६, १०) । 'न चिरात् त वधिष्यामि रावणं निजिते शरै', (४. ३९, ७) । 'वधिगम्य तु वैदेहीं निलय रावणस्य च । प्रातःकाल विधास्यामि तस्मिन्काले सह त्वया ॥', (४. ४०, १२) । 'लक्ष्मणेन सह भ्राता वैदेह्या सह भार्यया । तस्य भार्या जनस्थानाद् रावणेन हता बलात् ॥', (४ ५२, ५) । 'तस्य भार्या जनस्थानाद् रावणेन हता बलात्', (४ ५७, ९) । सम्पाति ने कहा कि रावण द्वारा हन जटामु उनका भ्राता था । (४, ५८, २) । यह विषयवा का पुत्र और कुबेर का भ्राता था (४ ५८, १९) । सम्पाति ने बताया कि सीता रावण के अन्तपुर में बन्दी हैं (४ ५८, २२) । सम्पाति ने कहा कि उन्हें भी रावण से अपने भ्राता के वध का प्रतिकोप लेना है (४. ५८, २७) । 'इहस्योऽहं प्रपश्यामि

रावण जानकी तथा', (४ ५८, २८) । 'एवमुक्तस्ततोऽहं सँ सिद्धं परमशोभनं ॥ स च मे रावणो राजा रक्षसा प्रतिवेदिन ॥', (४ ५९, १८-१९) । सम्पाति ने बताया कि रावण को पराजित करना श्रीराम और वानरो के लिये कठिन नहीं है (४ ५९, २७) । सम्पाति ने बताया कि वे रावण के बल को जानते हैं (४ ६३, ६) । 'गच्छेत् तद्वद् गमिष्यामि लङ्का रावणपालिनाम्', (५ १ ३९) । यदि वा त्रिदिवे सीता न द्रक्ष्यामि वृत्त-थम । बद्ध्वा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणम् ॥', (५ १, ४१) । 'लङ्का समुत्पाठ्य सरावणाम्', (५ १, ४२) । 'न शय्य गृहिवय लङ्का प्रवेष्टुं वानर त्वया । रक्षिता रावणबलैरभिगुता समन्तत ॥', (५ ३, २४) । 'सीता-निमित्त राजस्तु रावणस्य दुरात्मन । रक्षसा चैव सर्वेषां विनाश समुपागत ॥', (५ ३, ५०) । 'रावणस्तवस्युक्तान्गर्जतो राक्षसानपि', (५ ४, १३) । हनुमान ने इसके अन्तःपुर में प्रवेश किया (५ ४, २८) । सीता को खोजते हुये हनुमान् इमने महल में पहुँचे जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुये सुवर्णमय परकोटों से घिरा था (५ ६ २) । इसके भवन एव पुष्पक विमान का वणन (५ ७) । 'युद्धकामेन ता सर्वा रावणेन हृता स्त्रिय । समदा मदनेनैव मोहिता काश्चिदागता ॥', (५ ९, ७०) । हनुमान् ने इसे अपने भवन में सीते देखा (५ १०, ७-२९) । इसके समस्त अन्तःपुर में खोजने पर भी सीता को हनुमान् ने नहीं देखा (५ ११, ४६, १२, ६) । 'किं नु सीताय वंदेही मैथिली जनकात्मजा । उपतिष्ठेत दिवशा रावण दुष्ट-चारिणम् ॥' (५ १३, ६) 'रावण वा वधिष्यामि दशग्रीव महाबलम् ॥ काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति ॥', (५ १३, ४९) । यह अपनी स्त्रियो के साथ अशोकवाटिका में सीता के पास आया (५ १८) । "इसे देखकर दुखी सीता अत्यन्त भयभीत और चिन्तित हुई । उस समय यह सीता को प्रलोभन देने लगा (५ १९, १-२, २३) ।" इसने सीता को अनेक प्रलोभन दिये (५ २०) । इसे समझाते हुये सीता ने इसे श्रीराम की तुलना में नगण्य बताया (५ २१) । "इसने सीता को दो माम की अवधि दी जिस पर सीता ने इसे फटकारा । यह सीता को धमका कर राक्षसियों के नियन्त्रण में रखते हुये अपने महल को लौट गया (५ २२) । त्रिजटा नामक राक्षसी ने अपने स्वप्न में इसके विनाश को देखकर उसकी सूचना दी (५ २७) । सीता ने हनुमान् से श्रीराम को शीघ्र बुलाने का आग्रह करते हुये बताया कि रावण ने उनके जीवन की जो अवधि निश्चय की है उसमें अब थोड़ा समय ही शेष है (५ ३७, ६-८) । सीता ने बताया कि विभीषण और अकिण्ठ्य के बहने पर भी रावण ने उन्हें लौटाना स्वीकार नहीं किया (५. ३७, ९-१३) ।

‘रावणेनोपबद्धा मा निकृत्या पापकर्मणा’, (५. ३८, ६८) । ‘वलै समप्रैर्बुधि मा रावण जित्य समुगे । विजयी स्वपुर यायात्तत्तु मे स्याच्चशस्करम् ॥’, (५. ३९, २९) । ‘सगण रावण हत्वा रायपो रघुनन्दन । त्वामाशय वरारोहे स्वपुरी प्रनिवास्पति ॥’, (५. ३९, ४३) । हनुमान् ने सीता को सान्त्वना देते हुये बताया कि श्रीराम और लक्ष्मण इसका और इसके वन्द्य-वाग्धवो का वध करके उनको अपनी पुरी में ले जायेंगे (५. ४०, १६) । राक्षसियों के मुख से एक वानर के द्वारा प्रमदावन के विध्वंस का समाचार सुनकर इसने किकर नामक राक्षसों को भेजा (५. ४२, ११-२४) । जम्बु-मासी और किकरों के वध का समाचार सुनकर यह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और अपने मन्त्री के पुत्रों को गुद्ध के लिये जाने की आज्ञा दी (५. ४४, १९-२०) । मन्त्री के पुत्रों के वध का समाचार सुनकर इसने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्नपूर्वक छिपाते हुये विरूपाक्ष आदि पाँच सेनापतियों को हनुमान् को पकड़ने की आज्ञा दी (५. ४६, १-१६) । हनुमान् के द्वारा अपने पाँच सेनापतियों के वध का समाचार सुनकर इसने अपने पुत्र, अक्ष कुमार, को हनुमान् से गुद्ध के लिये भेजा (५. ४७, १-२) । अक्ष कुमार का वध हो जाने पर अपने मन की किसी प्रकार सुस्थिर करके इसने अपने पुत्र, मेघनाद, को हनुमान् को पकड़ने के लिये भेजा (५. ४८, १-१५) । हनुमान् ने मेघनाद के ग्रहास्त से बँध जाने पर भी अपने को इसलिये मुक्त करने का प्रयास नहीं किया कि उन्हें इस प्रकार रावण के साथ नातचित का अवसर मिलेगा (५. ४८, ४५) । हनुमान् को इसके पान पहुँचाया गया जिन्हे देखकर इसने अपने मन्त्रियों को हनुमान् का परिचय पूछने की आज्ञा दी (५. ४८, ५२-६१) । हनुमान् ने इसके अत्यन्त प्रभावशाली स्वरूप को देखा (५. ४९, १) । “यह सोने के बने हुये बहुमूल्य मुकुट से उद्भासित हो रहा था । इसके विभिन्न अङ्गों में मुवर्ण के आभूषण थे और रेशमी वस्त्र इसके शरीर की दोभावृद्धि कर रहे थे । इसके नेत्र लाल और भयानक थे । बड़े बड़े दाढ़ों और लम्बे होठों के कारण यह विचित्र प्रतीत हो रहा था । इसके दस भुज थे और शरीर का रंग कौयले के ढेर के समान काला था । यह अपने मन्त्रियों से घिरा हुआ सिंहासन पर विराजमान् था । हनुमान् अत्यन्त विन्मय से इसे देखते रहे (५. ४९, २-१५) ।” इमने प्रहस्त के द्वारा हनुमान् से लका आने का कारण पुछाया (५. ५०, ४-६) । श्रीराम के प्रभाव का वर्णन करते हुये हनुमान् ने इसे समझाया (५. ५१) । विभीषण ने दूत के वध को अनुचित बताकर इससे हनुमान् को कोई अन्य दण्ड देने का अनुरोध किया जिसे इसने स्वीकार कर लिया (५. ५२) । इसने हनुमान् की पूँछ में आग लगाकर नगर

भर मे घुमाने की आज्ञा दी (५ ५३, १-५) । 'आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्', (५ ५४, १८) । 'दशंन चापि लङ्काया सीताया रावणस्य च', (५ ५७, ५०) । 'तस्य सीता हता भार्या रावणेन दुरात्मना', (४ ५८, २६) । 'प्रहितो रावणेनैष सह वीरैर्मदोद्धते', (५ ५८ १२८) । 'हत्वा च समरे रौद्रं रावण सहवान्घवम्', (५ ६७, २८) । 'रावण पापकर्माणम्', (६ २ ९) । 'हृत च रावणं युद्धे दशनादवधारय', (६ २, ११) । 'हतामवाप्य वंदेही क्षिप्र हत्वा च रावणम् । समृद्धार्थं समृद्धार्थामयोध्या प्रति यास्यति ॥', (६ ४, ४५) । इसने कर्तव्य नियम के लिये अपने मंत्रियों से समुचित परामर्श देने का अनुरोध किया (६ ६) । राक्षसों ने इसके बल-पराक्रम का वर्णन करते हुये इसे श्रीराम पर विजय पाने का विश्वास दिलाया (६ ७) । विभीषण ने श्रीराम की अजेयता बनाकर हमसे सीता को लौटा देने का अनुरोध किया (६ ९) । विभीषण ने इसके महल में जाकर अपरा-कुनो का भय दिखाते हुये सीता को लौटा देने का पुन अनुरोध किया परन्तु इसने विभीषण की बात को अस्वीकार कर दिया (६ १०) । इसने अपने सभासदों को सभाभवन से एकत्र किया (६, ११) । इसने नगर की रक्षा के लिये सैनिकों को नियुक्त किया और तदनन्तर सीता के प्रति अपनी आसक्ति तथा उनके हरण का प्रसङ्ग बताकर अपने सभासदों से सम्मति माँगी (६ १२, १-२६) । कुम्भकर्ण ने पहले तो इसे फटकारा परन्तु बाद में शत्रुओं का वध करने का आश्वामन दिया (६ १२, २७-४०) । महापार्श्व ने इसे सीता पर बलात्कार करने के लिये उकसाया परन्तु शपथ के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताते हुये इसने अपने पराक्रम का वर्णन किया (६ १३) । विभीषण ने राम को अजेय बनाते हुये सीता को उन्हे लौटा देने की सम्मति दी (६ १४) । इसने विभीषण का निरस्कार किया परन्तु विभीषण भी इसे फटकार कर चले आये (६ १६) । विभीषण ने अपने को इस दुराचारी राक्षस का भ्राता बनाते हुये श्रीराम को अपना परिचय दिया (६ १७, १२) । विभीषण ने बताया कि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने उनके परामर्श को स्वीकार नहीं किया (६ १७, १५) । वानरों ने विभीषण को इसका गुप्तचर समझकर उन पर शक्य प्रगट की (६ १७, १८-३०) । विभीषण ने श्रीराम के पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय दिया जिस पर श्रीराम ने रावण वध की प्रतिज्ञा करने हुये विभीषण को लङ्का के राज्य पर अभिषिक्त करने का आशवासन दिया (६, १९, १-२५) । शार्ङ्गल के परामर्श पर इसने शुक को दूत बनाकर मुद्गीव के पास सदेशा भेजा (६ २०, १-१४) । शुक ने रावण के पास आकर श्रीराम के सैन्यशक्ति की प्रबलता

बनाया जिसे मुनकर इयने अपने बल के सम्बन्ध में गर्वोक्ति की (६. २४, २५-४७) । इयने शुक और मारण नामक अपने गुप्तचरो की राम की मैन्य शक्ति का पता लगाने के लिये भेजा (६. २५, १-८) । शुक और सारण ने इसके पास जाकर राम की शक्ति का वर्णन किया (६. २५, २६-२३) । सारण ने इसे पृथक् पृथक् वानर-युगपतियों का परिचय दिया (६. २६-३८) । इयने शुक और सारण को फटकारते हुये अपनी सभा से निकाल दिया (६. २९, १-१४) । इयने राम की सैन्यशक्ति का पता लगाने के लिये गुप्तचर भेजे (६. २९, १८-२१) । इसके गुप्तचरो ने वानर सेना का समाचार बताते हुये इसे मुख्य वानरो का परिचय दिया (६. ३०) । इयने माया-रचित् श्रीराम का कटा मस्तक दिखाकर सीता को मोह में डालने के लिये विशुजिह्व को आदेश दिया (६. ३१, १-७) । 'यह सीता को भ्रमित करने के उद्देश्य से सीता के समीप गया और विविध प्रकार से श्रीराम के वध का वर्णन करते हुये मायाकृपी राम का मस्तक दिखाकर कहा 'अब तुम मेरे वश में हो जाओ ।' (६. ३१, १०-४५) ।' राम के बटे हुये मस्तक को देखकर जब सीता विलाप करने लगी तो उसी समय प्रहस्त के आगमन का समाचार सुनकर यह अपनी सभा में लौट आया और मन्त्रियों के परामर्श से युद्धविषयक उद्योग करने लगा (६. ३२ ३४-४४) । मात्यवान् ने इसे श्रीराम से सधि करने के लिये मनशाया (६. ३५) । मात्यवान् पर आक्षेप और नगर की रक्षा का प्रबन्ध करके यह अपने अन्त-पुर में चला गया (६. ३६) । सुशीव ने इनके साथ मन्त्रयुद्ध किया (६. ४०) । अपना परिचय देने हुये अज्जद ने इसके समक्ष उपस्थित होकर इसकी भर्त्सना की परन्तु इयने अज्जद को घन्दी बना लेने का आदेश दिया (६. ४१, ७५-८३) । जब अज्जद ने इसके महल को तोड़ दिया तो यह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ परन्तु विनाश की घड़ी को उपस्थित देखकर क्षीर्ष निद्राम छोड़ने लगा (६. ४१, ९२) । इयने क्रोध में आकर अपनी सेना को बाहर निकलने की आज्ञा दी (६. ४२, ३२) । जब मेघनाद ने श्रीराम और लक्ष्मण को मूर्च्छित कर दिया तो इयने अपने पुत्र का सहर्ष अभिनन्दन किया (६. ४६, ४८-५०) । इयने राक्षसियों को पुष्पक विमान द्वारा सीता की रणभूमि में ले जाकर मूर्च्छित श्रीराम और लक्ष्मण का दर्शन कराने का आदेश दिया (६. ४७, ७-१०) । 'मत्सहोमया राजनराक्षणोऽभि-भविष्यति', (६. ४९, २४) । 'प्राप्तप्रतिज्ञाव रिपुः मक्रामो रावणः कृत', (६. ५०, १९) । मुषीक ने विभीषण को बनाया कि राम और लक्ष्मण मूर्च्छा त्यागने के पश्चात् गहड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षसों सहित इयता वध करेंगे (६. ५०, २२) । 'अहं तु रावण हत्वा समुत्सं सहवान्धवम् ।

मैथिलीमानयिष्योमि शत्रो मष्टामिव श्रियम् ॥', (६ ५०, २५) श्रीराम के वन्दन मुक्त होने का पता पाकर चिन्तित होते हुये इसने घूम्राक्ष को युद्ध के लिये भेजा (६ ५१, १-२२) । वज्रदष्ट के वध का समाचार सुनकर इसने अकम्पन आदि राक्षसों को श्रीराम के विरुद्ध युद्ध के लिये भेजा (६ ५५, ४) अकम्पन के वध से दुःखित होकर इसने लड्डा के समस्त मोरचों का निरीक्षण किया और प्रहस्त को विंगाल सेना सहित युद्ध के लिये भेजा (६, ५७, १-१९) । 'प्रहस्त के वध का समाचार पाकर दुःखी हो इसने स्वयं ही युद्ध के लिये प्रस्थान किया । यह अग्नि के समान प्रकाशमान् रथ पर आस्रुद दृश्या जिसमें उत्तम अश्व जुते हुये थे । इसके प्रस्थान करते समय राक्षस, भेरी और पणय आदि बाजे बजने लगे, घोड़ागण ताल ठोकने, गरजने और सिंहनाद करने लगे, बन्दीजनों ने पवित्र स्तुतियों द्वारा इसकी आराधना की (६ ५९, १-१०) ।" "विभीषण ने श्रीराम से इसका परिचय देते हुये कहा - 'यह जो व्याघ्र, ऊँट, हाथी, हिरन और अश्व जैसे मुखवाले, चढ़ी हुई आँखों वाले तथा अनेक प्रकार के भयकर रूपवाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दम दलन करने वाला है, तथा यही जिसके ऊपर पूर्ण चन्द्र के समान श्वेत एव पनली कमानीवाला सुन्दर छत्र शोभा पाता है, वही यह राक्षसराज महामना रावण है जो भूतों से घिरे हुये रद्रदेव के समान सुशोभित होता है । यह मिर पर मुकुट धारण किये हुये है । इसका मुख बानों में हिलते हुये कुण्डलो में अर्द्धकृत है । इसका शरीर गिरिराज हिमालय और विन्ध्याचल के समान विंगाल और भयकर है, तथा यह इन्द्र और यमराज के घमड को भी चूर करने वाला और साक्षान् सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है ' (६ ५९, २३-२५) । श्रीराम ने इसे दृष्टिगोचर किया (६ ५९, २६-३१) । इसने राक्षसों को सावधान करने हुये युद्ध किया तिनमें सुग्रीव इसकी मार से अचेत हो गये (६ ५९ ३३-४१) । "इसने गवाक्ष, गवय सुषेण, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल के साथ युद्ध करते हुये उन्हें पायल किया । श्रीराम की आज्ञा से रक्षण इसके साथ युद्ध करने के लिये आय (६ ५९, ४२-५२) । हनुमान और इसमें पण्डों की मार हुई तथा इसने नील को मूर्च्छित कर दिया (६ ५९, ५३-९०) । नील के अचेत हो जाने पर इसने शक्ति के आधान में लक्ष्मण को भी मूर्च्छित कर दिया किन्तु अन्ततः श्रीराम से पराजित होकर लक्ष्मण के प्रक्षिप्त हो गया (६ ५९, ९२-१४६) । इसके युद्धस्थल में भाग जाने पर इसके पराजय का विचार करके देवता, अमुर, भूत, दिव्यायें, समुद्र, ऋषिगण, बड़े-बड़े नाग तथा भूचर और जलचर प्राणी भी अत्यन्त प्रमत्त हुये (६ ५९, १४८) । अपनी पराजय से दुःखी होकर इसने मोये हुये

कुम्भकर्ण को जाने की आज्ञा दी (६, ६०, १-२१) । महोदर ने कुम्भकर्ण के जा जाने पर रावण से मिलने के लिये कहा (६ ६०, ८३) । "राक्षसों ने इसे कुम्भकर्ण के जग जाने का समाचार सुनाया जिससे प्रमत्त होकर इसने उसे शीघ्र बुलाने की आज्ञा दी । कुम्भकर्ण ने इसके महल की ओर प्रस्थान किया (६, ६०, ८५-८८) ।" जब कुम्भकर्ण इसके समक्ष उपस्थित हुआ तो इसने खड़े होकर उसका स्वागत करने के परचात् राम से भय बताकर उसे शत्रुमेता का विनाश करने के लिए प्रेरित किया (६ ६२) । कुम्भकर्ण ने इसके कुकृत्यों के लिए इसे उपालम्भ दिया परन्तु बाद में इसे धैर्य बँधाते हुये युद्ध विषयक उत्साह प्रकट किया (६ ६३) । महोदर ने इसे विना युद्ध के ही भ्रष्ट-तिद्धि का उपाय बताया (६ ६४, २०-३६) । कुम्भकर्ण की वीरोचित बातों को सुनकर इसने उसकी सराहना की (६ ६५, ९-१५) । इसने कुम्भकर्ण को युद्ध के लिये भेजते हुए उसे विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया (६ ६५, २२-२७) । कुम्भकर्ण के वध का समाचार सुनकर इसने विलाप किया (६ ६८) । इसने अपने दोनों भ्राताओं, महापाश्वर्य और महोदर को भी राक्षस कुमारा के शत्रु युद्ध में जाने के लिए कहा (६ ६९, १६-१७) । प्रतिकाम की मृत्यु का समाचार सुनकर यह उद्विग्न हो उठा और राक्षसों को लकापुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश दिया (६ ७२) । "सग्राम में अनेक राक्षस-प्रमुखों का वध हो जाने की बात सुनकर सहसा इसके नेत्रों से अश्रु उमड़ पड़े । इन्हे उस समय शोक ममूद्र में । निमग्न देखकर इन्द्रजित् स्वयं युद्ध करने के लिये प्रस्तुत हुआ (६ ७३, १-३) ।" तिकुम्भ और कुम्भ की मृत्यु का समाचार सुनकर यह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और सरपुत्र मकराक्ष को औराम और लक्ष्मण से युद्ध करने की आज्ञा दी (६ ७८, १-२) । मकराक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर यह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और इन्द्रजित् को युद्ध के लिये जाने की आज्ञा दी (६ ८०, १-४) । "इन्द्रजित् के वध का समाचार सुनकर यह मूर्च्छित हो गया । तदनन्तर चेतना लौटने पर इसने सीता का वध कर देने का निश्चय किया परन्तु सुगर्भ के समझने पर इस क्रुद्ध से निवृत्त हुआ (६, ९२) ।" "सभा में पहुँचकर यह अत्यन्त दुःखी एवं दीन हो महासन पर बैठा दीर्घ निश्वास लेने लगा । उस समय इसने अपने प्रधान योद्धाओं की शौर्य आदि का वध कर देने का आदेश देते हुये कहा कि यदि वे इस कार्य को न कर सकेंगे तो यह स्वयं ही करेगा (६, ९३, १-५) ।" "इसने राक्षसों के वध के कारण लका के प्रत्येक गृह में शोकमग्न राक्षसियों का कण्ठागतक दिलाप सुना और क्रोध में भर कर अपने सेनापतियों तथा अन्य राक्षसों को युद्ध के लिये

सन्तुष्ट होने का आदेश दिया । यह स्वयं भी राक्षसों के साथ युद्धभूमि में आकर अपना पराक्रम दिखाने लगा (६ ९५) ।" इसके प्रहार से वानरसेना पलायन करने लगी (६ ९६, १-५) । सुग्रीव द्वारा विरूपाक्ष के वध का समाचार सुनकर इमने महोदर को युद्ध के लिए भेजा (६ ९७, २-५) । "विरूपाक्ष, महोदर और महापार्व के वध के पश्चात् इसके हृदय में क्रोध का आवेग हुआ । इसने अपने सारथि से कहा — 'मैं रणभूमि में उम राम स्त्री वृष को उखाड़ फेंकूंगा जो सीता स्त्री पुण्य के द्वाग फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जाम्बवान्, कुमुद, नल, द्विविद, मन्द, अङ्गद, गन्धमादन, हनुमान्, और सुगेण आदि समस्त वानर यूपपति जिमकी प्रशाखाये हैं ।' इम प्रकार कहकर यह श्रीराम से युद्ध करने के लिए अग्रसर हुआ । इमने विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करते हुये श्रीराम से घोर युद्ध किया (६ ९९) ।" श्रीराम के साथ घोर युद्ध करने हुये इसने अपनी शक्ति से लक्ष्मण को मूर्च्छित कर दिया (६ १००, १-३६) । श्रीराम ने क्रुद्ध होकर इससे भीषण युद्ध किया जिममें आहत एव पीडित होकर यह युद्धभूमि में भाग गया (६ १००, ५८-६२) । इसने श्रीराम के साथ पुनः घोर युद्ध किया (६ १०२) । श्रीराम ने इमे फटकारते हुये इससे आहत कर दिया । उस समय इसका सारथि इसे रणभूमि से बाहर हटा ले गया (६ १०३) । इमने इस कार्य के लिये सारथि को फटकारा (६ १०४, १-९) । सारथि के उत्तर से मन्तुष्ट होकर इसने उसे पुन रथ को युद्धभूमि में ले चलने का आदेश दिया जिसका पालन करते हुये सारथि ने इसे श्रीराम के समीप पहुँचा दिया (६ १०४, २४-२८) । इसके रथ को देखकर श्रीराम ने अपने सारथि, मातलि, को मावधान किया । उस समय इसकी पराजय तथा राम की विजय के सूचक अनेक चिह्न प्रकट हुये (६ १०६) । इसने श्रीराम के साथ घोर युद्ध किया (६ १०७) । मानलि के परामर्श पर श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र द्वारा इसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और यह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पडा (६ १०८, १-२३) । इसके वध पर विभीषण ने इसके लिय विलाप किया (६ १०९, १) । श्रीराम ने विभीषण को इसका अन्त्येष्टि सस्कार करने का आदेश दिया (६ १०९, १३- ५) । इसकी स्त्रियो ने इसकी मृत्यु पर विलाप किया (६ ११०) । "इसकी प्रिय पत्नी मन्दोदरी ने इसकी मृत्यु पर विलाप किया । तदनन्तर श्रीराम ने विभीषण को स्त्रियो को धर्म बंधाने तथा इसका अन्त्येष्टि सम्भार करने का आदेश दिया (६ १११, १-९१) । "जब विभीषण ने इसका दाह सस्कार करने में शुरुवात प्रगट किया तो श्रीराम ने उनसे कहा 'रावण भजे ही अधर्मों और अमत्यवादी रहा हो, परन्तु सप्राम मे सदैव सेनस्त्री, अश्वान्, और शूरवीर रहा । इन्द्र

आदि देवता भी उसे परास्त नहीं कर सके । वह बल पराक्रम से सम्पन्न तथा महामनस्वी था । धर का अन्त मृत्यु के साथ हो जाता है, अतः रावण इस समय जैसे तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी है । इसलिये तुम इसका दाह सम्कार करो ।' श्रीराम के ये वचन सुनकर विभीषण ने इसका विधिवत् दाह सम्कार किया (६- १११, १८-१२१) । लका से अयोध्या लौटने समय श्रीराम ने पुष्पक विमान से मीठा वी वह स्थान दिखाया जहाँ से इसने उनका बलपूर्वक अपहरण किया था (६- १२३, ४५) । 'द्विष्टा त्वया हतो राजन्रावणो लोकरावण । नहि भार म ते राम रावण पुत्रपौत्रवान् ॥', (७- १, १८) । 'द्विष्टा त्वया हतो राम रावणो राक्षसेश्वर', (७- १, १९) । वेदवेत्ता महर्षियो ने श्रीराम से कहा कि युद्ध में उनके द्वारा जो इसकी पराजय हुई है उससे भी बढ़कर भद्रत्व लक्ष्मण द्वारा इसके पुत्र इन्द्रजित् का वध है (७- १, २५) । 'रावण च निशाचरम्', (७- १, ३१) । "कंसती ने अत्यन्त भयानक और क्रूर स्वभाव वाले इस राक्षस को जन्म दिया । इसके दमस्तक, बड़ी-बड़ी दाढ़ें, तबे जैसे होठ, भीम भुजायें, विशाल मुख और चमकीले केश थे । इसके शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था । इसके पंश होते ही मुख में अज्ञारो के कौर लिये गीदड़ियाँ और मातृभक्षी मूत्र आदि पक्षी दायी और मण्डलाकार धूमने लगे । इन्द्रदेव शंभिर की वर्षा करने लगे, मेघ भयकर स्वर में गरजने लगे, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पृथिवी पर उल्कापात होने लगा, धरती काँप उठी, भयानक आंधी चलने लगी तथा किसी के द्वारा श्रुत्य न होनेवाला सन्निवृत्त समुद्र विधुद्व हो उठा । उस समय ब्रह्मा के समान तेजस्वी पिता विश्रवा मुनि ने दशग्रीवाओ सहित उत्पन्न होने के कारण इस पुत्र का 'दशग्रीव' नामकरण किया (७- ९, २७-३२) ।" कुम्भकर्ण और दशग्रीव (रावण) दोनों महाबली राक्षस, लोक में उद्वेग उत्पन्न करने वाले थे (७- ९, ३६) । माता कैकसी के कदनानुमार वैश्रवण की भाँति तेज और बँगव-सम्पन्न होने के लिये यह तपस्या करने के शोकपूर्ण-आश्रम में गया (७- ९, ४०-४७) । 'इसने दस हजार वर्षों तक लगातार उपवास किया । प्रत्येक सहस्र वर्ष के पूर्ण होने पर यह अपना एक मातृक काटकर अग्नि में होम कर देता था । इस प्रकार जब मस्तकी के लट जाने पर दसवें सहस्र वर्ष में यह (दशग्रीव) अपना दमवी मस्तक काटने के लिये उद्यत हुआ तो ब्रह्मा जी प्रवृत्त हो गये और प्रसन्न होकर उन्होंने इससे वर माँगने के लिये कहा । इसके अमरत्व की याचना करने पर ब्रह्मा ने कहा "तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता इसलिये कोई दूसरा वर माँगो ।' तदनन्तर ब्रह्मा ने इसे गण्ड, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओ से अवध्य होने का वर दिया और

प्रसन्न होकर इसे इसके उन सभी मस्तकी, जिनका इसने अग्नि में हवन किया था, के पूर्ववत् प्रकट होने और इच्छानुसार रूप धारण करने का भी वर दिया। तदनन्तर इसके वे सभी मस्तक नये रूप में प्रकट हो गये (७ १०, १०-२६)। सुमाली ने इसके अपने सचिवों सहित ब्रह्मा द्वारा वरप्राप्ति का समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो इससे लका का राज्य लेने के लिये कहा (७ ११, १-९)। इसने अपने बड़े भ्राता, कुबेर, के रहते हुये ऐसा करना अस्वीकार कर दिया (७ ११, १०)। प्रहस्त के समझाने पर इसने कुबेर के पास प्रहस्त के द्वारा ही यह सदेश भेजा कि वह (कुबेर) इसे लका का राज्य लौटा दें (७ ११, २२-२५)। जब कुबेर ने लका छोड़ दिया तो इसने उम नगरी में पदार्पण किया। उस समय निशाचरो ने लका में इसका राज्याभिषेक किया और उसके पश्चात् इमने इस नगरी को बसाया (७ ११, ४९-५१)। अपनी बहन का विवाह करके एक दिन जब यह शिकार के लिये वन में घूम रहा था तो इसने दिति पुत्र मय तथा उसकी पुत्री को देखा और दोनों का परिचय पूछा (७ १२, ३-४)। मय को अपना परिचय देने हुये इसने अपने को विश्रवा का पुत्र बताया (७ १२ १५)। "मय ने इससे अपनी पुत्री का विवाह करते हुये इसे एक अमोघ शक्ति भी प्रदान की। उनी अमोघशक्ति से इमने लक्ष्मण को आहत किया था (७ १२, १७-२१)।" जब कुम्भकर्ण के भीतर निद्रा का वेग प्रकट हुआ तो उसने इससे अपने लिये एक शयनकक्ष बनवाने का अनुरोध किया जिसे सुनकर इसने विश्वकर्मा को तदनुसार सुन्दर भवन बनाने का आदेश दिया (७ १३, २-४)। इसने कुबेर के दून का वध कर दिया (७ १३, ३४-४१)। अपने मंत्रियों सहित इसने यक्षों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया (७ १४)। इमने मणिभद्र तथा कुबेर को पराजित करके कुबेर के पुष्पक विमान का भी अपहरण कर लिया (७ १५)। "अपने भ्राता कुबेर को पराजित करके यह 'शरवण' नामक वन में गया। उस वन के समीप स्थित पर्वत पर जब यह चढ़ने लगा तो इसके विमान की गति रुक गई। उस समय इसने अपने मंत्रियों से विमान के रुकने का कारण पूछा (७ १६, १-५)।" जब यह मंत्रियों से इस प्रकार परामर्श कर रहा था तो वहाँ शंकर के पार्षद, नन्दी, ने उपस्थित होकर इसे लौट जाने के लिये कहा (७ १६, ८-११)। इसने नन्दी की बातों की उपेक्षा करते हुये उनके वानर-मुख का लज्जाम किया (७ १६, १४)। क्रुद्ध नन्दीश्वर ने इसे यह शाप दिया कि इसका तथा इसके बुल का वानरों के हाथ ही विनाश होगा (७ १६, १६-२०)। इमने नन्दी के वचन की उपेक्षा करते हुये उस पर्वत को ही उठाकर मार्ग से हटा देने का प्रयास

किया (७ १६, २२-२५) । इसके उठाने के प्रयास के फलस्वरूप जब वह पर्वत हिलने लगा तो उस पर विराजमान महादेव ने अपने पैर के अँगूठे से पर्वत को दबा दिया जिससे दसकी दोनो भुजायें उसके नीचे दब गई (७ १६, २७-२८) । अपनी भुजाओं के दबने की पीडा से इसने भीषण 'विराव' (रोदन अथवा आर्तनाद) किया (७ १६, २९) । "अपने मंत्रियों के परामर्श पर इसने एक सहस्र वर्ष तक शक्र की स्तुति की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इसकी भुजाओं को मुक्त करते हुये इससे कहा 'तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यन्त भयानक 'राव' किया था उसी के कारण अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होये ।' उस समय इसने शक्र से अपनी अवशिष्ट आयु को पुरी की पूरी प्राप्ति करने तथा एक शस्त्र की भी याचना की (७. १६, ३४-४३) ।" शक्र ने इसे चन्द्रहास नामक खड्ग दिया तथा इसकी आयु का व्यतीत अन्न भी पूर्ण कर दिया । (७ १६, ४४) "शक्र से वरदान प्राप्त करने के पश्चात् लौट कर यह समस्त पृथ्वी पर दिग्विजय के लिये भ्रमण करने लगा । उस समय सभी ने इसके सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली (७. १६, ४६-४९) ।" एक समय वन में विचरण करते हुये इसने एक तपस्विनी कन्या को देखा और उस पर मोहित होकर उसका परिचय पूछा (७ १७, १-८) । कन्या ने अपना नाम वेदवती बतलते हुये जब अपना पूर्ण परिचय दिया तो इसने उससे अपनी पत्नी बन जाने का प्रस्ताव किया (७. १७, २०-२४) । वेदवती के अस्वीकार करने पर इसने अपने हाथ से उसके केश पकड़ लिये (७ १७, २७) । उस समय वेदवती ने दससे कहा कि वह इसके वध के लिये पुन जन्म लेगी, और इसके पश्चात् वह अग्नि में प्रवेश कर गई (७ १७, २८-३४) । "जब वह कन्या दूसरे जन्म में एक कमल से प्रकट हुई तो इसने उसे पुत्र प्राप्त कर लिया और अपने घर लाया । मन्त्रियों ने जब इसे यह बताया कि वह कन्या इसके वध का कारण होगी तो इसने उसे समुद्र में फेंक दिया (७ १७, ३५-३९, गीता प्रेस सस्करण) ।" "इसने लक्ष्मीधर नामक देश में पहुँचकर मरुत को देवताओं के साथ बैठकर वज्र करते देखा । इसे देखकर समस्त देवता भयभीत हो तिर्यग्योति में प्रवेश कर गये । मरुत के निवृत्त पहुँचकर इसने उनसे युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिये कहा । मरुत के पूठने पर इसने अपना परिचय दिया, जिस पर मरुत इससे युद्ध करने के लिये उद्यत हुये (७ १८, १-१३) ।" यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर चुकने के कारण जब महर्षि सवर्त ने मरुत को युद्ध करने से विरत कर दिया तो इसने अपने को विजयी मानकर वहाँ उपस्थित महर्षियों का भक्षण किया और पृथिवी पर विचरने लगा (७ १८, १९-२०) ।

'इसने मरुत्त को विजित करने के पश्चात् अनेक राजाओं को विजित किया। इसके पश्चात् इसने अयोध्यापुरी में आकर वहाँ के राजा अनरण्य को युद्ध के लिये ललकारा। अनरण्य के साथ इसका घोर युद्ध हुआ जिसमें इसके प्रहार से आहत होकर अनरण्य घरशायी हो गये। भूमि पर पड़े महाराज अनरण्य ने इसे शाप देते हुये कहा 'तूने अपने व्यगपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुलवा अपमान किया है अतः मैं तुझे यह शाप देना हूँ कि इक्ष्वाकु-वंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथमन्दन श्रीराम प्रगट होकर तेरा वध करेंगे।' इतना कहकर राजा स्वर्गशासी हुये और यह वहाँ से अन्यत्र चला गया (७ १९)।

"जब यह मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथिवी पर विचरण कर रहा था तो महर्षि नारद ने इसके पास आकर इसकी प्रशंसा करते हुये इसे यमराज को वशीभूत करने का परामर्श दिया। उस समय इसने नारद का परामर्श स्वीकार करते हुये यमराज को विजित करने के लिये दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया (७ २०, १-२६)।" यमलोक पर आक्रमण करके इसने घोर युद्ध करते हुये यमराज के सैनिकों का सहार किया (७ २१)। "यमराज के साथ घोर युद्ध करते हुये जब इसने उन्हें अत्यन्त त्रस्त कर दिया तो उन्होंने इसका वध कर देने के लिये कालदण्ड हाथ में उठाया। उस समय ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित होकर उन्हे रोकते हुये कहा 'मैंने रावण को देवताओं से अवध्य होने का वर दिया है, अतः आप कालदण्ड से इसका वध न करें क्योंकि उस दशा में मेरी बात मिथ्या हो जायगी।' ब्रह्मा ने ऐसा कहने पर जब यमराज कालदण्ड का प्रहार करने से विरत होकर इसकी दृष्टि से शोक्ल हो गये तो इसने अपने को यमराज पर विजयी माना (७, २२)।' इसने निवातकवचों से मंत्री, कालकेयो का वध तथा वरुणपुत्रों को परजित किया (७ २३)। वरुणालय से लौटते समय इसने अनेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण कर लिया (७ २४, १-३)। उन अपहृत कन्याओं ने इसे यह शाप दिया कि स्त्री के कारण ही इसका वध होगा (७ २४, २०-२१)। "उन कन्याओं के शाप में निस्तेज होकर जब यह लंबापुरी में आया तो इसकी बहन, राक्षसी सूर्यगन्धा, ने आकर इन पर अपने पति का वध कर देने का अश्रेय किया। अपनी बहन को मात्स्यना देने हुये इसने उसे दण्डहारण्य में जाकर अपने धाना खर के पास निवास करने के लिये कहा। इसने चौदह महत्तर पराक्रमी राक्षसों की सेना को भी खर के साथ जाने की आज्ञा दी (७ २४, २२-४२)।" इसने निम्बुभिन्ला में जाकर अपने पुत्र, मेघनाद, को यज्ञ करते देखा (७ २५, १-५)। "जब मेघनाद का यज्ञ करा रहे शुक्राचार्य ने इसे मेघनाद के यज्ञ

का परिचय दिया तो इतने कहा - 'बेटा ! तुमने यह अच्छा नहीं किया, क्योंकि उन षड सम्बन्धी द्रव्यों से मेरे दबुभूत इन्द्र आदि देवताओं का पूजन हुआ है ।' तदनन्तर वह अपने पुत्र तथा विभीषण के साथ अपने घर लौटा और पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा जिनका अपहरण करके यह अपने साथ लाया था । उस समय उन स्त्रियों के विलाप को सुनकर विभीषण ने इत्ते परस्त्री-हरण का दोष बताते हुये कहा 'आप इन अवलाओं का अपहरण करके लाये हैं और उधर आपका उल्लङ्घन करके हम लोगों की बहन, कुम्भीनती, का मधु ने अपहरण कर लिया है ।' जब इसने विभीषण की बातों को समझने में अपनी असमर्थता प्रगट की तब विभीषण ने कुम्भीनती का परिचय दिया । विभीषण की बात सुनकर इतने मधु की नगरी, मधुपुर, पर आक्रमण किया परन्तु कुम्भीनती के बहने पर मधु को दामा करते हुये मधु को साथ लेकर देवलोक पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया (७ २५, १४-२२) । "देवलोक पर आक्रमण के लिये जाते समय जब यह कैलास पर्वत पर रफा तो वहाँ रम्भा नामक अप्सरा को देखकर उस पर आसक्त हो गया । जब इतने रम्भा से समागम का प्रस्ताव किया तो उसने बनाया कि वह इसकी पुत्रवधू है क्योंकि उस समय वह इसके भ्रातापुत्र नलकूबर के पास जा रही है । रम्भा की बात की उपेक्षा करते हुये इसने उसके साथ बलात्कार करके छोड़ दिया । जब रम्भा ने नलकूबर को सपत्न वृत्तान्त सुनाया तो उन्होंने इसे शाप देते हुये कहा : 'यदि रावण काम-वीडित होकर किसी ऐसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा जो उसे न चाहती हो तो उसके मस्तक के सात टुकड़े हो जायेंगे ।' उस शाप को सुनकर इसने अपने को न चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया (७. २६) ।" "कैलास पर्वत को पार करके इसने सेना सहित देवलोक पर आक्रमण किया । उस समय भयभीत इन्द्र ने विष्णु से महायता की प्रार्थना की (७ २७, १-६) ।" "विष्णु ने इसका वध करना अस्वीकार करते हुये इन्द्र की बतियां कि इस समय यह वरदान से सुरक्षित है । फिर भी यथानुकूल समय उपस्थित होने पर इसका वध करने का विष्णु ने आशवासन दिया (७ २७, १७-२०) ।" तदनन्तर देवों और राक्षसों में भयकर युद्ध हुआ जिसमें सवितृ ने सुमाली का वध किया (७. २७, २७-४९) । देवों और राक्षसों के इस युद्ध में जब इसने देखा कि देवगण इसके मैदानों का वध कर रहे हैं तो इसने इन्द्र से घोर युद्ध करना आरम्भ किया (७ २८, ४२-४८) । इस युद्ध में जब दानवर्षा से सब ओर अन्धकार छा गया तब इन्द्र, रावण, और मेघनाद ही उस समराङ्गण में मोहित नहीं हुये (७ २९, १-४) । तदनन्तर यह देवों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से देव

सेना के बीच उपस्थित हुआ (७ २९, ५-९) । “जब इन्द्र ने इसे बन्दी बना लेने का देवों को आदेश देते हुये दूसरी ओर से समराज्य म प्रवेश किया तो इसने भी इन्द्र पर आक्रमण किया । इन्द्र ने इसे चारों ओर स घेर कर युद्ध से विमुक्त किया । (७ २९, १५-१८) । अपने पिता को इस प्रकार इन्द्र के वश म हुआ देख मेघनाद ने माया का आश्रय लेकर इन्द्र को बन्दी बना लिया और अपने पिता को लेकर लका लौट आया (७ २९, २७-४०) । इन्द्र को मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्रह्मा को आगे करके देवगण इसके पास आये (७ ३०, १-२) । “श्रीराम के यह -पूछने पर कि जब रावण पृथिवी पर विजय करता हुआ घूम रहा था तो क्या पृथिवी धीरो से रहित थी, महर्षि अगस्त्य ने बताया कि एक बार रावण ने युद्ध के उद्देश्य से महिष्मती पुरी में पदार्पण किया । उस समय वहाँ के राजा, अर्जुन स्त्रियों के माय नर्मदा नदी में जलश्रीडा करने चले गये थे । रावण ने अर्जुन के मन्त्रियों से जब राजा को पूटा तो उन लोगों ने इसे राजा की अनुपस्थिति का ममाचार बनाया । तदनन्तर यह विन्ध्य गिरि की शोभा देखता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया (७ ३१, १-२०) ।” नर्मदा तट पर इसने शिव का पूजन करने के उद्देश्य से नर्मदा में स्नान किया और तट पर ही शिवलिंग की स्थापना करके पूजन करने लगा (७ ३१, २५-४३) । जब यह शिव को पुण्यो का उपहार समर्पित कर रहा था तो उसी समय नर्मदा का जठ बढकर इसके पुष्पहारो को बहा ले गया (७ ३२ १ ७) । उस समय इमने अपने मन्त्रियों को नर्मदा के जल के त्रिपरीत दिसा म बहने का कारण जानने का आदेश दिया (७ ३२, ११) । मन्त्रियों से समाचार जानकर इसने जल रोक्नेवाले व्यक्ति को अर्जुन समजा और उसकी ओर प्रस्थान किया (७ ३२, २०-२१) । “इसने अर्जुन को देखकर उन्हें युद्ध के लिए लटकारा । इनका आह्वान सुनकर अर्जुन ने इसके साथ युद्ध किया और अन्त में अपनी एक सहस्र भुजाओ से पकडकर इसे रस्मो से बांध दिया । इस प्रकार बन्दी बनाकर अर्जुन इसे महिष्मती पुरी ले आये (७ ३२, २४-७३) ।” पुलस्त्य ने महिष्मती पुरी में उपस्थित होकर इसे अर्जुन से मुक्त कराया (७ ३३, १५-२१) । “यह वालिन् से युद्ध के उद्देश्य से किष्किन्धा पुरी में आया । उस समय वालिन् वहाँ उपस्थित नहीं थे (७ ३४, १-५) ।” “वालिन् के मंत्रियों आदि द्वारा वालिन् की प्रशंसा सुनकर इमने उन लोगों को भला घुटा कहने हुये दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया । समुद्रतट पर वालिन् को देखकर जब इमने उन्हें पकडने का प्रयास किया तो वालिन् ने सतर्क होकर स्वय ही इसे पकड कर अपनी काल में लटका लिया । इस प्रकार इसे काल में लटकाये हुये वालिन् चारों

समुद्रों के तट पर सन्ध्याोपासना करने के पश्चात् किन्दिग्धा लीडे । वहाँ आकर जब उन्होंने इसका परिषय पूछा तो इसने उनके पराक्रम की सराहना करते हुये उनसे मित्रता कर ली (७ ३४, ११-४५) । "अङ्कमारोप्य तु पुरा रावणैव बलाद्भृताम्, (७. ४३. १७) । 'मम मातृष्वमुर्ध्वाता रावणो नाम राक्षस' । हनो रामेण दुर्वुंदे स्त्रीहेतो पुरुषायम ॥ तच्च सर्वं मया क्षान्त रावणस्य कुत-
खयम् ।, (७ ६८, १४-१५) ।

राष्ट्रवर्धन, दशरथ के एक मन्त्री का नाम है (१, ७, ३) ।

राहु, एक ग्रह का नाम है जो सूर्य और चन्द्रमा को समय-समय पर घस लेता है (२ ११४, ३) । 'तं दृष्ट्वा बह्नाङ्गुस्त चन्द्रं राहुमुखादिव.' (५. १, १७०) । "जिस दिन हनुमान् सूर्य को पकड़ने के लिये उछले उसी दिन राहु भी सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था । हनुमान् ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तब राहु भयभीत होकर वहाँ से भाग खडा हुआ (७ ३५, ३१-३२) ।" यह तिहिना का पुत्र था और हनुमान् के भय से भागकर इन्द्र की शरण में आया (७. ३५, ३३) । "इसने इन्द्र से कहा कि एक दूसरे राहु के रूप में हनुमान् ने सूर्य को पकड़ लिया है । इसकी बात सुनकर इन्द्र ने हनुमान् पर आक्रमण करने के लिये प्रत्यान किया । इधर यह भी इन्द्र को छोड़कर हनुमान् के समीप आया । हनुमान् सूर्य को छोड़कर इसे ही पकड़ने के लिये उछले जिससे भयभीत होकर यह पुनः इन्द्र की शरण में गया । उस समय इन्द्र ने इसे सान्त्वना देते हुये हनुमान् के वध का आश्वासन दिया (७. ३५, ३४-४२) ।" ब्रह्मा ने कहा कि राहु की बात सुनकर इन्द्र द्वारा हनुमान् पर वन-प्रहार कर देने के कारण ही वायुदेव कुपित हो उठे हैं (७. ३५, ५९) ।

राघिर, प्रजापति कृत्वास्व के पुत्र, एक अस्त्र, का नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ७) ।

राघिराशन, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के विरुद्ध युद्ध के लिये सर के साथ आया (३ २३, ३३) । इसने सर के साथ श्रीराम पर आक्रमण किया (३. २६, २७) । श्रीराम ने इसका वध कर दिया (३ २६ २९-३५) ।

रमा—राम ने कहा कि सुग्रीव-पत्नी रमा पालिन की पुत्रवधू के समान है (४ १८, १९) । सुग्रीव ने इसे प्राप्त किया (४ २६, ४१) । लक्ष्मण की कठोर बाणी सुनकर अङ्गद ने आकर इसके चरणों में भी प्रणाम किया (४. ३१ ३६-३७) । 'सवामो भव सुग्रीव रमा त्वं प्रतिपत्स्यते', (४. २०, २०) । सुग्रीव के उछले ही रमा आदि स्त्रियाँ भी सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गईं (४ ३४, ४) । सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रमा भी थी । (४ ३४, ६) ।

‘प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमा मा च परतप’ (४ ३५, ५) । ‘रुमा मा चाङ्गद राज्य घनधान्यवसूनि च’, (४ ३५, १३) ‘पिता रुमाया सप्राप्त सुग्रीवश्वशुरो विमु’, (४ ३९, १६) । ‘राज्य च सुमहत्प्राप्य तारा च रुमया सह ॥ मित्रैश्च सहितस्तत्र वसामि त्रिगतञ्चर ’, (४ ४६, ८-९) ‘आरोग्यपूर्वं कुशल वाच्या माता रुमा च मे’, (४. ५५, १४) ।

रेणुका—‘सगता मुनिना पत्नी भागवेषेव रेणुका’, (१ ५१, ११) । जमदग्नि की पत्नी तथा परशुराम की माता का नाम है जिसका परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से, फरसे से, सर काट दिया था (२. २१, ३३) ।

रोमपाद, अङ्गदेश के एक महाप्रतापी और बलवान् राजा का नाम है (१ ९, ७) । “सुमन्त्र ने दशरथ को बताया कि ‘इनके द्वारा धर्म का उत्लघन हो जाने के कारण अङ्गदेश में भयकर अनादृष्टि हुई जिससे समस्त प्राणी भयभीत हो गये । दुखी होकर इन्होंने ब्राह्मणों के परामर्शानुसार प्रायश्चित्तस्वरूप अपनी पुत्री शान्ता का विवाह विभाण्डक मुनि के पुत्र, ऋष्यशृङ्ग, से कर दिया ।” (१. ९, ८-१७) । “इनके मन्त्रियों ने इन्हें ऋष्यशृङ्ग को वेश्याओं द्वारा अङ्गदेश में बुला लाने का परामर्श दिया (१ १० २-५) । इनकी आज्ञा से वेश्यायें ऋष्यशृङ्ग को अङ्गदेश में ले आईं (१ १०, ६-२८) । “ऋष्यशृङ्ग के आते ही सहसा वर्षा होने लगी जिसमें प्रसन्न होकर इन्होंने अत्यन्त विनय के साथ उनकी आगवानी की और पृथिवी पर मस्तक टेक कर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । कपटपूर्वक अङ्गदेश में ऋष्यशृङ्ग को उनके लाये जाने का समाचार बताते हुये अन्त पुर में ले जाकर इन्होंने अपनी पुत्री शान्ता का विधिपूर्वक ऋष्यशृङ्ग के साथ विवाह कर दिया (१ १०, ३०-३३) । “ऋष्यशृङ्ग को आमन्त्रित करने के लिये अङ्गदेश में जाकर दशरथ ने इनसे ऋष्यशृङ्ग को अयोध्या जाने की अनुमति देने का निवेदन किया जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया (१ ११, १५-२३) ।

रोमश, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने धाग लगा दी (५ ५४, १२) ।

१ रोहिणी, चन्द्रमा की प्रिय पत्नी का नाम है । यह राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के प्रस लिये जाने पर अकेली और अमहाय हो जाती है (२ ११४, ३) । सम्पूर्ण मन्त्रियों में श्रेष्ठ तथा स्वर्ग की देवी, यह पति-नेषा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त्त के लिये भी चन्द्रमा से विलग नहीं होती (२ ११८, ११) ।

२ रोहिणी, सुरभि की पुत्री का नाम है जिसने गार्गी को जन्म दिया (१ १४, २७-२८) ।

रोहित, गन्धर्वों के एक वर्ग का नाम है जो ऋषभ पर्वत पर निवास करते थे (४. ४१, ४२) ।

ल

लक्ष्मण, श्रीराम के छोटे भ्राता का नाम है जो श्रीराम के साथ वन गये (१. १, २५ ३०) । इनके द्वारा शूर्पणखा के कुरूप किये जाने तथा कबन्ध के साथ इनकी भेंट होने का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१. ३, १९. २१) । श्रीराम ने इनसे लव कुश के मुल से रामायण महाकाव्य सुनने के लिये कहा (१. ४, ३१) । ये आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुये (१. १८, १३-१४) । ये बाल्यावस्था से ही श्रीराम के प्रति अत्यन्त अनुराग रखते थे और श्रीराम को भी इनके बिना निद्रा नहीं आती थी (१. १८, २९-३२) । ये वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह बलकृत हो, हाथों की अँगुलियों में गोह के चमड़े के बने हुये दस्ताने पहन कर घनुष ग्रहण करने हुये तथा कटि प्रदेश में खड्ग धारण करके अद्भुत कान्ति से उद्भासित हो श्रीराम सहित महर्षि विश्वामित्र के साथ गये (१. २२, ६-९) । सरयू गंगा सगम के समीप पुण्य आश्रम-निवासी मुनियों ने इनका आतिथ्य-सत्कार किया (१. २३, १९) । इन्होंने श्रीराम और विश्वामित्र के साथ गंगा पार होते समय जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि का श्रवण किया (१. २४, १-५) । श्रीराम ने इनसे ताटका को स्वयं ही पराजित करने के लिये कहा (१. २६, ९-१२) । ताटका ने धूल उड़ाकर राम सहित इनको दो घड़ी तक मोह में डाल दिया (१. २६, १५) । सुमित्राकुमार लक्ष्मण ने ताटका की नाक और कान काट लिये परन्तु इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली वह यक्षिणी इनको मोह में डालती हुई अदृश्य होकर पत्थरों की वर्षा करने लगी (१. २६, १८-१९) । इन्होंने विश्वामित्र के साथ मिट्टाश्रम में प्रवेश किया (१. २९, २५) । इन्होंने विश्वामित्र से यज्ञ में राक्षसों के आश्रमण का समय पूछा (१. ३०, १-२) । श्रीराम ने इससे सावधानीपूर्वक विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिये कहा (१. ३०, ७) । श्रीराम ने इनको बताते हुये मारीच, रक्तमोक्षी राक्षसों, तथा सुवाहु आदि यज्ञ में विघ्न डालनेवाले राक्षसों का वध कर दिया (१. ३०, १९-२२) । इन्होंने विश्वामित्र की यज्ञरक्षा करके यज्ञशाला में ही रात्रि व्यतीत की (१. ३१, १) । इन्होंने राम और विश्वामित्र के साथ मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में सध्या के समय शोणभद्र के तट पर विश्राम किया (१. ३१, २-२२) । इन्होंने श्रीराम के माथ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक अहत्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया (१. ४९, १८) । बसिष्ठ ने इनके लिये ऊमिता वा वरण किया (१. ७०, ४५) । जनक ने

ऊर्मिला को इनके लिये समाहित करने की प्रतिज्ञा की तथा विवाह के तीन दिन पूर्व मघा नक्षत्र में इनके अभ्युदय के लिये गो, भूमि, तिल, और सुवर्ण आदि का दान करने का दशरथ को परामर्श दिया (१ ७१, २१-२४) । जनक ने इनको भार्या के रूप में ऊर्मिला समाहित कर दी (१. ७३, २८) । ये अपने देवोपम पिता, दशरथ, की सेवा में लगे रहते थे (१. ७७, २१) । श्रीराम इनके ज्येष्ठ भ्राता थे (२ २, १३) । श्रीराम इनके साथ सप्रामभूमि से बिना विजय प्राप्त किये नहीं लौटते थे (२ २, ३८) । ये श्रीराम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उनकी सेवा में उपस्थित हुये (२ ४, ३१-३२) । श्रीराम ने इनको अपनी अन्तरात्मा बताते हुये इनको सुख समृद्धि के लिये ही राज्य की अभिलाषा का कारण बताया (२ ४, ४२-४५) । 'लक्ष्मणो हि महाबाहू राम सर्वात्मना गत । शत्रुघ्नश्चापि भरत काकुत्स्थ लक्ष्मणो यथा ॥', (२ ८, ६) । 'लक्ष्मणो हि यथा राम तथाय भरत गत', (२ ८, २९) । 'गोप्ता हि राम सौमित्रिलक्ष्मण चापि राघव । अश्विनोरिव सौभान्न तयोर्लोकेषु विश्रुतम् ॥ तस्मान्न लक्ष्मणे राम पाप किञ्चित्करिष्यसि ।', (२ ८, ३१-३२) । 'मया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह', (२ १२, १०७) । अपने भवन से बाहर निकलने पर श्रीराम ने इन्हें द्वार पर हाथ जोड़े हुये स्थित देखा (२. १६, २६) । श्रीराम के ये लघुभ्राता भी हाथ में विचित्र चक्कर लिये रथ पर आरूढ़ होकर पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम की रक्षा करने लगे (२ १६, ३२) । श्रीराम के वनवास से कुपित होकर सुमित्रा के आनन्द को बढाने वाले लक्ष्मण दोनों नेत्रों में आँसू भर कर चुपचाप श्रीराम के पीछे-पीछे चले गये (२. १९, ३०-३९) । श्रीराम इनके साथ माता के अन्त-पुर में गये (२ २०, ८) । 'उवाच पुरुषव्याघ्रमुपशृण्वति लक्ष्मणे', (२ २०, ३५) । इन्होंने रोप प्रगट करते हुये श्रीराम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिये प्रेरित किया परन्तु श्रीराम ने पिता की आज्ञा के फालन को ही धर्म बताकर कौसल्या और इन्हें समझाया (२ २१) । इनकी समझाते हुये श्रीराम ने अपने वनवास में दैव को ही कारण बताया और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश दिया (२ २२) । इन्होंने ओजभरी बानें कहते हुये भाग्यवाद वा खण्डन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया तथा श्रीराम के अभिषेक के लिये विरोधियों से युद्ध करने के लिये उद्यत हुये (२ २३) । इन्होंने श्रीराम तथा सीता का चरण पकड़ कर अपने को भी वन ले चलने का आग्रह किया (२ ३१, २-९) । श्रीराम ने इन्हें समझाते हुये पहले तो मना किया परन्तु बाद में आज्ञा प्रदान कर दी (२ ३१, १०-१७ २८) । श्रीराम ने इन्हें मुहूर्तों से आज्ञा लेने तथा दिव्य

आयुध आदि लेकर तैयार होने का आदेश देते हुये ब्राह्मणों को वनवास देने का विचार व्यक्त किया (२ ३१, २९-३७) । श्रीराम ने इनसे ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, भेवकों आदि को बुलवाकर वन का वितरण कराया (२ ३२, १२-४५) । वन जाने के लिये उद्यत हो श्रीराम और सीता के साथ ये भी पिता का दर्शन करने के लिये गये (२. ३३. १-२) । दु लीं नगरवासियों के मुख से तरह-तरह की बातें सुनते हुये ये पिता के दर्शन के लिये कैंकेयी के महल में गये (२ ३३, ३-३१) । श्रीराम को देखकर जब शोक विह्वल दशरथ मूर्च्छित हो गये तब ये शीघ्रतापूर्वक उनके समीप आ पहुँचे (२ ३४, १७-१८) । ये भी श्रीराम और सीता के साथ शोक विह्वल होकर रोने लगे (२. ३४, २०) । इन्होंने हाथ जोड़कर दीनभाव से दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा की (२ ४०, १) । इन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया (२ ४०, ३) । राम ने तमसातट पर पहुँचने के पश्चात् अयोध्यावासियों के लिये इनसे चिन्ता प्रगट की (२ ४६, १-१०) । इनसे परामर्श करके श्रीराम ने तमसातट पर पुरवासियों की सीता छोड़कर वन्य प्रदेश में चले जाने का निश्चय किया (२ ४६, १९-२४) । सञ्चोपासना के पश्चात् श्रीराम ने भोजन के नाम पर इनके द्वारा लाये हुये जल मात्र को ही ग्रहण किया (२ ५०, ४८) । ये भी मुमन्त्र और गुह के साथ बातचीत करते हुये सारी रात जागते रहे (२ ५०, ५०) । इन्होंने गुह के समक्ष श्रीराम के वनवास तथा उससे सम्बद्ध परिस्थितियों की चर्चा करते हुये विलाप किया (२ ५१) । श्रीराम ने वना पार करने के पश्चात् इन्हें सीता की रक्षा के लिये तत्पर होने का आदेश दिया (२ ३२, ९४-९८) । "श्रीराम ने कैंकेयी से कौसल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर इनको अयोध्या लौटाने का प्रयत्न किया परन्तु इन्होंने राम के बिना अपना जीवन असम्भव बताते हुये लौटना अस्वीकार कर दिया जिस पर श्रीराम ने इन्हें वनवास की अनुमति दी (२ ५३) ।" ये श्रीराम और सीता के साथ वना और यमुना के संगम पर स्थित भरद्वाज आश्रम में पहुँचे जहाँ मुनि ने इन लोगों का उत्कार किया (२ ५४) । श्रीराम ने इन्हें सीता को उनकी इच्छानुसार फल-मूल आदि लाकर देने के लिये कहा (२ ५५, २७-३०) । विप्रकुट पहुँचकर श्रीराम को आज्ञा से इन्होंने पणमाला का निर्माण किया (२ ५६, १८-२१) । भरत ने वसिष्ठ के पुत्रों से इनका कुशल समाचार पूछा (२ ७०, १८) । कैंकेयी ने भरत को बताया कि दशरथ ने राम और सीता सहित इनके वनवास से दुःखित होकर प्राणत्याग कर दिया (२ ७२, ३६ ३८ ४० ४२ ५०) । भरत ने कैंकेयी से कहा कि वह लक्ष्मण के बिना राज्य की रक्षा करने

मे असमय है (२ ७३, १४) । 'विवासन च सीमित्रे सीतायाश्च यथाभवत्', (२ ७५, ३) । निषादराज गुह ने भरत से इनके सद्भाव और विलाप का वर्णन किया (२ ८६, ८७, १८-२४) । 'घन्य खलु महाभागो लक्ष्मण शुभलक्षण । भ्रातर विपमे काले यो राममनुवर्तते ॥', (२ ८८, २०) । भरत ने भरद्वाज मुनि को इनका परिचय दिया (२ ९२, २३) । 'लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मा शोक प्रघृष्यति', (२ ९४, १५) । ये सदैव श्रीराम की आज्ञा के अधीन रहते थे (२. ९५, १६) । श्रीराम की आज्ञा से इन्होंने वन जन्तुओं के भागने का कारण जानने के लिए शाल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखा और उनके प्रति अपना रोपपूर्ण उद्धार प्रगट किया (२ ९६) । श्रीराम ने इनके रोप को शान्त करके भरत के सद्भाव का वर्णन किया, तदनन्तर ये लज्जित होकर श्रीराम के पास खड़े हो गये (२ ९७ १-२८) । भरत ने बताया कि जब तक वे श्रीराम और सीता सहित इनको न देख लेंगे तब तक शान्ति प्राप्त नहीं करुंगे (२. ९८, ६) । भरत ने आश्रम पर जाने के लिए इनके द्वारा निमित्त भार्गवोद्यक चिन्हों को वृक्षों में लगा हुआ देखा (२ ९९, ६ १०) । 'निष्क्रान्तमात्रे भवति सहसीने सलक्ष्मणे', (२. १०२, ६) । इन्होंने अपने पिता दशरथ के निघन का समाचार सुना (२ १०३, १५) । श्रीराम ने इन्हें दशरथ को जलदान देने के लिये इक्षुदी का पिसा हुआ फल, चीर तथा उत्तरीय ले आने की आज्ञा दी (२ १०३, २०) । दशरथ की महिषियों ने मन्दाकिनी के तट पर इनके स्नान करने के घाट को देखा (२, १०४, २) । इन्होंने माताओं की वरणवन्दना की (२. १०४, २०-२१) । 'भरत लक्ष्मणाग्रज', (२ १०५, १०) । श्रीराम ने भरत की सीता और इनके साथ शीघ्र ही दण्डकारण्य में प्रविष्ट होने का समाचार सुनाया (२ १०७, १६) । 'सीमित्रिर्मम विदित प्रधानमित्रम्', (२ १०७, १९) । ये श्रीराम और सीता के साथ अग्निमुनि के आश्रम पर आकर संस्कृत हुए (२ ११७, ४ ६) । 'लक्ष्मणश्च महार्थ', (२ ११९, १४) । 'वन सभार्य प्रविवेश राघव सलक्ष्मण सूर्य इवाभ्रमण्डलम्', (२ ११९, २१) । तानसो ने श्रीराम आदि के साथ इन्हें मञ्जूलमय आशीर्वाद प्रदान किये (३ १, १२) । वन के मध्य में विराध ने इन पर आक्रमण किया (३. २, १ ८-२६) । इन्होंने विराध पर प्रहार किया जिससे विराध इन्हें श्रीराम के सहित कंधे पर रखकर दूसरे वन में चला गया (३ ३, १५-२६) । विराध का वध करने में इन्होंने भी श्रीराम की सहायता की (३ ४) । ये भी श्रीराम के साथ धारमङ्गल के आश्रम पर गये (३, ५) । ये श्रीराम के साथ मुनीक्षण के आश्रम पर गये (३ ७-८) । श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर पहुँच कर इन्हें महर्षि को अपने आगमन की

सूचना देने के लिये भेजा (३ ११, १५) । इन्होंने महर्षि अगस्त्य के शिष्यों के द्वारा राम आदि के आगमन का समाचार महर्षि के पास भेजा (३ १२, १-४) । इन्होंने अगस्त्य के शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्रीराम और सीता का वर्णन कराया (३ १२, १४) । श्रीराम ने इन्हें बताया कि तेज के आधिपत्य से ही उन्होंने जान लिया कि अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं (३ १२, २२-२३) । अगस्त्य ने कहा कि वे इनसे अत्यन्त सन्तुष्ट हैं (३ १३, १) । श्रीराम ने इन्हें पञ्चवटी में एक सुन्दर पर्णशाला का निर्माण करने के लिये कहा और इनके द्वारा पर्णशाला का निर्माण हो जाने पर इनके महिन श्रीराम और सीता उसमें निवास करने लगे (३ १५) । इन्होंने हेमन्त ऋतु का वर्णन करते हुये भरत की प्रशंसा की (३ १६, १-३६) । श्रीराम ने सीता और इनके साथ गोदावरी के जल में स्नान किया (३ १६, ४३) । "राम ने शूर्पणखा को इनके पास भेजा परन्तु इन्होंने पुनः राम के पास ही छोटा दिया । तदनन्तर श्रीराम के आदेश पर इन्होंने शूर्पणखा की नाक और कान काट लिया (३ १८) ।" सूर की राक्षसी-सेना के आगमन पर श्रीराम ने इन्हें सीता को साथ लेकर पर्वत की गुफा में चले जाने के लिए कहा जिसका इन्होंने पालन किया (३ २४, १-१५) । सूर आदि राक्षसों का वध हो जाने पर वे सीता को लेकर राम के पास आ गये (३ ३०, ३७-४१) । शूर्पणखा ने इनके पराश्रम का वर्णन किया (३ ३४, १२-१३) । रावण ने राम को आश्रम से दूर हटा ले जाने और इनका नाम लेकर पुकारने का मारीच की परामर्श दिया (३ ४०, २०-२१) । कपटमृग को देखकर इनके मन में सन्देह हुआ (३ ४३, ५-८) । श्रीराम ने कपटमृग को पकड़ने के सीता के आग्रह को सुनकर उसे पकड़ने का निश्चय व्यक्त करते हुये इनसे सीता की रक्षा करने के लिये कहा (३ ४३, २२-५१) । श्रीराम ने जब मारीच पर बाण से प्रहार किया और उसने इनका नाम लेकर पुकारा तो श्रीराम चिन्तित होकर शीघ्रता-पूर्वक पञ्चवटी की ओर चले (३ ४४, १७-२६) । वन में मारीच के स्वर को अपने पति का स्वर जानकर सीता ने इन्हें राम की सहायता करने के लिए प्रेरित किया जिसे पहले तो इन्होंने बस्वीकार किया परन्तु सीता का अत्यन्त आशेषगुक्त वचन सुनकर वे राम के पास चल दिये (३ ४५) । मारीच का वध करने के पश्चात् आश्रम की ओर लौटने समय जब श्रीराम ने इन्हें देखा तो सीता को अकेले छोड़कर चले जाने के इनके वार्य को अनुचित बताते हुये सीता की सुरक्षा पर आशका प्रगट की (३ ५७, १५-२३) । सीता की सुरक्षा पर आशका प्रगट करते हुये श्रीराम इनके साथ आश्रम पर आये और वहाँ सीता को न देखकर इनकी भर्त्सना करते हुये

विपाद में डूब गये (३ ५८-५९) । इन्होंने भी श्रीराम के साथ सीता की खोज की और उनके न मिलने से व्यथित हुये श्रीराम को अनेक प्रकार से सान्त्वना दी (३, ६१) । सीता-वियोग में विलाप करते हुये श्रीराम को इन्होंने समझाने का प्रयास किया (३ ६३, १८-२०) । श्रीराम के आदेश पर ये गोदावरी नदी के तट पर सीता की खोज के लिये गये और वहाँ से लौटकर राम से कहा कि सीता वहाँ भी नहीं है (३ ६४, २-४) । इन्होंने श्रीराम को समझा-बुझाकर दान्त किया (३ ६५-६६) । इन्होंने श्रीराम से जनस्थान में सीता को खोजने के लिये कहा (३ ६७, ४-७) । जब अयोध्या ने इनके साथ रमण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उसके नाक, कान, और स्तन काट लिये (३ ६९, १४-१७) । "गहन वन में प्रवेश करने पर इन्होंने श्रीराम से अपशकुनो की चर्चा की । तदनन्तर जब कबन्ध नामक राक्षस ने इन्हें तथा श्रीराम को पकड़ लिया तो इन्होंने उस राक्षस के वध के सम्बन्ध में विचार किया (३ ६९, २०-५१) ।" परस्पर विचार करके श्रीराम और इन्होंने कबन्ध की दोनों भुजायें काट दी जिसके पश्चात् कबन्ध ने इन लोगों का स्वागत किया (३ ७०) । कबन्ध ने बताया कि इन्द्र ने पाप देते हुये उससे कहा था कि जब लक्ष्मण सहित श्रीराम उसकी भुजायें काट देंगे तो उसी समय उसकी मुक्ति होगी (३. ७१, १५) । कबन्ध के दाह संस्कार में इन्होंने श्रीराम की सहायता की (३ ७२, १-२) । ये श्रीराम के साथ वार्तालाप करते हुये पम्पा सरोवर के तट पर गये (३ ७५) । श्रीराम ने इनसे पम्पा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन किया और इन्होंने श्रीराम को सान्त्वना दी. (४ १, १-१२६) । श्रीराम सहित इन्हें देखकर सुग्रीव आदि वानर चिन्तित हो उठे (४ १, १३१-१३२) । सुग्रीव श्रीराम सहित इन्हें देखकर आश्चर्यित हो गये (४ २, १-३) । सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान् इनका भेद लेने के लिये आये (४ २, २८-२९) । "हनुमान् ने श्रीराम सहित इनमें वन में आने का कारण पूछा और इनको अपना तथा सुग्रीव का परिचय दिया । श्रीराम ने हनुमान् के वचनों की प्रशंसा करके इनको अपनी ओर से वार्तालाप करने की आज्ञा दी । तदनन्तर इन्होंने हनुमान् से सुग्रीव के साथ मैत्री करने की इच्छा व्यक्त की (४ ३) ।" "इन्होंने हनुमान् से श्रीराम के वन में आने और सीता के हरे जाने का वृत्तान्त बताया तथा सीता की खोजने में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रकट की । हनुमान् इन्हें आश्वासन देते हुये श्रीराम सहित अपने साथ श्वप्यमूक से आये (४ ४) ।" हनुमान् ने सुग्रीव को श्रीराम के साथ इनके पधारने का समाचार सुनाया (४. ५, २) । श्रीराम ने सुग्रीव द्वारा प्रदत्त सीता के आभूषणों को

पहचानने के लिये इनसे कहा जिस पर इन्होंने श्रीराम से कहा - 'भैया ! मैं इन वाजूवन्दो को तो नहीं जानता और न इन कुण्डलो को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परन्तु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ।' (४ ६, १८-२२) । 'लक्ष्मण-स्वाग्रत', (४ ८, १०) । 'ततो राम स्थित दृष्ट्वा लक्ष्मण च महाबलम्', (४ ८, ११) । 'लक्ष्मणस्वाग्रतो राम तपन्तमिव भास्करम्', (४ ११, ८६) । श्रीराम अपने इन भ्राता के साथ भवङ्गवन में गये जहाँ सुग्रीव वर्तमान थे (४ १२, २४) । इन्होंने श्रीराम की आज्ञा से पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी गजपुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीव के गले में पहना दी (४ १२, ३९-४०) । ये किष्किन्धापुरी के मार्ग में श्रीराम के आगे-आगे सुग्रीव के साथ चल रहे थे (४ १३, ३) । श्रीराम के साथ इन्होंने भी सप्तजन ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया (४ १३, २५-२८) । श्रीराम आदि के साथ वे भी किष्किन्धापुरी आये (४ १३, ३०) । 'इवाकूणा कुले जातो प्रथितो रामलक्ष्मणौ', (४ १५, १७) । मुद्रस्थल में पड़े हुये वालिन् के समीप श्रीराम के साथ वे भी गये (४ १७, १२-१३) । 'सुग्रीवेण च मे सख्य लक्ष्मणेन यया तथा (४ १८, २७) । इनके सहित श्रीराम ने सुग्रीव, अङ्गद, और तारा को सान्त्वना दी (४ २५, १) । इन्होंने वालिन् के दाह-संस्कार की समुचित सामर्थियों को एकत्र करने की सुग्रीव, अङ्गद और तारा को आज्ञा दी (४ २५, १२-२०) । सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात् इन्होंने प्रखवण गिरि पर जाकर श्रीराम के साथ वार्तालाप किया (४ २७) । "श्रीराम ने माल्यवान् पर्वत पर इनसे वर्पाश्रतु का वर्णन करते हुये सीता के वियोग-जनित कष्टों का वर्णन किया । तदनन्तर इन्होंने बताया कि सुग्रीव शीघ्र ही उनका कष्ट दूर कर देंगे (४ २८) ।" पर्वतों के शिखरों से फल लाने के पश्चात् लौट कर इन्होंने सीता के लिये वियोग करते हुये श्रीराम को समझाया (४ ३०, १४-२०) । श्रीराम ने शरदश्रतु का इनसे विस्तार के साथ वर्णन किया और तदनन्तर इन्हें सुग्रीव की समझाने के लिये उनके पास भेजा (४ ३०, २२-८५) । "इन्होंने सुग्रीव के प्रति रोष प्रकट किया जिसे श्रीराम ने दान्त किया । तदनन्तर इन्होंने किष्किन्धा के द्वार पर जाकर अङ्गद को सुग्रीव के पास भेजा । यानत्र इन्हे देखकर भयभीत हो उठे और प्लक्ष तथा प्रभाव ने सुग्रीव को इनके भागमन की सूचना देते हुये इनके चरणों में प्रणाम करके इनका रोष दान्त करने की प्रार्थना की (४ ३१) ।" इनके कुपित होने के समाचार से सुग्रीव अत्यन्त चिन्तित हुये और हनुमान् ने सुग्रीव को समझाते हुये इनसे मिलने का परामर्श दिया (४ ३२) । इन्होंने किष्किन्धापुरी की

शोभा देखते हुये सुग्रीव के भवन में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक अपने धनुष पर टकार दी जिससे भयभीत होकर सुग्रीव ने तारा को इन्हे शांत करने के लिये भेजा और तारा इन्हें समझा-बुझाकर अन्त पुर में ले गई (४ ३३) । "इहे अपने अन्त-पुर में प्रविष्ट देखकर सुग्रीव की समस्त इन्द्रियाँ व्यथित हो उठी और वे इनके समक्ष उपस्थित हुये । तदनन्तर इन्होंने सुग्रीव को अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी इत्यादि कहते हुये फटकारा (४ ३४) । तारा ने इहे युक्तियुक्त वचनों द्वारा शान्त किया (४ ३५) । तारा के वचन को सुनकर ये शान्त हुये (४ ३६, १-२) । जब सुग्रीव ने अपनी लघुता और श्रीराम की महत्ता बताते हुये इनसे क्षमा माँगी तब इन्होंने सुग्रीव की प्रशंसा करते हुये उन्हें अपने साथ चलने के लिये कहा (४ ३६, १२-२०) । इन्होंने सुग्रीव को श्रीराम के पास चलने के लिये कहा (४ ३८, ३) । 'नाहमस्मि-प्रभु कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मण', (४ ४०, १३) । 'अब्रवीद्रामसान्निध्ये लक्ष्मणस्य च धीमत', (४ ४०, १६) । 'लक्ष्मणस्य च नाराचा बहव सन्ति तद्विधा । वज्राक्षनिममस्पर्शा गिरीणामपि दारका ॥', (४ ५४, १५) । 'हा राम लक्ष्मणस्येव हाज्योष्येति च मैथिली, (५ १३, १४) । 'नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय', (५ १३, ५९) । 'इषवो निपनिष्यन्ति रामलक्ष्मण-लक्षिणा', (५ २१, २५) । 'राम सलक्ष्मण', (५ २६, २५) । 'लक्ष्मणेन', (५ २७, १७ २०) । हनुमान् ने अशोकवाटिका में सीता को बताया कि लक्ष्मण ने भी उनका कुशल समाचार पूछा है (५ ३४, ३५) । सीता ने हनुमान् से श्रीराम और इनके बिल्लो का वर्णन करने के लिये कहा (५ ३५, ४) । विशोक कुश वीदेहि राषव सटलक्ष्मणम्', (५ ३७, ४०) । हनुमान् के पूछने पर सीता ने इनके प्रति शुभकामना प्रगट करते हुये अपनी ओर से इनका कुशल-समाचार पूछने का हनुमान् को आदेश दिया (५ ३८, ६१) । राम-लक्ष्मणौ, (५ ३९, ४२) । 'राम च लक्ष्मण चैव', (५ ६२, ३८, ६४, १) । 'रुरोद सहलक्ष्मण', (५ ६६, १) । 'लक्ष्मण च धनुष्मन्तम्', (५ ६८, २५) । 'लक्ष्मणस्य महाबल', (६ १, ११) । 'अङ्गदेनेव सवालु लक्ष्मणश्चान्तकोपम', (६ ४, २०) । ६ ४, २४ ३२ । 'तमङ्गदगतो राम लक्ष्मण शुभया गिरा', (६ ४, ४४) । 'सलक्ष्मण', (६ ४, ९८ १०६, ८, १० ११ २४) । 'लक्ष्मणस्याप्रतो राम सरत्थमिदमब्रवीत्', (६ १७ १८) । 'लक्ष्मण पुण्यलक्षणम्', (६ १८, ७) । 'राम सलक्ष्मण', (६ १९, ३२) । श्रीराम ने लक्ष्मण पर आज्ञापण करन के पूर्व इनमें उत्पाठ सूचक लक्षणों का वर्णन किया (६ २३, १-१४) । श्रीराम ने इनस लक्ष्मण की शोभा का वर्णन किया (६ २४, ८-१३) । 'सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन महीवसा', (६ ३७, ३५) ।

श्रीराम ने इनसे लङ्का के चारों द्वारों पर बानर सैनिकों की नियुक्ति तथा विभिन्न प्रकार के अपसनुओं आदि के सम्बन्ध में परामर्श किया (६ ४१, १०-२३) । 'लक्ष्मणानुचरो वीर', (६ ४१ ३४) । 'गम च लक्ष्मण चैव', (६ ४४, ३८) । 'भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ', (६ ४४, ३९) । इन्द्रजित् के साथ युद्ध करते हुये श्रीराम सहित ये भी बचेत हो गये जिससे बानरों ने शोक किया (६ ४५-४६, १-७) । श्रीराम और इनके शरीर के सभी अङ्गों को बाणों से व्याप्त देखकर सुग्रीव के मन में भय उत्पन्न हो गया (६ ४६, ३०) । जब राम सहित ये मूर्च्छित पड़े थे तो गभी बानर प्रमुख इन लोगों की रक्षा करने लगे (६ ४७, १-३) । 'तत सोवा ददशोभो क्षपानी शरतल्पगो । लक्ष्मण चैव राम च विसर्जो सरपीडितौ ॥', (६ ४७, १८) । 'भर्तारमनव-हाङ्गी लक्ष्मण चाक्षितेक्षणा । प्रेक्ष पातुषु चेषुनो हरोद जवकात्मजा ॥', (६ ४७, २२) । नागपाश में आवद्ध होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्च्छा से जागकर श्रीराम ने इनकी शक्ति, पराक्रम, भ्रातृनिष्ठा तथा अग्न्य गुणों का उल्लेख करते हुये इनके लिये विलाप किया (६ ४९, १-३०) । गहड़ ने श्रीराम और इन्हे नागपाश से मुक्त कर दिया (६ ५०, ३९) । 'लक्ष्मणोऽथ हनुमाश्च रामश्चापि सुविस्मिता', (६ ५९, ८१) । "नल को बाह्य करने के पश्चात् रावण ने इनके साथ युद्ध किया । तदनन्तर रावण ने ब्रह्मज्ञी की वी हुई शक्ति से इनके बक्षस्थल पर प्रहार किया जिसमें ये मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े । उस समय रावण ने इन्हें अपनी दोनों भुजाओं से उठाने का प्रयास किया परन्तु सफल नहीं हो सका (६ ५९, ९२-११३) । "हनुमान् इहो दोनो हायो से उठाकर श्रीराम के निकट लाये और उस समय युद्ध में पराजित हुये इन्हे छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के पास लौट आई (६ ५९, ११९-१२१) । भगवान् विष्णु के अचिन्तनीय अक्षरूप से अपना चिन्तन करके ये स्वस्थ हो गये (६ ५९, १२२) । 'हरिसंन्य सुलक्ष्मणम्', (६ ६०, ८०) । 'रामलक्ष्मणयोश्चापि स्वय पात्यानि योगिताम्' (६ ६०, ८१) । "जब कुम्भकर्ण पुनः युद्ध करने के लिये उपस्थित हुआ तो इन्होंने उसके साथ युद्ध किया । उस समय कुम्भकर्ण ने इनको बालक बहते हुये इनका तिरस्कार किया जिसका इन्होंने कठोर शब्दों में उत्तर दिया । परन्तु कुम्भकर्ण इन्हें लौंकर श्रीराम की ओर अप्रसर हुआ (६ ६७ १०२-११७) ।" जब श्रीराम कुम्भकर्ण से युद्ध कर रहे थे तो इन्होंने कुम्भकर्ण के वध के सम्बन्ध में श्रीराम को अपने विचार बताये (६ ६७, १२८-१३२) । जब श्रीराम ने कुम्भकर्ण पर आक्रमण किया तो ये भी श्रीराम के पीछे-पीछे चल रहे थे (६ ६७, १३७) । "जब आतिकाय बानरों का भीरण सहार

करता हुआ श्रीराम के निकट आकर अहंकारोक्तियाँ करने लगा तब क्रुद्ध होकर इन्होंने उसके साथ कटोर घबड़ो का आदान-प्रदान करते हुये भीषण युद्ध आरम्भ किया । अन्त में इन्होंने ब्रह्मास्त्र द्वारा अतिकाय का वध कर दिया । इस प्रकार अतिकाय का वध हो जाने पर समस्त वानर इनकी प्रशंसा करने लगे (६ ७१, ४६-१११) । इन्द्रजित् के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से श्रीराम और वानरों सहित ये भी मूर्च्छित हो गये (६ ७३) । हनुमान् हिमालय से दिव्य ओषधियों का पर्वत लाये और उन ओषधियों की गंध से ये पुन स्वस्थ हो गये (६ ७४, ६९-७०) । इन्द्रजित् से घोर युद्ध करते हुये उसके वध के सम्बन्ध में श्रीराम ने इनसे परामर्श किया (६ ८०, ३७-४२) । 'भ्रातरी रामलक्ष्मणौ', (६ ८१, ४) । जब मायामयी सीता के वध का समाचार सुनकर श्रीराम शोक से मूर्च्छित हो गये तो ये उन्हें सान्त्वना देते हुये स्वयं पुरुषार्थ के लिये उद्यत हुये (६ ८३, १३-४४) । 'लक्ष्मणे भ्रातृवत्सले', (६ ८४, १) । विभीषण ने श्रीराम को लक्ष्मण की गोद में लोटे हुये देखा । उस समय उन्होंने रावण की माया का रहस्य बताते हुये सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाया और श्रीराम से निवेदन किया कि वे मेघनाद का वध करने के लिये लक्ष्मण को निकुम्भिला के मन्दिर में भेजें (६ ८४) । विभीषण के अनुरोध पर श्रीराम ने इन्हें इन्द्रजित् के वध के लिये जाने की आज्ञा दी और ये सेना सहित निकुम्भिला मन्दिर के पास पहुँचे (६ ८५) । विभीषण ने इन्हें मेघनाद पर बाण प्रहार करने के लिये कहा (६ ८६, १-६) । जब मेघनाद धनुष उठाकर हनुमान् का वध करने के लिये उद्यत हुआ तब विभीषण के संकेत पर इन्होंने मेघनाद को देखा (६ ८६, ३२-३५) । 'लक्ष्मणाय', (६ ८७, २-३) । विभीषण ने इन्हें निकुम्भिला की वस्तुयें दिखाते हुये इनसे मेघनाद का वध करने के लिये कहा (६ ८७, ४-६) । मेघनाद को देखकर ये धनुष की टकार करते हुये युद्ध के लिये सन्नद्ध हो गये और उसे ललकारा (६ ८७, ७-९) । इन्होंने इन्द्रजित् के साथ परस्पर रोषपूर्ण वचनों का आदान-प्रदान करते हुये घोर युद्ध किया (६ ८८) । विभीषण ने कहा कि लक्ष्मण ही मेघनाद का विनाश करेंगे (६ ८९, १८) । मेघनाद ने इनके साथ घोर युद्ध किया जिसमें इन्होंने उसके सारथि और रथ आदि का विनाश कर दिया (६, ८९, २५-५३) । इन्द्रजित् के साथ भयकर युद्ध करते हुये इन्होंने उसका वध कर दिया (६ ९०) । "विभीषण के साथ आकर इन्होंने श्रीराम की इन्द्रजित् के वध का समाचार सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर श्रीराम ने हृदय से लगाने हुये इनकी प्रशंसा की । तदनन्तर मुषेण ने इनकी विचरिता करके इन्हें स्वस्थ किया (६ ९१) ।" ये रावण के साथ स्वयं ही

युद्ध करना चाहते थे अतः उस पर बाण प्रहार करने लगे, परन्तु रावण ने इनके बाणों को काट दिया और इन्हें लौपकर धीराम के समीप पहुँचा (६. ९९, १८-२१) । रावण के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसके धनुष और सारथि को काट दिया (६. १००, १३-२०) । "विभीषण को प्राणसहाय की अवस्था में पडा देख ये स्वयं उनकी रक्षा करते हुये रावण से युद्ध करने लगे परन्तु अन्ततः रावण के शक्ति प्रहार से मूर्च्छित हो गये । उस समय धीराम ने अत्यन्त शोक और क्रोध में भरकर रावण से स्वयं युद्ध करते हुये सुग्रीव आदि को इनकी रक्षा करने का आदेश दिया (६. १००, २४-४६) ।" इन्हें मूर्च्छित देखकर धीराम ने विलाप किया परन्तु अन्ततः हनुमान् की लाई हुयी शोषधियों द्वारा सुपेण ने इन्हें स्वस्थ कर दिया (६. १०१) । रावणवध करने के पश्चात् जब श्रीराम ने मातलि आदि को विदा कर दिया तब इन्होंने श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया (६ ११२, ७) । श्रीराम ने इनसे विभीषण को लङ्का के राज्य पर अभिषिक्त देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की (६ ११२, ८-१०) । इन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ ११२, ११-१७) । 'सलक्ष्मणम्', (६ ११२, २५) । जब श्रीराम द्वारा तिरस्कृत हुई सीता ने अपने लिये पिता तैयार करने की इनकी आज्ञा दी तो इन्होंने श्रीराम की आज्ञा से पिता तैयार की (६ ११६, १७-२१) । महावेव की आज्ञा से इन्होंने भी विमान में उच्चस्थान पर बँडे हुये अपने पिता को प्रणाम किया (६ ११९, ९-१०) । दसरथ ने इन्हें आशीर्वाद दिया (६ ११९, २९) । हनुमान् ने श्रीराम, सीता, और इनसे सम्पन्न समस्त वृत्तान्त भरत को सुनाया (६. १२६) । भरत इनसे भी मिले (६. १२७, ३८) । शत्रुघ्न ने भी इन्हें प्रणाम किया (६ १२७, ४५) । इन्होंने भी स्नान आदि करने के पश्चात् शृङ्गार धारण किया (६ १२८, १४-१६) । श्रीराम ने जब इनसे सुवराजपद ग्रहण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया (६ १२८, ११-१३) । इनको साथ लेकर श्रीराम ने पृथिवी का पालन किया (६ १२८, १६) । 'राघवेण यया माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च ॥ भरतेन च केकेयो जीवन्वास्तथा स्थिय.) । भविष्यन्ति तदानन्वा पुत्रपौत्रसमन्विता ॥', (६ १२८, १०८-१०९) । 'लक्ष्मणेन च धर्मात्मन्प्राणा त्वद्विदितकारिणा,' (७. १, २०) । 'भरतो लक्ष्मणश्चात्र शत्रुघ्नश्च महायथा.', (७. ३७, १७) । 'लक्ष्मणेनानुयात्रेण पृष्टतोऽनुगमिष्यते', (७ ३८, ११) । 'लक्ष्मणेन सहायेन प्रयात केकयेश्वर', (७. ३८, १४) । 'रामस्य बाहुवीर्येण रक्षिता लक्ष्मणस्य च', (७. ३९ ५) । 'भरतो लक्ष्मणश्चैव', (७. ३९, ११) । श्रीराम ने सीता

सम्बन्धी लोकापवाद पर विचार करने के लिये इन्होंने भी बुलाया (७ ४४, २-६) । लोकापवाद की चर्चा करने हुये श्रीराम ने सीता को वन में छोड़ आने के लिए इन्होंने आदेश दिया (७ ४५, ५-२३) । ये वन में छोड़ने के लिए सीता को रथ पर बँठाकर ले गये और गङ्गा तट पर पहुँचे (७ ४६) । इन्होंने सीता को नाव से गङ्गा के उम पार पहुँचाकर अत्यन्त दुःख से उन्हें उनके त्वागे जाने की वान बनाया (७ ४७) । सीता ने श्रीराम के लिये इनके द्वारा सदेश भेजा (७, ४८, १-२१) । तदन्तर सीता को प्रणाम करके ये लौट पडे (७ ४८, २२-२५) । सीता को वन में छोड़कर लौटते समय मुमन्त्र ने इन्हें दुर्वासा द्वारा श्रीराम के भविष्य-कथन आदि के सम्बन्ध में बताया (७ ५०) । दुर्वासा के मुख से मुनी हुई भृगु ऋषि के शाप की कथा कहते हुये भविष्य में होने वाली कुछ बातों को बताने पर मुमन्त्र ने इनके दुःखी हृदय को शान्त किया (७ ५१) । ये अयोध्या के राजभवन में पहुँचकर श्रीराम से मिले और उन्हें सान्त्वना दी (७ ५२) । कार्याधी पुरुषों की उपेक्षा से राजा नृग की मिलनेवाले शाप की कथा सुनाकर श्रीराम ने इन्हें कार्याधी पुरुषों की देखभाल का आदेश दिया (७ ५३) । इन्होंने श्रीराम से राजा नृग की कथा विस्तार से बताने का अनुरोध किया (७, ५४, १-४) । “श्रीराम ने निमि और वसिष्ठ के एक दूसरे के शाप से देहत्याग की कथा का इनसे वर्णन किया । इन्होंने श्रीराम से पूछा कि विदेह होने पर वसिष्ठ आदि ने किम प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया (७ ५६, १-२; ५७, १-२) ।” इन्होंने श्रीराम से कहा कि निमि ने वसिष्ठ के प्रति उचित व्यवहार नहीं किया (७ ५८, १-३) । श्रीराम ने इन्हे कार्याधीयों को अपने सम्मुख उपस्थित करने का आदेश दिया (७ ५९क, ५) । श्रीराम के आदेश पर इन्होंने बाहर निकलकर एक वृत्त को देखा और उसे भीतर आकर श्रीराम से अपना प्रयोजन कहने का अनुरोध किया, परन्तु श्रीराम की आज्ञा के बिना जब वृत्त ने राजभवन में प्रवेश करना अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने श्रीराम की अनुमति ली (७ ५९क, १४-२८) । इन्होंने वृत्त को श्रीराम के पास पहुँचाया (७ ५९ख, १) । नारद का वचन सुनकर श्रीराम ने इनको राज द्वार पर विलाप कर रहे ब्राह्मण को सान्त्वना देने का आदेश दिया (७ ७५, १-५) । श्रीराम ने इनसे और भरत से राजसूययज्ञ करने के विषय पर वार्तालाप किया (७ ८२, १-८) । इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव करते हुये श्रीराम को इन्द्र और वृत्रामुर की कथा सुनाया (७ ८४-८६) । श्रीराम ने इन्हें राजा इल की कथा सुनाया (७ ८७-९०) । श्रीराम ने इनसे अश्वमेध करने का अपना निश्चय व्यक्त किया और उसे सुनकर इन्होंने वसिष्ठादि सभी ऋषियों को बुलाकर

श्रीराम से मिलाया (७. ९१, १-४) । ब्राह्मणों की स्वीकृति मिल जाने पर श्रीराम ने इन्हें अश्वमेध यज्ञ सम्बन्धी आवश्यक तैयारी करने का आदेश दिया (७. ९१, १-२५) । ऋत्विजों सहित लक्ष्मण को यज्ञाश्व की रक्षा के लिये नियुक्त करके श्रीराम सेना सहित नैमिषारण्य गये (७. ९२, २) । 'एवं सुविहितो यज्ञो ह्यश्वमेधो ह्यवर्तत । लक्ष्मणेनाभिगुप्ता सा हाचर्या प्रवर्तत ॥', (७. ९२, १) । श्रीराम ने इन्हें और भरत को कुमार अङ्गद और चन्द्रकेतु की कारुण्य के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया (७. १०२, २-४) । कुमारों के अभिवेक पर श्रीराम और भरत सहित इन्हें भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई (७. १०२, १०) । 'ये अङ्गद के साथ गये और एक वर्ष तक उसके साथ रहे । जब वह स्वतापूर्वक राज्य सभालने लगा तो ये पुनः अयोध्या लौट आये (७. १०२, १२-१३) ।' 'उमौ सौमित्रिभरती रामपादानुव्रतौ । काल गतमपि स्नेहाद्य जज्ञातेऽतिघामिकौ ॥', (७. १०२, १५) । श्रीराम के द्वार पर जब तपस्वी के वेप में काल उपस्थित हुआ तो इन्होंने श्रीराम को उसके आगमन की सूचना दी और तदनन्तर श्रीराम के आदेश पर उसे उनके पास लाये (७. १०३, २-७) । लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त करके श्रीराम ने पाल से वार्तालाप आरम्भ किया (७. १०३, १४-१६) । "जब श्रीराम काल से वार्तालाप कर रहे थे तो महर्षि दुर्वासा ने, श्रीराम से मिलने की इच्छा से वहाँ परापूर्वक करके, इन्हें श्रीराम को अपने आगमन की तत्काल सूचना देने के लिये कहा । दुर्वासा ने यह भी कहा कि सूचना देने में विलम्ब करने पर वे श्रीराम आदि सहित समस्त भ्राताओं और नगर को शाप दे देंगे । उनका वचन सुनकर इन्होंने, यह सोचकर कि 'अकेले मेरी ही मृत्यु हो सबकी नहीं', भीतर जाकर श्रीराम को ऋषि के आगमन की सूचना दी (७. १०५, १-१०) ।" दुर्वासा के चले जाने पर श्रीराम नियम-भङ्ग कर देने के कारण इनकी आसन्न मृत्यु पर चिन्तित हुये (७. १०५, १६-१८) । "श्रीराम को इस प्रकार चिन्तित देखकर इन्होंने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा - 'आप निश्चिन्त होकर मेरा वध कर डालें, क्योंकि प्रतिज्ञा भङ्ग कर देनेवाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं । अतः आप मुझे प्राणदण्ड देकर अपने धर्म की वृद्धि करें ।' (७. १०६, १-४) ।" "वसिष्ठ के कहने पर श्रीराम ने इनका त्याग किया । श्रीराम का वचन सुनते ही ये तत्काल वहाँ से सरसूट पर आये और जल से आचमन करके प्राणवायु को रोक लिया । तदनन्तर सगरीर ही ये मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गये । उस समय देवराज इन्द्र इन्हें लेकर स्वर्गलोक चले गये (७. १०६, ८-१७) ।" भगवान् विष्णु के धनुष्यं अग, लक्ष्मण को आया देख सभी देवताओं ने हर्षपूर्वक लक्ष्मण का पूजन किया (७. १०६, १८) ।

लक्ष्मण, प्रजापति कुशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र, का नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम को प्रदान किया (१ २८, ५) ।

१. लक्ष्मण, रावणपालित एक पुरी का नाम है जहाँ पहुँचकर हनुमान् ने अशोकवाटिका में सीता को चिन्तामग्न देखा (१ १, ७३) । हनुमान् ने इसमें आग लगा दी (१ १, ७७) । यहाँ आकर श्रीराम ने रावण का वध कर दिया (१ १, ८१) । तारा ने लक्ष्मण को बताया कि यहाँ सौ सहस्र करोड़, छत्तीस अशुत, छत्तीस सहस्र और छत्तीस सौ राक्षस रहते हैं (४ ३५, १५) । हनुमान् ने सागर-लङ्घन के पश्चात् पर्वत-शिखर पर स्थित हो इसकी शोभा का अवलोकन किया (५ १, २१३-२१४) । 'यह वन-उपवनो से व्याप्त, सुन्दर फल-पुष्पो के वृक्षों से सुशोभित, सुन्दर सरोवरो से युक्त, और सुरक्षित थी । यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा आकाश में तैरती सी प्रतीत होती थी । इसकी सुदृढ़ रक्षा-व्यवस्था, विशाल अट्टालिकाओ, और सुदृढ़ प्राचीर आदि को देखकर हनुमान् चिन्तित हो विचार करने लगे कि इसमें प्रवेश करना कैसे सम्भव होगा (५ २, १-३०) ।' 'अचिन्त्यामद्भुताकारा दृष्ट्वा लक्ष्मण महाकपिः । असीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः ॥ स पाण्डुराविद्धविमानमालिनी महाहंजाम्बूनदजालतोरणाम् । यशस्विनीं रावणबाहुपालिना क्षपाचरंभीम-वर्लं समावृताम् ॥', -(५ २, ५५-५६) । 'स लम्बशिखरे लम्बे लम्बतोप-दसनिभे । सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान्मास्तात्मज ॥ निशि लक्ष्मणो महासत्त्वो विवश कपिकुञ्जर । रम्यकाननतोयाढया पुरीं रावणपालिताम् ॥', (५ ३, १-२) । "शरत्काल के बादलो की भाँति श्वेत कान्तिवाले सुन्दर भवन इसकी शोभा बढ़ाते थे । यहाँ समुद्र की गर्जना के समय भयकर गम्भीर शब्द होता रहता था । सागर की लहरों को धूँकर बहनेवाली वायु इस नगरी की सेवा करती थी । इस पुरी के सुन्दर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे तथा इसके अन्तर्द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कान्ति में सुशोभित थे । इसकी रक्षा के लिये बड़े-बड़े सर्पों का सचरण होता रहता था जिससे यह नाशों से सुरक्षित होने के कारण सुन्दर भोगवतीपुरी के समान जान पड़ती थी । अमरावतीपुरी के समान यहाँ आवश्यकता के अनुसार विज्रलियो सहित मेघ छाये रहते थे । ग्रहों और नक्षत्रों के सदा विद्युन्-दीपों के प्रकाश से यह पुरी प्रकाशित और प्रचण्ड वायु की ध्वनि से युक्त थी । सुवर्ण के बने हुये विशाल परकोटो से घिरी हुई यह पुरी सुदृढ़ घण्टिकाओं की शनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलङ्कृत थी (५. ३, ३-७) ।" "सुवर्ण के बने हुये द्वारों से इस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी । उन सभी द्वारों पर नीलम के शङ्करे बने हुये थे । वे समस्त द्वार शीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़े गये थे । मणिमयी फर्शें उनकी शोभा बढ़ा

रही थी। उनके दोनों ओर नराये सुवर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चाँदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी भीतरी दीवारें नीलम की बनी हुई थी। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए और धूल से रहित थे। वे समस्त द्वार रमणीय सुभा-भवनो से युक्त और सुन्दर तथा ऊँचाई में आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। वहाँ नीच और मयूरों के बलरव गूँजने रहते थे। उन द्वारों पर राजहम नामक पक्षी भी निवास करते थे। यहाँ भीति-भीति के बाघों और आभूषणों की मधुर-ध्वनि होती रहती थी जिससे यह पुरी सभी ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। कुबेर की अलका के समान शोभा पानेवाली यह नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रविष्टित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी (५ ३, ९-१२)। 'ता समीक्ष्य पुरी लङ्का राक्षसाधिपतेः शुभाम् । अनुत्तमामृद्धिभती चिन्तयामास धीर्यवान् ॥', (५ ३, १३)। रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र-धस्त्र लेकर इसकी रक्षा करते थे, अतः इसे कोई दूमरा बलपूर्वक अधिकार में नहीं कर सकता था (५ ३, १४)। "राक्षसराज रावण की यह नगरी वस्त्राभूषणों से विभूषित सुन्दरी युवती के समान प्रतीत होती थी। रत्नमय परकोठे ही इसके वस्त्र और गोष्ठ (गोसाला) तथा अन्य दूसरे भवन आभूषण थे। परकोठों पर लगे हुए यन्त्रों के जो गृह थे वे ही मानो इस लङ्का रूपी युवती के स्तन थे। यह सब प्रकार की समृद्धियों से भग्नव्र थी (५ ३, १८-१९) 'प्रजग्वाल तदा लङ्का रक्षोगणगृहैः शुभैः ; (५ ४ ६)। 'सरेस्तु सकुला वृत्वा लङ्का परबलार्दनः ; (५ ३९, ३०)। हनुमान् ने इसमें आग लगा दी (५ ५४)। 'लङ्कायाः कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरीः' (५ ५५, ११)। जाम्बवान् के प्रछने पर हनुमान् ने अपनी लङ्कायात्रा का समस्त वृत्तान्त सुनाया (५ ५८, ८-१६६)। हनुमान् ने बानरों को बताया कि वे अकेले ही राक्षसों और रावण सहित इसका विध्वंस करने में समर्थ हैं (५ ५९, ७)। 'मयेव निहतः लङ्का दग्ना भस्मीकृता पुरीः', (५ ५९, १८)। 'लङ्का नाशयितुं शक्ती रथे तिष्ठन्तु बानराः ।' (५ ६०, ५)। 'ता लङ्का तरसा हन्तु रावण च महाबलम्', (५ ६०, ६)। 'यामुसूत्रोर्वलेनेव दग्ना लङ्केति न श्रुतम्', (५ ६०, ७)। 'जित्वा लङ्का सरसौषा हत्वा त रावण रणे', (५ ६०, ११)। 'स्वर्दानकृणो-रसाहो लङ्का भस्मीकरिष्यत' (५ ६७, २७)। "शंखान्तरिकाशाना लङ्कामलयसानुपुं', (५ ६८, २७)। हनुमान् ने इस नगरी के दुर्ग, फाटकों, सेना-विभाग, और सङ्गम आदि का औराध से वर्णन किया (६ ३, १-३२)। 'पत्निवेदयते लङ्का पुरी भीमस्य रक्षसः । क्षिप्रमेवा कथिव्यामि सत्यमेतद्व्रकीभि

ते ॥', (६ ४, २) । 'लङ्काया तु दृत्त कर्म धोरं दृष्ट्वा भयावहम् । राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणैव महात्मना ॥', (६ ६, १) । 'अबद्ध्वा सागरे सेतु धोरेऽस्मिन्वर्षणालय । लङ्का नासादितु शक्या सेन्द्रैरपि सुरामुरैः ॥', (६ १९, ४०) । 'एष वै दानरक्षीषो लङ्का समनिवर्तते', (६ २०, ३) । 'नहीयं हरिभिलङ्का प्राप्नु शक्या कथञ्चन', (६ २०, १३) । 'प्रतस्थे पुरतो रामो लङ्कामभिमुखो विभु' (६ २३, १५) । श्रीराम ने विचित्र ध्वजा पनाकाओ से सुसोभित लकापुरी को देखकर व्यपित विस्र से मीना का चिह्नन करते दृष्टे लक्ष्मण से इस पुरी की शोभा का वर्णन किया (६ २४, ३-१२) । 'इय सा लक्ष्यते लङ्कापुरी रावणनालिता । सासुरोरगगन्धर्वै मर्वैरपि मुहुर्जया ॥' (६ ३७ ४) । विभीषण ने श्रीराम से रावण द्वारा की गई लका की रक्षा-व्यवस्था का वर्णन किया और श्रीराम ने इस नगरी के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिये सेनापतियों की नियुक्ति की (६ ३७, ७-३७) । दानरूपपदियों ने सुबेल-पर्वत के शिखर पर खड़े होकर लका का निरीक्षण किया (६ ३८, १४-१८) । दानरो महिन श्रीराम ने सुबेल-शिखर से लकापुरी का निरीक्षण किया (६ ३९) । 'त्रिकूटशिखरे रम्ये निमिता विश्वकर्मणा ॥ ददसं लङ्का सुगमना रम्यजाननसोभिताम् ॥', (६ ४० २) । 'हवाह रावण मुद्धे सपुत्रवल्पाहनम् । अभिपिच्य च लङ्काया विभीषणमथापि च ॥', (६ ४१, ७) । श्रीराम ने इसके चारों द्वारों पर दानर सैनिकों की नियुक्ति की (६ ४१, २२ २६ ३०-१००) । 'स ददर्शान्ता लङ्का ससैलवनजाननाम्', (६ ४२, ३) । 'लङ्का ददसं' (६ ४२, ६) । 'दृष्ट्वा दाशरयिलङ्का', (६ ४२, ७) । 'लङ्कामारुहहस्तदा', (६ ४२, १३) । 'लङ्कामेवाम्यवर्तन्त', (६ ४२, १४) । 'लङ्कामारुहहस्तदा', (६ ४२, १७) । 'लङ्का तामभिषावन्ति महावारणसन्निभा', (६ ४२, १९) । 'अम्यधावन्त लङ्कायाः प्राकार कामरूपिण' (६ ४२, २१) । 'विमान् पुण्यक तत्तु सतिवर्षं मनोजवम् । दीना त्रिअटया सीता लङ्कामेव प्रवेशिता ॥', (६ ४८, ३६) । 'शरान्नो भग्नमहाकिरीटो विवेश लङ्का लहता स्म राजा', (६ ५९, १४६) । 'पुरी लङ्का', (६ ६०, १) । 'द्वारादाशाय लङ्कायादचर्षाश्वास्याथ सत्रमान्', (६ ६१, ३५) । "सुग्रीव ने कहा कि बुम्भवर्षं तथा पुत्रो की मृत्यु के परवान् रावण अब पुरी की रक्षा नहीं कर सकता अतः दानरो को चाहिये कि वे लका में आग लगा दें । सुग्रीव की इस आज्ञानुसार दानरों ने लका में आग लगा दी । (६ ७५, २-३२) । "आतना राक्षमीना तु लङ्काया र्धं कुले कुले", (६ ९५, १) । 'विभीषणमिम मीम्य लङ्कायामभिषेचय', (६ ११२, ९) । 'लकायां शीम्य पश्येयमभिषिक्त', (६ ११२, १०) । 'लकाया रक्षसां मध्ये राजान रामशास-

नाम्', (६ ११२, १४) । 'दृष्ट्वाभिपिक्त लङ्काया राक्षसेन्द्र विभीषणम्', (६ ११२, १६) । 'इति प्रतिममादिष्टो हनुमान्माघनात्मज । प्रविवेश पुरी लङ्का पूज्य-मानो निशाचरं ॥', (६ ११३, १) । 'प्रविश्य च पुरी लङ्कामनुज्ञाप्य विभीषणम्', (६ ११३, २) । 'राजणमच हत वानुलङ्का चं व वशीकृता', (६ ११३, ११) । 'विभीषणविषेय हि लङ्कैश्वर्यमिदं कृतम्', (६ ११३, १३) । 'लङ्काम्याह तया राजन्कि तदा न विसजिता', (६ ११६, ११) । शौराम ने अयोध्या की यात्रा करते गमम सीता से कहा 'विदेहराजनन्दिनि । कंलास शिखर के समान सुन्दर त्रिकूट पर्वत के विशाल शृङ्ग पर बसी और विश्वकर्मा की बनाई हुई लकापुरी को देखो, कौसी सुन्दर दिखाई देती है', (६ १२३, ३) । 'उदाजयिष्यन्नुद्योग वधे लङ्कावधे मन', (६ १२६, ४९) । विभवा ने अपने पुत्र, कुबेर, से इसकी स्थिति और विशेषताओं का उल्लेख करते हुये इसमें निवास करने की आज्ञा दी (७, ३, २५-३१) । अपने पिता की आज्ञानुसार कुबेर (वंशवध) ने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई इस पुरी में निवास किया (७ ३, ३२ । "विश्वकर्मा ने सुकेश के राक्षस-पुत्रों को इस पुरी की स्थिति आदि का वर्णन करते हुये यहाँ रहने का परामर्श दिया और बताया कि जब व लोग लङ्का के दुर्ग या आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ निवास करेंगे तो उस समय वानुओं के लिये उन पर विजय पाना अत्यन्त कठिन होगा । विश्वकर्मा की बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्रों अनुचरों के साथ इस पुरी में जाकर बस गये (७ ५, २२-२९) ।" 'दृढप्राकारपरिखा हैमैर्गृहशतैर्वृताम् । लङ्कामवाप्य ते हृष्टा श्वसन्राजनीचरा ॥', (७ ५, ३०) । समस्त देशद्रोही राक्षस लङ्का छोड़कर युद्ध के लिये देवलोक की ओर गये (७ ६ ४९) । 'लङ्काविपर्ययं दृष्ट्वा याति लङ्कालयान्वय । नूनानि भयदर्शानि विमनस्कानि सर्वश ॥', (७ ६, ५०) । 'यस्कृते च यय लङ्का त्वस्त्वा याता रसालनाम्', (७ ११, ५) । 'अस्मदीया च लङ्केय नगरी राक्षसोपिता । निवेगिता तव भ्रात्रा घनाध्यक्षेण धीमता ॥', (७ ११, ७) । 'इयं लङ्का पुरी राजनराशाना महात्मनाम्', (७ ११, २४) । 'स तु गत्वा पुरी लङ्का पनदेन मुरक्षिताम्', (७, ११, २६) । 'लङ्का नून्या निशाचरं', (७ ११, ३२) । 'दीयता नगरी लङ्का पूर्वं रजोगोपिता', (७ ११, ३६) । 'नून्या मा नगरी लङ्का', (७ ११, ४८) । 'विवेश नगरी लङ्काम्', (७ ११, ४९) । 'विभीषणस्य धर्मात्मा लङ्काया धर्ममाचरन्', (७, २५, ३५) । 'प्रजापतिं पुरस्सृत्य यमुलङ्का मुराम्स्ता', (७ ३०, १) ।

२ स्तंभा, लका की अधिष्ठात्री देवी का नाम है जो विकट रूप धारण करके हनुमान् के सम्मुख उपस्थित हुई (५, ३, २०-२१) । इसने लका की सुद

रक्षा-व्यवस्था का वर्णन करते हुये हनुमान् से उनका परिचय पूछा (५ ३, २२-२४) । हनुमान् ने क्रुद्ध होकर इसका परिचय पूछा (५ ३, २५-२६) । अपना परिचय देते हुये इसने कहा 'मैं रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करनेवाली उनकी सेविका और इस नगरी की रक्षा करने वाली हूँ । मेरी अवहेलना करके इस नगरी में प्रवेश करना कठिन है । मैं स्वयं ही लका नगरी हूँ, अतः आज मेरे हाथ से तेरा वध होगा ।' (५ ३, २७-३०) । इसके वचन को सुनकर हनुमान् ने विदाल रूप धारण करके इससे कहा कि वे लकापुरी की शोभा देखना चाहते हैं (५ ३, ३१-३४) । इसने हनुमान् को कठोर वाणी में लका देखने का निषेध किया (५ ३, ३५-३६) । "हनुमान् के आप्रह करने पर इसने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा । हनुमान् ने उस समय भीषण सिहनाद करते हुये इस पर मुष्टि प्रहार किया जिससे यह पृथिवी पर गिर पड़ी । इस पर दया करके हनुमान् ने इसका वध नहीं किया (५ ३, ३८-४३) ।" "इसने गद्गद वाणी में हनुमान् से कहा 'मैं स्वयं लकापुरी हूँ और आप ने मुझे परास्त कर दिया । पूर्वकाल में ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था कि जब मैं किसी वानर से परास्त हो जाऊँगा तब मुझे यह समझ लेना होगा कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया । अब सीता के कारण रावण तथा समस्त राक्षसों का विनाश अवश्य होगा । ब्रह्मा के इस शाप के कारण यह पुरी अब नष्ट-प्राय है, अतः अब आप इसमें प्रवेश करके सीता की खोज कीजिये ।' (५ ३, ४४-५२) ।" इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली इस श्रेष्ठ राक्षसी को अपने पराक्रम से परास्त करके हनुमान् लकापुरी के भीतर प्रविष्ट हुये (५ ४, १) ।

लवण, मधु और कुम्भीनसी के पुत्र, एक अमुर का नाम है जो महा-पराक्रमी और भयंकर स्वभाववाला था (७ ६१, १७-१८) । देश छोड़कर जाते समय इसके पिता, मधु, ने इसे एक शूल दिया जो उसने महादेव से प्राप्त किया था (७ ६१, २०) । उम शूल के प्रभाव से यह तीनों लोको और विशेषतः तपस्वी मुनियों को सतप्त करने लगा (७ ६१, २१-२२) । इससे प्रभाव तथा इससे उत्पन्न भय का वर्णन करते हुये ऋषियों ने श्रीराम से इसका वध करने की प्रार्थना की (७ ६१, २३-२५) । श्रीराम ने ऋषियों से इसके अहाश-विहार के सम्बन्ध में पूछा जिसका ऋषियों ने विस्तार से उत्तर दिया (७ ६२, १-५) । श्रीराम ने इसने वध का आश्वासन देने हुये अपने भ्रान्त मरुत तथा दानुष्ण से पूछा कि उनमें से कौन इसका वध करेगा (७ ६२, ६-८) । मरुत ने इसका वध करने की इच्छा प्रकट की (७ ६२, ९,) । दानुष्ण ने इससे वध की प्रबल इच्छा व्यक्त की जिसे सुन कर श्रीराम ने उन्हें

ही इस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान की (७ ६२, १०-१९) । 'महाहृत दुर्वचो घोर हन्तास्मि लवण मूष । तस्यैव मे दुहक्तस्य दुर्गति पुत्रपर्यम ॥, (७ ६३, ५) । शत्रुघ्न वा राज्याभियेक होने ही नमुनातट वासी ऋषियों को इसके वध का विश्रान्त हो गया (७ ६३, १८) । धीराम ने इसके वध के लिये एक अमाष बाण दन हुये शत्रुघ्न को इसके शूल से बचने का उपाय भी बताया (७ ६३, १९-३१) । इसके वध का उपाय बताते हुये श्रीराम ने शत्रुघ्न से कहा कि वे श्रीराम ऋतु क वाद वर्षा ऋतु मे ही इसका वध करे (७ ६४, ९-१२) । शत्रुघ्न न अपनी सेना को भज कर माताश्री आदि से विदा ली और उसके वाद इसके वध के लिये अयोध्या मे प्रस्थित हुये (७ ६४, १३-१८) । शत्रुघ्न के पूठन पर महर्षि चवन ने इनकी तथा इनके शूल की शक्ति का वर्णन करते हुये इसके द्वारा राजा मान्याना के वध का प्रसंग सुनाया (७ ६५) । "प्राय काल के समय आहार के लिये जब यह नगर से बाहर निकला तो अवसर देखकर शत्रुघ्न मधुपुरी के द्वार पर अस्त्र-शस्त्रो से युक्त होकर सन्नद्ध हो गये । मध्याह्न के समय अपने आहार का बोध लिये हुये जब यह लौटा तो शत्रुघ्न को अपने नगर का द्वार रोक कर खड़े देखा । इसने शत्रुघ्न को कठोर शब्दो मे सम्बोधित किया (७ ६८, १-७) ।" शत्रुघ्न ने भी रोपपूर्ण स्वर मे इसे युद्ध के लिये ललकारा (७ ६८, १०-१३) । शत्रुघ्न को रोपपूर्वक सम्बोधित करते हुये पहले तो इसने श्रीराम द्वारा अपने बन्धु-बान्धवो के वध का उल्लेख किया और फिर अपना शूल लाकर युद्ध करने की इच्छा प्रकट की (७ ६८, १४-१७) । शत्रुघ्न ने इने शूल लाने का अवसर नहीं दिया (७ ६८, १८-२०) । बिना शूल के ही शत्रुघ्न के साथ भयकर युद्ध करते हुये इतने एक वृक्ष के प्रहार ने शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया (७ ६९, १-१२) । शत्रुघ्न को भूमि पर गिरा देव इनने उन्हे मृत समया (७ ६९, १४-१५) । 'वधाय लवणस्यातो घोर शत्रुघ्नधारित । तेजसा तस्य सम्मूढा मयै स्म सुर-मन्त्रमा ॥', (७ ६९, २५) । ब्रह्मा ने देवो को आश्वासन करते हुये उन लोको का इसका वध देखने के लिये कहा (७ ६९, २९) । देवगण उस स्थान पर आय जहाँ शत्रुघ्न इससे युद्ध कर रहे थे (७ ६९, ३०) । शत्रुघ्न ने दिव्य बाण का सन्धान करके इसकी ओर दृष्टिपात किया (७ ६९, ३२) । " शत्रुघ्न क आह्वान को सुन कर यह उनके सामने आया और शत्रुघ्न ने इस पर अपना बाण चला दिया । उस बाण के प्रहार से विदीर्ण होकर यह पर्वत के समान सहसा पृथिवी पर गिर पडा । इसका वध होते ही इसका महान शूल महादेव के पास लौट गया (७ ६९, ३३-३८) । इसका वध कर देने पर इन्द्र और अग्नि ने शत्रुघ्न को वर देने की इच्छा प्रकट की (७ ७०, १-२) ।

लोला, मधु नामक असुर के पिता का नाम है (७ ६१, ३) ।

लोहित, लाल रंग के जल से परिपूर्ण एक भयंकर समुद्र का नाम है जिसके तट पर सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये एक लाख वानरो के साथ विनत को भेजा था (४. ४०, ३७) ।

लोहित्य, एक ग्राम का नाम है । वैक्य से लोटते समय भरत इससे भी होते हुये आये थे (५ ७१, १५) ।

व

वज्र, एक समृद्धिशाली देश का नाम है जिस पर दशरथ का अधिपत्य था । दशरथ ने यहाँ उत्पन्न होनेवाली वस्तुयें भी बँकेयी को अर्पित करने के लिये कहा (२ १०, ३९-४०) ।

वज्र, पारियात्र पर्वत के निकट ही समुद्र में स्थित एक पर्वत का नाम है । सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने गुपेण आदि वानरो को इसके क्षेत्र में भेजा (४ ४२, २३) ।

वज्रकाय, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये (५. ६. २२) ।

वज्रज्वाला, विरोचनकुमार बलि की दौहित्री का नाम है जिसका कुम्भ-कर्ण के साथ विवाह हुआ (७ १२, २३) ।

वज्रदंष्ट्र, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये (५. ६. २०, गीता प्रेस संस्करण) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५ ५४, १०) । इसने क्रोध में भग्नकर परिषद् हाथ में लिये हुये रावण को श्रीराम आदि के वध का आश्वासन दिया (६ ८, ९-१८) यह विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर रावण के समीप उपस्थित हुआ (६ ९, ३) । श्रीराम ने इसे आहत कर दिया (६ ४४, २०) । रावण की आज्ञा से विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लेकर यह युद्धभूमि में उपस्थित हुआ (६ ५३, २-७) । इसने वानर सेना का भीषण महार किया (६ ५३, २५) । इसने अङ्गद के साथ घोर युद्ध किया जिसमें अङ्गद ने हमका वध कर दिया (६ ५४) । हमके वध का समाचार सुनकर रावण ने प्रहस्त को युद्ध के लिए भेजा (६ ५५, १) । विभीषण ने इसके वध का उल्लेख किया (६ ८९, ११) । अयोध्या की यात्रा करते समय श्रीराम ने सीता को इसके वध का स्थान दिखाया (६ १२३, ११) ।

वज्रमुष्टि—इसके साथ मैन्द ने द्वन्द्व युद्ध किया (६ ४३, १२) । मैन्द ने हमका वध कर दिया (६ ४३, २९) । यह मान्यवान् का पुत्र था (७ ५, ३६) ।

वज्रहनु, एक राक्षस का नाम है जिन्होंने अकेले ही समस्त शत्रुसेना का वध कर देने का रावण को आश्वासन दिया (६ ८, २१-२४)।

वडवामुख, मर्त्य ओर्ध्व के कोप से जलोद सागर में प्रगट हुये महान् तेज का नाम है। उस समुद्र में जो पराचर प्राणियो सहित जल है वही इस वडवामुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। इसे देखकर इसमें पतन के भय से चीलते विल्लाते हुये समुद्रनिवासी बसमय प्राणियो का आर्तनाद निरन्तर सुनाई देता है (४ ४०, ४६-४७)।

वरुण, दक्षिण की एक नदी का नाम है जिसके क्षत्र में सीता की खोज के लिये सुयीव न हनुमान् आदि प्रमुख वानरो को भजा (४ ४१, ९)।

१. वरुण, प्रजापति वृशाख के पुत्र, एक अश्व, का नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित कर दिया (१ २८, ९)।

२. वरुण ने सुषेण नामक वानर को जन्म दिया (१ १७, १५)। 'उभौ भरतशत्रुघ्नो महेन्द्रवरुणोपमौ', (२ १, ४)। सुमन्त्र ने श्रीराम की स्तुति करते हुये कहा कि वरुण, अग्नि आदि आपको विन्य प्रदान करें (२ १५, २१)। श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कीसल्या ने इनका आवाहन किया (२ २५, १३)। भरद्वाज मुनि ने भरत का आतिथ्य-सत्कार करने के लिये इनका आवाहन किया (२ ९१, १३)। श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १९)। इनका निवास-स्थान अस्ताचल पर स्थित था (४ ४२, ४३)। मन्नाति इनके लोको से परिचित थे (४ ५८, १३)। हनुमान् ने अपनी सफलता के लिये इनकी स्तुति की (५ १३, ६६)। जब श्रीराम ने सीता वा निरस्त्वार किया तो अन्य देवताओ के साथ इन्होंने भी उपस्थित होकर उन्हें समझाया (६ ११७, २)। रावण के भय से मरुत के यज्ञ में इन्होंने हय का ऋष्य चारण किया (७ १८, ५)। इन्होंने हयो को वर दिया (७ १८, २९-३१)। इनके नियाम क्षेत्र में प्रवेश करके रावण ने इनके भवन की देखा (७. २३, २५)। रावण ने इनके सेनापतियो को आहूत करके उनसे इनके पास युद्ध का ससाचार देने के लिये कहा (७ २३, २६-२७)। इनके पुत्रो ने रावण से युद्ध किया किन्तु पराजित हुये (७ २६, २८-४९)। "इनके पुत्रो को पराजित करके रावण ने इनके मन्त्रियो से इनके पास युद्ध करने का समाचार भेजा किन्तु मन्त्रियो ने बनाया कि उस समय ये ब्रह्मलोक में सगीत सुनने के लिये गय हैं। मन्त्रियो की बात सुनकर रावण ने अपने को इत पर विजयी माना (७ २३, ५१-५३)।" एक समय मित्र देवता भी इनके साथ रहते थे (७ ५६, १२)। "उर्वशी नामक अप्सरा को देख कर उसे इन्होंने समागम के लिये आमन्त्रित

क्रिया । उर्वशी ने बताया कि उस समय मित्र देवता ने उसका वरुण किया है । यह सुनकर कामप्रीहित हो इन्होंने कहा कि ये उसके निकट एक कुम्भ में ही अपना वीर्य छोटकर सन्तुष्ट हो जायेंगे । उर्वशी की स्वीकृति मिलने पर अपना वीर्य कुम्भ में छोट दिया (७ ५६, १४-२१) । इनके वीर्य से युक्त उस कुम्भ से दो ब्राह्मण उत्पन्न हुये (७ ५७, ४-६) ।

वरुण-कन्या— उमा नन्दीश्वरश्चापिलुना वरुणकन्यका, (६ ६० ११) ।

घरुष्य, एक ग्राम का नाम है । वैश्य से लौटते समय भरत इसमें होकर आये थे (२ ७१, ११) ।

घरुषी, एक नदी का नाम है जिसे भरत को श्रीराम का संदेश देने के लिये जाते समय हनुमान् ने देखा था (६ १२५, २६) ।

घण्टकार— जब दल को पुरुषत्व प्राप्त कराने के लिये बुध अन्य महर्षियों ने परामर्श कर रहे थे तो ये भी वहाँ उपस्थित हुये (७ ९०, ९) । श्रीराम के महाप्रस्थान के समय ये भी उनके साथ-साथ चले (७ १०९, ८) ।

वसिष्ठ, एक महर्षि का नाम है जिन्होंने दशरथ की सृष्टि के पश्चात् भरत को राज-संचालन के लिये नियुक्त करना चाहा परन्तु भरत ने अस्वीकार कर दिया (१ १, ३३) । ये राजा दशरथ के माननीय ऋत्विज थे (१ ७, ४, ८, ६) । दशरथ सन्तान के लिये अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने के निमित्त इनके समीप गये (१ १३, १-२) । इन्होंने दशरथ का यज्ञ सम्पन्न कराने के लिये आवश्यक आदेश दिये (१ १३, ६) । ब्रह्मचारियों ने इन्हें सुचारु रूप से कार्य सम्पन्न कराने का आश्वासन दिया (१ १३, १७) । इन्होंने राजाओं तथा अन्य अतिथियों को आमन्त्रित करने के लिये सुमन्त्र की आवश्यकता आदेश दिये (१ १३, १८-३०) । इन्होंने यज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण हो जान की दशरथ की सूचना दी जिसके पश्चात् दशरथ ने इनके साथ यज्ञ मण्डप में जाकर यज्ञ की दीक्षा ली (१ १३, ३५-४१) । राजा दशरथ द्वारा प्रदत्त शमस्त दक्षिणा ऋत्विजों के लिये इन्हें शौच दी (१ १४, ५१) । इन्होंने दशरथ पुत्रों का नामकरण तथा अन्य उत्कार सम्पन्न कराये (१ १८, २०-२५) । इन्होंने श्रीराम को विश्वामित्र के माघ भोज देने का परामर्श दिया (१ २१, ५-२१) । दशरथ ने इनके परामर्श को स्वीकार कर लिया (१ २१, २२) । इन्होंने विश्वामित्र का उत्कार करते हुए कामधेनु की अभीष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश दिया (१ ५२) । उत्तम अन्तपान आदि से सेना सहित वृष हुये विश्वामित्र द्वारा कामधेनु माँगने पर इन्होंने उसे देना अस्वीकार कर दिया (१ ५३, ११-२६) । इन्होंने विश्वामित्र द्वारा धनपूर्वक ले जायी जाती हुई अपनी कामधेनु की बिनती

मुनकर उसे शत्रुओं का विनाश करने वाली सेना की सृष्टि करने का आदेश दिया (१, ५४, ९-१६) । शिव के दर के फल्गुवस्वप अस्त्रों से ममूढ़ होकर जब विश्वामित्र ने इनके आश्रम पर जात्रमण किया तब ये समदण्ड के समान भयकर एक दण्ड हाथ में लेकर विश्वामित्र का सामना करने के लिये प्रस्तुत हुये (१ ५५, २५-२८) । इन्होंने विश्वामित्र के समस्त दिव्यास्त्रों का अपने ब्रह्मादण्ड से दामन कर दिया (१ ५६, १३-२१) । इन्होंने विश्वट्कु के लिये यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया (१ ५७, १२) । इनके पुत्रों ने भी विश्वट्कु का यज्ञ करना अस्वीकार करते हुए उन्हें चाण्डाल होने का शाप दे दिया (१ ५८ १-१०) । आपको मे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वसिष्ठ ने दसों से प्रसन्न होकर 'एवमस्तु' कहा और विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार करते हुये उनके शाप मित्रता स्थापित कर ली (१ ६५, २२-२३) । विश्वामित्र ने उत्तम ब्राह्मणपुत्र प्राप्त करने के पश्चात् इनका पूजन किया (१ ६५, २५) । दशरथ ने इनसे मिथिला जाने की अनुमति मांगी (१ ६८, १४) । इन्होंने दशरथ के शाप मिथिला के लिये प्रस्थान किया (१, ६९, ४) । मिथिला में इनकी उपस्थिति (१ ६९, १०) । 'ये इष्वाकु कुल के देवता थे । ये ही दशरथ आदि को वर्तमान का उपदेश देने थे और वे इन्हीं की आज्ञा का पालन करते थे । दशरथ के अनुरोध से इन्होंने जनक को सूर्यवंश का परिचय दिया तथा श्रीराम और लक्ष्मण के लिये क्रमशः सीता और ऊर्मिला का वरण किया (१ ७०, १६-४५) ।' जनक ने इनके समस्त अपने कुल का परिचय देने हुये श्रीराम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और ऊर्मिला को देने की प्रतिज्ञा की (१, ७१, १-२१) । विश्वामित्र सहित इन्होंने भरत और शत्रुघ्न के लिये नृसिंह की कन्याओं का वरण किया जिसे जनक ने स्वीकार कर लिया (१ ७२, १-१६) । इन्होंने श्रीराम आदि चारों भ्राताओं के विवाह के समय समस्त वैवाहिक कार्य करके मन्त्रपाठपूर्वक प्रवृत्त अग्नि में हवन किया (१ ७३, १२-२२) । विवाह के पश्चात् यात्रा के समय प्रवृत्त शुभ और अशुभ शत्रुओं से विभिन्न दशरथ को इन्होंने उनका फल समझाकर शान्त किया (१, ७४, १०-१३) । मार्ग में भयकर आँधी से वे नूडित नहीं हुये (१, ७४, १६) । 'अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखात्पीत', (१ ७७, २) । दशरथ ने इनसे श्रीराम क राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिये कहा और इन्होंने सेवकों को तदनुषंग आदेश दिया (२ ३, ३-५) । दशरथ के अनुरोध से इन्होंने सीता सहित श्रीराम को उपवास-शत की दीक्षा दी और राजभवन में भाकर दशरथ को इन समाचार से अवगत करवाया (२, ५, १-२३) । इन्होंने श्रीराम के राज्याभिषेक की समस्त साधयियों के एकाग्र कर देने के समाचार में दशरथ को

अवगत कराने के लिये अन्त पुर मे जाकर सुमन्त्र को भेजा (२ १४, २६-४२) माकण्डेय आदि वा वचन सुनकर इन्होंने भरत को बुलाने के लिये पाँच दूतों को राजगृह भेजा (० ६८) । इन्होंने भरत को दशरथ का दाह सत्कार करने के लिए उत्तम प्रबन्ध करने की अनुमति दी (२ ७६, १-३) । 'तथेति भरतो वानय वसिष्ठस्याभिपूज्य तत्', (२ ७६, १२) । देवी प्रकृति से युक्त सवज्ञ पुरोहित वसिष्ठ ने भरत को दशरथ की मृत्यु के तेरहवें दिन अस्थिसचय और शोक का परित्याग करने के लिय कहा (२ ७७, २१-२३) । इन्होंने सभा मे आकर मन्त्रियों आदि को बुलाने के लिये दूत भेजा (२, ८१, ९-१३) । इन्होंने भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिये आदेश दिया (२ ८२, ४-८) । भरत इनको आगे करके भरद्वाज ऋषि के पास गये (२ ९०, ३) । भरद्वाज ने अपने आसन से उठकर अर्घ्य, पाद, फल आदि निवेदन करके इनसे कुशल-समाचार पूछा (२ ९०, ४-६) । इन्होंने भी भरद्वाज से उनका कुशल समाचार पूछा (२ ९०, ८) । 'ऋषि वसिष्ठ सदिश्य मातुर्मौ शीघ्रमानय', (२ ९९ २) । 'स कच्चिद् ब्राह्मणो विद्वान्धर्मनिःस्यो महाद्युति । इक्ष्वाकूणा-मुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥', (२ १००, ९) । ये दशरथ को रात्रियों को आगे करके श्रीराम के आश्रय मे गये (२ १०४, १) । श्रीराम ने इनका चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और इनके माथ ही पृथिवी पर बैठ गये (२ १०४, २७-२८) । इन्होंने सृष्टि परम्परा के साथ इक्ष्वाकु-कुल की परम्परा का वर्णन किया और ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करत हुये श्रीराम से राज्य ग्रहण करने के लिये कहा (२ ११०) । इन्होंने श्रीराम को समझाया परन्तु श्रीराम ने अपने पिता की आज्ञा के पालन से विरत न होने के लिये कहा (२ १११, १-११) । ये श्रीराम क आश्रम से अयोध्या के लिए लौटे (२ ११३, २) । श्रीराम के न लौटने पर इन्होंने श्रीराम मे प्रतिनिधि के रूप मे स्वर्णभूषित पादुकायें भरत को दे देने के लिए कहा (२ ११३ ९-१३) । वनवास से श्रीराम के लौटने की अवधि तक नन्दिग्राम मे रहने के भरत क विचार का इन्होंने अनुमोदन किया (२ ११५, ४-६) । य भरत के नान्दिग्राम जाने समय आगे भागे चल रहे थे (२ ११५, १०) इन्होंने श्रीराम का राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ १२८, ६१) । "सीता को छोडकर लौटने समय मार्ग मे सुमन्त्र ने लक्ष्मण को बताया कि एक समय महर्षि दुर्वासा वसिष्ठ के आश्रम मे निवास कर रहे थे । उस समय राजा दशरथ वसिष्ठ का दर्शन करने गये (७ ५१, २-४) ।" "राजपि निर्मि ने अपने यज्ञ के लिये इतना यरण किया किन्तु इन्होंने इन्द्र का यज्ञ पूरा कराने तक राजा न प्रतीक्षा करने के लिये कहा । फिर भी राजा ने गौतम ऋषि से अपना यज्ञ पूरा कर लिया ।

(७, ५५, ८-११) । "इन्द्र वा यज्ञ समाप्त करा कर लीटने पर इन्होंने देखा कि राजा, गौतम आदि महर्षियोंसे, अपना यज्ञ करा रहे हैं । इस पर क्रुद्ध होकर इन्होंने राजा निमि को विदेह हो जाने का शाप दे दिया (७ ५५, १३-१७) ।" इनके शाप की बात सुनकर राजा निमि ने भी इहे विदेह हो जान का शाप दिया (७ ५५, १८-२०) । लक्ष्मण के यह पूछने पर वि इन्होंने अपना शरीर पुन किस प्रकार प्राप्त किया, श्रीराम ने बताया शरीर-ग्रहित होने पर वसिष्ठ ब्रह्मा की शरण में गये जहाँ ब्रह्मा ने उनसे वरुण के छोटे हुये तेज में प्रविष्ट होने के लिये कहा (७ ५६, ५-१०) । मित्र और वरुण के वीर्य से युक्त कुम्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ, और इनके जन्म ग्रहण करते ही राजा इन्द्राकु ने अपने पुनर्ग्रहित पद के लिये इनका वरण कर लिया (७ ५७, ७-९) । जब राजा मित्रसह ने अवशमेव यज्ञ का अनुष्ठान किया तो ये अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे (७ ६५, १८) । यज्ञ की समाप्ति पर एव राधाय पूर्व-वैर का स्मरण कर वसिष्ठ के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ और मासयुक्त भोजन माँगा (७ ६५, २०-२१) । "जब राजा की पत्नी ने इनके सम्मुख मासयुक्त भोजन रखा तो ये क्रुद्ध हो उठे और राजा ने कहा कि उनका भोजन भी मासयुक्त होगा । इस पर क्रुद्ध होकर जब राजा ने भी इन्हें शाप देना चाहा तो उनकी पत्नी ने उन्हें रोवते हुये इससे कहा कि इनका रूप धारण करके ही किसी ने मासयुक्त भोजन प्रस्तुत करने के लिये कहा था । उस समय सारी बात जान कर इन्होंने राजा को वर दिया (७ ६५, २६-३६) ।" राजद्वार पर ब्राह्मण के विलाप को सुनकर श्रीराम ने इन्हें आमन्त्रित किया (७ ७४, २) । अपने साथ वामदेव आदि आठ ब्राह्मणों को लेकर ये श्रीराम के समक्ष उपस्थित हुये और श्रीराम ने इनका सरकार किया (७ ७४, ४-५) । श्रीराम ने इनसे अवशमेव के सम्बन्ध में परामर्श किया (७ ९१, २-८) । जब काल से वार्तालाप कर रहे श्रीराम के सम्मुख उपस्थित होकर लक्ष्मण नियमभङ्ग के दोषा हुये तो इन्होंने श्रीराम के चिन्तित हान पर उन्हें लक्ष्मण का परित्याग कर देने का परामर्श दिया (७ १०६, ७-११) । इन्होंने श्रीराम के महाप्रत्यान काल के लिये उच्चिन्त समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधिवत् अनुष्ठान किया (७ १०९, ३) ।

१. वसु, कुश और वैदर्भी के एक पुत्र का नाम है (१ ३२, २) । इन्होंने 'गिरिद्वज' नगर की स्थापना की (१ ३२, ६) । इनकी पाँच पत्नीयों से चिरी हुई राजधानी, गिरिद्वज, 'वसुपती' क नाम से प्रसिद्ध हुई (१ ३२, ७) । मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई सोन नदी इनके सम्बन्धित थी (१ ३२, ९) ।

२. वसु—श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १९)। इनकी सरपा आठ बटाई गई है (३ १४, १४)। दुर्धर इनका पुत्र था (६ ३०, ३४)। आठवें वसु का नाम सावित्र था जिन्होंने मुमाली का वध किया (७ २७, ३४-५०)। 'मुमालिन हत इट्वा यमुना मम्मसाहृतम्, (७ २८, १)। ये भी राक्षसों के साथ युद्ध के लिये निकले (७ २८, २७)। रावण उनके सामने युद्ध में ठहर नहीं सका (७ २९, ३१)। श्रोगम की सभा में शपथ-ग्रहण के समय अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये सीता ने इनका भी आवाहन किया (७ ९७, ८)।

३ वसु, राजा नृग के पुत्र का नाम है। इनका राज्याभिषेक करके राजा नृग ने ब्राह्मणों का दाप भोगने के लिये गर्द्व में प्रवेश किया (७ ५४, ८-१९)।

वसुदा, एक गन्धर्व-कन्या का नाम है जो माली की पत्नी थी (७ ५, ४२)। इसने चार निशाचरों को जन्म दिया (७ ५, ४४)।

वसुमती, वसु की राजधानी का नाम है (१ ३२, ६)।

वसुधैकसारा, कुवेर-नगरी (अलका) का नाम है (२ ९४, २६)।

वद्धि, एक वानर दूयपति का नाम है जो सेना सहित सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुये (४. ३९ ३८)।

वातापि—श्रीराम ने लक्ष्मण से अगस्त्य द्वारा वातापि और इल्वल के वध की कथा का वर्णन किया (३ ११, ५५-६७)। श्रीराम ने अगस्त्य द्वारा इसके वध का वर्णन किया (३ ४३, ४१-४५)।

वामदेव, एक महर्षि का नाम है जो राजा दशरथ के माननीय ऋत्विज थे (१ ७, ४)। दशरथ ने इनसे पुत्र प्राप्ति के लिये अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का परामर्श लिया (१ ८, ६)। दशरथ ने इन्हें आमन्त्रित करने के लिये कहा (१ १२, ५)। दशरथ ने इनमें मिलिला जाने की अनुमति मांगी (१ ६८, १४)। इन्होंने भी दशरथ के साथ मिलिला के लिये प्रस्थान किया (१ ६९, ४)। दशरथ ने इनमें श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिये कहा (२ ३, ३)। दशरथ की मृत्यु के पश्चात् दूसरे दिन प्रातः काल समा में उपस्थित होकर इन्होंने वसिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया (२ ६७, ३)। ये श्रीराम के आश्रम से वसिष्ठ आदि के साथ अयोध्या लौटे (२. ११३, २)। इन्होंने श्रीराम का राज्याभिषेक कराने में वसिष्ठ की सहायता की (६ १२८, ६१)। राजद्वार पर ब्राह्मण का विलाप सुनकर धारुम ने इन्हें आमन्त्रित किया (७ ७४, २)। ये वसिष्ठ के साथ श्रीराम के पास आये और श्रीराम ने इनका सत्कार किया (७ ७४,

४-५) । श्रीराम ने अश्वमेध के आयोजन के सम्बन्ध में इनसे परामर्श किया (७ ९१, २-८) ।

वामन—ये सिद्धाश्वन ने निवास करते थे 'एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मन (१. २९, ३) । देवो ने विष्णु को वामन रूप धारण करके बलि दे यज्ञ में जाने के लिये प्रेरित किया (१ २९ ९) । विश्वामित्र इनमें भक्ति रखते थे (१ २९, २२) ।

वामना, एक अस्त्र का नाम है जिसने भरद्वाज मुनि की भाज्ञा से भरत के सत्कार में उनके मनीष नृत्य किया (२ ९१, ४६) ।

वायव्य, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २७ १०) ।

वायु—इन्होंने कुशनाभ की सी पुत्रियों को अपनी भार्या बन जाने के लिये कहा (१. ३२ १४-१६) । कुशनाभ की पुत्रियों ने हँसते हुये अवहेलना-पूर्वक इनके इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया (१ ३२, १७-२१) । इन्होंने कुपित होकर उनके शरीर में प्रविष्ट हो उनके अङ्गों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया जिससे वे कुवर्डी हो गईं (१ ३२, २२-२३) । कुब्जत्व को प्राप्त होकर कुशनाभ की पुत्रियों ने अपने पिता को अशुभ भाग का अवलम्बन करके बलात्कार करने की वायु की इच्छा को बताया (१ ३३, २-३) । ब्रह्मदत्त के साथ विवाह के समय उन कन्याओं के कुब्जत्व को इन्होंने दूर कर दिया (१ ३३, २३-२४) । देवताओं ने अग्नि को इनके सहयोग से शिव का तेज धारण करने के लिये कहा (१ ३६, १८) । इन्द्र ने दिति के गर्भ के जो सात टुकड़े कर दिये उनमें से तीसरा दिव्य वायु के नाम से विख्यात हुआ (१ ४७, ५ ८) । श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका आवाहन किया (२ २५ १३) । श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १८) । श्रीराम ने इनसे भी सीता का पता पूछा (३ ६३, २७) । मीनाक पर्यंत ने बताया कि पूर्व काल में जब इन्द्र अपने वज्र से उराका पल काट देना चाहते थे तो वायु देवता ने सहता उन्हें समुद्र में गिरा दिया (५ १, १२६) । ये भी रावण के भय से असोक वाटिका में अधिक वेग से नहीं बहते थे (५ १३, ६३) । हनुमान् ने अपनी सफलता के लिये इनकी स्तुति की (५ १३, ६५) । रावण को अपना परिचय देने हुये हनुमान् ने अपने को इनका औरस पुत्र बताया (५ ५१, १५) । सीता ने अग्नि में प्रवेश करते समय अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये इनका भी आवाहन किया (६ ११६, २८, मीना प्रस सस्करण) । "जब इन्द्र के वज्र प्रहार से आहत होकर इनके पुत्र, हनुमान्, आहन हो गये तो क्रुद्ध होकर

इन्होंने अपनी गति रोक दी । इनकी गति रुक जाने से पीड़ित होकर देवगण ब्रह्मा की शरण में आये । ब्रह्मा ने बताया कि इनके पुत्र पर बच्च प्रहार होने के कारण ही य कुपित हैं । तदनन्तर इन्ह ही, मुख और सम्पूर्ण जगत बताते हुये दवा के नाथ ब्रह्मा इनके पाम आये । उस समय इन्हें अपने गोद में अपने पुत्र को लिये हुये देखकर ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं को अत्यन्त दया आई (७ ३५, ४८-६५) । देवताओं ने इनके पुत्र, हनुमान्, को जीवित करके वरदान दिये और उसके बाद ये हनुमान् को लेकर अञ्जना के घर आये (७ ३६, १-२६) ।

वाराणसी, काशिराज की पुरी का नाम है । यह सुन्दर परफोटी और मनोहर फाटकी से सुशोभित थी (७ ३८, १७) श्रीराम से सत्कृत होकर काशिराज न अपनी इस पुरी की ओर प्रस्थान किया (७ ३८, १९) ।

घायुभक्त, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरभङ्गमुनि के स्वर्गलोक चले जाने के पश्चात् श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६, ४ ८-२६) ।

वारुण-पाश, वरुण के पाश का नाम है जिसे विरवामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २७, ८) ।

वारुणी, वरुण की कन्या, मुरा, की अभिमामिनि देवी का नाम है जो ममुद्र-मन्थन न प्रकट हुई थी (१ ४५, ३६) । अदिति के पुत्रों ने इस अनिन्द्य नुन्दरी को ग्रहण कर लिया जिससे (मुरा के सेवन के कारण) ही वे 'मुर' कहलाये (१ ४५, ३७-३८) ।

वाल्लखिल्य, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरभङ्ग मुनि के स्वर्गलोक चले जाने के पश्चात् श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६, २ ८-२६) । रावण ने ममुद्र क तटवर्ती प्रान्त को इन महात्माओं से भी सुशोभित देला (३ ३५, १४) । ये मनाक् पवन के उस पार निवास करते थे (४ ४३, ३२) ।

वालिन्, एक वानर का नाम है जो सुग्रीव के उद्रेक भ्राता और उनमें समुत्तम रखने थे (१ १, ६२) । सुग्रीव के गर्जन करने पर इन्होंने अपने भवन से बाहर निकल कर उनमें युद्ध किया परन्तु श्रीराम ने एक वाण में ही इनका वध कर दिया (१ १, ६८-६९) । इनके सुग्रीव के साथ युद्ध, श्रीराम द्वारा इनके विनाश, तथा तारा के इनके लिये विलाप का वान्मोचि ने पूर्वदग्ना कर दिया था (१ ३, २३-२४) । इन्द्र ने इन्हें उत्पन्न किया (१ १७, १०) । ये सुग्रीव के भ्राता थे, और हनुमान् आदि समस्त वानर इनकी सेवा में तत्पर रहते थे (१ २७, ३१-३२) । "सुग्रीव ने श्रीराम को

बताया कि उन्हें उनके बड़े भ्राता वालिन् ने घर से निकाल कर उनके साथ और दार निया है। इन्होंने के आस और भय से उद्भ्रान्त चित्त हो वन में निवास करन और अपनी भार्या के छीन लिय जाने का समाचार बताकर सुग्रीव ने श्रीराम से इनके भय से अभयदान देन की प्रायना की जिस सुनकर श्रीराम ने इनके वध की प्रतिज्ञा की (४ ५, २३-३०) । "सुग्रीव ने श्रीराम को बताया कि वालिन् ने उनका तिरस्कार करते हुये युवराज पर से भी च्युत कर दिया। इतना ही नहीं उनकी स्त्री को भी छीन लिया। सुग्रीव ने बताया कि इतना होने पर भी वालिन् उनके विनाश के लिये यत्नशील है (५ ८, ३२-३४) ।" सुग्रीव ने श्रीराम को इनके साथ अपने वंश पर नाराज बताया (४ ९) । सुग्रीव ने इनके साथ अपने वंश तथा इनके द्वारा निष्कासित कर दिये जाने का वृत्तान्त बताते हुये श्रीराम से इनके विनाश का निवेदन किया (४ १०, १-३०) । श्रीराम ने इनके वध का सुग्रीव को आश्वासन दिया (४ १०, ३१-३५) । सुग्रीव ने इनके पराक्रम का वर्णन करते हुये कहा : वालिन् चारों समुद्र का सूर्योदय के पूर्व ही भ्रमण करके भी चकते नहीं थे। वे पर्वतों के शिखरों पर घुंकर बड़े-बड़े शिखरों को उठा लेते थे (४ ११, ३-६) । 'वाली नाम महाप्राज्ञ शम्भुपुत्र प्रतापवान्। अध्यास्ते वानर श्रीमान्किष्किधामतुल्यमाम् ॥' (४ ११, २१) । इन्होंने दुन्दुभि नामक दैत्य से, जो भैसे का रूप बनाकर इनमें सुद्ध के लिये उपस्थित हुआ, घोर मुद्ध करते हुए उसका वध करके उसके मृत शरीर को दोनों हाथों से उठाकर एक योजन दूर फेंक दिया (४ ११, २८-४७) । 'जब मतङ्गमुनि ने इन्हें शाप दे दिया तो ये मुनि से क्षमा-याचना के लिये उनके पास गये परन्तु मुनि ने इनका आदर नहीं किया। मुनि के ही शाप के कारण ये ऋष्यमूक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते थे (४ ११, ५९-६३) ।' 'कथं तं शालिनं हन्तुं समरे शक्यते नृप', (४ ११, ६८) । 'कस्मिन्कर्मणि निवृत्ते शृद्ध्यता वालिनो वधम्', (४ ११, ६९) । सुग्रीव ने लक्ष्मण से कहा 'पूर्वकाल में वालिन् ने छाल के भात लुण्ठी को एक एक करके कई बार बीध डाला था, अतः श्रीराम भी यदि इनमें से किसी एक वृष का नेदन नर देंगे तो मुझे उनके द्वारा वालिन् के वध का विश्वास ही जायगा (४ ११ ७०-७१) ।' 'शूररथ नूरमानी च प्रख्यातवल्पीरथ। वलवान्वानरो वाली सपुण्ड्रपराजित ॥', (४ ११, ७४) । 'आर्द्रं समात्तप्रत्यक्षितं कामपुरा सखे। लघु सप्रति निर्मातस्तृणभूतश्च राघव ॥' (४ ११, ८७) । श्रीराम की प्रेरणा पर जब सुग्रीव ने आकर इन्हें ललकारा तो इन्होंने सुग्रीव की पराजित कर दिया, और जब सुग्रीव भाग खड़े हुये तो उनका पीछा किया, परन्तु उनके मतङ्गवन में प्रवेश कर जाने के कारण

वे लौट आये (४ १२, १३-२३) । 'अलकारेण वेयेण प्रमाणेन गनेन च । त्व च सुग्रीव वाली च सद्गुणौ स्य परस्परम ॥', (४ १२, ३०) । श्रीराम ने सुग्रीव को इनके भय को समाप्त कर देने का आश्वासन दिया (४ १४, १०-१८) । "जब सुग्रीव ने किष्किन्धापुरी में आकर इन्हे ललकारा तो ये अन्नपुर में थे । सुग्रीव की गजना सुनकर इनका समस्त शरीर त्रोध से तमतमा उठा और ये राहुग्रस्त सूर्य के समान निष्प्रभ दिखाई पड़ने लगे (४ १५, १-३) । 'वाली दष्ट्राकरालस्तु क्रोधाहीनाग्निलोचन । भास्वतरतितपस्तु समुणाल इव हृद ॥' (४ १५, ४) । सुग्रीव की गजना सुनकर जब ये बाहर निकलने को उद्यत हुये तो इनकी पत्नी ने इन्हें समझाया (४ १५, ५-६) । इन्होंने अपनी पत्नी तारा, के शुभ परामर्श को ग्रहण नहीं किया (४ १५, ३१) । इन्होंने तारा को फटकारते हुये अपने पराक्रम का वर्णन किया और तारा को लौटाकर स्वयं युद्ध के लिये सन्नद्ध हुये (४ १६, १-१०) । तारा ने इनका मंगलकामना से स्वस्तिवाचन किया (४ १६, ११-१२) । "तारा के लौट जाने पर ये सुग्रीव से युद्ध के लिये बाहर निकले । सुग्रीव को देखकर इन्होंने अपना लँगोट कस लिया और उनसे मल्लयुद्ध करने लगे । इन्होंने सुग्रीव को अत्यन्त त्रस्त कर दिया जिससे सुग्रीव भयभीत होकर इधर उधर श्रीराम की ओर देखने लगे (४ १६, १४-३०) ।" श्रीराम ने अपने महान् वाण से इनके वक्षस्थल पर प्रहार किया जिससे ये तत्काल पृथिवी पर गिर पड़े (४ १६, ३४-३५) । इनके शरीर से जल के समान रक्त की धारा बहने लगी जिससे ये सर्वथा रक्तरजित हो गये (४ १६, ३८) । 'श्रीराम के वाण से आहत होकर ये भूमि पर गिर पड़े । उस समय भी इनके शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम इन्हें छोड़ नहीं सके थे, क्योंकि इन्द्र की दी हुई रत्न जटित श्रेष्ठ सुवर्ण माला इनके प्राण, तेज, और शोभा को धारण किये हुये थी (४ १७, १-७) ।" 'महेन्द्रपुत्र पतित वालिन हेममालिनम्', (४ १७ ११) । 'जब श्रीराम इनके समीप आये तो इन्होंने छिपकर वाण प्रहार करने के कारण श्रीराम की भ्रमंता थी और कहा 'जिस प्रकार मधु-कूटभ द्वारा अपहृत श्वेताश्विनरी श्रुति वा हयग्रीव ने उद्धार किया था वैसे ही मैं आपके आदेश से सीता को, यदि वे समुद्र के जल या पाताल में भी होती, तो वहाँ से ला देता । मेरे स्वर्गलोक-वासी होने पर सुग्रीव को जो यह राज्य प्राप्त होगा वह उचित ही है । अनुचित इतना ही हुआ कि आपने रणभूमि में मेरा अधमपूर्वक घघ किया ।' ऐसा कहकर ये घृण हो गये । उस समय इनका मुख सूख गया और वाण के आघात से इन्हें अत्यन्त पीडा होने लगी (४ १७, १३-५२) ।" इन्हें उत्तर देते हुये

श्रीराम ने इनके वय का औचित्य बताया जिससे निरुत्तर होकर इन्होंने क्षमा माँगने हुये सुग्रीव तथा अङ्गद आदि की रक्षा के लिये प्रायणा की और श्रीराम ने इन्हे तदनुकूल आश्वासन दिया (४ १८) । युद्धभूमि में इनके आहत होने का समाचार सुनकर इनती पत्नी, तारा, ने इनके पास आने का आग्रह किया और फिर इनके पास आकर विलाप करने लगी (४ १९) । तारा ने इनके निकट घोर विलाप किया (४ २०) । तारा ने कहा कि अपने पति का अनुगमन करने से शक्य और कोई कार्य उसके लिये उचिन् नहीं हो सकता (४. २१, १६) । "इन्होंने सुग्रीव और अङ्गद से अपने हृदय की बातों को प्रगट किया । तदनन्तर सुग्रीव को अपनी दिव्य सुवर्णमाला देते हुए उनसे श्रीराम के प्रति निष्ठावान् रहने के लिये कहा । अपने पुत्र, अङ्गद, को भी इन्होंने सुग्रीव के प्रति आदर-भाज रखने का उपदेश किया । इस प्रकार कहकर इन्होंने प्राण-न्याग किया (४ २२, १-२४) ।" इनकी मृत्यु हो जाने पर समस्त वानर युगपति विलाप करने लगे और किष्किन्धा पुरी, उसके उद्यान, पर्वत, और वन भी मूने हो गये (४ २२, २५-२६) । इन्होंने गोलभ नामक गन्धर्व से पन्द्रह वर्षों तक अहोरात्र चलने वाला युद्ध किया और सोलहवाँ वर्ष आरम्भ होने ही उसका वध कर दिया (४ २२, २७-२९) । अपने मृत पति को देखकर तारा विलाप करती हुई पृथिवी पर गिर पड़ी (४ २२, ३१) । नील ने इनके शरीर में घसे हुये वाण को निकाला जिससे इनके शरीर के समस्त धारों से रक्त की धारा निकलने लगी (४ २३, १७-२०) । माता की आज्ञा से अङ्गद ने इनका चरण स्पर्श किया (४ २३, २४) । इनके लिये विलाप करते हुये तारा ने अपना वय कर देने के लिये भी श्रीराम से निवेदन किया जिससे वह परलोक में भी इनके साथ रह सके (४. २४, ३१-४०) । लक्ष्मण ने सुग्रीव से इनका दाह-भस्कार करने के लिये कहा (४ २५, १२-१८) । इन्द्रान भूमि में ले जाने के लिये सुग्रीव ने इनके शव को शिविका में रखकर उसे पुष्पमालाओं से अलंकृत किया (४, २५, २८-२९) । 'स वालिपुत्रामिहो वक्राच्छोपिनमुद्रमन्', (४ ४८, २०) । 'सुग्रीवश्चैव वाली च पुत्री धनवलावुभौ । लोके विश्रुतकर्माऽभूद्राजा वाली पिता मम ॥', (४ ५७, ६) । 'हो वाली महाबल', (५ १६, ७) । 'वाली च सह सुग्रीवो', (५ ४६, १०) । 'वाली बानरपुङ्गव', (५ ५१, ११) । 'त्वया न च वालिना', (५ ६३, ५) । इन्होंने रावण को पराजित कर दिया जिसके पश्चात् रावण इनका मित्र बन गया (७ ३४) । इनके पिता का नाम ऋषराज था (७. ३६, ३६) । इनके पिता ने ही इन्हे राजा बनाया (७. ३६, ३८) । यद्यपि इनने और इनके भ्राता सुग्रीव में बचपन से ही

सत्य भाव था, तथापि बाद में दोनों में वैर हो गया (७ ३६, ३९-४१) ।

वाल्मीकि, एक महर्षि का नाम है । इन्होंने देवर्षि नारद से इस सप्तर के गुणवान्, धीर्यवान्, धर्मज्ञ, उपकारक, सत्यवक्ता और दृढप्रतिज्ञ पुरुष के सम्बन्ध में पूछा जिससे देवगण भी भयभीत होते हैं (१ १, १-५) । इन्होंने अपने शिष्यो सहित देवर्षि नारद का पूजन किया (१ २, १-२) । “देवर्षि नारद के देवलोक पधारने के पश्चान् ये शिष्यो सहित तमसा के तट पर पहुँचे । वहाँ इन्होंने व्याध के द्वारा क्रीञ्चपक्षी के जोड़े में से नर पक्षी के मारे जाने से दुःखी हुई उसकी भार्या के कर्षण विलाप को सुनकर व्याध को शाप देने हुये कहा ‘निषाद ! तुझे नित्य निरन्तर कभी भी शान्ति न मिले क्योंकि तूने इस क्रीञ्च के जोड़े में से एक नरपक्षी की, जो काम से पीडित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर दी है ।’ (१ २, ३-१५) ।” “तदनन्तर इन्हे इस बात की चिन्ता हुई कि इन्डोने जो कुछ कहा उसे श्लोक रूप ही होना चाहिये अथवा नहीं । इनके शिष्य, भरद्वाज, ने कहा कि इनके वाक्य को श्लोक रूप ही होना चाहिये । अपने श्लोक पर विचार करते हुये ही ये शिष्य सहित अपने आश्रम पर आये । उम समय वहाँ लोककर्ता ब्रह्मा ने उपस्थित होकर इनकी मन स्थिति को समझते हुए इन्हें श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र का श्लोकबद्ध वर्णन करने के लिये कहा । ब्रह्मा ने कहा कि श्रीराम का गुप्त या प्रगट वृत्तान्त, तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त या प्रगट चरित्र इन्हे पूर्णतया ज्ञात और इनके द्वारा अंकित कोई भी वर्णन श्रुतिपूर्ण नहीं होगा । तदनन्तर इनकी तथा इनके रामायण की चिरन्तन कीर्ति का आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अन्तर्धान हो गये । ब्रह्मा के चले जाने पर इन्होंने श्रीराम के चरित्र को लेकर सहस्रो श्लोकों से युक्त और मनोहर पदों से समृद्ध रामायण नामक महाकाव्य की रचना की जिसकी रचना में ममता, पदों में माधुर्य और अर्थ में प्रासादगुण की अधिकता है (१ २, १६-४३) ।” इन्होंने नारद के मुख से धर्म, अर्थ एवं कामरूपी फल से युक्त हिनकर तथा प्रगट और गुप्त, सम्पूर्ण रामचरित्र को सुनकर पुनः भलीभाँति साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया (१ ३, १) । इन्होंने सम्पूर्ण महाकाव्य, रामायण, का पूर्वदर्शन करते हुये संक्षेप में रामकथा का निरूपण किया (१ ३) । “इन्होंने श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया जिसमें चौबीस हजार श्लोक, पाँच सौ मंत्र तथा सान् काण्ड हैं । तदनन्तर इन्होंने कुश और लव को इस काव्य का गायन करना सिखाया (१ ४, १-१३) ।” महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित आश्चर्यमय रामायण काव्य परवर्ती कवियों के लिये श्रेष्ठ आधारशिला बना (१ ४, २६) । श्रीराम आदि ने इनके आश्रम

में प्रवेश करके इनकी प्रणाम करने के पश्चात् अपना परिचय दिया (२ ५६, १५-१७) । 'शृणोति य इद वाच्य पुरा वाल्मीकिना कृतम्', (६ १२८, १११-११२) । श्रीराम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को तमसा-सद स्थित इनके आश्रम के निकट छोड़ आये (७, ४५, १७-१९) । विलाप करती हुई सीता का समाचार मुनि-कुमारो ने इनके पास पहुँचाया (७ ४९, १-२) । मुनि-कुमारो की बात सुनकर ये उस स्थान पर आये जहाँ सीता विराजमान थी (७, ४९, ७-९, गीता प्रेस संस्करण) । "शोकप्रस्त सीता को पहचानते हुए इन्होंने उनसे कहा कि उनका समस्त वृत्तान्त इन्होंने जान लिया है । तदनन्तर इन्होंने सीता को अपने आश्रम में ही निवास करने के लिये कहा (७ ४९, ६-१२) ।" सीता ने इनके चरणों में प्रणाम किया और तदनन्तर इनकी आज्ञा शिरोधार्य की (७, ४९, १३-१४) । इन्होंने आश्रम में निवास करनेवाली मुनिपत्नियों को सीता का परिचय देते हुये उनसे सीता की देख-रेख करने के लिये कहा (७, ४९, १७-२०) । "लवणानुर का वध करनेके लिये जाते समय शत्रुघ्न इनके आश्रम पर पहुँचे जहाँ इन्होंने उनका स्वागत किया । तदनन्तर इन्होंने शत्रुघ्न को कल्पापवाद की कथा सुनाया (७, ६५) ।' अश्वत्थि के समय मुनिकुमारों ने इन्हें सीता के प्रसव होने का शुभ-समाचार दिया (७ ६६, २) । "इन्होंने प्रसन्न होकर सूतिष्णा-गृह में प्रवेश किया और कुशाओं की मुट्टा तथा उनके लव लेकर भूत-व्याध के निवारण की रसा-विधि का उपदेश दिया । तदनन्तर इन्होंने सीता के बड़े और छोटे बालको वर प्रसाद 'कुस' और 'लव' नाम रखा (७ ६६, ४-९) ।" लवणा-सुर का वध करने के बाद बारहवें वर्ष अयोध्या लौटते समय शत्रुघ्न मार्ग में इनके आश्रम पर रुके (७ ७१, ३-४) । इन्होंने शत्रुघ्न को भक्ति-भक्ति की कथायें सुनाते हुये लवण वध के लिये उन्हें घन्यवाद दिया (७, ७१, ५-१३) । इनके आश्रम में रामचरित्र से सम्बद्ध गायन सुनकर जब चकित हुये सैनिको ने शत्रुघ्न से इस सम्बन्ध में इनसे पूछने के लिये कहा तो शत्रुघ्न ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया (७ ७१, २१-२४) । शत्रुघ्न ने इनसे विदा ली (७ ७२, ३-६) । "श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ में ये भी उपस्थित हुये । तदनन्तर इन्होंने अपने दो शिष्यों को सब और भूम-फिर कर रामायण-काव्य का गायन करने का आदेश देते हुये कहा कि यदि श्रीराम से उनका गायन सुनना चाहें तो वे उन्हें सुनायें किन्तु अपने परिचय के रूप में उनसे अपने को वाल्मीकि का शिष्य कहें (७ ९३) ।" श्रीराम के पूछने पर रामायण-ज्ञान करनेवाले दोनो मुनि-कुमारो (लव-कुस) ने बताया कि उनके काव्य के रचयिता वाल्मीकि हैं जो उस समय यज्ञ स्थल पर पपारे हैं (७ ९४,

२३-२९) । श्रीराम ने इनके पास सदेश भेजा कि यदि सीता का चरित्र शुद्ध है तो वे उन्हें लेकर आयें और जनसमुदाय में उनकी शुद्धता प्रमाणित करें (७. ९५, २-६) । जब श्रीराम के दूतों ने इन्हें यह समाचार दिया तो इन्होंने उसे स्वीकार किया (७. ९५, ७-१०) । इनका उत्तर सुनकर श्रीराम प्रसन्न हुये (७. ९५, १२) । वे सीता को अपने साथ लेकर श्रीराम की सभा में आये (७. ९६, १०-१२) । जनसमुदाय के बीच में आकर इन्होंने विश्वासपूर्वक सीता के चरित्र की शुद्धता प्रमाणित की (७. ९६, १५-२४) । 'वाल्मीकिनैवमुक्तस्तु राघव प्रत्यभाषत । प्राञ्जलिर्जगतो मध्ये दृष्टा ता वरवर्णिनीम् ॥', (७. ९७, १) । 'जन्मप्रभृति ते वीर सुखदुःखोपसेवनम् । भविष्यदुत्तर चेह सर्वं वाल्मीकिना कृतम् ॥' (७. ९८, १७) । श्रीराम ने इनसे अपने भावी चरित्र से युक्त उत्तरकाण्ड को सुनाने के लिये कहा (७. ९८, २५-२६) । 'एतावदेतदाभ्यान् सीत्तर ब्रह्मपूजितम् । रामायणमिति ख्यातं मुख्यं वाल्मीकिना कृतम् ॥', (७. १११, १) । 'आदिकाव्यमिदं त्वार्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम् । यः शृणोति सदा भक्त्या स गच्छेद् वैष्णवी तनुम् ॥' (७. १११, १६, गीता प्रेस सस्करण) ।

वासुकि, एक सर्प का नाम है जो भोगवती पुरी में निवास करते थे । इनके क्षेत्र में सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये हनुमान् आदि वानरों को भेजा (४. ४१, ३८) ।

चिकट, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का विभीषण ने उल्लेख किया (६. ८९, १२) । श्रीराम ने अयोध्या लौटते समय सीता को वह स्थल दिखाया जहाँ अङ्गद ने इसका वध किया था (६. १२३, ८) । यह सुमाली का पुत्र था (७. ५, ४० ?) ।

चिकटा, एक राक्षसी का नाम है जिसने सीता को रावण की भार्या बन जाने के लिये धमकाया (५. २३, १५) ।

चिकुत्ति, कुत्ति के कान्तिमान् पुत्र, एक सूर्यवशी राजा का नाम है । इनसे महाप्रनापी बाण उत्पन्न हुये (१. ७०, २२-२३, २. ११०, ८-९)

चिठत, दूसरे प्रजापति का नाम है जो कदंन के शरद हुये थे (३. १४, ७) ।

चिघन, एक राक्षस का नाम है, जिसके भवन में हनुमान् गये (५. ६, २३) ।

१. चिजय, दशरथ के एक मंत्री का नाम है (१. ७, ३) । श्रीराम के स्वागत के लिये वे भी हाथी पर चढ़ कर अयोध्या में चले (६. १२७. १०) ।

अन्य मन्त्रियों के साथ ये श्रीराम के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिये परस्पर मन्त्रणा करने लगे (६ १२८, २४) । इन्होंने श्रीराम का राज्याभिषेक करने में वसिष्ठ की सहायता की (६ १२८, ६१) ।

२. विजय, एक दूत का नाम है जिन्हे दशरथ की मृत्यु के पश्चात् वसिष्ठ ने भरत को अयोध्या बुलाने के लिये भेजा था (२ ६८, ५) । ये राजगृह पहुँचे (२, ७०, १) । केकयराज ने इनका स्वागत किया जिसके पश्चात् इन्होंने भरत को वसिष्ठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया (२ ७०, २-५) । भरत की बातों का उत्तर देने के बाद इन्होंने उनसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिये कहा (२ ७०, ११-१२) ।

३. विजय, एव हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरंजन करने के लिये उनके साथ रहना था (७ ४३, २) ।

विदेह, एक देश का नाम है जहाँ सुषोव ने सीता की खोज के लिये वनत को भेजा था (४ ४०, २२) ।

विद्याधर, एक प्रकार के अर्ध-देवताओं का नाम है (१ १७, १ २३) । श्रीराम ने सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाते हुये इनकी स्त्रियों के मनोरम क्रीडा-स्वलो और वृक्षों की छायाओं पर रखे हुये सुन्दर घन्टों को दिखाया (२. ९४, १२) । “जब समुद्र-रुद्धान के लिये हनुमान् महेन्द्र पर्वत पर आरूढ़ हुये तो उनके भार से दबने पर वह पर्वत टूटने लगा । उस समय इन लौगों ने समझा कि भूत लोग उसे तोड़ रहे हैं (५ १, २२) ।” ये लोग अन्तरिक्ष में खड़े होकर उस पर्वत को देखने लगे (५ १, २७) ।

१. विद्युजिह्व, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये (५ ६, १९-२५) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५ ५४, १३) । रावण ने इसे साथ लेकर प्रमदानन्द में श्रवेश किया (६ ३१ ६) । रावण ने इसमें माया रूपी श्रीराम का कटा हुआ सर दिखाकर सीता को मोहित करने की आज्ञा दी जिसे सुनकर इसने अपनी माया प्रगट की (६ ३१, ७-९) । रावण ने इसे बुझकर सीता को राम का कटा हुआ सर दिखाने के लिये कहा जिसका पालन करते हुये इसने वह भस्मक सीता के निकट रख दिया (६ ३१, ३८-४२. ४५) । विभीषण ने इसके वध का उल्लेख किया (६ ८९, १३) । अयोध्या लौटते समय मार्ग में श्रीराम ने सीता को इसके वध का स्थान दिखाया (६ १२३, १३) ।

२. विद्युजिह्व, कालका के पुत्र, एक राक्षस का नाम है जिसके साथ रावण ने अपनी बहन, गूर्पंगला, का विवाह किया (७ १२, २) ।

विद्युत्केश, एक राक्षस का नाम है जो हेति और भया का पुत्र था (७ ४, १७) । यह भूर्य के समान प्रकाशित और तेजस्वी था (७ ४, १८) । इसका सालवटझूटा के साथ विवाह हुआ जिसके गर्भ से इसने एक पुत्र (सुकेश) को जन्म दिया (७ ४, १९-२५) । इसका पुत्र सुकेश के नाम से विख्यात हुआ (७ ४, ३२) ।

विद्युदंष्ट्र, एक वानर-प्रमुख का नाम है जिसे इन्द्रजित् ने आहूत कर दिया (६ ७३, ५८) ।

विद्युदरूप, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् गये (५ ६, २३) ।

विद्युन्माली, एक वानर प्रमुख का नाम है जिसके भवन को लक्ष्मण ने देखा (४ ३३, १०) । हनुमान् इसके भवन में गये (५ ६, १९) । सुपेण इसके साथ युद्ध करने लगे (६, ४३, १४) । सुपेण ने इसके साथ घोर युद्ध करते हुये अन्तत इसका वध कर दिया (६ ४३, ३६-४२) ।

विघाता—श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १८) ।

विधूत, प्रजापति कृशाख के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ८) ।

१. **विनत**, एक वानर यूपपति का नाम है जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गम्भीर गर्जना करनेवाले, बलवान्, तथा वानरों के शासक थे । ये चन्द्रमा और भूर्य के समान कान्तिवाले वानरों के साथ मुश्रीव की सेवा में उपस्थित हुये । मुश्रीव ने इन्हें एक लाख वानरों के साथ पूर्वदिशा में सीता की खोज के लिये भेजा (४ ४०, १६-१९) । इन्होंने पूर्व दिशा की ओर सीता की खोज के लिये प्रस्थान किया (४ ४५, ५) । 'एष ददंरमकाशो विनतो नाम यूपप । विद्वेश्वरति पर्णासा नदीनामुत्तमा नदीम् ॥ पट्टि शतसहस्राणि बलमस्य प्लवगमा', (६ २६, ४३-४४) ।

२. **विनत**, एक ग्राम का नाम है जिसके निकट भरत ने केण्य से लौटते समय गोमती को पार किया था (२ ७१, १६) ।

१. **विनता**—कौसल्या ने कहा कि पूर्वकाल में विनता ने अमृत लाने की इच्छावाले अपने पुत्र गहड के लिये जो मगल कृत्य किया था वही मङ्गल श्रीराम को प्राप्त हो (२ २५, ३३) ।

२. **विनता**, एक राक्षसी का नाम है 'ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना (५ २४, २०) ।

विनिद्र, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित कर दिया (१ २८, ६) ।

विन्ध्य—सुरीश्वर ने यहाँ निवास करनेवाले बानरो को भी आमन्त्रित करने का आदेश दिया (४ ३७, २) । यहाँ से लाल रंगवाले भयानक, पराक्रमी और भयकर रून्धारी दत्त अश्व बानर सुग्रीव के पास आये (४ ३७, २४) । इसरी गुफाओं में हनुमान् आदि बानरो न सीता की खोज की (४ ५०, १) । 'एष विन्ध्यो गिरि शीमालानाद्रुमलनायुत', (४ ५२ ३१) । इसके पार्श्ववर्ती पर्वत पर बैठे हुए बानर समय की अवधि बीन जाने पर भी सीता की खोज में सकल न होने के कारण चिन्तित हो गये (४ ५३, ३) । सम्प्राप्ति अपने पक्ष बल जाने के कारण इस पर्वत पर गिरे (४ ६०, १६) ।

विपाशा, एक नदी का नाम है । कैकय जाने समय बलिष्ठ के दून इसके तट से होने लगे थे (२ ६८, १९) ।

वियुध, देवमीड के पुत्र और महीधर के पिता का नाम है (१ ७१, १०) ।

विभाण्डक, काश्यप के पुत्र एक महर्षि का नाम है (१ ९, ३) । इनके पुत्र ऋष्यशृङ्ग वेदों के पारंगामी विद्वान् थे (१ ९, ११) । ऋष्यशृङ्ग ने अपने पिता के रूप में इनका परिचय दिया (१ १०, १४) ।

विभीषण, श्रीराम ने इन्हें लका के राज्य पर अभिषिक्त किया (१. १, ८५) । इनकी श्रीराम के साथ मैत्री तथा इनके श्रीराम को रावण-बन्ध का उपाय बनाने का वास्तीक ने पूर्वदर्शन किया (१ ३, ३५) । राम को अपना परिचय देने लुके सूर्यगता ने इन्हें अपना भ्राता बताया (३. १७, २३) । हनुमान् इनके भी भयन में गये (५ ६, १८) । सीता ने हनुमान् को बताया कि इनके सममाने पर भी रावण ने इन्हें श्रीराम को लौटाना स्वीकार नहीं किया (५ ३७, ९) । इनकी पुत्री का नाम कलाया (५, ३७, ११) । इन्होंने दूत-वप अनुचित बतकर रावण से हनुमान् को कोई अन्य दण्ड देने का निवेदन किया (५ ५२) । रावण ने इनके निवेदन को स्वीकार कर लिया (५ ५३, १-२) । हनुमान् ने लनादहन के समय इनके मदन में ध्यान नहीं लगाई (५ ५४, १६) । इन्होंने रावण से श्रीराम की अज्ञेयता बतकर सीता को लौटा देने का अनुरोध किया (६ ९, ७-२३) । इन्होंने रावण के महल में जाकर अप्सराकुनों का भय दिखाते हुए सीता को लौटा देने का आग्रह किया परन्तु रावण ने इनकी बात को न मानकर इन्हें वहाँ से विदा किया (६ १०) । इन्होंने रावण की समा में उपस्थित होकर उसके चरणों में मस्तक झुकाया (६ ११, २८) । इन्होंने श्रीराम की अज्ञेय बतकर सीता को लौटा देने की

सम्मति दी (६ १४) । जब इन्द्रजित् ने इनका उपहास किया तो उसे फटकारते हुये इन्होंने रावण की सभा में अपनी उचित सम्मति प्रदान की (६ १५) । रावण ने इनका तिरस्कार किया, परन्तु ये भी उसे फटकार कर वहाँ से चले आये (६ १६) । ये श्रीराम की धारण में उपस्थित हुये (६ १७, १-४) । इन्हें देखकर सुग्रीव ने अन्य वानरो के साथ इनके सम्बन्ध में विचार किया (६ १७, ५) । इन्होंने आकाश में ही स्थित रहकर अपना परिचय देते हुये कहा कि जब रावण ने सीता को लौटा देने की इनकी सम्मति का निरस्कार किया तो ये श्रीराम की धारण में उपस्थित हुये (६ १७, ११-१७) । इनकी बात सुनकर सुग्रीव ने श्रीराम को इनका समाचार देते हुये इन पर सदेह प्रगट किया (६ १७, १८-२९) । श्रीराम ने सुग्रीव की बात सुनकर अन्य वानरो से इनके सम्बन्ध में परामर्श किया (६ १७, ३२) । अङ्गद ने इनकी परीक्षा लेने का परामर्श दिया (६ १७, ३८-४२) । इसी प्रकार अन्य वानरो ने भी इन पर डाँका प्रगट की (६ १७, ४३-६६) । "श्रीराम धारणाग्न की रक्षा का मङ्गत्व एव अपना व्रत बताकर इनसे मिले (६ १८) । 'आकाश से उतरकर इन्होंने श्रीराम के धरणों में धारण ली और उनके पूठने पर रावण की शक्ति का परिचय दिया । इनकी बात सुनकर श्रीराम ने रावण-वध की प्रतिज्ञा करते हुये इन्हें लङ्का के राज्य पर अभियुक्त करने का वचन दिया (६ १९, १-२६) ।" जब हनुमान् और सुग्रीव ने सागर लङ्घन के सम्बन्ध में इनसे पूछा तो इन्होंने श्रीराम को समुद्र की धारण लेने का परामर्श दिया (६ १९, २८-३०) । सुग्रीव ने इनके इस विचार को श्रीराम से कहा (६ १९, ३२-३३) । श्रीराम ने इनकी सम्मति को स्वीकार किया (६ १९, ३६) । वानर-वेश म छिपकर श्रीराम की सेना का निरीक्षण करते हुये शुक और सारण को पहचान कर इन्होंने श्रीराम को उनकी सूचना दी (६, २५, १३-१४) । श्रीराम ने रावण के गुप्तचरो से कहा कि ये उम्हें पूषरूप से सेना दिला दें (६ २५, १९) । शुक ने रावण को इनका परिचय दिया (६ २८, २६-२७) । 'विभीषणेन सचिवै राक्षसै परिवारित', (६ २८, ६२) । 'भातर च विभीषणम्', (६ २९, १) । रावण के गुप्तचर को इन्होंने देख लिया (६, २९, २४-२५) । इन्होंने श्रीराम से रावण द्वारा किये गये लङ्का के रक्षा प्रवन्ध का वर्णन किया (६, ३७, ६-२५) । श्रीराम ने इन्द्र नगर के बीच के मोर्चे पर नियुक्त किया (६ ३७, ३२) । श्रीराम ने सेनापतियो की नियुक्ति का इनसे वर्णन किया (६ ३७, ३६) । श्रीराम ने इनका अभियेक करने की प्रतिज्ञा की (६ ४१, ७) । श्रीराम की आज्ञा में इन्होंने लङ्का के प्रत्येक द्वार पर एक एक करीब वानरो को नियुक्त कर दिया

(६ ४१, ४३) । 'वर्मात्मा राक्षसघ्नेष्ठ सप्राप्तोऽय विभीषण । लङ्केश्वर्य-
 म्दिद धीमान्ध्रुवं प्राणोत्पकष्टकम् ॥', (६ ४१. ६८) । बस्त्र-शस्त्रो से
 मुसज्जित होकर वे भी श्रीराम के पास खड़े हुये (६ ४२, ३०) । इन्होंने
 राघ्न नामक राक्षस के साथ द्वन्द्व युद्ध किया (६ ४३, ८) । ये भी उस
 स्थान पर आये जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण मूर्च्छित थे और उन लोगों को देखकर
 व्यथित हो उठे (६ ४६, २-७) । इन्होंने माया के प्रभाव से इन्द्रजित्
 को देख लिया (६ ४६, ९-११) । श्रीराम और लक्ष्मण को बाणों से
 व्याप्त देखकर जब सुग्रीव चिन्तित हुये तो इन्होंने उन्हें सान्त्वना दी
 (६ ४६, ३०-४४) । इन्होंने पलायनशील बानर सेना को सान्त्वना दी
 (६ ४६, ४५) । मूर्च्छित लक्ष्मण के लिये विलाप करते हुये श्रीराम ने कहा
 कि वे विभीषण को राक्षसों का राजा नहीं बना सके (६ ४९, २३) ।
 इन्हे हाथ में गदा लिये हुये देखकर जब इन्हें ही इन्द्रजित् समझ बानर
 भागने लगे तो जाम्बवान् ने बानरों को सान्त्वना दी (६ ५०, ७-१२) ।
 श्रीराम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त देखकर ये विलाप करने
 लगे (६ ५०, १३-१९) । सुग्रीव ने इन्हे सान्त्वना दी (६ ५०, २०) ।
 इन्होंने श्रीराम को प्रहस्त का परिचय दिया (६ ५८, ३-४) । इन्होंने
 श्रीराम को कुम्भकर्ण का परिचय दिया (६ ६१, ४-३३) । 'तदिदं
 भामनुप्राप्त विभीषणवच शुभम् । यदज्ञानान्मया तस्य न ग्रहीतं महात्मन ॥',
 (६ ६८, २१) । विभीषणवचस्तावत्कुम्भकर्णप्रहस्तयो । विनादोऽयं
 समुत्पन्नो मा वीडयति दारुणः" (६ ६८, २२) । 'तत्प्रायं कर्मण प्राप्तो
 विषाको मम शोकद । यन्मया धार्मिकः श्रीमान्स निरस्तो विभीषणः ॥',
 (६ ६८, २३) । जब श्रीराम और लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये तो इन्होंने
 बानरों को सान्त्वना दी (६ ७४, २-४) । ये हाथ में मशाल लेकर रणभूमि
 में विचरने लगे (६ ७४, ७) । इन्होंने बानरों को युद्धभूमि में आहूत पड़े
 देखा (६ ७४, ११) । आहूत जाम्बवान् के पास जाकर इन्होंने उनका कुशल
 समाचार पूछा (६ ७४, १५-२१) । 'हृद्यंतमेभ्य शिरसाभिवाद्य विभीषणं तत्र
 च हस्वद्रे ऋ', (६ ७४, ६८) । इन्होंने श्रीराम को इन्द्रजित् की माया का
 रहस्य बताने से सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाया और लक्ष्मण को
 सेना सहित त्रिकुम्भिला के मन्दिर में भेजने का अनुरोध किया (६ ८४) ।
 इनके अनुरोध पर श्रीराम ने लक्ष्मण को इन्द्रजित् के वध के लिये जाने की
 आज्ञा दी (६ ८५, १-२४) । इन्होंने लक्ष्मण के हित के लिये इन्द्रजित् के
 हवन-कर्म की समाप्ति के पूर्व ही उस पर आक्रमण करने का परामर्श
 दिया जिसके अनुसार ही लक्ष्मण ने बाण-वर्षा आरम्भ की (६ ८६, १-६) ।

इन्होंने इन्द्रजित् के साथ रीणपूर्ण वार्तालाप किया (६ ८७) । 'विभीषणवचः श्रुत्वा रावणि क्रोधमूर्च्छित । अब्रवीत्परस्य वाक्यं क्रोधेनाभ्युत्पपात च ॥', (४ ८८, १ । इन्होंने लक्ष्मण को इन्द्रजित् के वध के लिये शीघ्रता करने का परामर्श किया (६ ८८, ४०-४१) । इन्होंने राक्षसों से युद्ध और वानर यूद्धपतियों को प्रोत्साहित किया (६ ८९, १-१९) । इन्होंने भी इन्द्रजित् का वध कर देने पर लक्ष्मण का अभिनन्दन किया (६ ९०, ९१) । लक्ष्मण इनका सहारा लेकर इन्द्रजित् के वध का समाचार देने के लिये श्रीराम के पास आय (६ ९१, ३) । लक्ष्मण ने इनके पराक्रम की श्रीराम से सराहना की (६ ९१, १५) । सुपेण ने इनकी चिकित्सा की जिससे ये स्वस्थ हो गये (६ ९१, २५ २७) । 'विभीषणसहायेन म्रियता नो महाद्युति' (६ ९२, २) । 'धर्मार्थसहित वाक्य सर्वेषा रक्षसा हितम् । युक्त विभीषणेनोक्त मोहात्तस्य न रोचते ॥ विभीषणवचः कुर्याद्यदि स्म धनदानुज ।' (६ ९४, १९-२०) । इन्होंने अपनी गदा से रावण के आश्वो को मार गिराया (६ १००, १७) । रावण ने इनके वध के लिये एक प्रज्वलित शक्ति चलाया (६ १००, १९) । रावण के विरुद्ध युद्ध में लक्ष्मण ने इनकी रक्षा की (६ १००, २४-२५) । रावण वध पर जब ये विलाप करने लगे तब श्रीराम ने इन्हें समझाकर रावण का अन्त्येष्टि-संस्कार करने का आदेश दिया (६ १०९) । मन्दोदरी ने कहा कि इतना बधन युक्ति और प्रयोजन से पूर्ण था (६ १११, ७६) । "श्रीराम ने इन्हें मित्रों को धर्म बंधाने तथा रावण का दाह-संस्कार करने का आदेश दिया । उस समय श्रीराम का मनोरथ जानने के लिये इन्होंने कुछ सकोच प्रकट किया । परन्तु जब श्रीराम ने मृत्यु के साथ ही वर के अन्त का उपदेश देकर रावण के पराक्रम की चर्चा करते हुये उसके दाह-संस्कार का आदेश दिया तब इन्होंने विधिवत् रावण का संस्कार किया (६ १११, ९२-१२२) ।" श्रीराम ने लक्ष्मण को इनका राज्याभिषेक कराने का आदेश दिया जिसपर लक्ष्मण ने इनका अभिषेक सम्पन्न कराया । इन्हें राज्य पर अभिषिक्त हुआ देखकर श्रीराम आदि सब अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ११२, ९-१७) । अपने राज्य को पाकर इन्होंने प्रजा को साग्वना दी और उसके पश्चात् श्रीराम के पास आये (६ ११२, १७) । इन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को माङ्गलिक वस्तुयें भेंट की जिसे उन लोगों ने ग्रहण किया (६ ११२, १९-२०) । श्रीराम ने हनुमान् को इनकी आज्ञा लेकर सीता का कुशल समाचार पूछने के लिये प्रस्थान करने का आदेश दिया (६ ११२, २२) । हनुमान् ने सीता को बताया कि इनकी सहायता से श्रीराम आदिने रावण का वध कर दिया (६ ११३, ८) ।

श्रीराम ने सीता को ले आने के लिये इन्हें आदेश दिया जिमका पालन करते हुये ये सीता को श्रीराम के पास लाये (६ ११४, ६-१६) । श्रीराम की आज्ञा सुनकर इन्होंने तत्काल ही अन्य लोगो को वहाँ में हटाना प्रारम्भ किया (६ ११४, २०) । श्रीराम ने इन्हें इतका निषेध किया (६ ११४, २५) । ये सीता के पीछे-पीछे श्रीराम के पास आये (६ ११४, ३४) । सीता का तिरस्कार करते हुये श्रीराम ने उनसे इच्छानुसार विभीषण के पास भी रहने के लिये कहा (६ ११५, २३) । “इन्होंने प्रातःकाल जब स्नान आदि के लिये जल अङ्गराग तथा वस्त्राभूषण आदि श्रीराम की सेवा में समर्पित किया तो उन्हें अस्वीकार करते हुए श्रीराम ने अयोध्या लौटने की व्यवस्था करने के लिये इन्हे आदेश दिया । उस समय इन्होंने श्रीराम से कुछ दिन और लङ्का में रहकर अपना अतिथ्य ग्रहण करने के लिये कहा परन्तु जब श्रीराम रुकने के लिये प्रस्तुत नहीं हुये तो इन्होंने उनकी यात्रा के लिये पुष्पक विमान मँगाया (६ १२१ १-२३) ।” श्रीराम की आज्ञा से इन्होंने वानरो का विशेष सत्कार किया और उसके पश्चात् स्वयं भी पुष्पक विमान में बैठकर श्रीराम के साथ अयोध्या चलने के लिये प्रस्तुत हुये (६ १२२, १-२४) । अयोध्या लौटते समय श्रीराम ने सीता को वह स्थान दिखाया जहाँ ये उनसे मिले थे (६ १२३, २१-२३) । अयोध्यापुरी का दर्शन करके ये लोग उत्लसित हुये (६ १२३, ५५) । भरत ने श्रीराम की सहायता करने के लिये इन्हे धन्यवाद दिया (६ १२७, ४४) । जब भरत ने श्रीराम को समस्त राज्य सौंपा तो उस मार्मिक दृश्य को देखकर इनके नेत्रों से अश्रु छत्क पड़े (६ १२७, ५४) । अयोध्या में इन्होंने स्नान किया (६ १२८, १४) । ये श्रीराम को चँवर ढलाने लगे (६ १२८, २९-६९) । श्रीराम का राज्याभिषेक देखने के पश्चात् ये लङ्का लौट गये (६ १२८, ९०) । अनल, अनिल, हर और सम्पति, ये चार निशाचर इनके मन्त्री थे (७, ५, ४४) । कैंकसी ने इन्हे जन्म दिया (७ ९, ३४) । ये वचन से ही घर्मात्मा थे (७ ९, ३८) । “ये सदा से घर्मात्मा थे । इन्होंने एक पाँच पर छडे होकर पाँच हजार वर्षों तक तपस्या की । तदनन्तर इन्होंने पुन वपनी योनों यादें और मस्तक उठाकर और पाँच हजार वर्षों तक सूर्य की अराधना की (७, १०, ६-९) ।” इतनी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इन्हे वर माँगने के लिये कहा (७ १०, २७-२८) । इन्होंने केवल यही वर माँगा कि बडी में यडी विपत्ति में पडने पर भी इनकी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे (७, १०, २९-३३) । ब्रह्माने इन्हें मनोवाञ्छित वर देते हुये अमरत्व भी प्रदान किया (७ १०, ३३-३५) । गन्धर्वराज महात्मा शैबूप की कन्या, सरमा, इनकी पत्नी थी (७ १२, २४) । रावण को अत्याचार से विरत करने के

लिये कुबेर ने जो दूत भेजा वह पहले दत्तने ही मित्रा और इन्होंने उसे रावण से मिलाया (७ १३, १३-१४) । "जब रावण ने पुष्पक विमान पर से अपहृत स्त्रियो को उतारा तो इन्होंने उसे परस्त्री-हरण का दोष बताने हुये उपदेश दिया । इन्होंने कहा कि जहाँ वह (रावण) दूसरो की स्त्रियो का अपहरण कर रहा है वहीं मधु ने उसकी वहन, कुम्भीनसी, का अपहरण कर लिया । जब इन्होंने ने कुम्भीनसी का परिचय दिया तो रावण ने मधु पर आक्रमण करने के लिये मधुपुरी के लिये प्रस्थान किया । उस समय ये लड्डा मे ही रह कर धर्म का आचरण करते रहे (७ २५, १७-३५) । इन्होंने श्रीराम से विदा ली (७ ४०, २८) । श्रीराम ने अपने अश्वमेध मे इन्हें भी आमन्त्रित किया (७ ९१, ११) । श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के समय इन्होंने मुनियों के स्वागत-सत्कार का भार संभाला (७ ९१, २९, ९२, ७) । 'श्रीराम ने इन्हें आशीर्वाद देने हुये कहा कि जब तक समार की प्रजा जीवन धारण करेगी, जब तक चन्द्रमा और सूर्य रहेंगे, तब तक ये हम सप्तर मे रहेंगे । तदनन्तर श्रीराम ने इनमे विष्णु की आराधना करने रहने के लिये कहा । इन्होंने श्रीराम की आज्ञा को तिरोघायं किया (७ १०८, २३-२९) । "

विमल, प्रजापति वृषभ के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ६) ।

विमुञ्ज, दक्षिण दिशा के एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये (७ १, ३) ।

विराघ, एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने वध किया (१. १, ४१) । श्रीराम द्वारा इसके वध का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया (१, ३, १७) । "यह पर्वत शिखर के समान ऊँचा, नरभक्षी, और भयकर राक्षस था . 'गभीराक्ष महावक्र विक्कट विक्कटोदरम् । वीभरम विषम दीर्घं विवृत धोर-दर्शनम् ॥ वमान चम वंयाघ्न वमाद्रं रुधिरोधिनम् । त्रासन सर्वभूतानां व्यादि-तास्पमिवान्मन्त्रम् ॥ श्रीःसिंहाशचतुरो व्याघ्रान्द्री वृकी वृषतादस । सविपाण वमादिग्ध गजम्य च शिरो महत् ॥ अवमग्ग्यायसे दूले विनदन्त महास्वनम् ॥' (३ २, ५-७) । "इसने श्रीराम आदि पर आक्रमण किया और सीता को गोद मे लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया । तदनन्तर हमने अपना परिचय देते हुये कहा कि यह सीता को अपनी भार्या बनाकर राम और लक्ष्मण का रक्षण करेगा (३ २, ८-१३) । "श्रीराम ने सीता को इसके चण्ड मे पंथा देववर लक्ष्मण से चिन्ता व्यक्त की जिसपर लक्ष्मण ने राम को प्रोत्साहित करते हुये इसके वध का निश्चय किया (३ २, १४-२६) । "अपना परिचय देते हुये इसने बताया कि यह जब नामक राक्षस का पुत्र है और हमकी माता

का नाम जनहृदा है। इसने यह भी बताया कि ब्रह्मा के परदान से यह अश्वत्थ और अभेद्य हो गया है जिससे कोई भी इसके शरीर को छिन्न-भिन्न नहीं कर सकेगा (३ ३, ५-७)। श्रीराम ने इस पर साठ नागों से प्रहार किया जिससे क्रुद्ध होकर इसने सीता को अलग रख दिया और दोनों आनाओ पर आक्रमण किया तथा अन्ततः अपने बल पराक्रम से उन लोगों को अपने कन्धे पर बैठाकर वन के भीतर चला गया (३ ३, ११-२६)। जब यह श्रीराम और लक्ष्मण को उठा ले गया तब सीता ने विलाप करते हुये इससे राम और लक्ष्मण को मुक्त कर देने का निवेदन किया। (३ ४, १-३)। "सीता का वचन सुनकर राम और लक्ष्मण ने क्रमशः इसकी एक एक भुजायें तोड़ दी और मुष्टि प्रहार आदि में इसे आहन किया परन्तु इस पर भी इसकी मृत्यु नहीं हुई। उस समय श्रीराम ने लक्ष्मण को एक बड़ा गड्ढा खोदने का आदेश दिया जिससे इसे उसी में गाड़ दिया जाय, और स्वयं एक पैर से इसका गला दबाकर खड़े हो गये (३ ४, ५-१२)।" "इसने श्रीराम से कहा 'अब मैं आपको पहचान गया हूँ कि आप श्रीराम हैं और आपके साथ आपका अनुज लक्ष्मण तथा आपकी भार्या सीता हैं। मैं तुम्हारे नामक गन्धर्व हूँ। एक दिन रम्भा नामक अप्सरा मे आसक्त होने के कारण मैं समय से कुवेर की सभा में नहीं पहुँच सका जिस पर कुवेर ने मुझे राक्षस होने का शाप देकर यह भी कहा कि जब श्रीराम मेरा वध कर देंगे तभी मैं पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर लूँगा। अब आज आपकी कृपा से मुझे उस भयकर शाप से मुक्ति मिल गई (३ ४, १३-१९)।" तदनन्तर शरभद्र मुनि का पना बताते हुये इसने राम को उनसे मिलने के लिये कहा और अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग चला गया (३ ४, २०-२३)। श्रीराम और लक्ष्मण ने इसे गड्ढे में गाड़ दिया (३ ४, २४-३३)। 'हत्वा तु त भीमबल विराघ राक्षस वने', (३. ५, १)। 'विराघश्च हत', (५ १६, ८)। 'विराघो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुंगव', (५ २६, १६)। 'विराघ प्रेष्य राक्षसाम्', (६ १४, १३)। अयोध्या लौटते समय श्रीराम ने सीता को वह स्थल दिखाया जहाँ उन्होंने विराघ का वध किया था (६ १२३, ४९)।

विद्युच्च, प्रजापति वृषासख के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित कर दिया (१ २८, ७)।

१. विरूपाक्ष, एक दिग्गज का नाम है जिसने पृथिवी को खोदते समय सगर-पुत्रों ने पृथिवी को धारण किये हुये देखा था (१ ४०, १३-१४)। जिस समय यह एक कर विध्वाम के लिये अपने मस्तक को इधर-उधर हटाता है उस समय भूकम्प होने लगता है (१ ४०, १५)। पूर्व दिशा के रसक

इस विशाल गजराज की प्रदक्षिणा करके सगर-पुत्र रसातल का भेदन करते हुए आगे बढ़े (१ ४०, १६) ।

२ विरूपाक्ष, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् पधे (५ ६, १९) । रावण ने इसे हनुमान् को पकड़ने की आज्ञा दी (५ ४६, २) । यह हनुमान् से युद्ध करने के लिये गया (५ ४६, १५) । इसने हनुमान् पर आक्रमण किया (५ ४६, २७-२८) । हनुमान् ने इसका वध कर दिया (५ ४६, ३०) । यह विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुनज्जित होकर रावण के समीप उास्थित हुआ (६ ९, ३) । 'राक्षस तु विरूपाक्ष महावीर्यपराक्रमम् । मध्यमेऽभ्यापयद्गुल्मे बहुमि सह राक्षसं ॥', (६ ३६, २०) । 'विरूपाक्षस्तु महता शूलमुदगधनुष्मता । बलेन राक्षसं सार्धं मध्यम गुल्ममाश्रित ॥', (६ ३७, १४) । लक्ष्मण ने इसके साथ युद्ध किया (६ ४३, १०) । लक्ष्मण ने इसका वध कर दिया (६ ४३, २६) । 'महोदरं प्रहन्त च विरूपाक्ष च राक्षसम्', (७ १, ३२) । यह माल्यवान का पुत्र था (७ ५, ३६ ?) । जब रावण न ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया तो भारीच आदि के साथ यह भी रसातल में ऊपर उठा (७ ११, २) । देवों के विरुद्ध युद्ध में यह भी रावण के साथ गया (७ २७, २९) ।

३ विरूपाक्ष, एक राक्षस का नाम है जिसे रावण ने युद्ध के लिए आज्ञा दी (६ ९५, ५-९) । रावण की आज्ञा पाकर यह रथ पर आरुढ़ हुआ (६ ९५, ३९) । इसने सुग्रीव से घोर युद्ध किया परन्तु अन्त में सुग्रीव ने इसका वध कर दिया (६ ९६, १४-३५) । इसके वध का समाचार सुनकर रावण क्रुद्ध हुआ (६ ९७, २) ।

विदोचन की पुत्री, मन्वरा, समस्त पृथिवी का विनाश करना चाहती थी जिससे इन्द्र ने उसका वध कर दिया (१ २५, २०) । इनके पुत्र का नाम वलि था जिसने इन्द्र और मरुदुवर्गों सहित समस्त देवों को पराजित करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था (१ २९, ४ १९) ।

विश्वस्यान् कश्यप के पुत्र और वैवस्वत मनु के पिता का नाम है (१ ७०, २०, २ ११०, ६) । पन्द्रहवें प्रजापति का नाम है (३ १४, ९) ।

विशल्या—'सञ्जीवकरणी दिग्भा विशल्यां देवनिर्मिताम्', (६ ५०, ३०) । 'विशान्यकरणो नाम्ना सावर्ण्यकरणो तथा', (६ १०१, ३२) ।


विश्वारथ, स्याणु (महादेव) का अनुसरण करनेवाले एक अग्निहोत्र का नाम है : 'स्याणु देवमिवाचिन्व्य कुमारविव पावकी', (१ २२, ९) ।

१. विशाल, इन्द्राहु क पुत्र का नाम है जो अलम्बुषा से गर्भ से उत्पन्न हुए थे (१ ४७, ११) । इनके पुत्र का नाम हेमचन्द्र था (१ ४७, १२) :

२. विशाल, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने आग लगा दी (५ ५४, १४)

विशाला, गंगा के तट पर स्थित एक पुरी का नाम है जो अपनी सुन्दर शोभा से स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी। इसकी ओर प्रस्थान करते हुये राम लक्ष्मण ने विश्रवामित्र से इसका प्राचीन इतिहास पूछा (१ ४५, ९-१२)। विश्रवामित्र ने इसके प्राचीन इतिहास का वर्णन किया (१ ४५, १३-४५)। इक्ष्वाकुपुत्र विशाल ने इसकी स्थापना की थी (१ ४७, १२)। इस नगरी के राजवंश के सभी नरेश दीषायु, महात्मा, पराश्रमी और परम धार्मिक हुये थे (१ ४७, १८)।

विश्रवा, एक मुनि का नाम है जो रावण के पिता थे (३ १७, २२)। ये पुलस्त्य के मानस पुत्र थे (५ २३, ७)। “राजर्षि तृणविन्दु की कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि पुलस्त्य ने कहा ‘मैं तुम्हारे गुणों से प्रसन्न हूँ, अतः आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ जो पौलस्त्य के नाम से विख्यात होगा। मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विनाश रूप से श्रवण किया इसलिये तुम्हारा वह पुत्र ‘विश्रवा’, या वैश्रवण भी कहलाया। (७ २, ३०-३२)।’ ये वेद के विद्वान्, समदर्शी, तथा व्रत और आचार का पालन करनेवाले थे (७ २, ३४)। ‘योड ममय मे य पिता की भाँति तपस्या मे सलग्न हो गये। इनके उत्तम आचरण को जानकर भरद्वाज ने अपनी कन्या का इनके साथ विवाह कर दिया। तदनन्तर इन्होंने उस कन्या से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसे इनके पिता ने ‘वैश्रवण के नाम से विख्यात होने का आशीर्वाद दिया (७ ३, १-८)।’ अपन पुत्र, वैश्रवण (कुबेर), के पूछने पर इन्होंने उहे विरवकर्मा द्वारा निमित्त लक्षा नगरी का आवास बनाने का परामर्श दिया (७ ३, २४-३१)। श्रीराम ने अगस्त्य से पूछा कि जब राक्षस-कुल की उत्पत्ति विश्रवा से मानी जाती है तो विश्रवा के पूर्व भी लक्ष्मा में निवास करने वाले राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई ? (७ ४, १)। “श्रीराम की जिज्ञासा शान्त करते हुये महर्षि अगस्त्य ने विश्रवा के पूर्व और पश्चात् के राक्षस-वंश का वर्णन करते हुये कहा कि कमल से प्रगट होने के पश्चात् ब्रह्मा ने समुद्र मंथन जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिये जीवों को उत्पन्न किया। वे सब जन्तु भूखे प्यासे थे और उनसे कुछ ने कहा कि वे जल की रक्षा और अन्य ने कहा कि वे उसका यक्षण करेंगे। जिन लोगों ने यक्षण करने की बात कही वे ‘यक्ष’ और जिन्होंने रक्षण की बात कही वे ‘राक्षस’ कहलाये। इन्हीं राक्षसों से आदि राक्षस-वंश का आरम्भ हुआ (७ ४, ९-१३)। तदनन्तर अगस्त्य ने राक्षस-वंश का इस प्रकार वर्णन किया (७ ४-९)



“कुछ काल के बाद जब सुमाली अपनी पुत्री, कंकसी, को लेकर भूतल पर विचरण कर रहा था तो उसने इनका (विश्वरा का) दर्शन करके अपनी पुत्री को इनका ही वरण करने का आदेश दिया। पिता के आदेश पर जब कंकसी इनके समक्ष उपस्थित हुई तो इन्होंने उमका अनिप्राय समझ कर उससे कहा : 'तुम इस दारुण वेला में मेरे पास आई हो अतः तुम क्रूर स्वभाववाले पुत्रों को जन्म दोगी।' इनका यह वचन सुनकर जब कंकसी ने श्रेष्ठ पुत्रों की याचना की तो इन्होंने कहा कि उमका सबसे छोटा पुत्र श्रेष्ठ होगा। (७ ९, ११-२५)।" जब इनके पुत्र, कुबेर (वैश्रवण), ने इनको रावण का सदेश बताया तो इन्होंने उन्हें (कुबेर को) लड्डू छोड़कर कैलास पर्वत पर चले जाने का परामर्श दिया (७ ११, ३७-४५)। रावण ने मयामुर को अपना परिचय देते हुए अपने को इनका पुत्र बताया (७ १२, १५)। रावण को इनसे भू-प्रकृति का होने का शाप मिला था जिससे मयामुर भी परिचित था (७, १२, २०)।

विश्वकर्मा—इन्होंने नल नामक वानर को जन्म दिया (१. १७, १२)। इनका अत्यन्त दारुण अस्र विरवामित्र ने श्रीराम को समर्पित कर दिया (१ २७, १९)। भरद्वाज मुनि ने भरत का सत्कार करने के लिये इनका आवाहन किया (२ ९१, १२)। भरत की सेना ने इनका निर्माण-कौशल देखा (२. ९१, २८-३५)। इनका बनाया हुआ विजयानन्दन मण्ड का सुन्दर, नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित, तथा कैलास पर्वत के समान उज्ज्वल एवं विशाल भवन घाटमली द्वीप के निकट स्थित था (४. ४०, ३८)। इन्होंने चक्रवान् नामक पर्वत पर सहस्रार चक्र का निर्माण किया था (४. ४२, २५)। इन्होंने लड्डूपुरी का निर्माण किया था (५. २, २०)। इन्होंने पुष्पक विमान का निर्माण किया था (५. ९, ११-१५)। अशोकवाटिका में इनके द्वारा निर्मित बड़े-बड़े भवन सुसोभित हो रहे थे (५. १४, ३४)। नल इनके पुत्र थे (६ २२, ४४-५०)। मान्यवान् आदि राक्षसों ने जब इनसे अपने लिये भवन-निर्माण के लिये कहा तो इन्होंने उन सब को अपने द्वारा ही निर्मित दक्षिण समुद्र में स्थित लड्डू में जाने के लिये कहा (७ ५, १९-२९)।

विश्वामित्र, एक अप्सरा का नाम है जिसका भरद्वाज मुनि ने भरत का आतिथ्य-सत्कार करने के लिये आवाहन किया था (२. ९१, १७)।

विश्वामित्र के शाप जाकर श्रीराम और लक्ष्मण ने जो-जो पराक्रम किये, नाना प्रकार की जो लीलायें तथा अद्भुत बातें घटित हुईं उन सबका वाष्पीक ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१ २, ११)। एक दिन जब राजा दशरथ अपने

पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे तब ये उनके पास आये (१ १८, ३८-४३) । ये कठोर व्रत का पालन करनेवाले तपस्वी और अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे (१ १८, ४४) । कुशल समाचार पूछने के पश्चात् दशरथ ने इनके आगमन का प्रयोजन पूछा (१ १८, ४५-६०) । इन्होंने मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षसों का उल्लेख करते हुए उनके वध के लिये दशरथ से श्रीराम को माँगा (१ १९, १-१९) । इनका वचन दशरथ का हृदय विदीर्ण करने वाला था (१ १९, २०-२२) । दशरथ ने पहले इन्हे अपना पुत्र देना अस्वीकार किया जिस पर ये अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे (१, २०, २१, १-३) । इनके क्रुपित होते ही समस्त पृथिवी काँप उठी और देवताओं के मन में भी महान् भय समा गया (१ २१, ४) । वसिष्ठ ने दशरथ से इनकी विभिन्न प्रकार से प्रशंसा करते हुये, श्रीराम को इनके साथ भेज देने के लिये कहा (१ २१, ८-२१) । वसिष्ठ के वचन को सुनकर दशरथ को श्रीराम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज देना रुचिकर लगा (१ २१, २२) । "दशरथ ने स्वस्तिवाचन-पूर्वक राम लक्ष्मण को इनके साथ भेज दिया । मार्ग में राम ने इनसे बला और अनि-बला नामक विद्यायें, जिनका अभ्यास कर लेने से मूल प्यास का कष्ट नहीं होता, ग्रहण कीं (१ २२, १-२१) ।" श्रीराम ने इनकी समस्त गुहजनोचित सेवायें करके सरयू के तट पर इनके स्नेह से युक्त हो निवास किया (१ २२, २२-२३) "राम और लक्ष्मण को इन्होंने गंगा-सरयू सगम के समीप स्थित एक पुण्य आश्रम का परिचय दिया तथा उस आश्रम के निवासी मुनियों ने अपनी दूरदृष्टि से इनका आगमन जानकर इनको अर्घ्य, पाच और अतिपि-सत्कार की सामग्री अर्पित की । विश्वामित्र ने उस आश्रम में मनोहर कथाओं द्वारा राम और लक्ष्मण का मनोरञ्जन करते हुये सुखपूर्वक निवास किया (१ २३) ।" "श्रीराम और लक्ष्मण द्वारा गंगा पार होते समय जल में उठती हुई सुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करने पर इन्होंने उन्हें इसका कारण बताया तथा मलद, बरुण और ताटका वन का परिचय देने हुये ताटका वध के लिये श्रीराम को आज्ञा दी (१ २४) ।" श्रीराम के पूछने पर इन्होंने ताटका की उत्पत्ति, विवाह और पाप आदि का प्रसङ्ग सुनाकर उन्हें ताटका-वध के लिये प्रेरित किया (१ २५) । दशरथ ने श्रीराम को इनकी आज्ञा का पालन करने का उपदेश दिया था जिससे श्रीराम इन ब्रह्मावादी महर्षि की आज्ञा से ताटका वध के लिये उद्यत हुये (१ २६, ३-४) । इन्होंने ताटका को अपनी छुबार से टाँटते हुये राम और लक्ष्मण के बल्याण तथा विजय की कामना की (१ २६, १५) । इन गाधिपुत्र ने मध्याह्न के पूर्व ही ताटका का वध कर देने का

श्रीराम को अगुमनि दी क्योंकि सन्ध्याकाल में राक्षस दुर्बल हो जाते हैं (१ २६ २०-२२) । ताटका वष से प्रसन्न होकर इंद्र आदि देवताओं ने इनकी प्रशंसा करते हुये श्रीराम को अस्त्रदान करने के लिये कहा (१ २६ २७-३१) । इन्होंने राम के माथ ताटकापत्र में रात्रि व्यतीत की (१ २६ ३२-३६) । इन्होंने श्रीराम को त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र, बरुणपाश आदि दिव्यास्त्रों का दान किया (१ २७) । ' इन्होंने श्रीराम को अस्त्रों की संहार-विधि बताया और अग्न्याग्नि अस्त्रों का उपदेश किया । श्रीराम ने इनसे एक आश्रम और यज्ञ स्थान के विषय में प्रश्न पूछा (१ २८) ।' इन्होंने श्रीराम से सिद्धाश्रम का पूर्ववृत्तान्त बताया और राम लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम पर पहुँचकर उनसे पूजित हुये (१ २९) । श्रीराम ने इनके यज्ञ की रक्षा और राक्षसों का विनाश किया (१ ३०) । " इन्होंने राम और लक्ष्मण सहित मिथिला को प्रस्थान किया । मार्ग में संध्या के समय सब ने शीशभद्रनट पर विश्राम किया (१. ३१) ।" इन्होंने श्रीराम से ब्रह्मापुत्र कुश के चार पुत्रों का वर्णन किया, शीशभद्रतटवर्ती प्रदेश को यमु की भूमि बताया, और कुशनाभ की सौ कन्याओं का वायु के कोप से कुम्बों होने का प्रसङ्ग सुनाया (१ ३२) इन्होंने अपने यज्ञ की कथा का वर्णन करने के पश्चात् अर्षरात्रि का वर्णन करके सबको राधन करने का आदेश दिया (१ ३४) । " ये शीशभद्र पार करके गंगातट पर पहुँचे । वहाँ रात्रिवास करते हुये इन्होंने श्रीराम के पूछने पर गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाया (१ ३५) ।" इन्होंने गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा का विस्तृत वृत्तान्त बताते हुये देवताओं का उमा और शिव को सुरतिश्रीडा से निवृत्त करने, तथा उमा द्वारा देवताओं और पृथिवी को क्षाप प्राप्त होने का वर्णन किया (१ ३६) ।" इन्होंने राजा सगर की उत्पत्ति आदि का श्रीराम से वर्णन किया (१ ३८) । राम के पूछने पर इन्होंने इंद्र के द्वारा सगर के यज्ञाश्व के अपहरण, सगर-पुत्रों द्वारा समस्त पृथिवी के भेदन, और देवताओं के ब्रह्मा से यह सब समाचार बताने का वर्णन किया (१. ३९) । ' इन्होंने श्रीराम को सगर-पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा द्वारा देवताओं को क्षान्त करने, सगर के पुत्रों के पृथिवी को खोदते हुये कपिल के पास पहुँचने और उनके रोष से जलकर भस्म हो जाने आदि का विवरण सुनाया (१ ४०) ।" इन्होंने श्रीराम का सगर की आज्ञा से अशुमान् द्वारा रसातल में जाकर यज्ञाश्व को ले जाने और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाने के वृत्तान्त को बताया (१ ४१) । इन्होंने श्रीराम को अशुमान् और भगीरथ की तपस्या, तथा ब्रह्मा द्वारा भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा को धारण करने के लिये भगवान् शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने

के परामर्श की कथा सुनाया (१ ४२) । इन्होंने श्रीराम को भगीरथ की तपस्या से सतुष्ट हुये भगवान् शंकर का गंगा को अपने सर पर धारण करके विन्दु सरोवर में छोड़ने और गङ्गा का सात धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करने की घटनाओं से अवगत कराया (१ ४३) । इन्होंने राम से ब्रह्मा द्वारा भगीरथ की प्रशंसा करते हुये उन्हे गंगाजल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देने, राजा द्वारा वह समस्त कार्य पूर्ण करके अपने नगर को जाने तथा गङ्गावनरण के उपाख्यान की महिमा की कथा का वर्णन किया (१ ४४) । देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर-समुद्र मन्थन, भगवान् रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान् विष्णु के सहयोग से मन्दराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मन्थन, घन्वन्तरि, अप्सरा, वाहणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर-संग्राम में दैत्यों के संहार की कथा को इन्होंने श्रीराम को सुनाया (१ ४५) । विशाला के समीप इनके आगमन का समाचार सुनकर राजा मुमति स्वयं इनके स्वागत के लिये उपस्थित हुये (१ ४५, २०) । इन्होंने मुमति को श्रीराम और लक्ष्मण का परिचय दिया (१ ४८, ७) । श्रीराम के पूछने पर इन्होंने गौतम के आश्रम तथा अहल्या के शापग्रस्त होने की कथा सुनाया (१. ४८, ११-३४) । इन्होंने गौतम के नाप द्वारा इंद्र के अण्डकोश-रहित होने, पितृ देवताओं द्वारा उन्हें भेड़ों का अण्डकोश लगाने आदि की कथा का श्रीराम से वर्णन किया (१ ४९, १-१३) । ये राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मिथिला-नरेश के यज्ञमण्डप में पहुँचे (१ ५०, १) । राजा जनक ने इनका स्वागत करते हुये इन्हें अर्घ्य समर्पित किया (१ ५०, ७) । जनक ने इन्हें मुनीश्वरों के साथ उत्तम आसन पर विराजमान होने के लिये कहा (१ ५०, १०) । जनक ने इनसे मिथिला में रुक्मर यज्ञ में पधारनेवाले देवताओं का दर्शन करने के लिये कहा (१. ५०, १२-१५) । जनक के पूछने पर इन्होंने राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुये दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, विशाला के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार आदि का वर्णन किया (१ ५०, २२-२५) । महर्षि वसिष्ठ ने इनका सत्कार करते हुये कामधेनु को अभीष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश दिया (१ ५२) । उत्तम अन्नपान द्वारा सेना सहित तृप्त होकर इन्होंने वसिष्ठ में उनकी कामधेनु को माँगा परन्तु वसिष्ठ ने अस्वाँकार कर दिया (१. ५३) । इन्होंने वसिष्ठ की गाय को बलपूर्वक लँ जाने का प्रयास किया (१. ५४, १-२) । इन्होंने वसिष्ठ की गाय, कामधेनु, द्वारा उत्पन्न गैरिकी को सर्वथा नष्ट कर दिया (१ ५४, १९-२३) । वसिष्ठ द्वारा अपनी सेना तथा सौ पृत्रों का सहार दृशा देखकर ये अत्यन्त खिन्न हुये

और अपने एक मात्र वधे हुए पुत्र को राज्य देकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिये चले गये (१. ५५, ६-१२) । इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव ने इनसे वर माँगने के लिये कहा तो इन्होंने महादेव से विविध प्रकार के अस्त्रों की याचना की (१. १५, १३-१८) । तदनन्तर ये वसिष्ठ के आश्रम पर जाकर विविध प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे जिससे वह आश्रम जन-शून्य हो गया (१. ५५, २१-२४) । इन्होंने वसिष्ठ पर मानव, मोहन, गान्धर्व, स्वापन, जम्भज, मादन, सन्तापन, त्रिणापन, शोषण, विदारण, मुद्गुर्य वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, चारुणपाश, शुक्रांशु अतनि, दण्डास्त्र, पंशाशास्त्र, क्रीडास्त्र, घमचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्यास्त्र, मन्वनाम्ब, ह्यशिरा, शक्तिद्वय, ककाल, मुमल, वैद्याधरास्त्र, कालास्त्र, त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र, ककपास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, परन्तु जब वसिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड से उन सबका शमन कर दिया तब इन्होंने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिये तप करने का निश्चय किया (१. ५६) । इन्होंने वसिष्ठ से पराजित होने के पश्चात् दक्षिण दिशा में जाकर भयकर तपस्या आरम्भ की और वहीं चार पुत्र उत्पन्न किये (१. ५७, १-३) । ब्रह्मा ने इन्हें राजर्षि माना (१. ५७ ५) । जब ब्रह्मा इन्हें राजर्षि कहकर अन्वर्षान हो गये तो ये पुत्र घोर तपस्या करने लगे (१. ५७, ७-९) । इन्होंने त्रिसङ्कु का यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया (१. ५८, १३-१६) । इन्होंने त्रिसङ्कु का यज्ञ पूर्ण करने का आश्वासन देते हुए ऋषि-मुनियों को आमन्त्रित किया और जिन्होंने इनके आमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया उन्हें शाप देकर नष्ट कर दिया (१. ५९) । इन्होंने त्रिसङ्कु का यज्ञ सम्पन्न करके उन्हें मशरीर स्वर्ग भेजा किन्तु इंद्र द्वारा उन्हें स्वर्ग से गिरा दिये जाने पर खुब होकर इन्होंने एक नूतन देवसर्ग का निर्माण करने का निश्चय किया परन्तु देवताओं के अनुरोध से इम नायं से विरत हुए (१. ६०) । इन्होंने पुष्कर शीर्ष में जाकर तपस्या की (१. ६१, १-४) । राजा अम्बरीष, ऋचीक के मध्यम पुत्र शुन शोष को यज्ञाश्व बनाने के लिये खरीद कर इनके आश्रम के निकट आये और वही विश्राम करने लगे (१. ६२, १) । शुन शोष ने इनसे अपनी रक्षा की याचना की जिससे द्रवित होकर इन्होंने शुन-शोष की रक्षा का सफल प्रयत्न किया और तदनन्तर एक सहस्र वर्ष तक घोर तपस्या की (१. ६२) । इन्होंने तपस्या से ऋषि एष महर्षि पद की प्राप्ति की परन्तु मेनका द्वारा उपोमद्ग हो जाने पर हिमवान् पर्वत पर जाकर ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिये पुन घोर तपस्या आरम्भ कर दी (१. ६३) । इन्होंने रम्मा को शाप देकर पुन घोर तपस्या की बीसा ली (१. ६४) । "इन्होंने घोर तपस्या करके

ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की । राजा जनक ने इनकी प्रशंसा की तथा इनकी आज्ञा से राजभवन लोटे (१ ६५) ।" जनक ने राम और लक्ष्मण सहित इनका स्वागत करके अपने यहाँ रक्ते हुये धनुष का परिचय दिया और धनुष चढ़ा देने पर श्रीराम के साथ भीता के विवाह का निश्चय प्रगट किया (१ ६६) । "इनकी आज्ञा से राजा जनक ने वह दिव्य धनुष सभाभवन में भंगवाया । श्रीराम द्वारा धनुर्भङ्ग कर देने पर इन्होंने जनक को दशरथ को बुलाने के लिये मन्त्रियों को भेजने की आज्ञा दी (१ ६७, ६८, ८-१३ १५) । इन्होंने भरत और शत्रुघ्न के लिये कुशध्वज की कन्याओं का वरण किया जिसको जनक ने स्वीकार कर लिया (१ ७२, १-१६) । वसिष्ठ मुनि ने इनके महयोग से श्रीराम आदि के विवाह के समय विवाह मण्डप के मध्यभाग में विधिपूर्वक वेदी का निर्माण किया (१ ७३, १८) । श्रीराम आदि चारों भ्राताओं का विवाह-कार्य पूर्ण हो जाने पर ये जनक और दशरथ से अनुमति लेकर उत्तर-पर्वत पर चले गये (१ ७४, १-२) । 'ब्राह्मणोऽनीति पूज्यो मे विश्वामित्र इत्तेन च' (१ ७६, ६) । 'विश्वामित्रेण सहितो यज्ञ इष्टु समागत', (२ ११८, ४४) । 'विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा', (२ ११८, ४१) । मारीच ने इनके आश्रम की रक्षा करते समय श्रीराम के पराक्रम सम्बन्धी अपने अनुभवों को रावण से बताया (३ ३८, ३-१२) । "तारा ने लक्ष्मण को बताया कि विश्वामित्र ने धृताची नामक वनसरा में आसक्त होने के कारण दस वर्षों के समय को एक दिन ही माना था । काल का ज्ञान रखनेवाले श्रेष्ठ और महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब मोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया तब फिर दूसरे साधारण प्राणियों को कैसे रह सकता है (४ ३५ ७-८) ।" श्रीराम के अवोढ्या लोटने पर अन्य सप्तपियों के साथ ये भी उनके अभिनन्दन के लिये उपस्थित हुये (७ १, ५) ।

विश्वेदेव, देवों के एक वर्ग का नाम है जो मेरु पर्वत पर आकर सूर्यदेव का उपस्थान करते थे (४ ४२, ३९) । श्रीराम की सभा में उपपन्न ग्रहण के समय अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये सीता ने इनका भी आवाहन किया (७ ९७, ८) ।

विश्र्वायसु, एव देव-गन्धर्व का नाम है । भरद्वाज मुनि ने भरत का आतिथ्य-मत्कार करने के लिये इनका आवाहन किया था (२ ९१, १६) । 'विश्र्वायसुनियेदिते', (५ १, १७८) ।

विष्णु—गहड़ पर आरूढ़ होकर ये भी दशरथ के दण्डदल पर पधारे - 'एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरपमानो महाद्युति । शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवामा जगत्पति ॥ वैनतेय समाह्वय भास्करस्तोषद यथा ।', (१ १५, १६) । देवों आदि की

स्तुति को सुनकर इन्होंने रावणवध का आश्वस्तन देते हुये मनुष्य रूप में जन्म लेने के सम्बन्ध में विचार किया (१ १५, २६-२९) । इन्होंने देवों से रावणवध का उपाय पूछा (१. १६, १-२) । राजा दशरथ को अपना पिता बनाने का निश्चय प्रगट करने के पश्चात् वे वहाँ से अन्तर्धान हो गये (१ १६, ८-१०) । इनके दशरथ के पुत्रभाव को प्राप्त हो जान के पश्चात् ब्रह्मा ने देवताओं को इनकी सहायता के लिये वानररूपी सन्तान उत्पन्न करने का आदेश दिया (१ १७, १-४) । सुक्राचार्य की माना तथा भृगु की परनी त्रिमुषन को इन्द्र से शून्य कर देना चाहती थी जिसमें इन्होंने उनका वध कर दिया (१ २५, २१) । इन्होंने सिद्धाश्रम में बहुत समय तक तपस्या की (१ २९, २) । अग्नि आदि देवताओं ने बलि के यज्ञ में वामन रूप धारण करके जाने के लिये इनमें प्रार्थना की (१ २९, ६-९) । 'य अदिति के गर्भ से प्रगट हुये और वामन रूप धारण करके बलि के पास गये । इन्होंने बलि में तीन पग भूमि की याचना करके तीनों लोकों को आक्रान्त कर लिया और पुन त्रिलोकी को इन्द्र को लौटा दिया (१, २९, १९-२१) ।' समुद्र-मन्थन से हलाहल के प्राप्त होने पर वे शङ्ख चक्र धारण करके प्रगट हुये और उन हलाहल को भगवान् रुद्र का भाग बनाकर अन्तर्धान हो गये (१. ४५, २२-२५) । इन्होंने (हृषीकेश) कच्छप का रूप धारण करके मन्दराचल को अपनी पीठ पर उठाया (१ ४५, २९) । परशुगम के पास जो वृष्णव धनुष था उसे पूर्वकाल में देवताओं ने विष्णु को दिया था (१ ७५, १२-१३) । 'विमु श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः' (१ ७७, ३०) । श्रीराम साक्षात् विष्णु थे जो परम प्रवण्ड रावण के वध की अभिलाषा रखनेवाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्यलोक में अवतीर्ण हुये थे (२ १. ७) । 'साक्षाद्विष्णुरिव', (२ २, ४५) । कौसल्या ने पुत्र की मङ्गलवामना के लिये प्राण-कल विष्णु की पूजा की (२ २०, १४) । कौसल्या ने कहा कि तीन पगों को बढ़ाते हुये अनुपम तेजस्वी विष्णु के लिये जो मङ्गलाशंसा की गई थी वही श्रीराम को भी प्राप्त हो (२ २५, ३५) । श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १७) । महर्षि अगस्त्य ने इनका धनुष श्रीराम को प्रदान किया (३ १२, ३२-३७) । लक्ष्मण ने श्रीराम को बताया कि जिस प्रकार भगवान् विष्णु ने बलि को बाँधकर यह पृथिवी प्राप्त कर ली थी उगी प्रकार वे भी मिथिलेशकुमारी सीता को प्राप्त कर लेंगे (३ ६१, २४) । वामनावतार के समय इन्होंने जहाँ-जहाँ अपने तीन पग रखे उन स्थानों का सम्पाति को जान था (४ ५८, १३) । इनके वच्य से किमो समय रावण को मुत्रायें क्षत विघ्न हो चुकी थी (५. १०, १६) । 'असुरेभ्य धिय दीप्ता विष्णुर्त्रिभिरिव क्रमैः' (५. २१ २८) इनके अधिपतनीय अरा

से अपना चिन्तन करके लक्ष्मण स्वस्थ हो गये (६ ५९, १२२) सुवेश के पुत्रों से प्रसन्न होकर देवगण इनकी शरण में आये (७ ६, १२-१८) । इन्होंने राक्षसों का निवास करने का आश्वासन दिया (७ ६, १९-२१) । हिरण्यकनिषु आदि अनेक राक्षसों और दैत्यों का इन्होंने वध किया था (७ ६, ३४-३८) । 'विष्णुर्द्वेषस्य नास्तेव कारण राक्षसेश्वर । देवानामेव विष्णो प्रचलित मन ॥', (७ ६, ४३) । ये राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिये गहड़ पर आसूड होकर आये (७ ६, ६२-६९) । इन्होंने माल्यवान् आदि राक्षसों की सेना का भीषण सहार किया (७ ७) । माल्यवान् ने इनके साथ युद्ध किया परन्तु पराजित होकर सुमाली आदि समस्त राक्षसों सहित रसातल में प्रवेश कर गया (७ ८) । रावण ने जय ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया तो सुमाली आदि राक्षसों ने इनके भय को समाप्त समझा (७ ११, ५-६) । 'निहय तास्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना । देवाना वशमानीत त्रैलोक्य-मिदमव्यय ॥', (७ ११, १८) । जब रावण ने इन्द्रलोक पर आक्रमण किया तो इन्द्र इनकी शरण में आये । उस समय वरदान से रक्षित होने के कारण रावण-वध करने में अपनी अममर्यता व्यक्त करते हुये उचिन्तन समय पर रावण-वध करने का आश्वासन दिया (७ २७, ७-२०) । "एक समय जब भृगुपत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया तो क्रुपित होकर इन्होंने अपने चक्र से उनका सर काट दिया । अपनी पत्नी का वध हुआ देखकर भृगु ने इन्हें शाप दिया कि इन्हें मनुष्य लोक में जन्म लेकर वर्षों तक पत्नी-वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा । इस प्रकार शाप देकर भृगु को परचाताप हुआ और उन्होंने इन्हीं की अराधना की । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उनका शाप ग्रहण किया । तदनन्तर इन्हीं विष्णु ने श्रीराम के रूप में मनुष्य लोक में अवतार लिया अतः यहाँ उन्हें पति वियोग का कष्ट सहन करना पड़ा (७ ५१, १३-२१) । "एक एव प्रजानानि विष्णुस्तेजोमय शरम् । एषा एव तनु पूर्वा विष्णोस्तस्य महात्मन ॥" (७ ६९, २८) । वृत्रासुर के वध का निवारण कराने के लिये जय इन्द्र सहित ममस्त देवता इनकी शरण में आये तो इन्होंने वृत्र के साथ स्नेहवन्धन में बँधे होने के कारण स्वयं वृत्र-वध में असमर्थता प्रगट करने हुये अपने तेज का एक अंग इन्द्र में और एक अन्य उनके वक्ष में प्रवेश कराकर इन्द्र को ही वृत्र का वध करने का आदेश दिया (७ ८५, ३-९) । वृत्र का वध हो जाने पर अग्नि आदि देवताओं ने इनकी स्तुति करते हुये इन्द्र को ब्रह्महत्या में मुक्त कराने का उपाय पूछा जिसपर इन्होंने इन्द्र को अपना (विष्णु का) ही वजन करने का परामर्श दिया (७, ८५, १९-२२) । ब्रह्मा का सदेव देने हुये बाल ने श्रीराम को बताया कि प्राणियों की रक्षा के लिये

विष्णु ही उनके रूप में प्रगट हुये हैं (७ १०४, ९) । लक्ष्मण इनके चतुर्य अंग थे (७ १०६, १८) । जब श्रीराम सरयू के जल में प्रवेश करने के लिये आगे बढ़े तो ब्रह्मा ने कहा 'विष्णुस्वरूप रघुन्दन । आइये, आपका कल्याण हो' (७ ११०, ८) । ब्रह्मा की बात सुनकर भ्रान्ताओ सहित श्रीराम ने सर्गार वैष्णवतेज में प्रवेश किया (७ ११०, १२) । 'अथ विष्णुमंहातेजा पितामहमुवाच ह । एषा लोक जनोधाना दातुमर्हसि सुप्रत ॥', (७ ११०, १६) । 'चञ्चूत्वा विष्णुवचनं ब्रह्मा लोकगुरु प्रभु । लोकान्सतानकाभ्राम यास्यन्तीमेसमागता ॥', (७ ११०, १८) । 'तत प्रतिष्ठितो विष्णु स्वर्गलोके यथा पुरा । येन व्याप्तमिद सर्वं त्रैलोक्य सचराचरम् ॥', (७ १११, २) । 'यन्मिद रघुनायस्य चरित सकल पठेत् । सोऽमुष्ये विष्णुलोक गच्छत्येव न सशय ॥', (७ १११, २१, गीता प्रेस संस्करण) । 'पिता पितामहस्तस्यतथैव प्रपितामह । तत्पिता तत्पिता चैव विष्णु मांति न सशय ॥', (७ १११, २२ गीताप्रेस संस्करण) ।

विहंगम, एक राक्षस का नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध के लिये सर के साथ आया (३ २३, ३२) । सर के साथ इसने श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २६) । श्रीराम ने इसका वध कर दिया (३ २६, २९-३५) ।

धीरवाहु, एक वानर प्रमुख का नाम है । किष्किन्वा पुरी की शोभा देखते हुये लक्ष्मण ने इनके भवन को देखा (४ ३३, १०) ।

धृतिमान्, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अत्र का नाम है जिसको विरवामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१. २८, ७) ।

धृत्र, एक असुर का नाम है जिसका वध करने के पश्चात् देवराज इन्द्र मल से लिप्त हो गये थे । (१. २४, १८) । कौसल्या ने कहा कि धृत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेवगण्डिन इन्द्र को जो मंगल प्राप्त हुआ था वही श्रीराम को भी प्राप्त हो (२ २५, ३२) । सुग्रीव ने श्रीराम को बताया कि जैसे धृत्रासुर का वध करने से इन्द्र पाप के भागी हुये थे उसी प्रकार वे भी अपने भ्राता, वाल्मि, का वध कराकर पाप के भागी हुये हैं (४. २४, १३) । "लक्ष्मण ने अरबमेघ के माहात्म्य का वर्णन करते हुये श्रीराम को इन्द्र धीर धृत्रासुर की कथा सुनाया । उन्होंने कहा पूर्वकाल में धृत्रासुर लोको को सन्त करने लगा । वृत्र के भय से पृथिवी उसके राज्य में बिना जीते-जीते ही अत्र उत्पन्न करती थी । कुछ काल के बाद जब धृत्र ने तपस्या आरम्भ की तब देवताओ सहित इन्द्र ने विष्णु की शरण में आकर वृत्र से रक्षा करने का अनुरोध किया (७ ८४, ४-१८) ।" "श्रीराम के पूछने पर लक्ष्मण ने कहा विष्णु ने अपने तेज का एक अंग इन्द्र में और एक उनके वज्र में प्रवेश

कराकर इन्द्र को वृत्र का वध करने के लिये कहा । विष्णु के तेज से समुक्त होकर इन्द्र आदि देवता उस स्थान पर आये जहाँ वृत्र तप कर रहा था । वहाँ इन्द्र ने वज्र से वृत्र का वध कर दिया । तदनन्तर यह सोच कर कि निरपराध वृत्र का वध उचित नहीं था, चिन्तित इन्द्र भ्रन्धकारमय प्रदेश में चले गये (७ ८५, ३-१५) । "हनश्चाय त्वया वृत्रो ब्रह्महत्या च वासवम्", (७. ८५, १९) ।

वृषपर्वन्, शर्मिष्ठा के पिता का नाम है (७ ५८, ८) ।

वृषभ को सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये दक्षिण दिशा में भेजा (४ ४१, ३) ।

वेगदर्शी, एक वानर का नाम है जिन्हे वानरी सेना के पृष्ठभाग की रक्षा के लिये नियुक्त किया गया (६ ४, २१) । ये सेना के कुक्षिभाग की रक्षा के लिये नियुक्त हुये (६ २४, १८) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत कर दिया (६ ७३, ५७) । ये युद्ध भूमि में आहत पड़े थे (६ ७४, १०) । इन्होंने कुपिन होकर कुम्भकर्ण-कुमार पर आक्रमण किया (६ ७६, ६२) । श्रीराम के अभिषेक के लिये ये चारों समुद्रों और पाँच सौ नदियों का जल लाये (६ १२८, ५२) ।

वेदवती—पूर्वकाल में, बलात्कार करने के कारण, इन्होंने रावण को शाप दे दिया था (६ ६०, १०) । "एक समय रावण ने हिमालय के वन में आकार एक तपस्वी कन्या को देखा । रावण द्वारा परिचय पूछने पर उस कन्या ने कहा 'बृहस्पति-पुत्र कुण्डवज्र मेरे पिता थे और मेरा नाम वेदवती है । मेरे पिता की इच्छा थी कि विष्णु ही उनके जामाता हों । इस पर क्रुद्ध होकर दैत्यराज शम्भु ने मेरे पिता का सोते समय वध कर दिया । उस समय मैं अपने पिता के घब के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई । सबसे मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि विष्णु के प्रति मेरे पिता का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूँगी । यही प्रतिज्ञा करके मैं तपस्या कर रही हूँ । नारायण ही मेरे पति हैं । मैंने आपको पहचान लिया है क्योंकि तपस्या के प्रभाव से मैं त्रिलोकी की समस्त वस्तुओं की जानती हूँ ।' (७ १७, १-१९) ।" जब रावण ने इन्हे प्रचोभन देते हुये अपनी भार्या बनाने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उसे शम्भोकार कर दिया (७ १७, २५-२६) । जब बलात्कार करने की इच्छा से रावण ने हनशा वेश पकड़ लिया तो इन्होंने अपने हाथों से धरना बँग बाटते हुये रावण को यह शाप दिया कि उसने वध के लिये ये पुन जन्म लेंगी (७ १७, २७-३३) । तदनन्तर ये अग्नि में प्रवेश कर गई (७ १७ ३४) । "दूमरे जन्म में ये एक कमल से प्रगट हुई । उस समय रावण इन्हें पुन प्राप्त

करके अपने घर लाया किन्तु मन्त्रियों ने जब बताया कि वह कन्या उसकी मृत्यु का कारण होगी तो उसने उसे समुद्र में फेंक दिया (७ १७, ३५-३९, गीता प्रेस संस्करण)। यही वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत होकर विष्णु के अवतार, श्रीराम, की पत्नी बनी (७ १७, ३५)। इन्होंने श्रीराम के शत्रु, रावण को अपने शाप से पहले ही मार डाला था (७. १७, ३६)। इस प्रकार ये देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण-वध के लिये अवतीर्ण होती रहेंगी (७. १७, ३७)। "ये वेदवती पहले सत्ययुग में प्रगट हुईं। फिर त्रेता में रावण वध के लिये सीता के रूप में अवतीर्ण हुईं। सीता (हल जोतने से भूमि पर बनी रेखा) से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इन्हें 'सीता' कहते हैं (७ १७, ४३-४४, गीता प्रेस संस्करण)।" इनके अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुनः पृथिवी पर भ्रमण करने लगा (७ १८, १)।

वेदध्रति, एक नदी का नाम है जिस पार करके श्रीराम आदि अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा को ओर बढ (२. ४९, ९)।

वैखानस, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने धारभङ्ग मुनि के स्वर्गलोक चले जाने के परवान् श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३. ६, २ ८-२६)। ये लोग मैनाक पर्वत के उस पार निवास करते थे (४ ४३, ३२)।

वैजयन्त, राजा निमि की राजधानी का नाम है (७ ५५, ६)।

वैदर्भी, विदर्भ देश की राजकुमारी, कुसुमा की पत्नी, का नाम है जिसके गर्भ में चार पुत्र उत्पन्न हुये (१. ३२, २)।

वैद्युत, एक पर्वत का नाम है जो सूर्यवान् के उस पार स्थित था। सुग्रीव ने इसके क्षेप में सीता की खोज के लिये हनुमान् आदि बानरों को भेजा था (४. ४१, ३३)।

श

शकुन, प्रजापति इन्द्राग्नि के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ६)।

शक्ति, एक महर्षि का नाम है जो सीता के अपहरण की देखने के लिये श्रीराम की सभा में उपस्थित हुये (७. ९६, १)।

शङ्ख, धन के अग्निष्ठाता देवता का नाम है (७ १५, १७)।

शङ्खपाद, कल्पापाद के पुत्र और सुदर्शन के पिता, एक सूर्यवंशी राजा का नाम है (१ ७०, ४०-४१, २. ११०, २७-२८)।

शङ्खचूड—सुग्रीव को विदा करते हुये श्रीराम ने इनपर प्रेमपूर्ण दृष्टि रखने के लिये कहा (७. ४०, ७)।

शङ्ख, एक राक्षस का नाम है जिसके नदन में सीता की खोज करते हुये हनुमान् गये थे (५. ६, २४)।

शतद्रु, एक नदी का नाम है जिसे केकय से लौटते समय भरत ने पार किया था (२ ७१, २) ।

शतबलि, एक वानर-भूषण का नाम है जो दस बरब वानरो के साथ सुग्रीव के पाम आये (४ ३९, १४) । सीता को खोज के लिये सुग्रीव ने इन्हें उत्तर दिशा की ओर भेजा (४ ४३, १) । इन्होंने सीता को खोज के लिये उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया (४ ४५, ४) । ये उत्तर दिशा में सीता की निष्फल खोज करके लौट आये (४ ४७, ८) । "ये अत्यन्त बन्वान् और विजय की प्राप्ति के लिये सदैव सूर्यदेव की उपासना करते थे । ये श्रीराम का प्रिय करने के लिये अपने प्राणों की भी चिन्ता नहीं करते थे (६ २७, ४३-४५) ।" ये भी श्रीराम की रक्षा करने लगे (६ ४७, २) । सुग्रीव को विदा करते हुये श्रीराम ने इन पर प्रेमपूर्ण दृष्टि रखने के लिये कहा (७. ४०, ५) ।

शतवन्ध्र, प्रजापति वृषाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिने विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ५) ।

शतहृदा, विराट की माता, एक राक्षसी का नाम है (३ ३, ५) ।

शतानन्द, गौतम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है जो विश्वामित्र द्वारा अहम्या के उद्धार का समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और विश्वामित्र से सपस्त वृत्तान्त विस्तार से वर्णन करने के लिये कहा (१ ५१, १-९) । इन्होंने श्रीराम का अभिनन्दन करते हुये विश्वामित्र के पूर्वं चरित्र का वर्णन किया (१ ५१, १०-२८, ५२-६५) । इन्होंने राजा जनक को विश्वामित्र की घोर तपस्या और ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की कथा सुनायी (१ ६५ १-२८) । 'शतानन्दमते स्थित', (१ ६८, १३) । ये राजा जनक के पुरोहित थे (१ ७० १ ५ ९) । 'शतानन्द च धामिहम्', (१ ७३, १८) । सीता के शपथ ग्रहण को देखने के लिये ये भी श्रीराम की सभा में उपस्थित हुये (७ ९६, ४) ।

शतोदर, प्रजापति वृषाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिने विश्वामित्र ने श्रीराम का समर्पित किया था (१ २८, ५) ।

शत्रुघाती, शत्रुघ्न के पुत्र का नाम है जो बिदिगा के राजा हुये (७ १०८, १०-११) ।

१. शत्रुघ्न, श्रीराम के भ्राता का नाम है जिसको श्रीराम ने लक्ष्मण के साथ म रामायण काव्य को सुनने के लिये कहा (१ ४, ३१) । ये अश्वत्थ नक्षत्र और बृहस्पति म सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुये थे (१ १८, १३-१४) । य भरत को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे (१ १८, ३३) । विश्वामित्र ने इनके

लिये कुशावज की बग्या का धरण किया (१. ७२, ६-८) । जनक ने इन्हें कुशावज की पुत्री को समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की (१. ७२, ११) । जनक ने श्रुतकीर्ति का इनके साथ विदाह कर दिया (१. ७२, ३०) । दशरथ की आज्ञा से ये अपने भ्राता भरत के साथ उनके मामा युवाजिन् के साथ वैक्य गये (१. ७७, १८-२०, २, १) । दशरथ परग के समान पराक्रमी अपने पुत्र शत्रुघ्न का सर्वत्र स्मरण किया करते थे (२. १, ४) । ये भरत का अनुसरण करते थे (२. ८, ६-२९) । 'विप्रकृष्टे ह्यह देशे शत्रुघ्न-सहितोऽवसत्', (२. ७५, २) । इन्होंने कौसल्या को दुःख से व्याकुल और अचेत होकर पृथिवी पर पड़ा देखा और दुःखित होकर दौड़कर उनके पास चले गये (२. ७५, ८) । भरत को शोक में डूबा हुआ देखकर ये अपने गिता दशरथ का बार-बार स्मरण करते हुये अचेत होकर पृथिवी पर गिर पड़े (२. ७७, ११) । सुमन्त्र ने दशरथ की चिताभूमि पर विलाप करते हुये इन्हें उठाकर इनके चित्त को शान्त किया (२. ७७, २४) । राम आदि के वनवास में दुःखित होकर इन्होंने शोक प्रकट करते हुये इस कार्य के मूलकारण, कुब्जा, को घसीटा और भरत के कहने से उसे मूर्च्छित अवस्था में छोड़ दिया (२. ७८) । वसिष्ठ ने इन्हें सभामवन में बुलाने के लिये दूतों को भेजा (२. ८१, १३) । 'शत्रुघ्नेन सम श्रीमान्ब्रह्मण पुनरागमत्' (२. ८५, १५) । गृह के मुख से श्रीराम का समाचार सुनकर मूर्च्छित हुये भरत को देखकर ये शोक से पीड़ित हो अचेत हो गये (२. ८७, ५) । ये गंगा पार होने के लिये स्वस्तिक-नौका में आरोहण हुये (२. ८९, १३) । भरत ने भरद्वाज मुनि को इनका परिचय दिया (२. ९२, २३) । 'भरतो भ्रातर वाक्य शत्रुघ्नमिदमब्रवीत्', (२. ९८, २) । भरत आदि के साथ ये भी श्रीराम के आश्रम की ओर गये (२. ९९, ३-८) । 'शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु संकृत', (२. १०३, १०) । 'शत्रुघ्न-स्वतुलमति', (२. १०७, १९) । श्रीराम की चरणपादुकाओं को लिये हुये भरत के साथ ये रषारुढ होकर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए (२. ११३, १) । ये अयोध्या से नन्दिग्राम जाने के लिये भरत के साथ रषारुढ ही प्रस्थित हुये (२. ११५, ८-९) । श्रीराम ने पञ्चवटी में उस दिन का उत्सुकतापूर्वक स्मरण किया जब वनवास की अवधि समाप्त होने पर वे इनसे मिलेंगे (३. १६, ४०) । लक्ष्मण के मूर्च्छित हो जाने पर श्रीराम ने इनका स्मरण किया (६. ४९, १०) । श्रीराम के आगमन का समाचार सुनकर भरत ने उनके स्वागत के लिये तैयारी करने का इन्हें आदेश दिया (६. १२७, १) । इन्होंने श्रीराम के आगमन-मय आदि को डीक करने, भवनों को सजाने तथा अन्य व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक आदेश दिए (६. १२७, ५-१०) । इन्होंने श्रीराम और

लक्ष्मण को प्रणाम करने के पश्चान् सीता के चरणों में मस्तक झुकाया (६ १२७, १५) । इन्होंने निपुण नाइयो को बुलवाया और श्रीराम आदि के शृङ्गार कर लेने के पश्चान् मुमन्त्र को रथ लाने के लिये कहा (६ १२८, १३ १९) । इन्होंने सुग्रीव के लिये विविध सामग्रियाँ लाने की आज्ञा दी (६ १२८, ४७) । 'भरतो लक्ष्मणश्चात्र शत्रुघ्नश्च महायशा । उजातावक्रिरे हृष्टा वदाम्त्रय इवाध्वरम् ॥' (७ ३७, १७) । 'भरतो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्नश्च महाबलः', (७ ३९, ११) । सीता-सम्बन्धी लोभापवाद पर परामर्श क लिये श्रीराम ने इन्हें बुलाया (७ ४४, २) ये श्रीराम का मदेश पाकर उनके भवन की ओर चल दिये (७ ४४, ९-१०) । श्रीराम के पूछने पर इन्होंने स्वयं लवणामुर का वध करन का प्रबल आप्रह किया (७ ६२, १०-१४) । इनका वचन सुनकर श्रीराम ने इन्हें मधुपुर के राजा के पद पर अभिषिक्त करने का प्रस्ताव करते हुये अभिषेक स्वीकार करने का इनसे आप्रह किया (७ ६२, १५-२१) । श्रीराम का वचन सुनकर ये लज्जित हुये और अत्यन्त सकोचपूर्वक ही उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया (७ ६३ १-८) । श्रीराम ने भरत और लक्ष्मण से इनके अभिषेक का आयोजन करने के लिये कहा (७ ६३ ९) । इनका अभिषेक हुआ और उसके पश्चान् यमुनानट वासी ऋषियों को लवणामुर का वध हो जाने का निश्चय हो गया (७ ६३, १३-१७) । श्रीराम ने इन्हें लवणामुर के दूल से वचन का उपाय बताया (७ ६३, १८-३१, ६४, १-१२) । इन्होंने पहले अपनी मेना को भेजकर उसके एक मास के पश्चान् लवणवध के लिये प्रस्थान किया (७ ६४, १३-१८) । ये वाल्मीकि के आश्रम पर पहुँचे जहाँ मुनि ने इनका स्तनार किया (७ ६५, १-७) । वाल्मीकि ने इन्हें मुदास-मुत्र बन्मापवाद की कथा सुनाया (७ ६५, ८-३९) । जिस समय ये वाल्मीकि की पर्यंताग म रहे हुये थे उसी समय सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया (७, ६६, १) । अर्परात्रि के समय इन्हें सीता के दो पुत्रों के जन्म का समाचार प्राप्त हुआ जिसने ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (७ ६६, ११-१३) । इन्होंने प्रातःकाल वाल्मीकि मुनि से विदा ली (७ ६६, १४) । प्यवन मुनि ने इन्हें लवणामुर के दूल की रक्ति का परिचय देने हुये रागा मान्याता के वध का प्रसङ्ग सुनाया (७ ६७) । 'जब प्रातःकाल अपने भद्रपरदार्य की इच्छा से प्रेरित हो लवण नगर से बाहर निकला तो ये यमुना पार करके मधुपुरी के द्वार पर लडे हो गये । लोट कर जब उस रागम ने इन्हें नगर-द्वार पर लडे देता तो क्रुद्ध होकर इनका परिचय पूछा । इन्होंने बटु धर्मों का आदान प्रदान करते हुये उसे युद्ध के लिये ललकारा । लवण ने जब अपना दूल लाने का प्रस्ताव किया

तो इन्होंने उसे अस्वीकृत करने हुए तत्काल युद्ध के लिये आवाहन किया (७ ६८) । इन्होंने लवणानुर के साथ घोर युद्ध किया जिसमें लवण ने एक विशाल वृक्ष से प्रहार करके इन्हें मूर्च्छित कर दिया (७ ६९, १-१४) । मूर्च्छा दूर होने पर इन्होंने एक दिव्य, अमोघ और उत्तम बाण का सम्पान किया जिससे देवता, असुर, गन्धर्व आदि सब अस्वस्थ हो ब्रह्मा की धरण म गये (७ ६९, १७-२१) । ब्रह्मा ने उन बाण का इतिहास बताते हुये देवों से कहा कि वे शत्रुघ्न और लवण के युद्ध के स्थल पर जाकर उस राक्षस के वध को देखें (७ ६९, २८-२९) । इन्होंने उस बाण से लवणानुर का वध कर दिया (७ ६९, ३२-३७) । इन्होंने देवताओं से वरदान प्राप्त करके मधुरापुरी को बसाया और उसके पश्चान् बारहवें वर्ष श्रीराम के पाम जाने का विचार किया (७ ७०) । 'ये थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ लेकर अयोध्या के लिये प्रस्थित हुये । मार्ग में ये वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रुके और वहाँ रात्रि के समय श्रीरामचरित का गान सुनकर आश्चर्यचकित हुये । सैनिकों ने जब इनसे इस सम्बन्ध में वाल्मीकि मुनि से पूछने के लिये कहा तो इन्होंने यह उचित नहीं समझा, और प्रातःकाल मुनि से विदा लेकर अयोध्या आये । अयोध्या में श्रीराम के साथ सात दिनों तक निवास करने के बाद इन्होंने मधुरापुरी के लिये प्रस्थान किया (७ ७१-७२) ।' श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के समय नैमिषारण्य में ये भरत के साथ चानरो और ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था करते थे (७ ९१, २७) । महाप्रस्थान का निश्चय करके श्रीराम ने इन्हें भी अयोध्या बुलाया (७. १०७, ८) । श्रीराम के दूत से अपने कुल के क्षय का समाचार सुनकर इन्होंने अपने दोनों पुत्रों का राग्यामियेन किया और अयोध्या आकर श्रीराम से मिले (७ १०८, २-१२) । श्रीराम का प्रणाम करके इन्होंने भी उनके साथ ही परमधाम जाने की आज्ञा माँगी जिसे श्रीराम ने प्रदान किया (७ १०८, १३-१६) । भरत के साथ ये अन्तपुर की स्थियों और अग्निहोत्र आदि को लेकर महायात्रा के लिये श्रीराम के पीछे-पीछे चल (७ १०९, ११) । इन्होंने भी श्रीराम के साथ वैष्णव वेत्र में प्रवेश किया (७ ११०, १२) ।

२ शत्रुघ्न, एक राक्षस का नाम है जिसके साथ विभीषण ने द्वन्द्वयुद्ध किया (६ ४३, ८) ।

शत्रुघ्नय, एक त्रिपालकाय गजराज का नाम है जो महान् मेघ में युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था । इसके गण्डस्थल से मद की धारा बहती थी और इसे अक्षुष से पी पान में नहीं किया जा सकता था । इसका वेग शत्रुओं के लिये अक्षुष था । इसके नाम के अनुसार ही इसका गुण भी था । सुमन्त्र ने

इसे श्रीराम के भवन के समीप देवा (२ १५, ४६) । श्रीराम ने इसे सुयज्ञ को दान कर दिया (२ ३२, १०) । यह भरत की सेना के अग्रभाग में झूमता हुआ चल रहा था (२ ६७, २५) ।

शबरी—स्वर्गलोक जाते समय कबन्ध ने श्रीराम को इससे मिलने के लिये कहा (१ १, ५६) । श्रीराम इसके आश्रम पर गये (१ १, ५७) । इससे श्रीराम के मिलने और इसके द्वारा दिये हुये फल मूल को ग्रहण करने का वात्मीकि ने पूर्वदशन कर लिया था (१ ३, २२) । कबन्ध ने श्रीराम को इमका परिचय देते हुये उन्हे इसमें मित्रने का परामर्श दिया (३ ७३, २५-२६) । “श्रीराम और लक्ष्मण पम्पा नामक पुष्करिणी के पश्चिमी तट पर स्थित इसके आश्रम में जाकर इससे मिले । यह एक सिद्ध तपस्विनी थी । दोनों भ्राताओं को अपने आश्रम पर उपस्थित देखकर इसने उनके चरणों में प्रणाम किया (३ ७४, ४-७) ।” “श्रीराम के पूछने पर इसने उनसे कहा ‘आपका दशन मिलने से आज मेरी पूजा सार्थक हो गई और मुझे अब आपके दिव्यधाम की प्राप्ति भी होगी ।’ इसने यह भी बताया कि इसके गुरुजनो ने इससे बता दिया था कि श्रीराम और लक्ष्मण का आनिध्य-मत्कार करने पर इसे अक्षयलोक प्राप्त होगा । तदनन्तर इमने श्रीराम से कहा ‘ मैंने आपके लिये पम्पातट पर उत्पन्न होनेवाले भरण्य फल-मूलो का सचय किया है’ (३ ७४, १०-१७) ।” ‘श्रीराम के पूछने पर इसने मतङ्ग वन को दिखाने हुये अपने गुरुजनो की प्रत्यकस्यली नामक वेदी को भी श्रीराम को दिखाया । इमने सप्तमागर नामक तीर्थ दिखाते हुये श्रीराम से बताया कि इसके गुरुजन उसी में स्नान किया करते थे । इसने दिव्यलोक में अपने गुरुजनो के पास जाने की आज्ञा मांगी । श्रीराम से आज्ञा प्राप्त करके इसने अग्नि में प्रवेश किया और दिव्यरूप धारण करके उस पुष्पधाम की यात्रा की जहाँ इसके गुरुजन विहार करते थे (७ ७४, २०-३५) ।” अयोध्या लौटते समय श्रीराम ने सीता को वह स्थान दिखाया जहाँ वे इससे मिले थे (६ १२३, ४१) ।

शबला, वसिष्ठ की कामधेनु का नाम है जिसे वसिष्ठ ने विश्वामित्र के लिये अभीष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश दिया (१. ५२, २०-२३) । इसने वसिष्ठ की आज्ञा का पालन करते हुये विश्वामित्र तथा उनकी समस्त सेना को अभीष्ट वस्तुओं से तृप्त किया (१ ५३, १-७) । विश्वामित्र ने वसिष्ठ में इसे माँगा परन्तु वसिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया (१ ५६, ९-१६ २२-२६) । विश्वामित्र ने इसकी बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया जिस पर इसने वसिष्ठ के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे निवेदन किया (१ ५४, १-७) । वसिष्ठ ने इसे शत्रुसेना का सहार करने के लिये संनिकों की सृष्टि

काने का आवेश दिया (१ ५४, १६) । तदनन्तर इमने (सुरभि ने) अपनी हुंकार से पल्लव, यवन-मिश्रित शक, काम्बोज और बवंरादि जाति के सैनिकों को उत्पन्न किया (१ ५४, १७-२३) । जब विश्वामित्र ने इसके द्वारा उत्पन्न सैनिकों को नष्ट कर दिया तब वसिष्ठ के आदेश पर इमने पुनः हुंकार से काम्बोज, यव से शास्वधारी बवंर, योनि देश से यवन, शक देश से शक, रोमदूपो से म्लेच्छ, हारीन तथा किरात आदि को उत्पन्न किया (१ ५५, १-३) ।

शम्वर, "एक प्रतिष्ठ और महान् असुर का नाम है जो दक्षिण दिशा में पण्डकारण्य के भीतर वैजयन्त नामक नगर में निवास करता था । यह अपनी स्वजा में तिमि (झूल मछली) का चिह्न धारण करता था और शनायिक मायाओं का इसे ज्ञान था । देवताओं के समूह भी इसे पराजित नहीं कर पाते थे । एक समय इमने इंद्र के साथ युद्ध किया (२ ९, १२-१३) ।" इसका देवराज इंद्र ने वध किया (५ १६, ८) । मृत्यु ने इसके पथ का उल्लेख किया (७ २२, २४) ।

शम्वस्ताघत, एक असुर का नाम है जिसका महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर कैसरी ने वध किया था (५ ३५, ८९) ।

शम्बूक, एक शूद्र का नाम है जो सर नीचे की ओर कर देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से श्रीराम की राज्य सीमा में ही शंदल पर्वत के उत्तर भाग में स्थित एक सरोवर के तट पर धोर तपस्या कर रहा था । श्रीराम ने इसका वध कर दिया (७ ७६, १-४) ।

शरगुल्म, को सुग्रीव ने सीता की छोज के लिये दक्षिण दिशा में भेजा (४ ४१, ३) ।

शरद्गडा, एक नदी का नाम है जिसे वसिष्ठ के दूतों ने केवय जाते समय पार किया था (२ ६८, १५) ।

शरभ, एक वाजर का नाम है जिन्हें पर्जन्य ने उत्पन्न किया था (१ १७, १५) । इन्होंने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार नुवर्गमव कलशों में रखने हुये स्वच्छ और शुग्न्धित जल तथा वृषभ के सींगों द्वारा सुग्रीव का अभिषेक किया (४ २६, ३४) । किष्किन्ध्या जाते समय लक्ष्मण ने इनके भी मुसज्जित भयन को देखा (४. ३३, ९) । ये भी सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुये (४ ३९, ३८) । इन्होंने अपनी शक्ति का वर्णन किया और बताया कि ये तीस योजन तक एक छलांग में जा सकते हैं (४. ६५, २. ४) । 'महाजयो धीतभयो रम्य सात्वैश्वर्यवतम् । राजन्ततमध्यास्ते शरभो नाम सूयप ॥' (६ २६, ३६) । ये यमराज के पुत्र एवं अन्तक के समान २३ वा० को०

पराक्रमी थे (६ ३०, २७) । ये वानर सेना की रक्षा कर रहे थे (६ ४२, ३१) । ये भी उस स्थान पर आये जहाँ राम और लक्ष्मण अचेत पड़े थे (६ ४५, २) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहूत किया (६ ४६, २१) । ये श्रीराम की रक्षा करने लगे (६ ४७, २ गीता प्रेम सस्करण) । श्रीराम ने कहा कि इन्होंने अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध किया (६ ४९, २८) । ये कुम्भ-वण का सामना करने के लिये रणक्षेत्र की ओर बढ़े (६ ६६, ३५) । इन्होंने कुम्भवर्ण पर आक्रमण किया (६ ६७, २४) । कुम्भकर्ण ने इन पर मुष्टि प्रहार किया (६ ६७, २९) । इन्होंने भी अतिक्रम पर आक्रमण किया (६ ७१, ३९) । इन्होंने राक्षसों के विरुद्ध महान् वेग प्रगट किया (६ ८९, ४८) । सुग्रीव को विदा करते हुये श्रीराम ने उनसे इन पर भी प्रेमपूर्ण दृष्टि रखने के लिये कहा (७ ४०, ५ ७) ।

शरभङ्ग, एक मुनि का नाम है (१ १, ४१) । श्रीराम द्वारा इनके दर्शन का वाल्मीकि ने पूर्वदशम वर लिया था (१ ३, १८) । विराय ने इनके निवास-स्थान का पता बताते हुये श्रीराम से इनसे मिलने के लिये कहा (३ ४ २०-२१) । श्रीराम इनके पास गये (३ ५, २-३) । इनके समीप पहुँचकर श्रीराम ने एक अद्भुत दृश्य देखा (३ ५, ४) । श्रीराम ने इन्हें इन्द्र के साथ वार्तालाप करने देवा (३ ५, ११) । सीता को लक्ष्मण के सरक्षण में छोड़कर श्रीराम इनके आश्रम में गये (३ ५, २०) । राम को आते देखकर इन्द्र ने इनसे विदा ली (३ ५, २१) । अपनी पत्नी और भ्राता के साथ श्रीराम इनके पास आये और इन्होंने आतिथ्य के पश्चात् उन लोगों को टहरने का स्थान दिया (३ ५, २५-२६) । श्रीराम द्वारा इन्द्र के उनके पास आने का प्रयोजन पूछन पर इन्होंने बताया कि इन्द्र इन्हें ब्रह्मलोक से जाना चाहते थे परन्तु इन्होंने श्रीराम का दर्शन करके ही ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया (३ ५, २७-३१) । श्रीराम ने इनसे कहा 'मैं आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊँगा परन्तु मैं इस समय आपके बताये हुये स्थान पर निवासमात्र करना चाहता हूँ ।' (३ ५, ३२-३३) । इन्होंने मुतीक्षण मुनि का पता बनाकर श्रीराम को उन्हीं के पास जान के लिये कहा (३ ५, ३४-३६) । मार्ग का पता बताते हुये इन्होंने श्रीराम से कहा . 'यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप उस समय तक मेरी ओर देखन रहें जबतक मैं अपने इन जरा जीण अङ्गों का परित्याग न कर दूँ ।' तदनन्तर इन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने समस्त शरीर को भस्म कर दिया और उसके पश्चात् एक तेजस्वी कुमार के रूप में अग्निराशि से ऊपर उठकर मुगोभित होने लगे । इस प्रकार इन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया जहाँ ब्रह्मा ने इनका स्वागत किया (३ ५, ३७-४३) ।

इनके स्वर्गलोक चले जाने पर धीराम के सम्मुख अनेक मुनि उपस्थित हुये (३ ६, १) । सर आदि राक्षसों का बध हो जाने के पश्चात् मुनियों ने बताया कि राक्षसों का विनाश कराने के लिये ही इन्द्र इनके आश्रम पर पधारे थे (३ ३०, ३४) ।

शरवण, एक वन का नाम है जहाँ कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई थी । कुबेर को विजित करके लौटते समय इस स्थान पर रावण के पुष्पक विमान की गति रुक गई (७ १६, १-२) ।

शरारि को सुद्योव ने सीता की खोज के लिये दक्षिण दिशा की ओर भेजा (४ ४१, ३) ।

शत्यकर्ण, एक देश का नाम है । कैकय से लौटते समय भरत इससे होते हुये आये थे (२ ७१, ३) ।

शर्मिष्ठा, वृषपर्वा की पुत्री और ययाति की एक पत्नी का नाम है जिसने पूरु को जन्म दिया (७ ५८, ८-१०) । यदु ने अपनी माता से कहा - 'हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर आँसु और राजा ययाति शर्मिष्ठा के साथ अनेक रात्रियों तक रमते रहें' (७ ५८, १३) ।

१. शशबिन्दु, एक राजा का नाम है जो असित के साथ समुद्रा रणते थे (१ ७०, २७, २. ११०, १५) ।

२ शशबिन्दु, एक राजपि का नाम है जिन्होंने बह्लिक देश का राज्य ग्रहण किया (७ ९०, २२) ।

शान्ता, बङ्गराज रोमपाद की पुत्री का नाम है जिसका महर्षि ऋष्यशृङ्ग के साथ विवाह हुआ (१ ९, १२ १७) । रोमपाद ने इनका ऋष्यशृङ्ग के साथ विवाह कराया (१ १०, ३३) । मुमन्त्र ने इनके बध, तथा ऋष्यशृङ्ग के साथ इनके विवाह का वर्णन किया (१. ११, ३ ६) । अपने पति के साथ यह अयोध्या आई जहाँ दशरथ की रानियों ने इनका सत्कार किया (१ ११, २९-३०) ।

शार्दूल, रावण के एक गुप्तचर का नाम है जिसने सागर-तट पर धीराम की विशाल सेना को देखकर रावण को उसका समाचार देने हुये गुप्तचर भेज कर बानरी-सेना का विस्तृत भेद लेने का परामर्श दिया (३ २०, १-७) । इसकी बान सुनकर रावण व्यग्र हो उठा और द्रुक तथा सारण की धीराम की सेना का भेद लेने के लिये कहा (६. २०, ८) । "रावण की आज्ञा से यह धीराम की सेना का भेद लेने के लिये गया परन्तु विभीषण ने इसे पहचान कर पकड़वा लिया और बानरी ने इसे पीटा । तदनन्तर लका लौटकर यह रावण के पास आया (६. २९, २२-२८) ।" इसकी मलिन बङ्ग-कान्ति

देखकर जब रावण ने इसमें सनाचार पूछा तो इसने अग्ने पकड़े जाने आदि का वृत्तान्त बताने हुये रावण को मुख्य मुख्य वानरवीरो का परिचय दिया (६ ३०) ।

शार्दूल, शोधवशा की पुत्री का नाम है जिसने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किये (३ १४, २२ २५) ।

शिशपा, एक स्त्रीलिङ्ग वृक्ष का नाम है जो नारी का रूप धारण करके भरत के सत्कार के लिये भरद्वाज के आश्रम में आ बसी (२ ९१, ५०) । हनुमान् ने इसे लङ्का की अशोकवाटिका में अनेक लतावितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त, तथा सय और सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा देखा (५ १४, ३७) ।

शिक्ष, ऋषभ पर्वत पर निवास करनेवाले एक गन्धर्व का नाम है (४ ४९, ४३ गीता प्रेस संस्करण) । देखिये **शिश्रु** ।

शिश्रु, ऋषभ पर्वत पर निवास करनेवाले एक गन्धर्व का नाम है (४ ४९, ४३) । देखिये **शिक्ष** ।

शिलाचक्र, एक नदी का नाम है । केकय से लौटते समय भरत ने इसका दर्शन किया था (२ ७२, ४) ।

१. **शिशिर**, एक पर्वत का नाम है जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते थे । यह ऊँचाई में अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक का स्पर्श करता सा जान पड़ता था । यहाँ मुषीव ने सीता की खोज के लिये एक लाख वानरों के साथ विनन को भेजा (४ ४०, २९-३०) ।

२. **शिशिर**, आदित्य-हृदय नामक स्तोत्र में सूर्य का एक नाम है (६ १०५, १२) ।

शिशिरनाशन, आदित्य हृदय नामक स्तोत्र में सूर्य का एक नाम है (६. १०५, १२) ।

शीघ्रग, अग्निवर्ण के पुत्र, एक सूर्यवंशी राजा का नाम है । इनके पुत्र का नाम मरु था (१ ७०, ४१, २ ११०, २९) ।

१. **शुक**, ऋषभ पर्वत पर निवास करनेवाले एक गन्धर्व का नाम है (४ ४१, ४३) ।

२. **शुक**, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने याग लगा दी (५ ५४, १०) । "शार्दूल के बहने में रावण ने इग्नो दूत बनाकर मुषीव के पास सदेश लेकर भेजा । इग्ने मुषीव के पास जाकर आकाश में ही स्थित हो रावण का सदेश सुनाया । उस समय वानरों ने इग्न निगाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और बन्दी बनाकर आकाश से पृथिवी पर उतारा, परन्तु

श्रीराम ने इसे मुक्त करा दिया । वानरो द्वारा नीच दिये जाने के कारण इसके पत्नी का भार कुछ हल्का हो गया । तदनन्तर श्रीराम द्वारा अमय प्राप्त करके इतने आश्रय में स्थित होकर सुग्रीव से रावण के लिये उत्तर मांगा । रावण से नष्ट होने के लिये आवश्यक उत्तर देने के पश्चात् सुग्रीव ने वानरों द्वारा इस पुनः पकड़वा लिया परन्तु श्रीराम ने वानरों को इसे मुक्त कर देने की आज्ञा दी (६ २०, ८-३६) । श्रीराम की आज्ञा से सुग्रीव ने इसे दन्धन-मुक्त कर दिया और इसन रावण के पास जाकर उसे राम की सेना तथा वानर युद्धपक्षियों के पराक्रम का समाचार सुनाया (६ २४, २३-३६) । "रावण ने सारण के साथ इसे पुनः श्रीराम की सेना में भेद लेने के लिये भेजा । इनके वातर का दोष कारण करके राम की सेना का भेद लेने का प्रयास किया परन्तु विभीषण ने इसे पहचान कर बन्दी बना लिया और श्रीराम के पास ले गये । श्रीराम ने इससे रावण के पास संदेश भेजते हुये इसे मुक्त करा दिया । श्रीराम का अभिलम्बन करके लज्जा लौटकर रावण को इतने वानरों की शक्ति का समाचार देने हुये सीता को लौटा देने का परामर्श दिया (६ २५) । "इसने सुग्रीव, मन्द, त्रिविद, हनुमान्, श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण आदि का रावण को परिचय देते हुये वानरसेना की सख्या का निरूपण किया । इसकी बात सुनकर रावण ने इस पर क्रोध करके इसे अपने दरवार से निकाल दिया जिसके बाद यह वहाँ से चला गया (६ २९, १-१५) । "शुकसारणी", (६ ३६, १९, ४४, २०, ७ १४, १) । इसने मरुत्त की पराजय और रावण के विजय की घोषणा की (७ १८, १९) । 'मारुत्त शुकसारणी', (७ १९, १९) । 'शुक सारण एव च', (७ २७, २८) । 'शुकसारणी', (७ ३१, २६ ३४, ३२, ११. १७ २० २२ ३६ ४८) ।

शुकनाम, एक राक्षस का नाम है । सीता की खोज करते हुये हनुमान् इससे भवन में भी गये (५ ६, २४) ।

शुकी, साम्रा की एक पुत्री का नाम है, जिसने नत्ता नामवाली कन्या को जन्म दिया (३ १४, १७ २०) । विनता इसकी पौत्री थी (३ १४, ३१) ।

१. शुक—श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, २३) ।

२. शुक, कुवेर के एक मन्त्री का नाम है (७ १५, १७) ।

३. शुक, (उशनम्), ययाति की पत्नी, देवयानी, के पिता का नाम है (७ ५८, ९) । इनके कुल में उत्पन्न होकर भी देवयानी राजा से अपमानित रही (७ ५८, १२) । देवयानी ने इनका स्मरण किया जिसे जानकर ये उनके सनीप आये और उनका समाचार पूछा (७. ५८, १५-१७) । जब

देवयानी ने अपनी स्थिति का वर्णन किया तो उसे मुनवर इन्होंने ययाति को जराजीर्ण हो जाने का शाप दे दिया (७ ५८, २२-२४) । 'एष तूशनसा मुक्त दानोमर्गो ययातिना,' (७ ५९, २१) । राजा दण्ड ने इन्हें अपना पुरोहित बनाया (७ ७९, १८) । राजा दण्ड ने इनकी कन्या के साथ बलात्कार किया (७ ८०) । अपनी कन्या, अरजा, के साथ बलात्कार करने के कारण इन्होंने राजा दण्ड को राज्य-सहित नष्ट हो जाने का शाप दिया (७ ८१, १-१०) । इन्होंने अपने आश्रम में निवास करनेवाले लोगों को दण्ड का राज्य छोड़ देने के लिये कहा (७ ८१, ११) । अपनी पुत्री, अरजा, से इन्होंने उसी आश्रम में रहकर परमामा के ध्यान में एकाग्र रहने हुये अपने अपराध-निवृत्ति की प्रतीक्षा करने के लिये कहा (७ ८१, १४-१५) । इन्होंने दण्ड का राज्य धोत्र छोड़ दिया (७ ८१, १७) ।

शुचिवाहु, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ७) ।

शुनःशेष, ऋचीक मुनि के मङ्गल पुत्र का नाम है (१ ६१, १९) । इन्होंने स्वयं ही राजा अम्बरीष के हाथ बिक्ना और उनका यज्ञस्थल बनना स्वीकार कर लिया (१ ६१, २०-२२) । इन्होंने विश्वामित्र से अपनी रक्षा की याचना की (१ ६२, २-७) । इन्होंने राजा अम्बरीष को यज्ञ सम्पन्न करने के लिये कहा और यज्ञस्थल पर इन्द्र की स्तुति की जिमसे इन्द्र ने इन्हें दीर्घायु प्रदान किया (१ ६२, १८-२६) ।

१ शूरसेन, एक जाति का नाम है जिनके नगरो में सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने शतबलि आदि वानरो को भेजा (४ ४३, ११) ।

२- शूरसेन, एक जनपद का नाम है जिसे शत्रुघ्न ने बसाया (७ ७०, ९) ।

शूर्पणखा, जनस्थान-निवासिनी एक राक्षसी का नाम है जिसे श्रीराम ने मार डाला दिया (१ १, ४६) । इसके कहने पर खर और दूषण आदि चौदह सहस्र राक्षसों ने श्रीराम पर आक्रमण किया परन्तु श्रीराम ने अकेले ही सबका बध कर दिया (१ १, ४७-४८) । 'शूर्पणखा-सुवाद' तथा श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा इसके नाक और कान काटने तथा इसके द्वारा उत्तेजित रावण का श्रीराम से बदला लेने की घटना का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, १९) । यह रावण की बहन थी जो पशवती में श्रीराम के समस्त उपस्थित हुई (३ १७, ६) । यह श्रीराम को देखते ही काम से मोहित हो गई (३ १७, ९) । यह अत्यन्त कुह्य, क्रूर, और घृणास्पद थी (३ १७, १०-१२) । कामभाव से आविष्ट हो मनोहर रूप बनाकर यह राम के समीप आई और उनसे उनका परिचय पूछा (३ १७, १२-१४) ।

“श्रीराम के पूछने पर इसने अपना परिचय देते हुये कहा : ‘मैं कामरूपिणी राक्षसी और रावण की बहन हूँ। मेरे अन्य दो भ्राताओं का नाम कुम्भकर्ण और विभीषण है।’ इस प्रकार अपना परिचय देकर इसने श्रीराम को अपने साथ विहार करने के लिये आमन्त्रित किया (३ १७ २०-२९)।” श्रीराम ने इसे लक्ष्मण के पास जाने का परामर्श दिया जिस पर इसने लक्ष्मण के पास जाकर अपने को अङ्गीकार कर लेने का प्रस्ताव किया (३ १८, १-७)। लक्ष्मण ने इसे पुनः श्रीराम के पास भेजा (३ १८, ८-१३)। इसने पुनः श्रीराम के पास आकर क्रोध में सीता का भक्षण करने के उद्देश्य से उनपर आक्रमण किया (३ १८ १४-१७)। “श्रीराम ने लक्ष्मण को इसे कुरूप कर देने का आदेश दिया जिसपर लक्ष्मण ने इसकी नाक और कान काट लिये। इस प्रकार कुरूप ही जाने पर इसने जनस्थाननिवासी अपने भ्राता के पास जाकर समस्त वृत्तान्त सुनाया (३. १८, १९-२६)।” “इसे अङ्गहीन तथा रक्तरजित देखकर जब इसके भ्राता, श्वर, ने इसकी दुर्दशा का वृत्तान्त पूछा तो इसने राम आदि के द्वारा अपने कुरूप किये जाने का सम्पूर्ण विवरण बताया। यह खर की आज्ञा से राम आदि का वध कराने के लिये चोदक राक्षसों को लेकर पञ्चवटी आई (३. १९)।” इसने पञ्चवटी में आकर राम आदि को उन राक्षसों का परिचय दिया (३ २०, १)। राम ने सीता को लक्ष्मण के संरक्षण में देने हुए इसके साथ आये चौदह राक्षसों का वध कर दिया जिससे भागकर यह अपने भ्राता, खर, के पास आई और उसने समस्त वृत्तान्त कहा (३ २०)। इसने खर के पान आकर चौदह राक्षसों के वध का समाचार बनाने हुये खर को राम से युद्ध करने के लिये उत्तेजित करने का प्रयत्न किया (३ २१)। इसके विलाप को सुनकर खर ने इसे राम आदि के साथ स्वयं युद्ध करने का आश्वासन दिया (३ २२, १-५)। यह खर आदि राक्षसों का वध हो जाने के पश्चात् सहायता के लिये अपने भ्राता, रावण, के पास आई और उसे सिंहासन पर विराजमान देखा (३ ३२, १-३)। इसने रावण की भर्त्सना की (३ ३३)। रावण के पूछने पर इसने राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देने हुये रावण को सीता को अपनी भार्या बनाने के लिये प्रेरित किया (३. ३४)। इसने अजामुखी के कथन का अभिनन्दन करते हुये मुरा तथा मनुष्य (सीता) के मांस का भक्षण करके त्रिकुम्भिला देवी के समस्त नृत्य करने का प्रस्ताव किया (५ २४, ४६-४७)। ‘कथं शूर्पणखा वृद्धा कराला निर्णतोदरी । आत्मनाइ वने राम कदरपसरूपिणम् ॥’, (६ १४, ६)। कंकरी के गर्भ से इसका जन्म हुआ ‘ततः शूर्पणखा नाम सज्जे विहृतानना’, (७ ९, ३४)। रावण ने दानवराज विद्युजिह्व से इसका विवाह किया (७ १२, १-२)।

इसने लज्जा में रावण के सम्मुख उपस्थित होकर विलाप करना आरम्भ किया (७ २४, २४) । ' रावण के पूछने पर इसने बताया कि कालकेया का वध करते समय रावण ने इसके पति का भी वध कर दिया । जब यह इस प्रकार उपालम्भ करने लगी तो रावण न क्षमा-याचना करते हुये इससे अपने भ्राता खर के साथ चौदह सहस्र राक्षसों से रभिन ही दण्डकारण्य में सुमपूर्वक निवास करने का आग्रह किया जिस स्वीकार करते हुये यह दण्डकारण्य में रहने लगी (७ २४, २५-४२) ।

शेष, तृतीय प्रजापति का नाम है जो विष्टत व बाद हुये थे (३ १४, ७) ।

शैलूष, ऋषभदेव पर निवास करनेवाले एक गन्धर्व का नाम है (४ ४१, ४३) । इसकी सरमा नामक पुत्री का विभीषण के साथ विवाह हुआ (७ १२, २४) ।

शैलोदा, एक नदी का नाम है जिसके तट पर कुरु-देश स्थित था (४ ४३, ३८) ।

शैवल, दक्षिण के एक पर्वत का नाम है (७ ७५, १३, ७९ १६, ८१, १८) ।

शैव्य, एक राजा का नाम है जिन्होंने कपोत का प्राणरक्षा के लिये श्वेत (बाज) को अपने शरीर का मांस काट कर दिया था (२ १२, ४३, १४, ४) । दगरथ द्वारा हन अर्पण पुत्र के लिये शोक करते हुये मुनि-दम्पति ने मृतपुत्र के लिये उस लोक की कामना की जो द्रुहे प्राप्त हुआ था (२ ६४, ४२) ।

शोणभद्र, एक नदी का नाम है जिसके तट पर श्रीराम, लक्ष्मण, और विश्वामित्र ने मिथिला जाने समय रात्रि व्यतीत की (१. ३१, २०) । विश्वामित्र ने राम आदि के साथ इसे पार किया (१. ३५, १-५) । यहाँ सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने विनय को भेजा (४ ४०, २१ ३१) ।

शोणिताक्ष, एक राक्षस का नाम है । सीता की खोज करने हुए हनुमान् इसके भवन में गये (५ ६ २६) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५ ५४, १४) । रावण की आगा से मुक्त करने के लिए कुम्भकण के दोनों पुत्रों के साथ यह भी गया (६ ७५ ४६) । इसने अङ्गद पर आक्रमण किया (६ ७६, ४) । 'शोणिताक्षस्ततः शिप्रमगिचम समाददे । उत्पन्नत तदा क्रुद्धो वेणुवानविचारयन् ॥', (६ ७६, ८) । इसने अङ्गद और द्विविद से मुक्त किया परन्तु अन्त में द्विविद ने इसका वध कर दिया (६ ७६ १३ १५. २१ ३० ३४) । प्रयोप्या लौटने समय श्रीराम ने सीता को यह स्थान भी दिखाया जहाँ इसका वध हुआ था (६ १२३, १२) ।

श्येनगामी, एक राजस का नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध के लिये सर के साथ बाया (३ २३, ३२) । इसने सर के साथ श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २६) । श्रीराम ने इसका वध कर दिया (३ २६, २९-३५) ।

श्येनी, ताघ्रा की पुत्री का नाम है, जिसने श्येनो और गृध्रो को उत्पन्न किया (३ १४, १७-१८) ।

ध्रतकीर्ति, कुण्ड्यज की पुत्री का नाम है जिसका दशरथ की पत्निमो ने अग्नी पुत्र वत् के रूप में स्वाम किया (१ ७७, १२) ।

शृङ्गवेरपुर, गङ्गा के तट पर स्थित एक नगर का नाम है (१. १, २९, २ ५०, २५) । यहां के राजा का नाम गुह था (२ ५०, ३२) । यहां गंगा के तट पर भरत न सेनासहित रात्रिदाम किया (२ ८३, १९-२६, ८९, १) । श्रीराम व आश्रम से लौटते समय सेनासहित भरत यहाँ आए (२ ११३, २२-२३) । अयोध्या लौटते समय श्रीराम का विमान इस पर से भी होकर उठा (६ १२३, ५३) । श्रीराम ने यहाँ के राजा, निपादराज गुह, के पास हनुमान् ने संदेश भेजा (६ १२५, ४ २१) ।

१. श्वेत, एक वानर मूयपति का नाम है 'श्वेतो रजतसकाशश्चपलो भीमविक्रम । बुद्धिमान्वानर शूरस्त्रिपु लोत्रेषु विश्रुत ॥ तूर्णं सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानर । विभनन्वानरी सेनामनीशानि प्रहर्षयन् ॥' (६ २६, २५-२६) । ये मूय के औरम पुत्र थे (६ ३०, ३३) ।

२. श्वेत, विदर्भ के राजा और सुदेव के पुत्र का नाम है । इन्होंने अपनी बायु का पना लय जाने पर वन में जाकर घोर तपस्या की और उसके फल-स्वरूप ब्रह्मलोक चले गये । ब्रह्मलोक में भी ये क्षुधा से अत्यन्त पीड़ित रहते थे । एक दिन जब इन्होंने ब्रह्मा से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मर्त्यलोक में स्थित हो कर अपने ही शरीर का मुम्बाद मास खाया करें । इसका कारण बताते हुये ब्रह्मा ने कहा कि इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी अनिधि, द्राह्मण, देवता, या पितर के लिये कोई दान नहीं किया इसीलिये ब्रह्मलोक में भी ये क्षुधा से पीड़ित रहने हैं । साथ ही ब्रह्मा ने यह भी बताया कि मर्त्य अगस्त्य ही इन्हें इस शाप से मुक्त करेंगे । उसी समय से ये घोर वन में अपने शरीर के मास का आहार ग्रहण करत हुये घृणित जीवन व्यतीत करने लगे । अन्ततः मर्त्य अगस्त्य ने इनका दान ग्रहण करके इन्हें शाप से मुक्त किया (७ ७८) ।

श्येता, क्रोधवशा की पुत्री का नाम है जिसने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया (३ १४, २२ २६) ।

श्वेताश्वतरी, धुनि का नाम है जिसका, मधु-कूटम द्वारा अपहृत होने पर, हयग्रीव ने उद्धार किया था (४ १७, ४९) ।

स

संजीवकरणी, एक ओषधि का नाम है (६ ५०, ३०) ।

सतानक—जब श्रीराम ने अपने साथ आये हुये पुरवासियों को उत्तमलोक प्रदान करने का ब्रह्मा से अनुरोध किया तो उन्होंने उन सबके लिये सतानक लोक की व्यास्था की (७ ११०, १८-१९) ।

संनादन, एक वानर यूथपति का नाम है जो वानरो का पितामह था । सारण ने रावण को बताया कि यह चलते समय एक योजन दूर स्थित पर्वत का भी अपने पार्श्वभाग में छू, और एक योजन ऊँचाई तक की वस्तुओं को अपने शरीर से ही पहुँच कर ग्रहण कर लेता है (६, २७, १७-१९) । राम ने इसका प्रति स्नेह प्रगट किया (७ ३९, २२) ।

संयोधकण्टक, एक यक्ष का नाम है जिसने एक विशाल सेना लेकर मारीच ङादि पर आक्रमण किया परन्तु अन्त में उससे पराजित होकर भाग गया (७ १४, २१-२२) ।

संवत्सर—श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, १५) ।

संश्रय, चतुर्थ प्रजापति का नाम है जो शेष के दाह हुये थे (३ १४, ७) ।

संह्राद, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का सुमालि आदि राक्षसों ने उल्लेख किया (७ ६, ३४) । इसने भी रावण के साथ देवसेना पर आक्रमण किया (७ २३, २९) ।

संह्रादी, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का विभीषण ने उल्लेख किया (६ ८९, १२) । यह सुमालि का पुत्र था (७ ५, ४१) ।

सगर, अयोध्या के एक धर्मात्मा राजा का नाम है । ये सर्व पुत्र प्राप्ति के लिये उत्सुक रहा करते थे (१ ३८, २) । इनके दो पत्नियाँ केसिनी और सुमति, थीं । इन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगुप्रसवण नामक गिर पर सौ वर्षों तक तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर भृगु ने इन्हें एक पत्नी से एक और दूसरी से साठ हजार पुत्र प्राप्ति का वर दिया (१ ३८, ३-८) । केसिनी ने इनके समस्त वध प्रवर्तक एक ही पुत्र का तथा सुमति ने साठहजार पुत्रों को जन्म देने का वर ग्रहण किया (१ ३८, १३-१४) । इन्होंने अपनी पत्नियों-महित भृगु की परिक्रमा करके नगर को प्रस्थापन किया (१ ३८, १५) । केसिनी ने सगर के श्रीराम पुत्र, असमञ्ज,

को जन्म दिया (१ ३८, १६) । इनके माठ हजार पुत्र रूप और युवावस्था से मुग्नोन्नत हो गये (१ ३८, १९) । इन्होंने अपने पापाघारी पुत्र असमञ्ज को नगर से बाहर निकाल दिया और यज्ञ करने का निश्चय किया (१ ३८-२४) । "इन्द्र ने इनके यज्ञाश्व का अपहरण किया । सगर-पुत्रों ने सगस्त पृथिवी का शोदन किया । देवताओं ने ब्रह्मा से इनके पुत्रों के इस तथा अन्य हिताकार्यों का वर्णन किया । (१ ३९) ।" सगर-पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा ने देवताओं को शान्त किया । सगर के पुत्र पृथिवी को खोदते हुये कपिल के पास पहुँचे और उनके रोष से जलकर भस्म हो गये (१ ४०) । "इनकी आज्ञा से अशुमान् ने रसातल में प्रवेश करके यज्ञाश्व को लाकर अपने चाचाओं के निघ्न का समाचार सुनाया । इस समाचार को सुनकर इन्होंने कल्पोक्त विधि के अनुसार अपना यज्ञ पूर्ण किया और अपनी राजधानी छोड़कर गंगा को ले आने के विषय में दीर्घकाल तक विचार करते रहे परन्तु इन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा । तदनन्तर तीस हजार वर्षों तक राज्य करके ये स्वर्गलोक चले गये (१. ४१) ।" इनकी मृत्यु के पश्चात् अशुमान् ने राज्यभार ग्रहण किया (१ ४२, १-२) । सगर-पुत्रों की भस्मराशि को गंगा के पल ने आच्छादित कर दिया जिससे ये सभी राजकुमार निष्पाप हो स्वर्गलोक चले गये (१ ४३, ४१; ४४, ३) । ब्रह्मा ने भगीरथ को बताया कि जब तक सागर में जल रहेगा तब तक सगर-पुत्र देवों की भाँति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे (१ ४४ ४) । भगीरथ ने इनके पुत्रों का विधिवत् तर्पण किया (१ ४४, १७) । "ये राजा अक्षित द्वारा काळिन्दी के गर्भ से उत्पन्न हुये थे । जब ये काळिन्दी के गर्भ में ही थे तो उनकी सौत ने उनके गर्भ को नष्ट करने के लिये जो मर (विष) दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण ये 'सगर' कहलाये : 'सपत्या तु यस्तस्मै वतो गर्भनिधाराया । रह तेन गरेणैव सजात सगरोऽभवत् ॥', (१ ७०, ३७, २ ११० २१) ।" इनके एक पुत्र का नाम असमञ्ज था (१. ७०, ३८) । इनके पुत्र इनकी आज्ञा से पृथिवी खोदने हुये बुरी तरह मारे गये (२. २१, ३२; २ ११०, २२) । कँकयी ने कहा कि इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र, असमञ्ज, को निर्वासित कर दिया था (२ ३६, १६; २. ११०, २३) । दशरथ द्वारा हन अपने पुत्र के लिये शोक करते हुये मुनि-दम्पति ने मृतपुत्र के लिये उम लोक की कामना की जो इन्हें प्राप्त हुआ था (२. ६४ ४२) । विभीषण ने हनुमान् और सुग्रीव को बताया कि महाराजसगर को राजा सगर ने सुदवाया था और श्रीराम वही के बराबर हैं (६ १९, ३१) ।

सजप, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरभङ्ग मुनि के

स्वर्गलोक चले जाने के पश्चात् श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राममो से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६, ५ ८-२६) ।

सत्यकीर्ति, प्रजापति वृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिमको महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ४) ।

सत्यवती, विश्वामित्र की ज्येष्ठ भगिनी का नाम है जो ऋचीक मुनि की पत्नी थी (१ ३४ ७) । यह अपने पति का अनुमरण करके स्वर्गलोक चली गई और यही हिमालय का आश्रय लेकर कौशिकी नदी के रूप में भूतल पर प्रवाहित है (१ ३४, ८-११) ।

शत्यवान् प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को अर्पित किया (१ २८, ४) ।

सनत्कुमार—इन्होंने पूर्वकाल में ऋषियों के समक्ष दशरथ के पुत्रप्राप्ति से सम्बन्ध रखनवाली एक कथा सुनाई (१ ९, २) । सुमन्त्र ने इनकी कही हुई कथा का दशरथ के समक्ष वर्णन किया (१ ९, १८) ।

सप्तजन, एक आश्रम का नाम है जहाँ सात मुनि निवास करते हुये कठोर व्रत का पालन करने थे । वे नीचे सर करके तपस्या करते हुये जल में शयन करते थे तथा सात दिन और सात रात्रियाँ व्यतीत करके केवल वायु का आहार करते हुये एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे । उनके आश्रम का विस्तृत वर्णन किया गया है । लक्ष्मण सहित श्रीराम इस आश्रमवासी ऋषियों के उद्देश्य से उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़े (४ १३, १८-२९) ।

सप्तर्षिगण—श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, ११) ।

सप्तसप्ति, अगस्त्य द्वारा बर्णित आदित्य हृदय स्तोत्र में सूर्य का एक नाम है (६ १०५, ११) ।

सप्तसागर, एक तीर्थ का नाम है जहाँ शबरी के गुहजनों ने अपने चिन्तनमान से सात समुद्रों का जल प्रगट कर दिया था (७ ७४, २५) ।

समुद्र—जब इसके तट पर जाकर श्रीराम ने सूर्य के समान वैजस्वी बाणा से इसे धुवध कर दिया तब इसने प्रगट होकर श्रीराम से नल द्वारा सेतु निर्माण कराने के लिये कहा (१ १, ७९-८०) । इस पर बने सेतु से लङ्कापुरी में जाकर श्रीराम ने रावण का वध कर दिया (१ १, ८१) । इसने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा की न लंघने की प्रतिज्ञा की थी जिमका इमने उल्लङ्घन नहीं किया (२ १२, ४४) । श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका आवाहन किया (२ २५, १३ १६) । हनुमान् ने इसका लङ्घन किया और इसने अपने जल में छिपे हुये सुवर्णमय

गिरिश्रेष्ठ मैनाक से ऊपर उठकर हनुमान् को विश्राम देने के लिये कहा जिस पर मैनाक इसकी आज्ञा से इसके जल का भेदन करके ऊपर उठ गया (५ १, ८८-१०४) । मैनाक ने हनुमान् से कहा कि वे उसकी और समुद्र की भी प्रीति का सम्पादन करें (५ १, १२९) । मैनाक सहित इसने हनुमान् का सन्कार और अभिनन्दन किया, तदनन्तर हनुमान् इसका परित्याग करके आकाश में चलने लगे (५ १, १३४-१३५) । 'समुद्रमध्ये सुरसा विभ्रती राक्षस वपुः', (५ १, १४९) । "हनुमान् और सुयीव ने विभीषण से वानर-सेना के साथ इसे पार करने का उपाय पूछा जिस पर विभीषण ने कहा 'रघुवशी राजा श्रीराम को समुद्र की शरण लेनी चाहिये । इस अपार महासागर को राजा सागर ने खुदवाया था । श्रीराम सागर के दशज है इसलिये समुद्र को उनका कार्य अवश्य करना चाहिये ।' (६ १९, २८-३१) ।" 'सागरस्योपवेशनम्', (६ १९, ३३) । श्रीराम इसके तट पर कुश बिछाकर तीन दिनों तक घरना देकर बैठे रहे परन्तु इसके दर्शन न देने से अन्ततः कुपित हो उन्होंने बाण द्वारा इसे निधुब्ध कर दिया (६ २१) । "राम के इस प्रकार शोध करने पर धुब्ध सागर मूर्तिमान् होकर प्रगट हुआ । उस समय इसने विविध प्रकार के लाभपण धारण कर रखे थे और गंगा तथा सिन्धु आदि नदियाँ इसे घेर कर लड़ी थी । निकट आकर इसने श्रीराम को सेना सहित सागर पार होने का उपाय बताने का वचन दिया । श्रीराम के यह पूछने पर कि वे अपने अमोघ बाण को किस स्थान पर छोड़ें, इसने उत्तर में स्थित द्रुमकुल्य नामक स्थान का नाम बनाया (६ २२, १-३४) ।" इसने श्रीराम को यह परामर्श दिया कि वे विश्वकर्मा-पुत्र नल से सागर पर पुल का निर्माण करायें (६ २२, ४३-४६) ।

समुन्नत, एक राक्षस का नाम है जो प्रहस्त का सचिव था । दुर्मुख ने इसे कुचल डाला (६ ५८, १९ २१) ।

१. सम्पाति, एक गृध्र का नाम है जिन्होंने हनुमान् को समुद्रलट्टन के लिये प्रोत्साहित किया (१ १, ७२) । "ये जटायु के भ्राता तथा अपने बल और पुष्पाय के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे । प्राणोपवेशन करते हुये वानर इन्हे देखकर भयभीत हो गये । अङ्गद के मुख से अपने भ्राता, जटायु, के वध का समाचार सुनकर ये अत्यन्त व्यथित हो उठे और अपने को उस पर्वत से नीचे उतार देने के लिये वानरो से अनुरोध करने लगे, क्योंकि सूर्य की किरणों से पक्ष जल गये होने के कारण ये उठने में असमर्थ थे (४ ५६, १-५. १७-२४) ।" "शोक के कारण इनका स्वर विहृत हो गया था तथा वानर इनके वचन पर शङ्कित थे । अङ्गद ने इन्हे पर्वत-शिखर से नीचे उतारकर जटायु के

वध आदि का वृत्तान्त, राम सुग्रीव की मित्रता, और बालि वध का प्रसंग सुनाकर अपने आभरण उपवास का कारण निवेदन किया (४ ५७) ।

“अपनी आत्माकथा बताते हुये इन्होंने कहा पूर्वकाल में जब इन्द्र ने छुत्तामुर का वध कर दिया तब हम दोनों भाईयो ने इन्द्र पर आक्रमण करके उन्हें विजित किया । लौटते समय सूर्य के निकट हो जाने के कारण जब मेरा छोटा भाई, जटायु, दग्ध होने लगा तो मैंने अपने पक्षी से उसे ढ़ंक लिया । उस समय मेरे दोनो पक्ष जल गये और मैं विन्ध्य पर्वत पर गिर गया । यहाँ आकर मैं कभी अपने भाई का समाचार नहीं पा सका (४ ५८, १-७) ।”

“इन्होंने कहा ‘मैं वरुण के लोकों को जानता हूँ और अमूनमन्यन तथा देवासुर सग्राम भी मैंने देखा है । एक दिन मैंने दुरात्मा रावण को सीता का हरण करके ले जाने हुये देखा । उस समय सीता ‘हा राम ? हा राम !’ कह कर विलाप कर रही थी, इसी से मैं उन्हें पहचान गया । रावण लङ्का पुरी में निवास करता है और उनी के अन्त-पुर में सीता बन्दी हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम लोग समुद्र पार करके सीता का दर्शन कर सकोगे । गृध्र पक्षम आकाश-मार्ग में उड़ते हैं और उमते भी ऊँची उड़ान गरुड की है । हम सब का जन्म गरुड ने ही हुआ है परन्तु पूर्वजन्म के किसी निन्दित कर्म के कारण हम मामाहारी हो गये । मैं यहीं से रावण और जानकी को देख रहा हूँ । अब तुम लोग इस समुद्र के उस पार जाकर सीता का दर्शन करो । मैं भी तुम्हारी सहायता में समुद्र के किनारे चलकर अपने भाई, जटायु को जलाञ्जलि प्रदान करूँगा ।’ वानरों ने इनको समुद्र के किनारे पहुँचा दिया जहाँ इन्होंने जलाञ्जलि दी । तदनन्तर वानरो ने इन्हें पुन इनके स्थान पर पहुँचाया (४ ५८, ११-३४) ।”

“वानरों के पूछने पर इन्होंने सीताहरण का विवरण बताते हुये कहा ‘मेरे पुत्र, सुपाशवं, एक दिन मेरे लिये भोजन लाने गये परन्तु सूर्यास्त हो जाने पर खाली हाथ लौट आये । इस पर मैंने उनके लिये कठोर शब्दों का व्यवहार किया परन्तु उन्होंने बताया कि कुछ भी प्राप्त न होने पर वे समुद्र के भीतर विचरनेवाले जन्तुओं का मार्ग रोष कर खड़े हो गये । उन्होंने देखा कि एक बाण पुष्प एक मुन्दर शान्तिवाली स्त्री को लेकर जा रहा है । उस पुष्प ने उनसे मार्ग की याचना की जिस पर उन्होंने उसे मार्ग दे दिया । वह पुष्प रावण या और उसके माय की स्त्री हीता । उन्होंने बताया कि इसी कारण उन्हें विरम्ब हो गया । अपने पक्षहीन होने के कारण मैंने उस समय सीता को बचाने का प्रयत्न नहीं किया परन्तु तुम सब वानर चलवान् और शक्ति-सम्पन्न हो, अतः तुम लोग सीता के दर्शन का उद्योग करो ।’ (४ ५९, ५-२८) ।”

इन्होंने अपनी आत्म-

कृपा बताया (४ ६०) । इन्होंने विन्ध्य पर्वत पर निशाकर मुनि को अपने पक्ष जलने का कारण बताया (४ ६१) । निशाकर मुनि ने इन्हें सान्त्वना देते हुये भावी श्रीराम के कार्य में सहायता देने के लिये जीवित रहने का आदेश दिया और कहा कि इस प्रकार सहायता करके ये पक्षयुक्त हो जायेंगे (४ ६२) । "निशाकर मुनि के आदेशानुसार श्रीराम का कार्य निष्ठ करने के लिये इन्होंने वानरो को ज्यो ही सीता का पता बताया, ये पक्षयुक्त हो गये । तदनन्तर वानरो को सीता का दर्शन प्राप्त करने का आदेश देकर ये व्याकाश में उड़ गये (४ ६३, १-१३) ।" इनकी बातों से रावण के निवास-स्थान तथा उसके भाभी विनास की सूचना प्राप्त कर वानर समुद्र तट पर आये (४ ६४, २) । हनुमान् ने सीता को बताया कि वे इनके कहने से ही समुद्र-लङ्घन करके लङ्का आये (५ ३१, १४) ।

२. सम्पाति, एक वानर-प्रमुख का नाम है । किष्किन्धा पुरी की शोभा देखते हुये लक्ष्मण ने मार्ग में इनके भवन को भी देखा (४. ३३, १०) । इन्होंने प्रजङ्ग नामक राक्षस के साथ द्वन्द्व-युद्ध किया (६. ४३, ७) । प्रजङ्ग ने इन्हें बाह्य किया (६. ४३, २०) । श्रीराम ने समराङ्गण में इनके पराक्रम का उल्लेख किया (६ ४९, २७) । सुषेण ने बताया कि ये क्षीरमातर के तट पर उपलब्ध सर्वावकरणों तथा विशाल्वा नामक औषधियों को जानते हैं (६ ५०, २९) ।

३. सम्पाति, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने सीता को खोज की (५. ६, २२) । यह विभीषण का मन्त्री था (६ ३७, ७) । यह माली का पुत्र था जो विभीषण का मन्त्री बना (७. ५, ४४) ।

सम्प्रदाय, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरभङ्ग मुनि के स्वर्गलोक चले जाने के पश्चात् श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३. ६, २. ८-२६) ।

१. सरमा, एक राक्षसी का नाम है जो रावण की आज्ञा से सीता की रक्षा करती थी । यह अत्यन्त दयालु स्वभाव की राक्षसी थी । सीता को मोह में पड़ा हुआ देखकर इमने उन्हें सान्त्वना दी । तदनन्तर रावण की माया का भेद मोलने हुये श्रीराम के आगमन का प्रिय समाचार सुनकर इमने उनके विजयी होने का सीता को विश्वास दिलाया (६ ३३) । सीता के अनुरोध से इमने उन्हें मन्त्रियों-सहित रावण का निश्चित विचार बताया (६ ३४) ।

२. सरमा, गन्धर्वराज महात्मा शैलप की पुत्री का नाम है जिसे विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया (७ १२, २४) । "इसका जन्म

मानमरोवर के तट पर हुआ था । जब इमका जन्म हुआ तो उस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने से मानमरोवर बड़ने लगा । उस समय इमकी माना ने पुत्री के स्नेह से युक्त होकर कष्टन भन्दन करने हुये उस सरोवर से कहा 'सरो मा वर्धयस्व' । घनराहत में उसने 'सर मा' कहा इसीलिये इम नन्या का नाम 'सरमा' हो गया (७ १२, २५-२६) ।

सरयू, एक नदी का नाम है जिसके उत्तर-तट पर यज्ञ भूमि के निर्माण के लिये दशरथ ने अपने मत्रियों को आज्ञा दी (१ ८, १५, १२ १५) । इसके तट पर दशरथ का यज्ञ आरम्भ हुआ (१ १४, १) । विश्वामित्र ने श्रीराम को इसके जल से आचमन करन के लिये कहा (१ २२, ११) । श्रीराम ने लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ इमके तट पर रात्रि में सुखपूर्वक निवास किया (१ २२, २२) । श्रीराम और लक्ष्मण गंगा सरयू के शुभ सगम पर गये (१ २३ ५) । यह अयोध्या का स्पर्श करती हुई बहती है, और ब्रह्मसर (मानस) से निकलने के कारण इस पवित्र नदी का नाम सरयू पडा : 'नस्तप्तुमुन्नाद्य सरस सापोध्यापुनरुहते । सरप्रकृता सरयू पुष्पा ब्रह्मसरश्च्युता ॥', (१ २४, १) । श्रीराम ने इसका स्मरण किया (२ ४९, १४-१५) । इसके तट पर ही दशरथ ने भ्रमरेश मुनि कुमार का वध कर दिया था (२ ६४, १४-१६) । श्रीराम ने सीता से मन्दाकिनी नदी को सरयू के सट्टा समझने के लिये कहा (२ ९५, १५) । परमधाम जाने क लिये श्रीराम इसके तट की ओर प्रस्थित हुये (७ १०९ ४) । श्रीराम ने अयोध्या से डेढ़ योजन दूर जाकर इसका दर्शन किया (७ ११०, १) । श्रीराम प्रजाजनों के नाथ इसके तट पर आये (७ ११०, २) । श्रीराम ने इसके जल में प्रवेश किया (७ ११०, ७) । श्रीराम के साथ आये हुये समस्त पुरवामियों ने इसके जल में डुबकी लगाई (७ ११०, २३) । जिस जिस न इमके जत्र म गोना लगाया उमे सन्तानक लाक की प्राप्ति हुई (७ ११०, २४-२५) ।

१. सरस्वती, पश्चिमवाहिनी एक नदी का नाम है । त्रेकय से लीकते समय भरत इसके और गंगा के सगम स्थल से होकर आये थे (२ ७१, ५) । यही सीता की शोज करने के लिये सुग्रीव ने वनत को भेजा (४ ४०, २१) ।

२. सरम्यती—जब कुम्भकर्ण की वर देने के लिये उद्यत हुए ब्रह्मा की देवताओं न रोजा तो ब्रह्मा ने इन देवी का स्मरण किया (७ १०, ४१) । इन्होंने ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित होकर जब अपने बुगये जाने का प्रयोजन पूछा तो ब्रह्मा ने इन्हें कुम्भकर्ण की जिह्वा पर विराजमान् होकर देवताभा के अगुवूठ वाणी के रूप में प्राट होने के लिये कहा (७, १०, ४२-४३) । जब

कुम्भकर्ण को वर देकर ब्रह्मा चले गये तब इन्होंने कुम्भकर्ण को छोड़ दिया (७. १०, ४७) ।

सर्पनाथ, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१. २८, ९) ।

सर्पास्य, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम क विषट्ट युद्ध के लिये खर के साथ आया (३ २२, ३३) । इनके खर के साथ श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २७) । श्रीराम ने इसका वध कर दिया (३ २६, २९-३५) ।

सर्वतापन, अगस्त्य द्वारा वर्णित आदित्यहृदय-स्तोत्र में सूर्य का एक नाम है (६ १०५, १४) ।

सर्वतीर्थ, एक ग्राम का नाम है । केकय से लौटते समय भरत ने यहाँ एक रात्रि निवास किया था (२ ७१, १४) ।

सर्वभयोद्भव, अगस्त्य द्वारा वर्णित आदित्यहृदय-स्तोत्र में सूर्य का एक नाम है (६ १०५, १४) ।

सलिलाहार, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने धरमङ्ग मुनि के स्वर्गलोक चले जाने के परन्तान् श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६, ४ ८-२६) ।

सविता, अगस्त्य मुनि द्वारा वर्णित आदित्यहृदय-स्तोत्र में सूर्य का एक नाम है (६, १०५, १०) ।

सहदेव, धूम्राक्षपुत्र मृञ्जय के पुत्र का नाम है (१ ४७, १५) ।

सह्य, एक पर्वत का नाम है जहाँ पर उत्पन्न होने वाले मृगजाति के हाथी अयोध्या में दशरथ के शासनकाल में वर्तमान थे (१. ६, २५) । श्रीराम आदि ने सेना सहित इसे देखा (६ ४, ३८ ७३) ।

सानुप्रस्थ, एक वानर का नाम है जिसे श्रीराम ने अन्य लोगों के साथ इन्द्रजित् का पता लगाने के लिये भेजा (६ ४५, ३) ।

सारण, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में सीता की खोज करते हुये हनुमान् गये (५ ६, २०) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५ ४४, १०) । "रावण ने शुक के साथ इसको मुत्तरूप से वानरों का भेद लेने के लिये भेजा । शुक-महिव्र इसने वानर का रूप धारण करके वानरों सेना में प्रवेश किया परन्तु छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुये इन दोनों राक्षसों को पहचान कर विभीषण ने पकड़वा लिया । श्रीराम ने रावण के पास इसके द्वारा सन्देश भेजते हुये इसे मुक्त करा दिया (६ २५, १-२५) ।" श्रीराम का अभिगमन करने के परन्तान् इसने लड्डा लौटकर श्रीराम के पराक्रम आदि २४ वा० को०

का रावण से वर्णन किया (६ २५, २६-३३) । इसने रावण को पुष्पक-पुष्पक वानर यूयपतियो का परिचय दिया (६ २६-२७) । रावण ने इसे फटकार कर अपने दरवार से निकाल दिया (६ २९, १-१५) । रावण ने इस लड्डू के उत्तर द्वार की रक्षा करने के लिये कहा (६ ३६, १९) । 'शुकमारणो', (६. ४४, २०, ७ १४, १, १९, १९, २७, २८, ३१, २६ ३४, ३२, ११ १७ २०. २२ ३६ ४८) ।

सार्चिमाली, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र एक, अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित कर दिया था (१ २८, ७) ।

सार्चमौम, एक गजराज का नाम है जो वैखानस सरोवर के क्षेत्र में विचरण करता था (४ ४३, ३५) ।

सालकटङ्कटा, सन्ध्या की पुत्री का नाम है जिसका विश्वामित्र नामक राजस के साथ विवाह हुआ । गर्भ धारण के पश्चान् इसने मन्दराचल पर्वत पर एक बालक को जन्म दिया । तदन्तर अपने उस नवजात पुत्र को वही छोड़कर यह अपने पति के साथ रमण करने चली गई (७ ४, २३-२५) । 'स्थिताः प्रत्यातवीर्यास्ते वसो मालकटङ्कटे' (७ ८, २३) ।

सालवन, कलिङ्ग नगर के निकट स्थित एक स्थान का नाम है । वेकय में लौटने समय भरत इधमें होकर आये थे (२ ७१, १६) । भरत के पास श्रीराम का सदेश ले जाते समय हनुमान् ने मार्ग में इस भयकर वन को देखा (६ १२५, २६ सालवन) ।

साल्वेय, एक पर्वत का नाम है जहाँ शरभ नामक वानरयूयपति निवास करते थे (६ २६, ३६) ।

सावित्र—देविये वसु ।

सांकाश्या, एक नगरी का नाम है जहाँ जनक के भ्राता, कृशाश्व, निवास करते थे । इसके चारों ओर परकोटी की रक्षा के लिये शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े-बड़े यन्त्र लगाये गये थे । यह नगरी पुष्पक विमान से समान विस्तृत तथा पुष्प से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुन्दर थी (१ ७०, २-३) । जनक के दूतों ने यहाँ पहुँचकर कृशाश्व को मिथिला का यथार्थ समाचार और जनक का अभिप्राय भी सुनाया (१ ७०, ७) । यहाँ मुषन्वा राज्य करते थे जिन्होंने जनक पर आक्रमण किया (१ ७१, १६) । जनक ने मुषन्वा का वध करके यहाँ अपने भ्राता, कृशाश्व, को अभिषिक्त कर दिया (१. ७१, १९) ।

सिद्धगण—श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये कीमत्या ने इनका आवाहन किया (२ २५, १२) ।

१. सिद्धार्थ, दशरथ के एक बयोवृद्ध मंत्री का नाम है जिन्होंने कैकेयी को समझाने हुये स्वयं भी राम के साथ वन जाने की इच्छा प्रगट की (२ २६, १८-३३) । श्रीराम के स्वागत के लिये ये हाथी पर सवार होकर नगर में बाहर निकले (६ १२७, १०) । ये बन्धु मन्त्रियों के साथ श्रीराम के अभ्युदय के लिये मन्त्रपा करने लगे (६ १२८, २४) ।

२ सिद्धार्थ, एक दूत का नाम है जिन्हे दशरथ की मृत्यु के पश्चात् वसिष्ठ ने भरत को अयोध्या बुलाने के लिये भेजा था (२ ६८ ५) । ये राजगृह पहुँचे (२. ७०, १) । केकराज ने इनका स्वागत किया जिसके पश्चात् इन्होंने भरत को वसिष्ठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया (२. ७० २-५) । भरत की बातों का उत्तर देने के बाद इन्होंने उनसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिय कहा (२ ७०, ११-१२)

सिद्धाश्रम, एक आश्रम का नाम है जहाँ विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी (१. २९, ३, २६) । यहाँ के निवासियों (तपस्वियों) ने श्रीराम, लक्ष्मण और विरामित्र का आनिध्य-माफकार किया (१ २९, २६) । 'सिद्धाश्रमोऽसिद्ध-स्वात्', (१ २९, २९) । श्रीराम ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले मारीच तथा सुबाहु आदि का वध करके इस सिद्धाश्रम का नाम सफल कर दिया (१ ३०, २६) ।

१ सिन्धु, एक समृद्धिदायी देव का नाम है जिस पर दशरथ का आधिपत्य था (२ १०, ३८) । दशरथ ने कैकेयी को प्रसन्न करने के लिये उसे यहाँ उत्पन्न होने वाले उत्तम उपहार देने के लिये कहा (२ १०, ३९-४०) ।

२. सिन्धु, एक नदी का नाम है जिसके किनारे सीता की शोच करने के लिये सुग्रीव ने विनय की भेजा था (४ ४०, २१) ।

सिन्धुनद, एक देव का नाम है जहाँ के निकट के अथवा उर्व्वशरा (इन्द्र के घोड़े) के समान होने हैं (१ ६, २२) ।

सिंहिका—“उच्च हनुमान् सागर-लङ्घन कर रहे थे तो इस विशालकाया राक्षसी ने उनका भक्षण करने का निश्चय करके उनकी छाया पकड़कर अपनी ओर सींच लिया । हनुमान् ने सुग्रीव इसका उल्लेख कर चुके थे, अतः अपने को सन्तुष्टि करके हनुमान् ने इसके मुख में प्रवेश किया और अपने तीक्ष्ण नखों से इसके मर्मस्थानों को विदीर्ण कर डाला । इस प्रकार इसका वध करके हनुमान् पुनः बाहर निकल आये (५ १, १८५-१९७) ।” ‘ता हता वानरेणागु पविता वीक्ष्य सिंहिकाम् । भूनाग्यानासचारीणि तमूचु प्लवगोत्तमम् ॥’, (५ १, २००) । हनुमान् ने लङ्का से लौटने के पश्चात् वानरो से इसके वध का समाचार सुनाया (५ ५८, १४-४६) । ‘सिंहिकामुतः’, (७ ३५, ३३ ४२) ।

सीता, जनक की पुत्री और श्रीराम की पत्नी का नाम है जो श्रीराम के साथ वन गईं 'जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता । सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधुः । सीताऽप्यनृणता राम सन्नि रोहिणी यथा ।', (१. १, २७-२८ ३०) । श्रीराम आदि के साथ ये भी एक वन से दूसरे वन में गईं (१. १, ३०) । मारीच की महायत्ना से रावण ने इनका अपहरण कर लिया (१. १, ५३) । श्रीराम से सुग्रीव से इनके अपहरण का वृत्तान्त सुनाया (१. १, ६०) । हनुमान् ने इनके स्थान के अतिरिक्त समस्त लङ्का को भस्म कर दिया (१. १, ७७) । रावण का वध करने के पश्चात् श्रीराम इनसे मिलकर अत्यन्त लज्जित हुये (१. १, ८१) । भरती सभा में श्रीराम के मर्मभेदी वचनों को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेष्ट कर गईं (१. १, ८२) । अग्नि के कहने पर श्रीराम ने इन्हें निष्कलङ्क माना (१. १, ८३) । वाल्मीकि ने इनसे सम्बन्धित समस्त बातों का पूर्वदर्शन कर लिया था (१. ३, ३) । वाल्मीकि ने इनके श्रीराम के साथ विवाह का भी पूर्वदर्शन कर लिया था (१. ३, ११) । अनुमूषा के साथ इनकी कुछ काल तक की स्थिति तथा अगस्त्य समर्पण का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१. ३, १८) । रावण द्वारा इनके हरण तथा श्रीराम के इनके लिये विलाप, सुग्रीव द्वारा इनकी खोज के लिये वानर सेना के सग्रह, श्रीहनुमान् द्वारा इनके दर्शन तथा पहचान के लिये अगुंठी देने और इनसे वार्तागार, राक्षसियों द्वारा इनके डाँट फटकार, इनके दर्शन के हनुमान् द्वारा श्रीराम से निवेदन, श्रीराम के इन्हें वन में त्याग देने आदि का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१. ३, २०-२२ २४ ३०-३२ ३६, ३८) । इनके चरित्र से मुक्त रामायण महाकाव्य का वाल्मीकि ने स्व-रूप को अव्ययन कराया (१. ४, ७) । जनक द्वारा यज्ञ के लिये भूमिगोपन करने समय हृत् के अग्रभाग से जोड़ी गयी भूमि से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सीता रक्ता गया 'अथ मे हृत्त क्षेत्रे साङ्गलादुत्पिप्ता तन । अत्र सोमवृत्ता लब्धा नाम्ना सीतेति विद्युता ॥', (१. ६६, १३) । ये अयोनिदा और वीर्यशून्या थी वन जनक ने यज्ञ के धनुष की प्रपन्था चढ़ा देने वाले पराक्रमी राजा के साथ ही इनका विवाह करने का निश्चय किया (१. ६६, १४-२६) । जनक ने इन्हें श्रीराम को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की (१. ६८, १०, ७१, २१) । जनक ने श्रीराम को अपनी पुत्री सीता को भार्या के रूप में समर्पित कर दिया (१. ७३, २४-२७) । राम और सीता परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त रहते हुये सुखपूर्वक श्रेष्ठा विहार करते थे (१. ७७, २६-३०) । ये श्रीराम के राग्याभिरुचि का समाचार सुनकर व्यसिप्त हुईं (२. ४, ३१-३२) । श्रीराम इनके साथ

अपने भवन में गये (२ ४, ४५) । दशरथ ने कंकेयी को बताया कि सीता श्रीराम के वनवास पर शोक करेगी जिससे दशरथ की मृत्यु हो जायगी (२ १२, ७३-७६) । ये श्रीराम के पास बैठकर अपने हाथ से चंवर डूला रही थीं, इनके अत्यन्त समीप बैठे हुये श्रीराम चित्रा से संयुक्त चन्द्रमा की भाँति शोभा पाते थे (२ १६, १०) । इन्होंने श्रीराम की शुभकामना की (२ १६, २१-२४) । 'अथ सीतायनुशास्य कृन्कौतुकमङ्गल', (२ १६, २५) । 'सर्व-सीमन्तिनीम्यश्व सीता सीमन्तिनी वरा । अमम्यन्त हि ता तार्यो रामस्य हृदयप्रियाम् ॥ तथा सुचरित देव्या पुरा नून महत् तप । रोहिणीव शशाङ्केन रामसयोगभाष या ॥', (२ १६ ४०-४१) । श्रीराम ने सीता को समजा-बुझाकर उसी दिन विशाल दण्डक वन की यात्रा करने का निश्चय किया (२ १९, २५) । कौमल्या से वन जाने के लिये आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के पश्चात् श्रीराम सीता के महल की ओर चल दिये । (२ २५, ४५) । इन्होंने श्रीराम को उदास देखकर उनसे उदासी का कारण पूछा (२ २६, ३-१८) । श्रीराम ने इन्हे सत्य-व्रत में तत्पर रहकर अयोध्या में ही निवास करने के लिये कहा (२ २६, २३-३८) । इन्होंने श्रीराम से अपने को भी साथ ही वन ले चलने की प्रार्थना की (२ २७) । श्रीराम ने वन के कष्टों का वर्णन करते हुये इन्हें वन चलने से घना किया (२ २८) । इन्होंने श्रीराम के समक्ष अपने वन-गमन का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया (२ २९) । "इन्होंने श्रीराम के साथ वन चलने का प्रबल-आग्रह करते हुये कहा : 'जिस प्रकार सावित्री बोरवर सत्यवान् की अनुगामिनी थीं उसी प्रकार आप भी मुझे अपनी आज्ञा के अधीन समझिये । आपके विरह का शोक मैं सहन नहीं कर सकूंगी जब आप मुझे भी अपने साथ ले चलें ।' इस प्रकार आपह करती हुई ये घोर विलाप करने लगी (२ ३०, १-२५) ।" श्रीराम ने इन्हें वन चलने की स्वीकृति देते हुये पिता-भाता और गुरुजनो की सेवा का महत्व बताया और वन चलने की तैयारी के लिये घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा दी (२ ३०, २६-४०) । लक्ष्मण और इन्हें साथ लेकर श्रीराम दुक्षी नगर-वाग्गियों के मुण से तरह-तरह की वाने सुनते हुये पिता के दर्शन के लिये कंकेयी के महल में गये (२ ३३) "वीर धारण करने में कुशल न होने के कारण जब ये एक वन-व गले में डाल कर और दूसरा हाथ में ले चुपचाप खड़ी रही तब श्रीराम ने इन्हें बन्बल पहनाया । उस समय राम तथा अन्त पुर की अन्य स्त्रियाँ विलाप करने लगी । स्त्रियों ने कहा कि इस प्रकार सीता को बल्बल धारण करके वन जाने की आज्ञा नहीं दी गई है (२ ३७, १३-२०) ।" उस समय वसिष्ठ ने कंकेयी को धिक्कारते हुये इनके बल्बल-धारण को अनुचित बताया (२.

३७, २१-३७) । इन्हें बल्कल धारण करते हुये देखकर जय वहाँ उपस्थित लोग दशरथ को धिक्कारने लगे तो दशरथ ने भी इनके बल्कलधारण को अनुचित बताते हुये कैंकेयी को फटकारा (२ ३८, १-१२) । “दशरथ ने कोपाध्यक्ष को इनके पहनने योग्य बहूमूल्य वस्त्र और आभूषण आदि देने का आदेश दिया । जब कोपाध्यक्ष ने इन्हें ये सब वस्तुयें समर्पित कर दी तो इन्होंने अपने सभी अङ्गो को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया (२ ३९, १५-१८) ।” कौसल्या ने इन्हें गले से लगते हुये उपदेश दिया (२ ३९, १९-२६) । इन्होंने अपनी सास के उपदेशों को ग्रहण किया (२ ३९, २७-३२) । इन्होंने हाथ जोड़कर दीनभाव से दशरथ के धरणा का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिण की (२. ४०, १) । ये अपने अङ्गो में उत्तम अलङ्कार धारण करके वन जाने के लिये प्रसन्नचित्त में रथास्त्र हुई (२ ४०, १३, १४) । इनके वनके लिये प्रस्थान करन पर पुरवासियों ने कहा कि ये वृत्तार्थ हो गई क्योंकि ये पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति अपने पति के साथ चली (२. ४०, २४) । श्रीराम ने इन्हें उस भूमि का दर्शन कराया जिसे पूर्वकाल में मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था (२ ४९, १२) । श्रीराम ने इन्हें नाव पर बैठाया (२ ५२, ७५-७६) । इन्होंने हाथ जोड़कर गंगा से प्रार्थना की (२ ५२, ८२-९१) । ये श्रीगम और लक्ष्मण के साथ भरद्वाज आश्रम पहुँची (२ ५४) । (२ ५४) । इन्होंने श्रीगम और लक्ष्मण के साथ यमुना को पार करते समय यमुना और श्यामवट की प्रार्थना की (२ ५५, १६-२१ २४-२५) । कैंकेयी ने भरत को बताया कि दशरथ ने राम और लक्ष्मण सहित इनके वनवास पर विलाप करते हुये प्राणत्याग कर दिया (२ ७०, ३६ ३८ ४० ५०) । ‘विदामन च सीमिने सीतायाश्च यथाभवत्’, (२ ७५, ३) । “ओषवाग्य तदाकार्षीद्राघव सह सीतया’, (२-८७, १८) । भरत ने भूमि पर इनकी कृश शय्या को देखकर शोकपूर्ण उद्गार प्रगट किये (२ ८८, १२ १४-१६) । श्रीराम ने इनको चित्रकूट की सीमा दिखाया (२ ९४) । श्रीराम ने इन्हें मन्दाकिनी नदी का दर्शन कराकर उसकी सीमा का वर्णन किया (२. ९५) । ‘सीता च भयना गुहाम्’, (२ ९६, १४) । ‘वैदेही’, (२ ९७, २३, ९८, ६, ११) । ‘निष्क्रान्तमाने भवति सह-सीते सलक्ष्मणे’, (२ १०२, ६) । अपने स्वशूर, दशरथ, के निघन का समाचार सुनकर इनके नेत्रों में आँसू भर आये जिससे श्रीराम ने इन्हें सान्त्वना दी (२ १०३, १५ १८-१९) । ‘सीता ,पुरस्ताद् व्रजतु’, (२. १०३, २१) । इन्होंने मन्दाकिनी के तट पर श्रीराम के आश्रम में आयी हुई मागुओं के धरणा में प्रणाम किया और कौसल्या ने इनका आलिङ्गन करके शोक प्रगट किया

(२ १०४, २२-२६) । ये श्रीराम और लक्ष्मण के साथ अत्रिमुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत हुई (२ ११७, ४, ६) । श्रीराम की आज्ञा से इन्होंने अनसूया को प्रणाम करके उनका कुशल समाचार पूछा (२-११७, १३-१५ १७-१८) और अनसूया ने इनका सत्कार करते हुये इनकी प्रशंसा की (२ ११७, १९-२७) । इन्होंने अनसूया के साथ वार्तालाप किया; अनसूया ने इन्हें प्रेमोत्तहार प्रदान किया, और अनसूया के वृत्तने पर इन्होंने उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाया (२ ११८) । ये अनसूया की आज्ञा से उनके दिये हुये वस्त्राभूषणों को धारण करके श्रीराम के पास आई और श्रीराम इन्हें तयाविध देखकर अत्यंत प्रसन्न हुये (२ ११९ १-१४) । दण्डकारण्य के तापमो न इन्हें मङ्गलमय आशीर्वाद प्रदान किये (३ १, १०-१२) । विराध ने इन्हें अपने अधिवार में कर लिया जिससे श्रीराम और लक्ष्मण चिन्तित हुये (३ २, १५-२१) । आहत हो जाने पर विराध ने इन्हें अलग छोड़ दिया (३ ३, १३) । जब विराध श्रीराम और लक्ष्मण की उठा से गया तब इन्होंने विलाप करते हुये विराध से राम और लक्ष्मण को मुक्त कर देने का निवेदन किया (३ ४, १-३) । इनका यह वचन सुनकर श्रीराम तथा लक्ष्मण विराध का वध करने में शीघ्रता करने लगे (३. ४ ४) । ये भी श्रीराम के साथ शरमङ्ग के आश्रम में गई (३ ५) । ये श्रीराम के साथ सुनीलग के आश्रम में गई (३ ७-८) । इन्होंने श्रीराम से निरपराध प्राणियों का वध न करने और अहिंसा-धर्म पर दृढ़ रहने का अनुरोध किया (३ ९) । मत्स्य जगत्स्य ने इनकी प्रशंसा की (३ १३, २-८) । जटायु ने इनकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व लिया (३ १४, ३४) । श्रीराम आदि ने गीता को जटायु के संरक्षण में सौंपा (३. १४, ३६) । राम और लक्ष्मण के साथ ये पञ्चपटी में सुतपूर्वक निवास करने लगी (३ १५, ३१) । इनका तिरस्कार करने हुये शूर्पणखा ने अपने को इनसे धेष्ट निष्ठ करने का प्रयास किया (३ १७, २५-२७) । शूर्पणखा ने इनका तिरस्कार करते हुये स्वयं अपने को श्रीराम की समर्पित किया और इनका भक्षण करने के लिये इनपर झपटी (३, १८, १४-१७) । सर आदि राक्षसों से युद्ध करने के पूर्व श्रीराम ने इन्हें लक्ष्मण के साथ पर्वत की गुफा में भेज दिया (३ २४, १२-१५) । सर आदि राक्षसों का वध हो जाने के पश्चात् लक्ष्मण इन्हें पर्वत की गुफा से बाहर निकालकर श्रीराम के पास आ गये (३ ३०, ३७-४१) । अकम्पन ने इन्हें सम्पूर्ण त्रिशूलों में एक रत्न बनाते हुये रावण को इनके अपहरण का परामर्श दिया जिसको अङ्गीकार करते हुये रावण ने इनका अपहरण करने का निश्चय किया (३ ३१, २९-३३) । इनके रूप और सौन्दर्य का वर्णन

करते हुये शूर्पणखा ने रावण को इन्हें अपनी भार्या बनाने के लिये प्रेरित किया (३ ३४, १४-२२) । मारीच ने इनके अपहरण करने के प्रयास से रावण को विरत होने का परामर्श दिया (३ ३७-३९) । रावण ने इन्हें लुभाने के लिये मारीच को काञ्चन-मृग बनने का परामर्श दिया (३ ४०, १९) । इन्हे लुभाने के लिये मारीच कपट-मृग बनकर इनके निकट विचरने लगा, जिसे देखकर इन्हे अत्यन्त विस्मय हुआ (३ ४२, २०-२५) । मृग को देखकर ये अत्यन्त प्रसन्न हुई और राम तथा लक्ष्मण को भी उसे देखने के लिए बुलाया (३ ४३, १-४) । इन्होंने कपटमृग की सोमा का वर्णन करते हुये श्रीराम से उमे पकड़ लाने का प्रबल आग्रह किया । (३. ४३, ९-२१) । "मारीच की कपटवाणी सुनकर इन्होंने उसे श्रीराम का स्वर मानते हुये लक्ष्मण को राम की सहायता में लिये भेजने का प्रयास किया । लक्ष्मण के अस्वीकार करने पर उनके चरित्र पर आक्षेप करते हुये इन्होंने उन्हें राम के पास जाने के लिये विवश कर दिया (३ ४५) ।" जब लक्ष्मण आश्रम से चले गये तब रावण ने साधुवेश में इनके पास आकर इनका परिचय पूछा और इन्होंने आतिथ्य के लिये उसे आमन्त्रित किया (३ ४६) । इन्होंने रावण को अपने पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताया और जब रावण ने इन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रगट की तो इन्होंने उसे फटकारा (३ ४७) । जब रावण ने अपने पराक्रम का वर्णन किया तो इन्होंने उसे बड़ी फटकार दी (३ ४८) । "जब रावण ने अपना सौम्यरूप त्याग कर इनका अपहरण कर लिया और आकाशमार्ग से इन्हे लेकर चला तो ये अत्यन्त विलाप करने लगी । उम समय इन्होंने एक वृक्ष पर बैठे हुये जटायु को देखा और उनसे श्रीराम और लक्ष्मण को अपने अपहरण का समाचार बताने के लिये कहा (३ ४९) ।" जब रावण ने जटायु का वध कर दिया तब दुःख से व्याकुल होकर ये जटायु को पकड़ कर विलाप करने लगी (३ ५१, ४४-४६) । "जटायु के वध पर अत्यधिक विलाप करते हुये जब इन्होंने अपनी सहायता करने के लिये राम और लक्ष्मण का आवाहन किया तब रावण ने क्रुद्ध होकर इनका बेश पकड़ लिया । उम समय वायु की गति रुक और सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई । इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा ने कहा 'यम अब कार्य सिद्ध हो गया ।' इन्हें लेकर रावण आकाशमार्ग से दक्षिण दिशा की ओर चला (३. ५२) ।" इन्होंने अपना अपहरण करनेवाले रावण को धिक्कारा (३ ५३) । "जब रावण आकाशमार्ग से इन्हें ले जा रहा था तो एक पर्वतशिखर पर पाँच श्रेष्ठ दानवों को देखकर इन्होंने अपने कुछ घन्नाभूषणों को उनके बीच फेंक दिया । रावण इनके इस कार्य को जान नहीं पाया (३. ५४, १-४) ।" रावण ने इन्हें

लका लाकर अपने अन्तःपुर में रक्खा (३ ५४, ५-१३) । तदनन्तर रावण ने मयकर राक्षसियों को इनके षतुर्दिग् पहरा देने का आदेश दिया (३ ५४, १४-१६) । रावण ने अपने अन्तःपुर का दर्शन कराते हुये इनसे अपनी भार्या बनने के लिये कहा (३ ५५) । श्रीराम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर इन्होंने रावण को फटकारा जिसपर रावण की आज्ञा से राक्षसियों ने इन्हें अशोकवाटिका में लाकर डराना घमसाना आरम्भ किया (३ ५६) । अज्ञा की आज्ञा से देवराज इन्द्र ने निद्रा सहित लका में आकर इन्हें दिव्य सीर अपित की (३ ५७ क) । इन्हें देखने की उत्सुकता में मारीच-वध के पश्चात् इनकी सुरक्षा की चिन्ता करते हुये श्रीराम दीघ्रतापूर्वक आश्रम लौटे (३ ५७, २-८) । मारीच-वध के पश्चात् इनकी चिन्ता करते हुये आश्रम लौट कर जब श्रीराम ने इन्हें वहाँ नहीं देखा तो अत्यन्त विपाद में दूष गये (३ ५८) । इन्हें आश्रम में अकेले छोड़ देने के सम्बन्ध में श्रीराम से वार्तालाप करते हुये लक्ष्मण ने इनकी कटूक्तियों को ही कारण बताया (३ ५९) । श्रीराम ने विलाप करते हुये वृक्षों और पशुओं से इनका पता पूछा और भ्रातृ होकर हदन करते हुये बार-बार इनकी खोज की (३ ६०) । श्रीराम और लक्ष्मण ने इनकी खोज की और इनके न मिलने पर श्रीराम व्यथित हो उठे (३ ६१) । इन्हें कहीं न देखकर शोक से व्याकुल हो श्रीराम विलाप करने लगे (३ ६१-६२) । 'सीतायाश्च विनाशोऽयं मम पामित्रसूदन', (३. ६२, १८) । इनके और राक्षसों के पैरों के निशान देखकर श्रीराम पबरा उठे (३. ६४, ३८) । श्रीराम ने कबन्ध से भी इनका पता पूछा (३ ७१, २५) । श्रीराम ने लक्ष्मण से इनके बिना जीवित रहने की असमर्थता प्रगट की (३ ७५, २८) । लक्ष्मण ने हनुमान् को इनके वन में आने तथा अपहृत होने का वृत्तान्त बताया (४ ४, १०-१४) । हनुमान् ने सुग्रीव को रावण द्वारा इनके अपहृत होने का समाचार बताया (४. १, ६) । सुग्रीव ने अपहरण का वृत्तान्त बताते हुये इन्हें ढूँढकर ला देने की प्रतिज्ञा की और इनके वस्त्रों और आभूषणों को दिखाया (४ ६, १-१४) । "श्रीराम ने इनके वस्त्राभूषणों को हृदय से लगाकर विलाप किया । तदनन्तर लक्ष्मण को उन्हें पहचानने के लिये कहा परन्तु दोनों नृपुत्रों को छोड़कर अन्य आभूषणों को पहचानने में लक्ष्मण ने अपनी असमर्थता प्रगट की । श्रीराम ने सुग्रीव से इनके अपहरणवर्ता का पता पूछा (४ ६, १५-२७) ।" रमणीय प्रसन्नवन गिरि पर भी श्रीराम इनके वियोग से दुखी हो जाते थे (४ २७, ३०) । हनुमान् ने सुग्रीव से इनकी खोज करने के लिये कहा (४ २९, १५-२३) 'न जानकी मानव चक्षणाप त्वया सनाथा मुलमा परेण', (४. ३०, १८) । 'अथ पद्मपलाशाक्षी

मैथिलीमनुचिन्तयन् । उवाच लक्ष्मण रामो मुषेन परिगृह्यता ॥” (४ ३०, २१) । श्रीराम, लक्ष्मण के समझ इनके लिये व्यथित हो उठे (४ ३०, ६४-६६) । श्रीराम ने लक्ष्मण को बताया कि सुग्रीव इनकी खोज करने की प्रतिज्ञा करके भी खोज नहीं कर रहा है (४ ३०, ६९) । इनकी खोज के त्रिद सुग्रीव ने पूर्व दिशा में वानरों को भेजा (४ ४०) । इनकी खोज के लिये सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में हनुमान् आदि वानरों को भेजा (४ ४१) । इनकी खोज के लिये सुग्रीव ने पश्चिम दिशा में सुषेण आदि वानरों को भेजा (४ ४२) । सुग्रीव ने इनकी खोज के लिये शतबलि आदि वानरों को उत्तर दिशा में भेजा (४ ४३) । ‘कत्र सीता वेन वा दृष्टा को वा हरति मैथिलीम’, (४ ५९, ३) । ‘सीता श्रुतिसमाहितान्’, (४ ५९, ५) । हनुमान् ने इनका दर्शन न होने पर रावण को ही बाँधकर लाने की प्रतिज्ञा की (५, १, ४०-४२) । ‘तस्य सीता हता मायां रावणेन यशस्विनी’, (५ १, १५४) । हनुमान् की मातृ से विह्वल होकर निशाचरी लड्डा ने बताया कि अब सीता के कारण दुरात्मा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुँचा है (५ ३, ५०) । इनकी खोज करते हुये हनुमान् रावण के अन्नपुर में भी इन्हें न पाकर व्यथित हो गये (५ ५, २३-२७) । हनुमान् ने रावण तथा अन्य राजम-प्रमुखों के भवनो में भी इनकी खोज की (५ ६,) । ‘मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायनलोचनाम् । सर्वत्र परिचक्षाम हनुमानरिमूदन ॥’, (५ ९, ३) । ‘ध्रुव विगिष्टा गुणतो हि सीता’, (५, ९, ७४) । हनुमान् रावण के अन्नपुर में मोई हुई मन्दोदरी को सीता समझकर प्रसन्न हो गये (५ १०, ५३) । वह (मन्दोदरी) सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान् ने पुनः अन्नपुर तथा रावण की पानभूमि में सीता की खोज की परन्तु निराग हुए (५ ११) । “लतामण्डपों, चित्रशालाओं और रात्रिकालिक विश्रामगृहों आदि में भी इन्हें न पाकर इनके मरण की आशङ्का से हनुमान् गिबिल हो गये । तदनन्तर उरमाह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में इनकी खोज की और वहीं भी इनका पता न लगने पर हनुमान् पुनः चिन्तित हो गये (५ १२) ।” इनके विनाश की आशङ्का से हनुमान् चिन्तित हो गये और शोक में इनके न मिलने की सूचना देने से अन्त्ये की सम्भावना देख न छोड़ने का निश्चय करते पुनः इनकी खोज का विचार करते हुये अशोकवाटिका में इन्हें ढूँढ़ने के विषय में तरु-तरु की बातें सोचने लगे (५ १३) । हनुमान् ने एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहाँ से इनका अनुसन्धान किया (५ १४, ४२-५२) । हनुमान् ने एक शैल्यमायाद (मन्दिर) के पास इनकी दक्षिण दशा में देगा और इन्हें पहचान कर प्रसन्न हुये (५ १५, २०-५२) । हनुमान् ने मन ही

मन इनके शील और सौन्दर्य की सराहना करते हुये इन्हें कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी इनके लिये शोक किया (५ १६) । इन्हें भयंकर राक्षसियों से धिरी हुई देखकर भी हनुमान प्रसन्न हुये (५ १७) । रावण को देखकर दुःख, भय और पिन्ता में डूबी हुई इनकी अबस्था का वर्णन (५ १९) । रावण ने इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रलोभन दिया (५ २०) । इन्होंने रावण को समझाने हुये उसे श्रीराम के सामने नग्न्य बताया (५ २१) । इनके द्वारा फटवारे जाने पर रावण ने इन्हें अपने मतपरिवर्तन के लिये दो मास की अवधि दी परन्तु जब इन्होंने उसे पुनः फटकारा तो उसने इन्हें धमकाते हुये राक्षसियों के नियन्त्रण में रखा (५ २२, १-३७) । इन्हें धमका कर रावण अपने भवन में चला गया (५, २२, ४६) । राक्षसियों ने इन्हें विविध प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया (५ २३) । इन्होंने जब राक्षसियों की बात को अस्वीकार कर दिया तो उन सन्ने इन्हें मारते-बाटने की धमकी दी (५ २४) । राक्षसियों की बात अस्वीकार करने के पश्चात् इन्होंने श्रीराम के लिये अत्यन्त विलाप करते हुये अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया (५ २५-२६) । जब इन्होंने इतना भयंकर निश्चय प्रकट किया तो कुछ राक्षसियों ने इन्हें धमकाया और कुछ यह समाचार देने के लिये रावण के पास गईं (५ २७, १-३) । त्रिजटा की बात सुनकर जब राक्षसियों ने इनमें अपनी रक्षा करने के लिये कहा तो इन्होंने उसे स्वीकार किया (५ २७ ६२) विलाप करने हुये वे पुनः प्राणत्याग के लिये उद्यत हुईं (५ २८) । जब इन्होंने यह निश्चय किया तो उस समय अनेक शुभ छन्दुम प्रकट हुए जिससे इनके मन का तान शान्त हो गया (५ २९) । हनुमान् ने इससे वाताङ्गिक करने के दिव्य में विचार किया (५ ३०) । हनुमान् ने इन्हें सुनाने के लिये रामनथा का वर्णन किया जिसे सुनकर वे अनेक प्रकार का तर्क वितर्क करने लगीं (५ ३१-३२) । इन्होंने हनुमान् को अपना परिचय देने हुये अपने वनगमन और अपहरण का वृत्तान्त बताया (५ ३३) इन्होंने हनुमान् पर सन्देश किया (५ ३४, १-२७) । इनके पूछने पर हनुमान् ने श्रीराम के शारीरिक चिह्नों और गुणों का वर्णन करते हुये नर-वानर की भिन्नता का प्रसङ्ग सुनाकर इनके मन में विश्वास उत्पन्न किया (५ ३५) । हनुमान् ने इन्हें श्रीराम की मुद्रिका दी जिससे वे अत्यन्त प्रसन्न हुईं और उत्सुकतापूर्वक हनुमान् से पूछा कि कब श्रीराम इनका उद्धार करेंगे (५ ३६, १-३२) । इन्होंने श्रीराम को शीघ्र बुलाने के लिये हनुमान् से अनुरोध किया परन्तु जब हनुमान् ने इन्हें अपने हाथ ही श्रीराम के पास ले चलने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया (५ ३७) ।

हनुमान् को पहुँचाने के रूप में वित्रकूट पर्वत पर घटित हुये एक बौड़े के प्रसङ्ग को सुनाते हुये इन्होंने श्रीराम को शीघ्र बुलाने का अनुरोध किया और बिल्वस्वरूप अपनी चूडामणि भी हनुमान् को दिया (५ ३८) । जब चूडामणि लेकर हनुमान् प्रस्थान करने के लिये उद्यत हुये तो इन्होंने उनसे श्रीराम आदि को उत्साहित करने का अनुरोध करते हुये समुद्रतरण के विषय में शङ्का प्रगट की परन्तु हनुमान् ने वानरों के पराक्रम का वर्णन करके इन्हें आश्चर्य किया (५ ३९) । इन्होंने श्रीराम से कहने के लिये हनुमान् को पुनः सन्देश दिया (५ ४०, १-१२) । इनके पास हनुमान् को देखकर राक्षसियों ने इनसे उनके सम्बन्ध में पूछा परन्तु इन्होंने कहा कि ये उम वानर को नहीं जानतीं (५ ४२, ५-११) । हनुमान् ने रावण को समझाते हुये इन्हें श्रीराम को लौटा देने का आग्रह किया (५ ५१, १२-३५) । हनुमान् की पूँछ में आग लगाये जाने का समाचार सुनकर ये अत्यन्त शोक-सन्तप्त होकर अग्निदेव से शीतल हो जाने की आराधना करने लगी (५ ५३, २४-३२) । हनुमान् ने जब देखा कि सम्पूर्ण लङ्का भस्म हो गई तो वे इनके लिये चिन्तित हो उठे, किन्तु शीघ्र ही उनकी इस चिन्ता का निवारण हो गया (५ ५५) । लङ्कादहन के पश्चात् हनुमान पुनः इनसे मिले और विदा लेकर सागरलङ्घन के लिये प्रस्तुत हुये (५ ५६, १-२२) । 'शोकं सीतावियोगजम्', (५ ५७, ४७) । 'दर्शनं चापि लङ्काया सीताया रावणस्य च', (५ ५७, ५०) । 'नमस्यञ्छिरसा देव्यं सीतायै', (५ ५८, ७) । लङ्का से लौटने के पश्चात् हनुमान् ने वानरों से इनकी दशा का वर्णन किया (५ ५८, ५५-१०८) । हनुमान् ने इनकी दुरवस्था का वर्णन करते हुये वानरों को लङ्का पर आक्रमण करने के लिये उत्तेजित किया (५ ५९) । अङ्गद ने लङ्का को जीतकर इन्हें श्रीराम के पास पहुँचाने का उत्साहपूर्ण विचार प्रगट किया परन्तु जाम्बवान् ने इस सम्बन्ध में श्रीराम से परामर्श लेकर ही कुछ कार्य करने का अनुरोध किया (५ ६०) । हनुमान् ने श्रीराम को इनके दर्शन का समाचार दिया (५ ६४, ३८-३९) । हनुमान् ने श्रीराम को विस्तारपूर्वक इनका समाचार सुनाया (५ ६५) । इनकी चूडामणि देख और समाचार पाकर श्रीराम ने इनके लिये विलाप किया (५ ६६) । हनुमान् ने श्रीराम को इनका सन्देश सुनाया (५ ६७) । हनुमान् ने श्रीराम को इनके प्रति सन्देह और उनके निवारण का वृत्तान्त बनाया (६ ६८) । श्रीराम ने इनके लिये शोक और विलाप किया (५ ५) । रावण ने हनुमान् द्वारा इनका दर्शन करने का उन्नेय किया (६ ६, २) । विभीषण ने इन्हें लौटा देने का रावण में अनुरोध किया (६ ९, ७-२२) । रावण के महल में जाकर विभीषण ने इन्हें श्रीराम

को लौटा देने का एक बार पुन निष्फल आग्रह किया (६. १०) । रावण ने इनके प्रति अपनी आसक्ति बताकर राक्षसों को इनके हरण का प्रसङ्ग सुनाया (६. १२, १२-२०) । कुम्भकर्ण ने पहले इनके हरण के लिये रावण की भर्त्सना की परन्तु बाद में श्रीराम आदि से युद्ध के लिये उद्यत हुआ (६. १२, २८-४०) । महापाश्र्व ने रावण को इन पर बलात्कार करने के लिये उकसाया (६. १३, ३-८) । 'इत्यह तस्य शापस्य भीत. प्रसभमेव ताम् । नारोह्ये बलात्सोना वंदेही शयने शुभे ॥', (६. १३, १५) । विभीषण ने श्रीराम को अजेय बताकर उनके पास इन्हे लौटा देने की रावण को सम्मति दी (६. १४, १-४) । विभीषण ने अपना परिचय देते हुये सुग्रीव को इनके रावण द्वारा हरण और श्रीराम को लौटा देने की बात कही (६. १७, १३-१४) । माया-रचित श्रीराम का कटा मस्तक दिखाकर रावण ने इन्हें मोह में डालने का प्रयत्न किया (६. ३१) । श्रीराम के मारे जाने का विश्वास करके इन्होंने विलाप किया (६. ३२, १-३८) । इन्हें मोह में पड़ी हुई देखकर मरमा नामक राक्षसी ने सान्त्वना देते हुये रावण की माया का भेद बताया और श्रीराम के आगमन का प्रिय समाचार देते हुये इन्हे उनके विजयी होने का आश्वासन दिया (६. ३३) । इन्होंने सरमा से रावण की गतिविधि के सम्बन्ध में पूछा जिम पर सरमा ने इन्हे मन्त्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताया (६. ३४) । रावण की आज्ञा से राक्षसियाँ इन्हे पुष्पक विमान पर बैठाकर रणभूमि में लाई जहाँ इन्होंने मूर्च्छित श्रीराम और लक्ष्मण को देखकर शोक प्रगट किया (६. ४७, ७-२३) । जब ये अत्यन्त विलाप करने लगी तो रिज्ठा नामक राक्षसी श्रीराम और लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाते हुये इन्हें लड्डू लौटा लाई (६. ४८) । इन्द्रजित् ने एक मायामयी सीता को युद्धभूमि में लाकर वानरो के समक्ष ही उसका वध कर दिया (६. ८१, ५-३२) । इनके वध का समाचार सुनकर श्रीराम शोक से मूर्च्छित हो गये (६. ८३, ८-१०) । मेघनाद के वध से शोकग्रस्त हो रावण ने इनके वध का निश्चय किया परन्तु सुपाश्र्व के समझाने पर इस कुकृत्य से निवृत्त हुआ (६. ९२, ३२-६६) । श्रीराम ने हनुमान् ने द्वारा इनके पाम सदेश भेजा (६. ११२, २४-२५) । श्रीराम के आदेशानुसार तथा विभीषणसे आज्ञा प्राप्त करके हनुमान् ने अशोकवाटिका में लाकर इनको श्रीराम का सदेश सुनाते हुये वार्तालाप किया और इनका सन्देश श्रीराम को सुनाया (६. ११३) । श्रीराम की आज्ञा से विभीषण इन्हे श्रीराम के समाप लाये और इन्होंने अपने प्रियतम, श्रीराम, के मुखचन्द्र का दर्शन किया (६. ११४) । इनके चरित्र पर सन्देश करके श्रीराम ने इन्हें ग्रहण करना बस्वीकार बर दिया और अन्यत्र जाने के

किये कहा (६ ११५) । इन्होंने श्रीराम को उपालम्भपूर्ण उत्तर देकर अपने सनीत्य की परीक्षा देने के लिये अग्नि में प्रवेश किया (६ ११६) । 'उपेक्षसे कथ सीता पनन्ती हव्यवाहने', (६. ११७, ६) । मूर्तिमान् अग्निदेव इनको लेकर चिता में प्रकट हुये और इन्हे श्रीराम को समर्पित करके इनकी पवित्रता को प्रमाणित किया जिसके पश्चात् श्रीराम ने इन्हें सहर्ष स्वीकार किया (६ ११८) । 'एव शुभ्रुपनाऽमप्र वंदेह्या सह सीतया', (६ ११९, ३२) । दशरथ ने इनको आवश्यक सन्देश दिया (६ ११९, ३३-३७) । अयोध्या की यात्रा करते समय श्रीराम ने इन्हे पुष्पक विमान से मार्ग के समस्त स्थान दिवा (६ १२३) । भरत ने पुष्पक विमान पर श्रीराम के साथ इन्हें भी विराजमान देखा (६ १२७, २९) । भरत ने इनके चरणों में प्रणाम किया (६ १२७, ३८) । इन्होंने अपने पति की ओर देखकर हनुमान् को कुछ भेंट देने का विचार किया (६ १२८, ८०) । इन्होंने हनुमान् की वह हार दे दिया जो श्रीराम ने इन्हें दिया था (६ १२८, ७८-८२) । श्रीराम ने अशोकवनिका में विहार करने हुये इन्हें पवित्र पेय पिलाया (७ ४२, १८) । अशोकवनिका में जब श्रीराम इनके साथ विहार कर रहे थे तो उस समय ये गर्भिणी थी और इन्होंने तरोवन देखने की इच्छा प्रकट की (७ ४२, २२-३४) । श्रीराम ने इन्हें तरोवन दिवाने का वचन दिया (७ ४२, ३५-३६) । भद्र आदि ने श्रीराम को इनके प्रति लोकापवाद का समाचार सुनाया (७ ४३, १६-१९) । श्रीराम ने सर्वत्र फैले हुये लोकापवाद की चर्चा करते हुये सीता को वन में छोड़ जाने का लक्ष्मण को आदेश दिया (७ ४५) । लक्ष्मण इनकी रथ पर बैठाकर वन में छोड़ने के लिये ले जाने समय गगानट पर पहुँचे (७ ४६) । लक्ष्मण ने इन्हे नाव से गङ्गा के उस पार पहुँचा कर अत्यन्त दुःख के साथ इन्हें इनके त्याग जाने की बात बनाया (७. ४७) 'त्याग की बात सुनकर ये अत्यन्त दुःखी हुई और श्रीराम के लिये लक्ष्मण के द्वारा सन्देश भेजा । लक्ष्मण के चले जाने के बाद ये घोर विलाप करने लगी (७ ४८) ।' मुनि कुमारो ने महर्षि वाल्मीकि को इनके रोने का समाचार सुनाया (७ ४९, २) । वाल्मीकि उम स्थान पर आये जहाँ ये विराजमान् थी (७ ४९, ७, सीता प्रेम सम्बरण) । महर्षि वाल्मीकि ने इन्हे पहचानते हुये अर्द्ध आश्रम में चलकर मुखपूर्वक निवाम करने के लिये कहा (७ ४९, ६-१२) । महर्षि वाल्मीकि के आदेशानुसार ये उनके आश्रम में गई जहाँ महर्षि ने इन्हे मुनि-पत्नियों के हाथ में सौंप दिया (७ ४९, १३-२०) । मुमन्त्र ने बनाया कि दुर्वासा के वचनानुसार इनके दोनो पुत्रों का अयोध्या के बाहर ही अभिषेक होगा (७ ५१, २८) । वाल्मीकि की पर्णशाला में इन्होंने दो पुत्रों को जन्म

१. सुकेतु]

दिया (७ ६६, १-२) । श्रीराम ने इनकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये इन्हें शपथ कराने का विचार किया (७ ९५) । महर्षि वाल्मीकि ने इनकी शुद्धता का ममथन किया (७ ९६, १०-२४) । जब महर्षि वाल्मीकि ने इनकी शुद्धता को प्रमाणित किया तब श्रीराम ने इनकी ओर एक दृष्टि डालकर जनसमुदाय से कहा कि यद्यपि उन्हें इनकी शुद्धता का विश्वास है तथापि वे जनसमुदाय की सम्मति मिल जाने पर ही इन्हें ग्रहण करेंगे (७ ९७, १-५) । इनके शपथ ग्रहण के समय ब्रह्मा सहित समस्त देवता श्रीराम की सभा में उपस्थित हुये (७ ९७ ६-९) । इन्होंने अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये शपथग्रहण करते हुये कहा कि यदि इनकी कही हुई बातें सत्य हों तो पृथिवी इन्हें अपनी गोद में स्थान दें (७ ९७, १४-१६) । इनके ऐसा कहने पर एक दिव्य मिहासन पर आरूढ़ होकर पृथिवी प्रगट हुई और इन्हें लेकर रसातल में प्रवेश कर गई (७, ९७, १८-२१) । इन्हें रसातल में प्रविष्ट हुआ देखकर देवताओं ने इन्हें साधुवाद दिया (७ ९७, २२-२३) । इनके मूल में प्रवेश करने के पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय कुछ समय के लिये अत्यन्त मोहान्छित-सा हो गया (७ ९७, २७) । इनके रसातल में प्रवेश कर जाने के पश्चात् श्रीराम अत्यन्त दुःखी हुये (७ ९८, १-३) श्रीराम ने इनके लिये विलाप किया (७ ९८, ४-१०) ।

१. सुकेतु, एक यक्ष का नाम है । ये महान् पराक्रमी और सदाचारी थे परन्तु इन्हें कोई सन्तान नहीं थी जिससे इन्होंने महान् तप किया । इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने इन्हें ताटका नामक एक बन्धारत्न प्रदान किया (१ २५, ५-६) ।

२. सुकेतु, नन्दिवर्षन के शूरवीर पुत्र का नाम है । इनका पुत्र देवरात था (१ ७१, ५-६) ।

सुवेश, सालकटकूटा और विद्युत्वेश के पुत्र का नाम है जिसे जन्म के पश्चात् ही छोड़कर इसकी माता अपने पति के साथ रमण करने चली गई । जब यह अवलोकने पड़े होने के कारण रोने लगा तो पार्वती सहित शिव ने इसे इसकी माता की अवस्था के समान ही नवपुत्रक बना दिया । इतना ही नहीं, शिव ने इसे एक मानस्यपत्नी नगराकार विमान भी दिया । इस प्रकार शिव से वरदान प्राप्त कर यह सर्वत्र उवापगति से विचरण करने लगा (७ ४, २६-३२) । ग्रामणी नामक मन्धर्व ने अपनी देववती नामक कन्या का इसके साथ विवाह कर दिया (७ ५, १-२) । इसने देववती के गर्भ से तीन पुत्र उत्पन्न किये (७ ५, ४) । यह अपने पुत्रों को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ (७ ५, ६) । इनके तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे (७

कारण बताया (४ ९) । “अपने भ्राता के साथ वीर का वृत्तान्त बताते हुये इन्होंने वालिन् को मनाने तथा अन्ततः उनके द्वारा निष्कासित कर दिये जाने का कारण बताया । इन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार निष्कासित और पत्नी-रहित कर दिये जाने के पश्चात् अब ये ऋष्यमूक पर्वत पर रहते हैं । समस्त वृत्तान्त बताकर इन्होंने श्रीराम से वालिन का दमन करने का निवेदन किया (४ १०, १-३०) ।” श्रीराम ने इन्हें वालिन् का वध करने का आश्वासन दिया (४ १०, ३१-३५) । इन्होंने वालिन् के पराक्रम, वालिन् द्वारा दुन्दुभि दैत्य का वध करके उसके शव को मतङ्गयन में फेंकने, मतङ्गमुनि द्वारा वालिन् को दिये गये दाप आदि का श्रीराम से वणन किया (४ ११, १-६८) । पुनः इन्होंने वालिन् द्वारा पूर्वकाल में सात साल-वृक्षों के भेदन का उल्लेख किया (४ ११, ७०-७१) । इन्होंने श्रीराम से सालवृक्षों का भेदन करने के लिए कहा (४ ११, ८७-९३) । जब श्रीराम ने एक ही वाण से सात साल-वृक्षों का भेदन कर दिया तो इन्होंने प्रसन्न होकर श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया (४ १२, ५-६) । श्रीराम के कहने पर इन्होंने किष्किन्धा में जाकर वालिन् को मल्लयुद्ध के लिये ललकारा जिसे सुनकर वालिन् ने बाहर निकल कर इनके साथ घोर युद्ध करते हुये इन्हे आहत कर दिया (४ १२, १२-२१) । “वालिन् से पराजित होकर ये ऋष्यमूक पर्वत पर भाग आये और श्रीराम के उपस्थित होने पर उनको वालिन् का वध न करने पर उपाल्म्भ दिया । उस समय श्रीराम ने इन्हे बताया कि वालिन् के साथ इनकी आकृति भी समानता के कारण वे यह समझ नहीं सके कि कौन वालिन है और कौन सुग्रीव, और इसी कारण उन्होंने वाण नहीं चलाया । श्रीराम के आग्रह पर गजपुष्पी माला धारण करके ये पुनः किष्किन्धा गये (४ १२, २२-४२) ।” इन्होंने श्रीराम आदि से सप्तजनाश्रम का वर्णन किया (४ १३, १७-२८) । श्रीराम के द्वारा आश्वस्त होकर इन्होंने वालिन् को युद्ध के लिये ललकारा (४ १४ २-३) । ‘गर्जन्निव महामेघो वायुवेग-पूरसः ॥ अथ बालाकल्दशो दूमिहगतस्ततः ।’ (४ १४, ३-४) । श्रीराम का आश्वासन पाकर सुवर्ण के समान पिङ्गल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण करते हुये बठोर स्वर में भयकर गर्जना की (४ १४, १९) । ये सूर्यपुत्र थे (४ १४, २२) । वालिन् को समझाने हुये उनकी पत्नी ने इनके माथ समझौता करने का परामर्श दिया (४ १५, ७-३०) । इन्होंने वालिन् के साथ भयकर मल्लयुद्ध किया परन्तु अन्त में उनसे परास्त होकर धीगम के लिये द्धर-उधर दृष्टि दीवाने लगे (४. १६, १५-२०) । श्रीराम के वचन से निरतार हुये वालिन् ने अपने अपराध के लिये क्षमा

मांगते हुये उनमे इनकी रक्षा करने का भी निवेदन किया (४ १८, ५५-६०) । श्रीराम ने वालिन् को आश्वासन दिया कि अङ्गद सुग्रीव के पास भी पूर्ववत् सुखपूर्वक निवास करेंगे (४ १८, ६७) । कर्ण क्रन्दन करती हुई तारा तथा उसके साथ आये हुये अङ्गद को देखकर इन्हें अत्यन्त कष्ट हुआ और ये दिपाद में डूब गये (४ १९, २८) । जब मरणासन्न वालिन् ने अपनी गुवर्णमाला देते हुये इनके प्रति भ्रातृप्रेम से युक्त वचन कहे तो ये अत्यन्त दुःखी हो उठे और इनके हृदय में अपने भ्राता के प्रति वरभाव समाप्त हो गया (४ २२, १७-१८) । 'हृतहृत्योऽथ सुग्रीवो वैरेऽस्मिन्नति-दारुणे । सस्य रामविमुक्तेन हृतमेकैपुणा भयम् ॥', (४ २३, १५) । वालिन् की मृत्यु तथा उनकी पत्नी, तारा, की शोकमग्न देखकर ये अत्यन्त खिन्न हुये और अपने जीवन का अन्त कर देने के लिये श्रीराम से आज्ञा माँगने लगे (४ २४ १-२३) । श्रीराम ने इन्हें सान्त्वना दी (४ २५, १) । लक्ष्मण ने इन्हे वालिन् का दाह-संस्कार करने के लिये कहा (४ २५, १२-१८) । इन्होंने वालिन् के शव को शिविका में रखकर पुष्पों आदि से अलंकृत किया (४, २५, २८-२९) । इन्होंने शास्त्रानुकूल विधि से अपने मृत भ्राता का औष्यं दैहिक संस्कार सम्पन्न किया (४ २५, ३०) । इन्होंने वालिन् के लिये जलाञ्जलि दी (४ २५, ५०) । जब हनुमान् ने इनके अभिषेक के लिये श्रीराम से किष्किन्धा पधारने का निवेदन किया तो पिता की आज्ञा से वनवास कर रहे श्रीराम ने किसी नगर या ग्राम में प्रवेश करने की अपनी अममर्षता व्यक्त करते हुये इनके राज्याभिषेक की आज्ञा दी और अङ्गद को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिये कहा (४ २६ ८-१७) । श्रीराम की आज्ञा से ये किष्किन्धा पुरी में आये जहाँ वानरो ने इनका स्वागत किया (४ २६, १८-२०) । अन्न पुर में पधारने पर इनके सुहृदो तथा अन्न-पुर की स्त्रियो ने इनका संस्कार किया और उसके पश्चात् इनका अभिषेक किया गया (४ २६, २१-३६) । इन्होंने अङ्गद को भी युवराज के पद पर अभिषिक्त किया जिमने समस्त वानर इनकी प्रशंसा करने लगे (४ २६, ३७-३८) । इन्होंने श्रीराम ने पास जाकर अपने महाभिषेक का समाचार दिया (४ २६, ४१) । राज्याभिषेक के पश्चात् ये किष्किन्धा में निवास करने लगे (४ २७, १) । श्रीराम ने कहा कि वे सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहते हुये शरत्काल की प्रतीक्षा कर रहें हैं (४ २८, ६३) । लक्ष्मण ने कहा कि ये शीघ्र ही श्रीराम का मनोरथ सिद्ध करेंगे (४ २८, ६६) । 'समृद्धार्थं च सुग्रीव मन्दधर्मायंसप्रहम्, (४ २९, २) । हनुमान् ने इन्हें श्रीराम का प्रिय कार्य करने के लिये वानरो को आज्ञा

देने का अनुरोध किया (४ २९, २१) । ये सत्वगुण से सम्पन्न थे अतः इन्होंने हनुमान् के बहने पर वानरो को एकत्र करने का आदेश दिया (४ २९, २८-३३) । इस प्रकार का आदेश देकर य अपने महल में चले गये (४ ३०, १) । 'कामवृत्त च सुग्रीव नष्टा च जनकात्मजाम्', (४ ३०, ३) । श्रीराम ने इनसे कोई समाचार न प्राप्त होने के कारण लक्ष्मण से कहा कि वे किष्किन्धा में जाकर विषय भोग में लिप्त इस मूर्ख वानर सुग्रीव को उसके कर्तव्य का स्मरण दिलायें अन्यथा वे (राम) उसका (सुग्रीव का) वध कर देंगे (४ ३० ७०-८४) । लक्ष्मण ने इनपर रोष प्रकट किया (४ ३१, १-४) । श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा तुम्हें कटु वचनों का परित्याग करके सुग्रीव से इतना ही बहना चाहिये कि उन्होंने सीता की खोज के लिये जो समय नियत किया था वह व्यतीत हो गया है ।' (४ ३१, ८) । 'रोपात्प्रस्फुरमाणोष्ठ सुग्रीव प्रति लक्ष्मण', (४ ३१, १७) । जब एक वानर ने इन्हें लक्ष्मण के आगमन तथा लक्ष्मण के क्रोध का समाचार दिया तो विषयासक्ति के कारण इन्होंने उसे नहीं सुना (४ ३१, २१-२२) । 'सुग्रीवस्य प्रमादम्', (४ ३१, २८) । जब अङ्गद ने आकर इन्हें लक्ष्मण के क्रोध का समाचार दिया तो ये निद्रामग्न होने के कारण उसे सुन नहीं सके (४ ३१, ३७-३८) । कुपित लक्ष्मण का देखकर अनेक वानर मित्रनाद करने लगे जिससे इनकी निद्रा भङ्ग हो गई (४ ३१, ४०-४१) । "लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर ये चिन्तित हुये और अपने मंत्रियों में परामर्श करने लगे । उस समय हनुमान् ने इन्हें समझाते हुए श्रीराम को दिय हुए वचन का स्मरण कराया (४ ३२) ।" इनका भवन इन्द्रसदन के समान रमणीय, विविध फल-फुष्पो से युक्त और भली भाँति सुरक्षित था (४ ३३, १४-१७) । लक्ष्मण ने इनके भवन में प्रवेश किया (४ ३३, १८) । लक्ष्मण ने इनके अन्त-पुर में अनेक सुन्दरी स्त्रियाँ देखी (४-३३, २२) । "लक्ष्मण के घनुष की टकार सुनकर ये समझ गये कि लक्ष्मण आ पहुँचे हैं अतः भयभीत होकर सिंहासन से उठ खड़े हुए । उस समय इन्होंने तारा को लक्ष्मण को शान्त करने के लिये भेजा (४ ३३, २८-३७) ।" लक्ष्मण ने तारा से इनके कर्तव्यच्युत होने की बात कही (४ ३३, ४४-४५) । इनके महल के भीतर प्रवेश करके लक्ष्मण ने इन्हें देखा (४ ३३, ६२-६४) । जब ये लक्ष्मण के समीप उपस्थित हुये तो उन्होंने कटु शब्दों में इनकी भर्त्सना की (४ ३४) । तारा ने मुक्तियुक्त वचनों से इनका समर्पण करने हुये लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास किया (४ ३५) । इन्होंने अपनी लघुता तथा श्रीराम की महत्ता बताते हुये लक्ष्मण से क्षमा माँगी (४. ३६, ४-११) ।

इनकी बातों से प्रसन्न होकर लक्ष्मण ने इनकी प्रशंसा करते हुये अपने साथ चलने के लिये कहा (४ ३६, १२-२०) । इन्होंने हनुमान को वानर सेना का सग्रह करने का आदेश दिया (४ ३७, १-१५) । वानरों के उपस्थित होने पर ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (४. ३७, ३७) । ये लक्ष्मण सहित श्रीराम के पास आकर उनके समक्ष करबद्ध खड़े हो गये (४ ३८, ४-१७) । इन्होंने श्रीराम के प्रति अपना आभार प्रगट करते हुये सीता को पुनः प्राप्त कर लेने का आश्वासन दिया (४ ३९, २७-३५) । श्रीराम ने इनके प्रति कृतज्ञता प्रगट की (४ ३९, १-७) । आमन्त्रित वानर-यूथपति सभी दिशाओं से इनके पास आने लगे (४. ३९, ८-४५) । इन्होंने पूर्वदिशा के स्थानों का वर्णन करते हुये सीता की खोज के लिये वानरों को भेजा (४ ४०) । इन्होंने दक्षिण दिशा का परिचय देते हुये वहाँ प्रमुख वानरों को सीता की खोज के लिये भेजा (४. ४१) । इन्होंने पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुये वहाँ सीता की खोज के लिये सुपेण आदि वानरों को भेजा (४ ४२) । इन्होंने उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुये वहाँ सीता की खोज के लिये रातबलि आदि वानरों को भेजा (४ ४३) । इन्होंने सीता की खोज के लिये हनुमान् को विशेष रूप से उपयुक्त बताया (४ ४४, १-७) । इन्होंने समस्त वानरों को बुलाकर श्रीराम के कार्य की सिद्धि के लिये उन्हें प्रेरित किया (४. ४५, १-२) । 'जब श्रीराम ने इनसे पूछा कि ये समस्त भूमण्डल के स्थानों से कैसे परिचिन हो गये तो इन्होंने उसका विस्तृत वृत्तान्त बताते हुये कहा कि वालिन् के भय से ये समस्त भूमण्डल पर भागते फिरे और अन्ततः ऋष्यमूक पर्वत पर आकर शरण ली क्योंकि यहाँ वालिन् का प्रवेश नहीं था (४. ४६) ।' 'सुग्रीवरथोत्सासन', (४ ४९, ४) । इनके कठोर स्वभाव और कठोर दण्ड से भयभीत होनेवाले बङ्गद आदि वानरों ने सीता की खोज न कर सकने के कारण उपवास करके प्राणत्याग देने का निश्चय किया (४ ५३, १३-२७) । 'सुग्रीवो वानरेश्वर', (४ ५५, १३) । 'सुग्रीवदत्तं वानरं च पुत्रो धनवत्या-वुभौ', (४. ५७, ६) । 'न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपया गतिं सुतीक्ष्णदण्डो बल-वाचन वानर', (५ १२, ५) । 'किं वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वापि सगता', (५ १३, २२) । 'सुग्रीवन्मत्तनेन', (५ १३, ३१) । हनुमान् ने सीता को देखे बिना इन्हें भी न देखने का विचार किया (५ १३, १८) । 'नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च माहति', (५ १३, ६०) । हनुमान् ने कहा कि सीता के कारण ही मुदिह्यान सुग्रीव की दुर्लभ ऐश्वर्यं प्राप्त हुआ (५ १६, ११) । हनुमान् ने सीता को बताया कि इन्होंने उनकी खोज के लिये वानरों की विविध दिशाओं में भेजा (५. ३१, १३) । 'रामस्य च सत्ता देवि सुग्रीवो नाम वानरः'

(५ ३४, ३६) । नित्य स्मरति ते राम समुग्रीव सल्लभण', (५ ३४, ३७) । 'मध्ये वानरकीटीना मुग्रीव चामिनोजसम्', (५ ३४, ३८) । अह मुग्रीवमचिवा हनुमान्नाम वानर', (५ ३४, ३९) । हनुमान् ने सीता को इनके साथ श्रीराम की मैत्री होने का प्रसङ्ग सुनाया (५ ३५, २४-६०) । 'सुग्रीवो वापि तेजस्वी', (५ ३८, ५४) । 'सुग्रीव च सहामात्यम्', (५ ३९, ८) । राजा जयति सुग्रीवो राघवणाभिपालित', (५ ४३, ८) । 'वाली च सहसुग्रीव', (५ ४६, १०) । 'अह सुग्रीवसदेशादिह प्राप्तस्तवान्तिके', (५ ५१, २) । 'स सीतामागणे व्यग्र सुग्रीव सत्यसगर । हरीन्सप्रेषयामास दिश सर्वा हरीश्वर ॥', (५ ५१, १२) । जब वानरो ने मधुवन का विध्वंस करते हुये वहाँ मधुपान और उसके रक्षक दधिमुख को परामृत किया तो दधिमुख इनके पास आये (५ ६२, ३१-४०) । 'इन्होंने दधिमुख को आश्वासन देने हुये उनके आने का कारण पूछा और उनके मुख से वानरो द्वारा मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर हनुमान आदि वानरो की सीता की खोज में सफलता का अनुमान किया । तदनन्तर इन्होंने दधिमुख से हनुमान् आदि को शीघ्र भेजने के लिये कहा (५ ६३) ।' दधिमुख से इनका समाचार सुनकर अङ्गद और हनुमान् आदि वानरो ने इनसे मिलने के लिये प्रस्थान किया (५. ६४, १-२१) । अङ्गद के निकट पहुँचते ही इन्होंने श्रीराम से कहा कि हनुमान् आदि को सीता का दर्शन प्राप्त करने में सफलता मिल गई है (५ ६४, २४-३२) । इन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया कि हनुमान् ही को सीता की खोज करने में सफलता मिली (५ ६४, ४०) । हनुमान के कार्य से य अत्यन्त सन्तुष्ट हुये (६, १, १०) । इन्होंने श्रीराम को उत्साह प्रदान किया (६ २) । इनकी बात सुनकर श्रीराम आश्चस्त हुये (६ ३ १) । श्रीराम ने इन्हें वानरसेना सहित प्रस्थान करने का आदेश दिया (६ ४, ३-६) । श्रीराम के आदेशानुसार इन्होंने वानरों को यथोचित आज्ञा दी (६ ४, २२) । ये सेना के मध्यभाग में स्थित होकर चले (६ ४ ३२) । इनसे रक्षित वानर अत्यन्त प्रसन्न थे (६ ४ ७०) । इनके साथ श्रीराम आदि मेना सहित सागर-तट पर पहुँचे (६ ४, ९८-११०) । वयदवृ ने कहा कि राम, मुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुये हनुमान् की कोई गणना नहीं करनी चाहिये (६ ८, १०) । राक्षसों ने रावण के समक्ष इनका वध कर देने की गर्वोक्ति की (६ ९, ६) । श्रीराम की धारण में अनुचरों सहित आये हुये विभीषण को देखकर इन्होंने उनका सामना करने के लिये वानरों का सावधान होने का आदेश दिया (६ १७, ५-७) । इनके वचन को सुनकर समस्त वानर विभीषण आदि राक्षसों का वध करने के लिये उद्यत हो गये (६ १७, ८-९) । विभीषण ने

आकाश में ही स्थित होकर इन्हें अपना परिचय दिया (६ १७, ११)।
 इन्होंने श्रीराम को विभीषण के आगमन की सूचना देते हुये उन पर आशंका
 प्रकट की और उनका वध कर देने का परामर्श दिया (६ १७, १८-२९)।
 श्रीराम ने इनका वचन सुनकर हनुमान् आदि स भी उस विषय में परामर्श
 ग्रहण किया (६ १७, ३०-३२)। 'वालिन् च हत श्रुत्वा सुग्रीव पाभिये-
 चिन्म', (६ १७, ६६)। श्रीराम को इन्होंने विभीषण को शरण न देने का
 परामर्श दिया (६ १८, ४-६)। इन्होंने श्रीराम द्वारा विभीषण को शरण
 देने की बात का अनुमोदन किया (६ १८, ३५-३९)। इन्होंने विभीषण
 से वानरों की सेना के साथ अक्षोभ्य समुद्र को पार करने का उपाय पूछा
 (६ १९, २८)। 'आजगामाय सुग्रीवो यत्र राम सलक्ष्मणः', (६ १९, ३२)
 इन्होंने समुद्र को पार करने के लिये उसकी शरण लेने के विभीषण के विचार
 को श्रीराम को बताया (६ १९, ३३ ३५)। 'सुग्रीव पण्डितो नित्य
 भवान्मन्त्रविद्याय', (६ १९, ३७)। इन्होंने विभीषण के वचन का अभि-
 नन्दन किया (६ १९, ३७-४०)। रावण ने शुक को दूत बनाकर इनके पास
 संदेश भेजा (६ २०, ९-१३) तदनन्तर शुक ने इन्हें रावण का संदेश
 सुनाया (६ २०, १५)। शुक के पूछने पर इन्होंने रावण को अपना शत्रु
 बनाते हुये उसके लिये पथोचित संदेश दिया (६ २०, २२-३०)। इनके
 आदेश से वानरों ने शुक को पकड़ कर वापस दिया (६ २०, ३३)। इन्होंने
 श्रीराम की हनुमान् की पीठ पर तथा लक्ष्मण को अङ्गद की पीठ पर बैठकर
 समुद्र पार करने के लिये कहा (६ २२, ८२)। इन्होंने फल, मूल और
 जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला (६ २२,
 ८८)। श्रीराम ने इनको वानर-वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में लगे
 रहने का आदेश दिया (६ २४, १८)। श्रीराम ने इनसे शुक को मुक्त कर
 देने के लिये कहा (६ २४, २३)। श्रीराम की आज्ञा में इन्होंने शुक को
 मुक्त कर दिया (६ २४, २४)। शुक ने रावण को इनका परिचय दिया
 (६ २८, २८-३२)। रावण ने इन्हें देखा (६ २९, २)। 'सुग्रीवो वीरव्या
 सोऽत्र भग्नव्या प्लवगापिप' (६ ३१, ३६)। श्रीराम ने इन्हें नगर के शीर
 के मोर्चे पर आक्रमण करने के लिये कहा (६ ३७, ६२)। जब श्रीराम सुबेल
 पर्वण से लड्डू का निरीक्षण कर रहे थे तो ये उस समय रावण को देखकर
 सहसा उसके पास पहुँच गये (६. ४०, ७-११)। इन्होंने रावण के साथ घोर
 मल्लयुद्ध किया और अन्त में उसे अत्यधिक थका कर श्रीराम के पास लौट
 आये (६ ४०, १२-३०)। श्रीराम ने इन्हें दुःसाहस करने से रोका (६. ४१,
 १-७)। इन्होंने श्रीराम को बताया कि रावण को देखकर ये उसे क्षमा नहीं

कर सके (६ ४१, ८-९) । धीराम ने इनकी सहायता से सेना को सुसज्जित करके युद्ध के लिये कूच की आज्ञा दी (६ ४१, २५) । इन्होंने उत्तर और पश्चिम के मध्यभाग में स्थित राक्षस सेना पर आक्रमण किया (६ ४१, ४१-४२) । लक्ष्मण सहित य उत्तर द्वारा को घेर कर खड़े हुये (६ ४२, ०७) । इन्होंने प्रथम के साथ युद्ध किया (६ ४३, १०) । इन्होंने प्रथम का वध किया (६ ४३, २५) । शत्रुओं को पराजित हुआ देख ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ४४, ३२) । ये भी उस स्थान पर आये जहाँ धीराम भीरु लक्ष्मण मूर्च्छित थे (६ ४६, २) । धीराम और लक्ष्मण के अङ्ग-उपाङ्गों की बाणों से व्याप्त देखकर जब ये अत्यन्त भयभीत हो उठे तो विभीषण ने इन्हें सान्त्वना दी (४ ४६, ३०-४५) । जब धीराम मूर्च्छित लक्ष्मण के लिये विलाप करने लगे तो ये भी शोकमग्न हो गये (६ ४९, २) । इन्होंने वानरों से प्रछा कि सेना के महत्ता व्यथित हो जाने का क्या कारण है (६ ५०, १) । इन्होंने जाम्बवान की भागती हुई वानर सेना को सन्त्वना देने के लिये कहा (६ ५० ११) । इन्होंने विलाप करते हुये विभीषण को सान्त्वना दी (६ ५०, २०-३३) । इन्होंने सुषेण को धीराम और लक्ष्मण को लेकर किष्किन्धा चले जाने के लिये कहा (६ ५०, २३-२५) । रावण को युद्धस्थल में देखकर इन्होंने उसके साथ युद्ध किया परन्तु उसके बाण से आहत होकर भूमि पर गिर पड़े (६ ५९, ३६-४१) । कुम्भकर्ण ने रावण को इनका वध कर देने का अवज्ञासन दिया (६ ६३, ३८) । कुम्भकर्ण ने एक विशाल पर्वत शिखर के प्रहार में इन्हें आहत कर दिया और उठाकर लड्डू की ओर चला (६ ६७, ६७-७२) । इन्हें कुम्भकर्ण के द्वारा बन्दी बना देखकर पहले तो हनुमान् ने इन्हें मुक्त कराने का विचार किया परन्तु यह सोचकर कि किसी की सहायता से मुक्त होने पर इन्हें खेद होगा उन्होंने अपना विचार त्याग दिया (६ ६७, ७३-८०) । "जब कुम्भकर्ण इन्हें लेकर लड्डू चला तो गन्धयुक्त जल से अभिषिक्त रात्रमार्ग की शीतलता के कारण इनकी मूर्च्छा दूर हो गई । उस समय इन्होंने तीये नखों द्वारा कुम्भकर्ण के दोनों कान नोच लिये, दाँतों से उमकी नाक काट ली, और अपने पैरों के नखों से उमकी दोनों पमलियाँ भी फाड़ डाली । इस प्रकार चल कुम्भकर्ण इन्हें भूमि पर पटक कर पिसने लगा । उस समय ये सहसा गेद की भाँति वेगपूर्वक आवाज़ में उछले और धीराम के पास आ गये (६ ६७, ८३-८९) ।" जब नरान्तक के पराक्रम के कारण वानरसेना पराजित करने लगी तो इन्होंने अङ्गद को उस राक्षस का वध करने के लिये भेजा (६ ६९, ८१-८४) । इन्द्रजित् ने इन्हें आहत कर दिया (६ ७३, ५७) । विभीषण ने इन्हें युद्धभूमि में आहत

देखा (६ ७४ १०) । 'नव राजनि सुग्रीवे नाङ्गदे नापि राघवे । आर्य संदक्षित स्नेहो यथा वायुमुने परः', (६ ७४, २०) । इन्होंने कुम्भकर्ण आदि का वध हो जाने के पश्चात् वानरो को लड्डा पुरी में बाग लगा देने के लिये कहा (६ ७५, १-४) । इन्होंने प्रमुख वातरो को अपने-अपने निवृत्त-वर्ती द्वारों पर जाकर युद्ध करने का आदेश दिया (६ ७५, ४१-४३) । इन्होंने कुम्भ के साथ घोर युद्ध करते हुये अन्त में उसका वध कर दिया (६ ७६, ६५-९५) । इन्होंने राक्षस सेना का भीषण संहार करते हुये विरूपाक्ष का वध कर दिया (६ ९६) । इन्होंने महोदर के साथ घोर युद्ध किया और अन्त में उसका वध कर दिया (६ ९७) । श्रीराम द्वारा रावण का वध हो जाने पर उनकी विजय से ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ १०८, ३३) । श्रीराम ने इन्हें हृदय से लगा लिया (६ ११२, ६-७) । श्रीराम ने हनुमान् को अपना, लक्ष्मण का, तथा इनका कुशल समाचार सीता से निवेदन करने की आज्ञा दी (६ ११२, २४) । सीता के चरित्र पर सदेह करते हुये श्रीराम ने उन्हें इनके पास भी रह सकने के लिये कहा (६. ११५, २३) । श्रीराम ने लड्डा में इन्हें सेना सहित किष्किन्धा लौट जाने के लिये कहा (६. १२२, १३-१५) परन्तु इनकी प्रार्थना पर इन्हें अपने साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अयोध्या चलने की अनुमति दी (६ १२२, २१-२४) । अयोध्या लौटते समय जब श्रीराम ने सीता को किष्किन्धापुरी का दर्शन कराया तो सीता ने इनकी पत्नियों आदि को भी अपने साथ अयोध्या ले चलने की इच्छा से इनसे अनुरोध किया जिसे सुनकर इन्होंने तारा आदि अपनी पत्नियों को तदनुसार आदेश दिया (६. १२३, २४-३६) । भरत ने पुष्पक विमान पर इन्हें भी श्रीराम के साथ विराजमान् देखा (६ १२७, २९) । भरत ने इनका आलिङ्गन करते हुये इनके प्रति विशीय रूप से आभार प्रकट किया (६. १२७, ३९ ४२-४३) । इन्होंने भी अयोध्या में स्नान आदि किया (६ १२८, १४) । 'सुग्रीवो हनुमार्चव महेन्द्रसङ्घाद्युती', (६ १२८, २१) । इनकी पत्नियाँ भी नगर देखने की उत्सुकता से सवारियों पर बैठकर चली (६ १२८, २२) । ये शत्रुञ्जय नामक विशाल हाथी पर बैठे (६ १२८, ३१) । श्रीराम इनकी मिनता की चर्चा करते चल रहे थे (६. १२८, ३९) । "श्रीराम ने अशोकवाटिका से घिरे हुये सुन्दर भवन को सुग्रीव को देने के लिये कहा । श्रीराम की आज्ञा से भरत ने इन्हें उस भवन में प्रवेश कराया और इनसे चारों समुद्रों से जल मँगाने के लिये वानरो को भेजने का निवेदन किया । इन्होंने चार श्रेष्ठ वानरो को सुवर्ण पात्र देकर जल लाने के लिये भेजा (६ १२८, ४३-५१) ।" श्रीराम का अमिषेक देखकर इन्होंने किष्किन्धापुरी

के लिये प्रस्थान किया (६ १२८, ८९) । जब वालिन् से युद्ध के लिये रावण उपस्थित हुआ तो वालिन् की अनुपस्थिति का समाचार देते हुये इन्होंने उसे दक्षिणसमुद्र के तट पर जाकर वालिन् का दर्शन करने के लिये कहा (७ ३४, ४-११) । रावण इनकी ही भाँति सम्मानित होकर एक मास तक क्विप्विन्धाम वालिन् के अतिथि के रूप में रहा (७ ३४, ४४) । 'सुग्रीव प्रियकाम्यया', (७ ३५, ११) । इनके और वालिन् के पिता का नाम ऋक्षरजस् था (७ ३६, ३६) । ऋक्षरजस् की मृत्यु के पश्चान् मन्त्रियो ने इन्हें वालिन् के स्थान पर युवराज बनाया (७ ३६, ३८) । इनके साथ वालिन् का बचपन से ही सख्य भाव, अटूट प्रेम और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था (७ ३६, ३९) । 'वालिसुग्रीवयोर्वैरम', (७ ३६, ४०) । 'सुग्रीवो भ्राम्यमाणोऽपि (७ ३६, ४१) । राजाओ द्वारा प्राप्त रत्नों को श्रीराम ने इनकी, विभीषण तथा अन्य वानरों को भी बाँट दिया (७ ३९ १३) । "श्रीराम ने इनसे कहा 'सुग्रीव ! अङ्गद तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवनकुमार हनुमान् मन्त्री । वानरराज ! ये दोनों मेरे लिये मन्त्री का भी काम देते थे और सदा मेरे हित-साधन में लगे रहते थे । इसलिये, और विशेषतः तुम्हारे नाते, ये मेरी ओर से विविध आदर-सत्कार एवं भेंट पाने के योग्य हैं' (७ ३९, १७-१८) ।" श्रीराम ने इन्हें विभिन्न वानरों के प्रति स्नेह दृष्टि रखने के लिये कहा (७ ४०, १-९) । इन्होंने श्रीराम से विदा ली (७ ४०, २८) । अपने अश्वमेध में सम्मिलित होने के लिये श्रीराम ने इन्हें आमन्त्रित करने का आदेश दिया (७, ९१, ९) । साकेतधाम जाने के लिये उद्यत हुये श्रीराम के दर्शन की इच्छा से वानरों महिन य भी अयोध्या पधारे (७ १०८, १८) । इन्होंने भी श्रीराम के साथ ही परमधाम जाने की इच्छा प्रगट की (७ १०८, २१-२२) । श्रीराम ने इन्हें अपने साथ परमधाम चलने की स्वीकृति दी (७ १०८, २५, गीता प्रेम सम्स्करण) । इन्होंने सूर्यमण्डल में प्रवेश किया (७ ११०, २२) ।

सुचन्द्र, विशालपुत्र हेमचन्द्र के पुत्र का नाम है (१ ४७, १३) ।

सुतीक्ष्ण, एक मुनि का नाम है (१ १, ४२) । श्रीराम के इनसे माघ समागम का वात्मीकि मुनि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, १८) । वरमङ्गल ने श्रीराम को इनसे मिलने के लिये कहा (३ ५, ३५) । श्रीराम आदि इनके आश्रम की ओर चले (३ ७, १) । इनका आश्रम घोर वन के बीच में स्थित था जहाँ पहुँचकर श्रीराम आदि ने इन्हें पधामन धारण किये हुये ध्यानमग्न देखा (३ ७, ५) । इन्होंने श्रीराम का दोनों मुजार्थों से आलिङ्गन करते हुये उनका स्वागत किया (३ ७, ७-११) । इन्होंने श्रीराम आदि को अपने आश्रम में निवास करने के लिये आमन्त्रित किया (३ ७, १६) ।

श्रीराम ने इनसे बताया कि शरभज्ज मुनि से वे इनका परिचय जान चुके हैं (३. ७. १५) । श्रीराम के पूछने पर इन्होंने अपने आश्रम का वर्णन करने लगे बताया कि वहाँ मृगों आदि से कोई भय नहीं है (३. ७. १६-१९) । सायकालीन सद्योपासना करने के पश्चात् श्रीराम ने लक्ष्मण और सौमित्र आदि इनके आश्रम में निवास किया और इन्होंने उन लोगों को फल आदि लाकर दिया (३. ७. २३-२४) । दूसरे दिन प्रातः काल श्रीराम आदि ने इनसे विदा ली (३. ८. १-९) । इन्होंने श्रीराम आदि को हृदय से लगाते हुये उन्हें विदा किया (३. ८. १०-१७) । श्रीराम आदि वन में भ्रमण करने के पश्चात् पुनः इनके आश्रम पर लौट आये (३. ११. २८) । श्रीराम ने इनसे अगस्त्य मुनि के आश्रम का पता पूछा (३. ११. ३०-३५) । इन्होंने श्रीराम आदि को अगस्त्य मुनि के आश्रम का पता बताया (३. ११. ३६-४४) । इनके निर्देशानुसार श्रीराम आदि अगस्त्य-आश्रम की ओर चले (३. ११. ४७-५४ ७४) । बयोध्या की यात्रा करते समय श्रीराम ने पुष्पकविमान से सीता को इनका आश्रम दिखाया (६. १२३. ४७, गीता प्रेस संस्करण) ।

१. सुदर्शन, दक्षिण के पुत्र और अग्निवर्ण के पिता, एक सूर्यवशी राजा का नाम है (१. ७०. ४१; २. ११०. २८) ।

२. सुदर्शन, एक सरोवर का नाम है जिसमें चाँदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले रहते थे तथा जो राजहंसों में सेवित था । देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सरायें बड़ी प्रमत्तता के साथ यहाँ जल-विहार करने के लिये आया करती थीं । सुग्रीव ने इसके तट पर सीता की खोज करने के लिये एक लाख वानरों के साथ विमान की भेजा था (४. ४०. ४३-४४) ।

सुदामन्, जनक के एक मन्त्रिश्रेष्ठ का नाम है जो जनक की माया में दशरथ को बुलाने के लिये गये थे (१. ७०. १०-१३) । इनकी बात सुनकर दशरथ जनक के पास आये (१. ७०. १४) ।

१. सुदामा, बाह्लीक देश के मध्यभाग में स्थित एक पर्वत का नाम है, जिसके शिखर पर विष्णु के चरणचिह्नो का दर्शन करने के पश्चात् केकय जाने लगे बसिष्ठ के दूतों ने विपाशा नदी की ओर प्रस्थान किया (२. ६८. १८-१९) ।

२. सुदामा, एक नदी का नाम है जिसे केकय में आते समय भरत ने पार किया था (२. ७१. १) ।

सुदधे, राजा श्वेत के पिता का नाम है (७. ७८. ३) ।

सुघन्वा, एक राजा का नाम है जिसने साकारय नगर से आकर मिथिला की चारों ओर से घेर लिया (१. ७१. १६) । इसने जनक से शिव के उत्तम

धनुष और बमलनपनी सीता को समर्पित करने के लिये कहा (१ ७१, १७) । जनक के ऐसा न करने पर यह जनक के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया (१ ७१, १८) । इसकी मृत्यु के पश्चात् जनक ने साकाशय नगर के राज्य पर अपने भ्राता, कुशाध्वज को अमिषित्त कर दिया (१. ७१, १९) ।

१ सुनाम, प्रजापति वृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिने विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ५) ।

२. सुनाम, पर्वत-श्रेष्ठ मंताक का नाम है 'सुनाम पर्वतश्रेष्ठम्', (५, १, १३९, ५७, १३) ।

सुनेत्र, एक वानर प्रमुख का नाम है । किष्किन्धापुरी की शोभा देखते हुये लक्ष्मण ने मार्ग में इनके भवन को भी देखा था (४ ३३, ११) ।

सुन्दरी, माल्यवान् की पुत्री का नाम है जो नर्मदा नामक गन्धर्वी की पुत्री थी (७ ५, ३१ ३२. ३५) । इसने सात पुत्रों तथा एक पुत्री को जन्म दिया (७ ५, ३६-३७) ।

सुपाटल, एक वानर-प्रमुख का नाम है । किष्किन्धापुरी की शोभा देखते हुये लक्ष्मण ने इनके भवन को भी देखा था (४ ३३, ११) ।

१ सुपाश्र्व, सम्पानि के पक्षिप्रवरपुत्र का नाम है जो यथासमय आहार देकर प्रतिदिन सम्पानि का भरण-पोषण करते थे । इन्होंने अपने पिता को सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तान्त सुनाया (४ ५९, ८-२१) ।

२. सुपाश्र्व, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का उल्लेख है (६ ८९, १४) । अपने पुत्र, मेघनाद, के वध का समाचार सुनकर जब रावण ने सीता का वध कर देने का निश्चय किया तब इसने रावण को समझाकर इस कुटुम्ब से निवृत्त किया (६ ९२, ६०-६५) । यह सुमालि का पुत्र था (७ ५, ४०) ।

सुमघ्न, एक राक्षस का नाम है जो अस्त्र-बास्त्रों से युक्त होकर रावण की सभा में उपस्थित हुआ (६ ९, १) । इसने श्रीराम के साथ युद्ध किया (६ ४३, ११, गीता प्रेम सस्करण) । इसने श्रीराम को बाणों से आहत कर दिया (६ ४३, २६, गीता प्रेम सस्करण) । इसके वध का उल्लेख (६ ८९, ११) । अयोध्या जाते समय श्रीराम ने पुष्पकविमान से सीता को वह स्थान दिखाया जहाँ इनका वध किया गया था (६ १२३, १४) । यह माल्यवान् और सुन्दरी का पुत्र था (७ ५, ३७) । इसने भी रावण के साथ देवसेना पर आक्रमण किया (७ २७, ३०) ।

सुप्रभ—श्रीराम की सभा में सीता के शपथग्रहण को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ ९६, ४) ।

सुप्रभा, प्रजापति वसु की एक सुन्दरी पुत्री का नाम है, जिसने एक ही

परम प्रकाशमान अस्त्र-शास्त्री को उत्पन्न किया (१ २१ १५) । “इसने सहार नामक पचास पुत्रों को जन्म दिया । इसके ये पुत्र अत्यन्त दुर्जय थे और उनपर आश्रम करना किसी क लिये भी सर्वथा कठिन था । ये सबक सब अत्यन्त बलिष्ठ थे (१ २१, १७) ।”

१. सुबाहु, एक राक्षस का नाम है जो विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न उपस्थित करता था (१ १९, ५-७) । यह रावण की प्रेरणा से यज्ञों में विघ्न डालता था (१ २०, १९-२०) । यह उपमुन्द का पुत्र था (१. २०, २६-२७) । इसने अपने अनुचरों के साथ विश्वामित्र के यज्ञमण्डप में रक्त की धाराओं की बर्षा की (१ ३०, ११-१२) । यह श्रीराम की और दौडा (१ ३०, १४) । श्रीराम ने इसका वध कर दिया (१ ३० २२) ।

२. सुबाहु, एक वानरप्रमुख का नाम है । किष्किन्धा की सीमा देखते हुये लक्ष्मण ने इनके भवन को देखा (४ ३३, ११) । ये लङ्का के परकोटे पर चढ़ गये और अरुणी सेना का पडाव डाल दिया (६ ४२, २२) ।

३. सुबाहु, दामुघ्न के पुत्र का नाम है जिनका मधुरा के राज्य पर अनधिक दृष्टा (७ १०८, १०-११) ।

सुमति, मोमदत्तपुत्र काकूलम्ब के पुत्र का नाम है (१ ४७, १७) । इन्होंने विश्वामित्र का स्वागत किया (१. ४७, २०) । कुशल समाचार पूछने के पश्चात् इन्होंने विश्वामित्र से श्रीराम और लक्ष्मण का परिचय बनाने का निवेदन किया (१ ४८, १-६) । इनके द्वारा आहूत होकर राम और लक्ष्मण ने विशाला में एक रात्रि व्यतीत करने के पश्चात् मिथिला के लिये प्रस्थान किया (१ ४८, ९) ।

सुमन्त्र, राजा दशरथ के एक श्रेष्ठ मंत्री का नाम है जिन्होंने दशरथ ने, अश्वमेध यज्ञ का परामर्श ग्रहण करने के लिये, अपने समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को बुलाने के लिये भेजा (१. ८, ४) । दशरथ के आदेश पर ये वेदविद्या के पारंगत मुनियों को बुला लाये (१ ८, ५) । “इन्होंने दशरथ को ऋष्यशृङ्ग मुनि को अश्वमेध यज्ञ में बुलाने की सलाह देने हुये उनके अज्ञान में जाने और भ्रान्ता से विवाह करने का प्रसङ्ग सुनाया (१ ९) ।” सुमन्त्र ने दशरथ को अज्ञान के पास जाकर उनके यहाँ से ऋष्यशृङ्ग का अयोध्या लाने का परामर्श दिया (१ ११, १-१३) । दशरथ ने इन्हें वेदविद् ब्राह्मणों और ऋत्विजों को आमन्त्रित करने का आदेश दिया (१ १२, ४-५) । बलिष्ठ के आदेश पर ये स्वयं ही विभिन्न राजाओं को आमन्त्रित करने के लिये गये (१ १३, ३१) । ये दशरथ की आज्ञा से श्रीराम को रथपर बैठाकर लाये (२. ३, २२-२३ ३०) । इन्होंने दशरथ की आज्ञा पर पुत्र श्रीराम

को राज्याभिषेक के लिये दशरथ के सम्मुख उपस्थित किया (१ ४, ४-८) ।
 “ये महर्षि बनिष्ठ की आज्ञा से राज्याभिषेक की तैयारी का समाचार सुनाने के लिये दशरथ के पास गये । दशरथ इनकी स्तुति की मुनकर पुन. (श्रीराम के वनवास सम्बन्धी) शोक से श्रम्त हो गये । तदनन्तर कँकेयी से वार्तालाप करते हुये दशरथ की आज्ञा से य श्रीराम को बुलाने के लिये उनके भवन में गये (२ १४, ३३-६८, १५) । इन्होंने श्रीराम के भवन में पहुँचकर दशरथ का सन्देश सुनाया और श्रीराम, सीता से अनुमति लेकर, लक्ष्मण के साथ इनके रथ पर आरूढ़ हो गाजे-बाजे के साथ माग में स्त्री-पुरुषों की बाते सुनते हुये चले (२ १६) । वन जाने के लिये उद्यत हो श्रीराम ने दशरथ के भवन के समीप पहुँचकर इनके द्वारा दशरथ के पास अपने आगमन का समाचार प्रेषित किया (२ ३३, ३०-३१) । इन्होंने राम की आज्ञा का पालन करते हुये दशरथ को यह समाचार दिया (२ ३४, १-९) । दशरथ ने अपनी अग्य रानियों को बुलाने के लिये इनसे कहा और जब इन्होंने इस आज्ञा का पालन कर दिया तब दशरथ ने इनसे श्रीराम आदि को बुलाने के लिये कहा, (२ ३४, १०-१४) । दशरथ की आज्ञा से ये श्रीराम आदि को उनके पास लाये (२ ३४, १५) । दशरथ की दशा को देखकर ये भी शोक-विह्वल होकर मूर्च्छित हो गये (२ ३४, ६१) । चेनना लौटने पर इन्होंने कँकेयी को उनकी कृत्किलता पर बहुत अधिक धिक्कारा (२ ३५) । दशरथ ने इन्हें श्रीराम व माय मेना और घन आदि भी भेजने का आदेश दिया (२ ३६, १-९) । दशरथ की आज्ञा सिरोधार्य करके ये श्रीराम आदि के वनगमन के लिये एक सुतोभिन रथ लाये (२ ३९, १२-१३) । इन्होंने विनयपूर्वक श्रीराम आदि से वन चलने के लिये रथ पर आरूढ़ होने का निवेदन किया (२ ४०, १०-१२) । सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम के रथारूढ़ हो जाने पर इन्होंने रथ को हाँका (२ ४०, १७) । वन के लिये प्रस्थान करने समय जब द्रोणाकुल पुरुवामी तथा राजा दशरथ आदि रथ के पीछे-पीछे चलने लगे तो श्रीराम ने इन्हें रथ को शीघ्र आगे बढाने का आदेश दिया (२ ४०, ४७) । तमना के तट पर पहुँचकर इन्होंने घोड़ों को रथ से खींचकर दृढ़लाया तथा जत्र आदि पीने के लिये दिया (२ ४५, ३३) । इन्होंने श्रीराम की आज्ञा से घोड़ों को खारा इत्यादि दिया और उनके पदचान् मन्मथ के साथ श्रीराम के गुणों की खर्चा करने हुये सारी रात जागते रह (२ ४६, ११-१६) । “श्रीराम ने तमनातट पर इन्हें प्रातःकाल शीघ्र ही रथ तैयार करने के लिये कहा त्रिमये पुरवासियों को मोना ही छोड़कर वे सब लोग दूर दुर्गम वन्य प्रदेश में चले जायें । इन्होंने श्रीराम

की आज्ञा का पालन किया (३. ४६, २५-२८) ।" शृङ्गवेरपुर पहुँचकर लव राम ने गगातट पर निवास करने का निश्चय किया तब इन्होंने भी रथ के घोड़ों को खोल कर खाना आदि दिया (२ ५०, २७-२१) । ये भी लक्ष्मण और गुह के साथ बात चोत करते हुये सारी रात जागने रहे (२ ५०, ५०) । इन्होंने विदा करते हुये धीराम ने इनके द्वारा माता-पिता आदि के लिये सन्देश भेजे (२ ५२, १३-३७) । इन्होंने स्वयं भी वन चलने का आग्रह किया (२, ५२, ३८-५८) । धीराम ने इन्हें अयोध्या लौटने के लिये समझाया (२ ५२, ५९-६४) । धीराम आदि गगा के उस पार पहुँच कर भी जब तक दिखाई देते रहे तब तक ये निरन्तर उन्हीं लोगों को देखत रहे (२ ५२, १००) । धीराम ने इनका स्मरण किया (२ ५३, २) । गुह से विदा लेकर ये अयोध्या लौटे और दशरथ तथा कौसल्या आदि को धीराम का सन्देश सुनाया (२ ५७) । दशरथ के आदेश पर इन्होंने धीराम और लक्ष्मण का सन्देश सुनाया (२ ५८) । इन्होंने धीराम के शोक से जड़-चेतन तथा अयोध्यापुरी की दुर्गवस्था का वर्णन किया जिसे सुनकर दशरथ विलाप करने लगे (२ ५९, १-१७) । इन्होंने विलाप करती हुई कौसल्या को समझाया (२ ६०) । इन्होंने अचेत होकर भूमि पर पड़े शत्रुघ्न को उठाकर शान्त किया (२ ७७, २४) । वसिष्ठ ने इन्हें बुलाने के लिये दूतों को भेजा (२ ८१, १३) । इन्होंने भरत की आज्ञा से धीराम को लौटा लाने के लिये वन चलने की तैयारी के निमित्त सबको भरत का सन्देश सुनाया (२ ८२, २१-२४) । इन्होंने भरत से निपादराज गुह को मिलने का अवसर देन के लिये कहा, क्योंकि गुह को दण्डकारण्य के मार्ग और धीराम आदि के आवास का पता था (२ ८३, ११-१४) । धीराम के आश्रम पर जाने के लिये ये शत्रुघ्न के पीछे पीछ चल रहे थे (२ ९९, ३) । धीराम इनके साथ दशरथ को जलाञ्जलि देने के लिये मन्दाकिनी के तट पर गये (२ १०३, २३) । धीराम के स्वागत के लिये यह हाथी पर सवार होकर नगर से बाहर निकले (६ १२७ १०) । सीता को वन में छोड़ने के लिये लक्ष्मण ने इनसे रथ लाने के लिये कहा (७ ४६, १-३) । ये लक्ष्मण की आज्ञानुसार रथ लाये (७ ४६, ४-६) । सीता और लक्ष्मण सहित रथ को लेकर ये गङ्गा तट पर पहुँचे (७ ४६, २२) । सीता को छोड़कर लौटते समय इन्होंने लक्ष्मण को सात्वना देते हुये राम के सम्बन्ध में महर्षि दुर्वासा की भविष्यवाणी का उल्लेख किया (७. ५०) । इन्होंने दुर्वासा के मुख से सुनी हुई भृगु ऋषि के शाप की कथा कहकर भविष्य में होनेवाली कुछ बातें भी बताई और लक्ष्मण को शान्त किया (७. ५१) ।

सुमागध, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २) ।

सुमालि (सुमाली भी), एक राजस का नाम है । सीता की खोज करते हुये हनुमान् इसके भवन में गये (५ ६, २१) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५ ५४, ११) । यह सुकेश का द्वितीय पुत्र था (७ ५, ६) । ब्रह्मा इमे वर देने के लिये उपस्थित हुये (७ ५, १२) । इसने ब्रह्मा से अजेयता तथा चिरजीवन का वरदान माँगा जो ब्रह्मा जी ने इसे प्रदान किया (७ ५, १४-१६) । विश्वकर्मा के परामर्श पर अपने भ्राताओ सहित यह भी लङ्का में आकर निवास करने लगा (७ ५, २२-२९) । इसकी पत्नी का नाम केतुमती था जो नर्मदा नामक गन्धर्वी की पुत्री थी (७ ५, ३८) । इसने केतुमती के गर्भ से बनेक पुत्र-पुत्रियों को उत्पन्न किया (७ ५, ३९-४१) । भ्राताओ सहित इसने देवताओ और ऋषियों को वस्तु करना आरम्भ किया जिससे वे सब लोग महादेव की शरण में गये (७ ६ १) । देवताओ ने महादेव के बनाया कि ये राजस अपने को विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, देवराज इन्द्र, यमराज, वरुण, अश्विनी और सूर्य कहते हैं (७ ६, ६-७) । मान्यवान् की बात सुनकर इसने अपने पराक्रम का उल्लेख करते हुये विष्णु से युद्ध करने का परामर्श दिया (७ ६, ३९-४४) । विष्णु से युद्ध करने के लिये अपने भ्राताओ सहित यह राजसमेना के आगे-आगे चला (७ ६, ५९) । विष्णु ने इसके सारथि का वध कर दिया (७ ७, २९) । सारथि-विहीन हो जाने के कारण इसके घोड़े रणभूमि में इधर-उधर भागने लगे (७ ७, ३०-३१) । विष्णु से युद्ध करते हुये मात्यवान् के पराजित हो जाने पर अपने भ्राताओ सहित यह भाग कर रसातल में चला गया (७ ८, २२-२३) । यह रावण से भी अधिक बलवान् था (७ ८, २४) । "कुछ काल के पश्चात् जब यह अपनी पुत्री के साथ एक दिन मान्यलोक में विचरण कर रहा था तो पुलस्त्य-नन्दन विभ्रवा को देखकर इतना अपनी पुत्री, कैकसी, को विधवा के पास जाकर उनका वरण करने के लिये कहा (७ ९, १-१२) । रावण आदि के वरदान प्राप्त कर लेने पर अपने भय का परित्याग करके इसने रावण के समक्ष उपस्थित होकर उसे लङ्का नगरी की घनाध्यक्ष कुबेर से माँगने का परामर्श दिया (७ ११, १-१०) । रावण का उत्तर सुनकर यह समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है (७ ११, ११) । यह रावण का मामा था (७ २५, २२) । इसने भी रावण के साथ देवसेना पर आक्रमण किया (७ २७, ३२) । इसने देवसेना के साथ घोर युद्ध किया परन्तु अन्त में सावित्र ने इसका वध कर दिया (७ २७, ४०-४१) । सावित्र ने इसका वध करके इसके शरीर को भस्म कर दिया (७ २८, १) ।

सुमित्रा, महाराज दशरथ की एक रानी का नाम है जिन्हें दशरथ ने प्राजापत्य पुत्र्य से प्राप्त स्त्रीर का अनुयायिण दिया (१ १६, २७) । दशरथ ने कैकेयी को देने के पश्चात् अवशिष्ट स्त्रीर पुत्र सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया (१ १६, २८) । इन्होंने गर्भ धारण किया (१ १६, ३१) । इन्होंने आश्विना नक्षत्र और कर्क लग्न में लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक दो पुत्र उत्पन्न किये (१ १८, १३-१४) । इन्होंने धन्य सपत्नियों के साथ पुत्र-वधुओं को नवारी से उनारवर स्वागत किया (१ ७७, ११) । ये श्रीराम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर उपस्थित हुई (२ ४, ३१-३२) । 'जातीन् मे त्व श्रिया युक्त सुमित्रायाश्च नन्दय', (२ ४, ३९) । 'कौमल्या च सुमित्रा च स्वनेत्रमपि वा श्रियम्', (३. १२, ११) । दशरथ ने कैकेयी को बताया कि ये श्रीराम के अभिषेक का निवारण और उनका वनगमन देखकर निश्चिन्त ही भयभीत होकर दशरथ का विश्वास नहीं करेगी (२ १२, ७२-९१) । 'लक्ष्मण परमवृद्ध सुमित्रानन्दवर्धन', (२ १९, ३०) । इन्होंने अपने पुत्र, लक्ष्मण, को श्रीराम के साथ वन जात्र के समय उपदेश दिया (२ ४०, ४-९) । इन्होंने कौसल्या को विलाप करते देखकर उन्हें विविध प्रकार से सान्त्वना दी (२ ४४) । श्रीराम ने कैकेयी द्वारा इन्हें कष्ट पहुँचाये जाने की आशङ्का प्रकट की (२ ५३, १५-१६) । कौसल्या और इनके निकट विलाप करते हुये दशरथ का अन्त हो गया (२ ६४, ७६-७७) । पुत्रशौर से अफसन् होने के कारण ये इनकी मृत्यु हो गई थी प्रातःकाल उनकी निद्रा भंग नहीं हो पाई (२ ६५, १६) । दशरथ की मृत्यु पर अन्त पुर की स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर सहसा इनकी निद्रा भङ्ग हुई और कौसल्या के साथ इन्होंने दशरथ के शरीर का स्पर्श किया तथा 'हा नाय !' कह कर पृथिवी पर गिर पड़ी (२ ६५, २१-२२) । भरत ने वसिष्ठ के दूतों से इनका कुशल समाचार पूछा (२ ७०, ९) । भरत ने कैकेयी को बताया कि कौसल्या और सुमित्रा भी तुम्हारे कारण पुत्रसौख्य से पीड़ित हो गईं (२. ७३, ८; ७४, ८) । कौसल्या ने इनको भरत के आगमन का समाचार बताया (२. ७५, ४-६) । 'सुमित्रानुचरा', (२ ७५, १३) । ये गया पार होने के लिये भरत आदि के साथ स्वम्लिक नौका पर आरूढ़ हुईं (२ ८९, १३) । भरत ने भरद्वाज मुनि को उनका और इनके पुत्रों का परिचय दिया (२ ९२, २२-२३) । श्रीराम ने भरत से उनका कुशल समाचार पूछा (२ १००, १०) । कौसल्या ने मन्दाकिनी के तट पर इनके समक्ष दुःखपूर्ण उद्गार व्यक्त किये (२. १०४, ३-७) । सीता-वियोग में विलाप करते हुये श्रीराम ने लक्ष्मण को इनका यथोचित सत्कार करने की आज्ञा दी (३. ६२, १७) । लक्ष्मण के लिये

विष्णु करते हुए श्रीराम ने कहा कि वे इनके उपासक को नहीं कर सकते (६. ४९, ११) । रावणवध के पश्चात् श्रीराम ने वानरों में इनकी देखने की अपनी उत्कण्ठा व्यक्त की (६. १२१, २०) । श्रीराम आदि का स्वागत करने के लिये दशरथ की सभी रानियाँ कौमल्या सहित इन्हें भाग्य करके नन्दिग्राम आईं (६. १२७, १४) । श्रीराम ने इन्हें प्रणाम किया (६. १२७, ४७) । अपने पिता के मवन में प्रवेश करके श्रीराम ने इनके चरणों में प्रणाम किया (६. १२८, ४४) । 'गधवेद्यया माना नुमित्रा लक्ष्मणेन च ॥ भरतेन च कैंकेयी जीवपुत्रास्तया म्त्रिय । भविष्यन्ति मदानन्दा पुत्रपौत्रममन्विता ॥', (६. १२८, १०८-१०९) । शत्रुघ्न के अभिषेक के समय इन्होंने अन्य रानियों के साथ मिलकर शत्रुघ्न का महान्कार्य सम्पन्न किया (७. ६३, १६) । लक्ष्मणपुर का वध करने के लिये जाते समय शत्रुघ्न ने इनसे विदा ली (७. ६४, १५) । इनकी मृत्यु हुई (७. ९९, १६) ।

१. सुमुख, एक वानर रूपति का नाम है जो मृत्यु के पुत्र थे (६. ३०, २४) ।

२ सुमुख, एक ऋषि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लीटन पर उनके अभिनन्दन के लिये शशिपु दिशा में महर्षि अगस्त्य के साथ उपस्थित हुए (७. १. ३) ।

सुमेरु, एक पर्वत का नाम है जिसका स्वरूप भगवान् मूर्ध के वरदान से सुवर्णमय हो गया था । यहाँ हनुमान् के पिता केमरी, राज्य करते थे (७. ३५, १९) ।

१ सुयज्ञ, दशरथ के एक मंत्री का नाम है (१. ७, ५) । दशरथ ने इनका सत्कार करके अश्वमेध करने का परामर्श लिया (१. ८, ६) । दशरथ ने इन्हें आमन्त्रित करने के लिये कहा (१. १२, ५) । वे बलिष्ठ के पुत्र थे और श्रीराम ने लक्ष्मण को इन्हें बुगान का आदेश दिया (२. ३१, ३७) । जब लक्ष्मण इन्हें बुगाने के लिये उपस्थित हुए तो उस समय वे अपनी मन्त्रालया में बैठे थे (२. ३२, १-२) । अपनी सध्यासासना पूर्ण करके वे लक्ष्मण के साथ श्रीराम के भवन में आये (२. ३२, ३) । श्रीराम ने इनका स्वागत किया (२. ३२, ४) । इनका पूजन करने के पश्चात् सीता की प्रेरणा से श्रीराम ने इन्हें सीता द्वारा प्रदत्त विविध आभूषण, शत्रुघ्नवध नामक हाथी, तथा अन्य उपहार प्रदान किये (२. ३२, ५-१०) । इन्होंने राम द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की मह्यता करने लिये राम, लक्ष्मण और सीता के लिये महान्कार्य आशीर्वाद प्रदान किये (२. ३२, ११) । इन्होंने श्रीराम का अभिषेक कराने में बलिष्ठ की सहायता की (६. १२८, ६१) ।

२. सुयज्ञ—श्रीराम की समा में सीता के रापय-ग्रहण को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ १६, ५) ।

१. सुरथ, एक राजा का नाम है जिन्होंने रावण की आश्रीनता स्वीकार कर ली थी (७ १९, ५) ।

२. सुरथ, राजा श्वेत के अनिष्ट भ्राता और सुदेव के पुत्र का नाम है (७ ७८, ४) । श्वेत ने इनका अभिषेक करके सम्पाप्त ले लिया (७ ७८, ९) ।

सुरभि—बैवेयी की धिक्कारते हुये भरत ने यत्नाया . "एक समय सुरभि (वामघेनु) ने पृथिवी पर अपने दो पुत्रों की अत्यन्त दुर्दशा की अवस्था में देखा जिसने उसके नेत्रों से अश्रु टपक कर नीचे से जा रहे इन्द्र पर गिर पड़े । इन्द्र ने सुरभि से उनके बटु वा कारण पूछा जिस पर उत्ताने अपने दोनों पुत्रों की दशा का वर्णन किया । उसे रोती देखकर इन्द्र ने यह माना कि पृथ से बड़कर और कोई वस्तु नहीं है ।" इस कथा का वर्णन करते हुये भरत ने कहा कि जब सहस्रों पुत्रों वाली सुरभि ने अपने दो पुत्रों के लिये इतना शोक किया तब एक पुत्रवाली माता कौसल्या श्रीराम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी (२ ७४, १५-२८) । "रावण ने इसे दरणालय में देखा । कहते हैं कि इसके रूप की धारा ही से खीरसागर परिपूर्ण है (७ २३, २१-२२) ।

सुरभी, क्रोधवशा की पुत्री का नाम है, जिसने रोहिणी और यमस्विनी गन्धर्वों नामक दो कन्याओं उत्पन्न कीं (३ १४, २२ २७) ।

सुरसा, क्रोधवशा की पुत्री का नाम है, जिसने नागों को जन्म दिया (३ १४, २२, २८) । इसकी बहन का नाम कद्रु था (३ १४, ३१) । "हनुमान् के बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिये इन्द्र सहित देवताओं ने इसे राक्षसी का रूप धारण करके उनका मार्गाविरोध करने के लिये कहा । इसने तदनुसार हनुमान् के सामने विकराल रूप प्रगट किया और हनुमान् के सम्मुख खड़ी होकर उनका प्रश्न करने के लिये कहा । अनेक अनुनय-विनय करने पर भी जब इसने हनुमान् को जाने की अनुमति नहीं दी तो अन्त में हनुमान् इसके दिशाल मुख में एक अङ्गुष्ठ के बराबर छोटा रूप बनाकर प्रवेश कर गये, और इस प्रकार इसे मन्तृपू करने के पश्चान् बाहर निकल आये । राहु के मुख में लूटे हुये चन्द्रमा की भाँति अपने मुह से मुक्त हुये हनुमान् को देख कर इसने अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हुये हनुमान् को आशीर्वाद दिया (५ १, १४५-१७१) ।" लङ्का में लौटने के पश्चात् हनुमान् ने इसके साथ अपने मायात्मार का प्रसंग सुनाया (५ ५८, २२-३३) ।

सुराजि, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का मनोरजन करने के लिये उनके साथ रहता था (७ ४३, २) ।

सुराष्ट्र, दशरथ के एक मंत्री का नाम है (१ ७, ३) - -

सुवर्णाद्वीप, सुमात्रा का नाम है जहाँ सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये विनन को भेजा था (४ ४०, २९) ।

सुदर्शासदृश, आदित्यहृदय स्तोत्र में सूर्य का एक नाम है (६. १०५, १०) ।

सुबेल, एक पर्वत का नाम है जिसके निकट श्रीराम की सेना के स्थित होने का गुप्तचरो ने रावण को समाचार दिया (६ २९, २९, ३०, १ ३५, ३१, १) । इसका तट-प्रान्त अत्यन्त रमणीय था (६ ३७, ३६) । श्रीराम ने प्रमुख वानरो के साथ इस पर्वत पर चढ़कर रात्रि में निवास किया (६ ३८) । वानरो सहित श्रीराम ने इसके शिखर से लङ्कापुरी का निरीक्षण किया (६ ३९) ।

सुव्रत, नाभाग के एक पुत्र का नाम है । अज इनके ज्येष्ठ भ्राता थे 'अजश्च सुव्रतश्चैव नाभागस्य सुतावुभौ', (२ ११०, ३१) ।

१. सुपेण, एक वानर का नाम है जिन्हें वरुण ने उत्पन्न किया (१. १७, १५) । बालिन ने सुग्रीव को बताया कि इनकी पुत्री ताग सूक्ष्म विषयो का निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उल्हानो के चिह्नो को समझने में सर्वथा निपुण थी (४ २२, १३) । किष्किन्धा पुरी की शोभा देखते हुये लक्ष्मण ने इनके भवन को भी देखा (४ ३३, ११) । सुग्रीव ने इन्हें सीता की खोज के लिये दक्षिण दिशा में भेजा (४ ४१, ३) । हनुमान् ने बताया कि ये भी लङ्का पुरी में प्रविष्ट हो सकते थे (५ ३, १५) । श्रीराम ने इन्हें वानर सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का भार सौंपा और ये तदनुसार सेना की रक्षा करते हुये चले (६ ४, २१ ३५) । श्रीराम ने इन्हें सैन्य व्यूह के कुक्षि भाग की रक्षा करने का आदेश दिया (६. २४, १८) । रावण ने इन्हें देखा (६ २९, ४) । ये धर्म के पुत्र थे (६ ३०, २३) । इन्होंने श्रीराम के साथ रहकर मध्य के मोर्चों की रक्षा की (६. ४१, ४४) । इन्होंने बहुसंख्यक वानरो के साथ लङ्का के सभी द्वारो को अपने अधिकार में कर लिया (६. ४१, ९४) । इन्होंने पश्चिम द्वार पर आक्रमण किया (६. ४२, २६) । इन्होंने विद्युन्माली के साथ इन्द्र मुद किया (६ ४३, १४) । विद्युन्माली के साथ पौर मुद करते हुये इन्होंने उसका वध कर दिया (६ ४३, ३६-४२) । श्रीराम ने अन्य वानरो के साथ इनके दो पुत्रो को भी इन्द्रजिन् का पता लगाने के लिये भेजा (६ ४५, २) । श्रीराम और लक्ष्मण को मूर्च्छित देखकर ये भी शोक करने लगे (६ ४६, ३) । ये मूर्च्छित श्रीराम और लक्ष्मण को घेरकर उनकी रक्षा करने लगे (६ ४७, २) । जब सुग्रीव ने इन्हें श्रीराम और लक्ष्मण को

लेकर किष्किन्धा चले जाने के लिये आदेश दिया तो इन्होंने कुछ विशेष औपधियों को मँगाकर श्रीराम और लक्ष्मण को स्वस्थ करने के लिये कहा (६. ५०, २६-३२)। जब रावण के प्रहार से सुग्रीव अचेत हो गये तो इन्होंने रावण पर जाक्रमण किया (६. ५९, ५२)। ये कुम्भकर्ण के साथ युद्ध करने के लिये पुद्गलेत्र की ओर बड़े (६. ६६, ३५)। इन्द्रजित् ने इन्हे आहूत कर दिया (६. ७३, ५७)। विभीषण ने इन्हे युद्ध भूमि में आहूत देखा (६. ७४, १०)। इन्होंने कुम्भ के साथ युद्ध किया (६. ७६, ६२)। इन्द्रजित् का वध करके लोटने के पश्चात् इन्होंने उनके आहूत शरीर की चिकित्सा की (६. ९१, १९-२५)। सुग्रीव ने इन्हे अपने ही समान वीर सन्तान कर लेना की रक्षा का कार्य नीसा (६. ९६, ६-७)। रावण ने क्रुद्ध होकर कहा कि वह उम रामरूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकेगा जिसकी सुपेण बादि समस्त बानर वृक्षपति दान्वा-प्रजास्रायें हैं (६. ९९, ५)। मूर्च्छित लक्ष्मण के लिये विलाप करते हुये श्रीराम को इन्होंने सान्त्वना दी और हनुमान् को महोदय पर्वत के दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी, सानीवकरणी और सधानी नामक प्रसिद्ध महीपधियों को लाने के लिये कहा (६. १०१, २३-३३)। 'सुपेणो ह्येवमब्रवीत्', (६. १०१, ३६)। हनुमान् द्वारा उस पर्वत शिखर के लय देने पर इन्होंने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा तदनन्तर उन औपधियों को उखाड़ और कूट पीस कर लक्ष्मण की नाक में दे दिया त्रिासे शरीर में घँसे बाणों के निकल जाने पर लक्ष्मण सचेत हो गये (६. १०१, ४१-४३, ४५-४६)। अयोध्या की यात्रा करते समय श्रीराम ने सीता को बहू स्नान भी दिलाया जहाँ सुपेण ने विद्युन्माली का वध किया था (६. १२३, ७)। भरत ने इनका आलिङ्गन किया (६. १२७, ४०)। श्रीराम ने इनके प्रति स्नेह प्रगट किया (७. ३९, २१)। श्रीराम ने सुग्रीव को विदा करते हुये इन पर प्रेम-दृष्टि रखने के लिये कहा (७. ४०, ४)।

२. सुपेण, एक बानर-प्रमुख का नाम है जिन्हे सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने पश्चिम दिशा में भेजा था (४. ४२, १)। इन्होंने सीता की खोज के लिये पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया (४. ४५, ६)। इन्होंने अपनी शक्ति का बणन करने हुये बताया कि ये एक छलांग में अस्सी योजन तक जा सकते हैं (४. ६५, २९)।

सुसन्धि, मान्धाता के कान्तिमान् पुत्र का नाम है। इनके ध्रुवसन्धि और प्रसेनजित् नामक दो पुत्र हुये (१. ७०, २५, २. ११०, १४)।

सूर्य—इन्होंने सुग्रीव को जन्म दिया (१. १७, १०)। 'अस्तमभ्यागम-त्सूर्यो रजनी सांभवतन्', (२. १३, १५)। श्रीराम के वनवास के समय

उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका आवाहन किया (२ २५, २३) । श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १७) । विश्वेदेव, वसु, और मरुद्गण आदि देवता सायंकाल के समय मरु पर्वत पर आकर इनका उपस्थान करते थे (४ ४२, ३९-४०) । हनुमान् ने समुद्रलङ्घन के समय इनका स्मरण किया (५ १, ८) । जब रावण से युद्ध करते हुए श्रीराम थककर अत्यन्त चिन्तित हुये तो अगस्त्य मुनि ने उनके पास आकर उन्हें आदित्य हृदय नामक अत्यन्त गोपनीय स्तोत्र का जप करने के लिय कहा (६ १०५, १-५) । अगस्त्य ने बताया कि सूर्य अपनी अनन्त किरणों से सुशोभित (रश्मिमान्), निम्न उदय होने वाले (समुद्यन्) देवताओं और असुरों द्वारा नमस्कृत, विवस्वान् प्रभा का विस्तार करनेवाले (भास्कर) और भुवनेश्वर हैं (६ १०५, ६) । 'अगस्त्य ने बताया कि सम्पूर्ण देवता सूर्य के ही स्वरूप हैं । ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत् को सत्ता एव स्फूर्ति प्रदान करनेवाले हैं और ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं तथा असुरों सहित सम्पूर्ण लोको का पालन करते हैं (६ १०५, ७) ।' 'एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कन्द प्रजापति । महेन्द्रो घनद वालो यम सोमो ह्यपा पति ॥ पितरो वसव साध्या अश्विनो महतो मनु । वायुर्वह्नि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर ॥ आदित्य सविता सूर्य सप्त पूषा गभस्तिमान् । भुवर्गसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर ॥ हरिदश्व सहस्राक्षि सतस्रिर्मरीचिमान् । तिमिरोन्मथन शमुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽनुमान् ॥ हिरण्यगर्भं शिशिर स्तपनोऽहस्करो रवि । अग्निगर्भोऽग्निने पुत्र शङ्ख शिशिरनाशन ॥ व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजु सामपारग । घनवृष्टिरपा मित्रो विन्ध्यवीधीप्लवगम ॥ आतपी मण्डली मृत्यु पिङ्गल सर्वतापन । कविर्विश्वो महातेजा रक्त सवभवोद्भुव ॥ नक्षत्रग्रहनाशानामधिपो विश्वभावन । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मघ्नोऽस्तु ते ॥', (६ १०५, ८-१५) । इनकी स्तुति (६ १०५ १६-२१) । अगस्त्य मुनि ने सूर्य का महत्त्व बताया हुये श्रीराम का आदित्यहृदय का तीन बार जप करने का परामर्श दिया (६ १०५, २२-२७) । मुनि का उपदेश सुनकर श्रीराम ने प्रसन्न होकर शुद्धचित्त से आदित्यहृदय को धारण किया और तीन बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान् सूर्य की बार देखते हुये उसका तीन बार जप किया (६ १०५, २८-२९) । उस समय देवताओं के मध्य में लड़े हुये भगवान् सूर्य ने प्रसन्न होकर श्रीराम की ओर दक्षा और रावण के विनाश का समय निकट जानकर उनसे क्षीघ्रता करने के लिय कहा (६ १०५, ३१) ।

सूर्यभानु, कुवेर के एक द्वारपाल का नाम है जिगने कुवेर के भवन में प्रवेश करते समय रावण को रोकने का प्रयास किया, परन्तु रावण ने इसका वध कर दिया (७ १४, २५-२९) ।

सूर्यवान्, एक पर्वत का नाम है जिसके क्षेत्र में सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने हनुमान् आदि वानरो को भेजा था (४. ४१, ३२) ।

सूर्यशत्रु, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान् ने सीता की खोज की (५. ६, २१) । हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५. ५४, १२) । यह भी अस्त्र-शस्त्रों से युक्त होकर रावण की मभा में उपस्थित हुआ (६. ९, १) । इसके वध का उल्लेख (६. ८९, १३) । यद्यपि लौटते समय श्रीराम ने पुष्पक विमान से सीता को वह स्थान दिखाया जहाँ इसका वध किया गया था (६. १२३, १४) । इमने भी रावण के साथ देवसेना पर आक्रमण किया (७. २७, ३०) ।

सूर्याक्ष, एक वानर-प्रमुख का नाम है । लक्ष्मण ने किष्किन्धापुरी की ओर देखते हुये इनके भवन को भी देखा (४. ३३, १०) ।

सूर्यानिन, एक वानर का नाम है जिन्हे इन्द्रजित् ने आहत कर दिया (६. ७३, ५९) ।

सुमर, मृगमन्दा की सन्तानों में से एक का नाम है (३. १४, २३) ।

सुख्य, सुचन्द्रपुत्र कुशाभव के पुत्र का नाम है (१. ४७, १४) ।

सोम—श्रीराम के बनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये नीतल्या ने इनका आवाहन किया (२. २५, ११. २३) । 'सोमादित्यो', (५. १३, ६६) ।

१. **सोमगिरि**, सिन्धुनद और समुद्र के संगम पर स्थित दो शिखरों से युक्त एक महान् पर्वत का नाम है । इसके क्षेत्र में सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने सुषेण आदि वानरो को भेजा (४. ४२, १५, सीता प्रेस संस्करण) । देखिये **द्वैमगिरि** ।

२. **सोमगिरि**, उत्तरवर्ती समुद्र के मध्यभाग में स्थित एक पर्वत का नाम है (४. ४३, ५३ गीता प्रेस संस्करण) । देखिये ४. ४३, ५९ भी ।

सोमवृत्त, सहदेवपुत्र कुशाभव के पुत्र का नाम है (१. ४७, १५) ।

सोमदा, ऊर्मिला की पुत्री का नाम है जो ब्रह्मा मुनि की उपासना करती थी (१. ३३, १२) । इसकी सेवा से सन्तुष्ट होकर मुनि ने इसे मानसिक तप से प्रगट ब्रह्मदत्त नामक पुत्र प्रदान किया (१. ३३, १३-१८) । इमने अपनी पुत्रवधुओं का यथोचित अभिनन्दन किया (१. ३३, २५) ।

सोमा, एक ऋषि का नाम है । भरद्वाज मुनि ने भरत का आनिध्य-सन्कार करने के लिये इसका आवाहन किया था (२. ९१, १७) ।

सौदास, तपु के पुत्र, कल्माषपाद, का ही दूसरा नाम है जो शापवश कुछ वर्षों के लिये नरभक्षी राक्षस हो गये थे (२. ११०, २६) ।

१. **सौमनस**, प्रजापति कुशाभव के पुत्र, एक ऋषि का नाम है जिसको विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित कर दिया था (१. २८, ८) ।

२. सौमनस, एक पर्वत का नाम है जो उदयगिरि का एक शिखर है। इसकी चौड़ाई एक योजन और ऊँचाई दस योजन है। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये वनत को इसके क्षत्र में भेजा (४ ४० ५५)।

सौराष्ट्र, एक समृद्धिशाली देश का नाम है जिसपर दशरथ का आधिपत्य था (२ १०, ३८)। दशरथ ने कैकेयी को यहाँ होनेवाले उपहार प्रदान करने के लिये कहा (२ १०, ३९-४०)। सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने सुषेण आदि वानरो को इस देश में भेजा (४ ४२, ६)।

सौवीर, एक समृद्धिशाली देश का नाम है जहाँ दशरथ का आधिपत्य था (२ १० ३८)। दशरथ ने कैकेयी को यहाँ उत्पन्न होनेवाले उपहार देने के लिये कहा (२ १० ३९-४०)।

स्कन्ध, एक वाण का नाम है जो मूर्च्छन श्रीराम और लक्ष्मण को धरकर उनकी रक्षा करने लग (६ ४७, ३, गीताप्रेस संस्करण)।

स्थण्डिलशायी, एक प्रकार के ऋषिया का नाम है जिन्होंने शरभरुद्र मुनि के स्वर्गलोक चले जान क पश्चात् श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों में अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ६, ४ ८-२६)।

१. स्थाणु, महादेव का एक नाम है (१ २७, ९)।

२. स्थाणु, छठवें प्रजापति का नाम है जो बहुपुत्र के बाद हुये थे (३ १४ ८)।

स्थाणुमती, एक नदी का नाम है। केकय से लौटते समय भरत ने इसे पार किया था (२ ७१, १६)।

स्थूलाक्ष, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के विरुद्ध युद्ध के लिये सर के साथ आया (३ २३ ३४)। दूषण के धराशायी होने पर इसने श्रीराम पर आक्रमण किया परन्तु श्रीराम ने इसके नेत्रों को सायको से भर दिया जिसमें यह पृथिवी पर गिर पडा (३ २६, १८-२२)।

स्यन्दिका, एक नदी का नाम है जिसमें श्रीराम आदि ने पार किया (२ ४९, ११)।

स्यन्ताम, प्रजापति वृणाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया था (१ २८, ६)।

स्वयंप्रभा, भरु सार्वर्णिक की कन्या का नाम है जो ऋदाविल में हुआ क अवन की रक्षा करती थी। यह हेमा की सखी थी (४ ५१, १६-१७)। इसमें हनुमान् आदि ने उनके शरणागत में प्रवेश करने का कारण पूछा (४, ५१, १८-१९)। इसके पृथने पर हनुमान् आदि ने सीताहरण तथा अपने विफल प्रयासों का वणन किया (४ ५२, १-२)। यह सर्वज्ञ थी और

इसने हनुमान् आदि के वर्णन को सुनकर सन्तोष प्रगट किया (४ ५२ १८-१९) । इसने समस्त वानरो को आँख बन्द कराकर ऋक्षविल से क्षणमात्र में बाहर निकाल दिया (४ ५२, २६-२९) ।

स्वस्तिक, एक नौका का नाम है जिसपर मैना सहित भरत गया पार करने के लिये आरूढ हुये (२ ८६, ११-१२) । इस चिह्न से युक्त सर्पों का उल्लेख (५ १, १९) ।

स्वस्त्यात्रेय, एक महर्षि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या लौटने पर उनके अभिनन्दन के लिये दक्षिण दिशा से महर्षि अगस्त्य के साथ उपस्थित हुये (७ १, ३) ।

ह

हनुमान्, एक वानर का नाम है जो पम्पासागर पर श्रीराम से मिले थे (१ १, ५८) । इनके बहने पर राम सुग्रीव ने मिले (१ १, ५९) । ये सौ घोड़न विस्तार वाले क्षार समुद्र को लांघ गये (१ १, ७२) । "इन्होंने लका में पहुँचकर अशोकवाटिका में सीता को चिन्तामण देखा तथा उन्हें श्रीराम का संदेश सुनाया । अक्षुमार आदि का वध करने के पश्चात् ये पकड़े गये । तदनन्तर लका को भस्म करके लौट कर इन्होंने श्रीराम को सीता का संदेश सुनाया (१ १, ७३-७८) ।" लका से लौटते समय भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँच कर श्रीराम ने इनसे भरत के पान भेजा (१ १, ८७) । इनकी श्रीराम में भ्रष्ट तथा ऋष्यमूक पर्वत पर प्रस्थान से लेकर रावणवध तक की समस्त घटनाओं का बाल्मीकि ने पूर्वदर्शन कर लिया था (१ ३, २२-३८) । ये वायु देवता के औरस पुत्र थे, जिनका शरीर दक्ष के समान सुदृढ़ तथा गति गहद के समान थी (१ १७, १६) । ये सुग्रीव की सेना में उत्तर रहते थे (१ १७, ३२) । सुग्रीव और वानरो की आशङ्का का इन्होंने निवारण किया तथा सुग्रीव की आज्ञा में श्रीराम और लक्ष्मण का भेद लेने के लिये उनके पान गये (४ २, १३-२३) । "इन्होंने राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछा और अपना तथा सुग्रीव का परिषय दिया । श्रीराम ने इनके वचनों की प्रशंसा करते लक्ष्मण को इनसे वार्तालाप करने की आज्ञा दी । लक्ष्मण ने इन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया जिसे सुनकर ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (४ ३) ।" "लक्ष्मण ने इन्हें श्रीराम के वन में आने और सीता-हरण का वृत्तान्त बताया तथा इस कार्य में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रगट की । ये लक्ष्मण को आश्वासन देकर श्रीराम और लक्ष्मण को पीठ पर बिठाकर ऋष्यमूक आये (४ ४) ।" इन्होंने सुग्रीव को श्रीराम और लक्ष्मण का परिषय देते हुये उनके आगमन का समाचार सुनाया (४ ५, १-७) ।

इनका वचन सुनकर सुग्रीव श्रीराम से मिले (४. ५, ८) । सुग्रीव ने श्रीराम को बताया कि हनुमान् आदि श्रेष्ठ सचिव उनमें अनुराग रखने वाले हैं (४ ११, ७७) । श्रीराम इनके साथ मतङ्गवन में गये जहाँ सुग्रीव विद्यमान थे (४ १२, २४) । ऋष्यभूक से किष्किन्धा के मार्ग में वे भी अन्य वानर-पुत्रपतियों के साथ श्रीराम के पीछे चल रहे थे (४ १३, ४) । बालिन के वध पर शोक करती हुई तारा को इन्होंने विविध प्रकार से समझाया और बालिन के अन्वेषिणी सम्कार तथा कुमार अङ्गद का राज्याभिषेक करने का परामर्श दिया परन्तु तारा ने इनसे अपने पति के साथ ही सती होने का विचार व्यक्त किया (४ २१) । इन्होंने सुग्रीव के अभिषेक के लिये श्रीराम से किष्किन्धा पधारने की प्रार्थना की परन्तु श्रीराम ने इन्हें बताया कि वे अपने पिता की आज्ञापालन के कारण चौदह वर्षों के पून होने तक किसी ग्राम अथवा नगर में प्रवेश नहीं कर सकते (४ २६, १-९) । 'एवमुक्त्वा हनुमत्त राम सुग्रीवमब्रवीत्, (४ २६, ११) । इन्होंने सुग्रीव को सीता की खोज करने का परामर्श दिया (४ २९, १-२७) । इन्होंने चिन्तित हुये सुग्रीव को समझाया (४ ३२, ९-२२) । किष्किन्धा पुरी की शोभा देखते हुये लक्ष्मण न गगन इनके भवन को भी देखा (४ ३३, १०) । सुग्रीव के आदेश पर इन्होंने वानरों को आमन्त्रित करने के लिये सभी दिशाओं में दूत भेजे (४ ३७, १६) । इनके पिता भी कई सहस्र वानरों के साथ सुग्रीव के पास आय (४ ३९, १७-२८) । इनके साथ दस अरब वानर उपस्थित हुये (४ ३९ ३५) । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये दक्षिण दिशा की ओर भ्रजा (४. ४१, २) । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये इनका विशेष रूप से उल्लेख करते हुये इनको सीता की खोज में विशेष रूप में समर्थ बताया (४ ४४, १-७) । इन्हें विशेष रूप से उपयुक्त मानकर श्रीराम ने अपनी मुद्रिका देने हुए सीता की खोज में सफल होने का आशीर्वाद दिया (४ ४४, ८-१७) । इन्होंने दक्षिण दिशा की ओर सीता की खोज के लिये प्रस्थान किया (४. ४५, ५) । 'दत्त तु यामेव गता तु सीता तामाम्बितो यामुमुनो हनुमान्', (४ ४७, १४) । अङ्गद और तार के साथ वे सुग्रीव के बनाय हुए मार्ग से दक्षिण दिशा के देशों की ओर गये (४ ४८, १) । इन्होंने अङ्गद व साथ विन्ध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता की खोज की (४ ५०, १) । इन्होंने प्यासे वानरों को एक गुफा के अन्दर जल को प्रगट करने वाले चिह्नो को दिखाया (४ ५०, १३-१६) । इन्होंने गुफा के अन्दर एक वृद्धा तपस्विनी से उत्तरा परिषय पूछा (४ ५०, ३९-४०, ५१, १-८) । तापसी स्वयंप्रसा के पूछने पर इन्होंने उसे अपना समस्त वृत्तान्त बताया

(४ ५२, ३-१७) । तदनन्तर इन्होंने उससे समस्त वानरो को उस गुफा से बाहर निकाल देने के लिये कहा (४ ५२, २०-२४) । इन्होंने सीता की खोज न कर सकने के कारण चिन्तित हुए वानरो को भेदनीति के द्वारा अपने पक्ष में करके अज्ञेय को अपने साथ चलने के लिये समझाया (४ ५४) । 'श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रथित घर्मघटितम्, (४ ५५, १) । 'अज्ञेय परमायसो हनुमन्वमपात्रवीन्', (४ ५६, ६) । इनके और अज्ञेय के अनिश्चित और कोई भी वानरी-सेना को सुस्थिर नहीं रख सकता था (५ ६४, १३) । जाम्बवान् ने इन्हें उत्साहित किया क्योंकि यही वानरो में सर्वश्रेष्ठ थे (४ ६५ ३४) । "जाम्बवान् ने इनकी उत्पत्ति की कथा सुनाकर इन्हें समुद्र-लङ्घन के लिये उत्साहित किया । उन्होंने बताया कि बाल्यावस्था में ही ये बालसूर्य को कोई फल समझकर उसको प्राप्त करने के लिये आकाश में उड़ गये थे । उस समय जब इन्द्र ने इन पर वज्र का प्रहार कर दिया तो उससे पीड़ित होने पर इन्द्र ने ही इन्हें बरदान दिया कि ये इच्छा के अनुसार मृत्यु प्राप्त करेंगे । इस प्रकार जाम्बवान् ने इनकी प्रशंसा करते हुये इन्हें उत्साहित किया (४ ६६, १-३६) ।" जाम्बवान् की प्रेरणा पाकर इन्हें अपने महान् वेग पर विश्वास हो गया और इन्होंने अपना विराट रूप प्रगट किया (५ १६, ३७) । जब जाम्बवान् की बान सुनकर ये समुद्रलङ्घन के लिये प्रस्तुत हुये और अपने शरीर को बढ़ाने लगे तो वानरो को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । वानरो की बात सुनकर इन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया (४ ६७, १-३०) । जाम्बवान् के बहने पर ये महेंद्रपर्वत पर स्थित हो सागर-लङ्घन के लिये प्रस्तुत हुये (४ ६७, ३५-५०) । "इन्होंने समुद्र-लङ्घन किया जहाँ मंताक ने इनका स्वागत किया । सुरता पर विजय तथा सिद्धि का वध करके इन्होंने समुद्र के उस पार पहुँचकर लङ्का की शोभा का दर्शन किया (५ १) ।" इन्होंने लङ्का-पुरी में प्रवेश करने के विषय में विचार और तदनन्तर सूर्यास्त हो जाने पर अपने शरीर को त्रिलोके बराबर लघु बनाकर लङ्कापुरी में प्रवेश किया (५ २) । लङ्कापुरी का अवलोकन करके ये विस्मित हुये और उसमें प्रवेश करने समय निशाचरी लङ्का ने इन्हें रोककर परन्तु इनकी मार से विह्वल होकर उसने पुरी में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की (५ ३) । इन्होंने लङ्का-पुरी एवं रावण के अन्न-पुर में प्रवेश किया (५ ४) । इन्होंने रावण के अन्न-पुर तथा घर-घर में सीता की खोज की और उन्हें न पाकर दुःखित हुये (५ ५) । इन्होंने रावण तथा अन्याय राक्षसों के भवनों में भी सीता की खोज की (५ ६) । इन्होंने लङ्कापुरी के तथा रावण के भवनों की शोभा देखी और वहाँ सीता को न पाकर अत्यन्त व्यथित हो गये (५ ७, १-५

प्रभावशाली स्वरूप को देखकर इनके मन में अनेक प्रकार के विचार उठे (५ ४९) । रावण इन्हें देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और प्रहस्त को इनका परिचय पूछने की आज्ञा दी (५ ५०, १-११) । इन्होंने अपने को श्रीराम का दूत बताया (५ ५०, १२-१९) । श्रीराम के प्रभाव का वर्णन करते हुये इन्होंने सीता को लौटा देने के लिये रावण को समझाया (५ ५१, १-४४) । यद्यपि इनकी बातें युक्तियुक्त थीं तथापि रावण ने इनके वचन की आज्ञा दी (५ ५१, ४५) । विभीषण के समझाने पर रावण ने इनका वध करने की अपेक्षा इनकी पूँछ में आग लगा देने की आज्ञा दी (५ ५३, १-५) । रावण की आज्ञा के अनुसार राक्षसों ने इनकी पूँछ में आग लगा दी और इन्हे मगर भर में घुमाने लगे (५ ५३, ६-३०) । इनकी पूँछ में आग लगा दी जाने का समाचार सुनकर शम्भु-मन्त्रण हुई सीता ने अग्नि से शीतल हो जाने की प्रार्थना की (५ ५३, २४-३२) । जब इन्होंने देखा कि इनकी पूँछ में लगी अग्नि शीतल हो गई तो इन्होंने सीता और श्रीराम को ही इसका कारण मानने हुये अपन समस्त वस्त्रन काल दिये और राक्षसों का वध करके लङ्कापुरी का निरीक्षण करने लगे (५ ५३, ३३-४५) । इन्होंने समस्त लङ्कापुरी में आग लगा दी और केवल विभीषण का भवन छोड़ दिया (५ ५४) । समस्त लङ्का में आग लगा देने के पश्चात् इन्हें सीताजी की चिन्ता हुई परन्तु उनके अनिर्दिष्ट वध जाने का समाचार सुनकर इन्होंने उनके दर्शन के पश्चात् श्रीराम के पास लौटने का निश्चय किया (५ ५५) । सीता के दर्शन के पश्चात् वे सागर लीपने लगे (५ ५६) । समुद्र को लीपकर ये जाम्बवान् और अङ्गद आदि मुहूर्दों से मिले (५ ५७) । जाम्बवान् के पूछने पर इन्होंने अपनी लङ्कायात्रा का समस्त वृत्तान्त सुनाया (५ ५८) । सीता की दुरवस्था बता कर इन्होंने दानरों को लङ्का पर आक्रमण करने के लिये उत्तेजित किया (५ ५९) । इनके परामर्श की अपेक्षा करते हुये अङ्गद ने लङ्का को जीतकर सीता को वापस ले आने का उन्माहपूर्ण विचार प्रकट किया (५ ६०, १-१२) । श्रीराम की आज्ञा के बिना लङ्का पर आक्रमण न करने के जाम्बवान् के विचार को इन्होंने स्वीकार कर लिया (५ ६१, १) । तदनन्तर इनकी प्रशंसा करते हुये समस्त वानर प्रमत्त विस्र श्रीराम से मिलने के लिये चले (५ ६१, २-४) । जब वानरों सहित वे मधुवन में मधु का पान कर रहे थे तो दधिमुच ने इनको दूध पर आक्रमण किया (५ ६२, २५-२६) । दधिमुच के मुँह से मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर सुग्रीव ने हनुमान् आदि वानरों की सफलता का अनुमान किया (५ ६३) । दधिमुच के द्वारा सुग्रीव का संदेश सुनकर वानरों सहित वे विभिन्ना वृत्तियों और श्रीराम की प्रशंसा करते सीता के दर्शन का

ममाचार वताया (५ ६४) । इन्होंने श्रीराम को सीता का विस्तृत समाचार सुनाया (५ ६५) । जब इन्होंने श्रीराम को सीता की चूडामणि दिया तो वे उसे छाती से लगाकर रोने लगे (५ ६६, १) । श्रीराम ने इनसे सीता का सदेश पूछा (५ ६६, १४-१५) । इन्होंने श्रीराम को सीता का सदेश सुनाया (५ ६७) । इन्होंने सीता के सन्देह और अपने द्वारा उसके निवारण का वृत्तान्त बताया (५ ६८) । इनके कार्य की मफलता के लिये इनकी प्रशंसा करते हुये श्रीराम ने इन्हे अपने हृदय से लगाया (६ १, १-१३) । इन्होंने लङ्का के दुर्ग, पाटक, सेना विभाग और सशस्त्र आदि का वर्णन करके श्रीराम से सेना की वृद्ध करने की आज्ञा देने की प्रार्थना की (६ ३) । इनका वचन सुनकर श्रीराम ने कहा कि वे शीघ्र ही लङ्का को मष्ट कर डालेंगे (६ ४, १-२) । ये श्रीराम को अपने कंधे पर बैठाकर चले (६ ४, ४२) । इनके पराक्रम को देखकर लज्जित रावण ने अपने मन्त्रियों से परामर्श किया (६ ६, १) । वज्रदंष्ट्र ने कहा कि सुग्रीव और लक्ष्मण हनुमान् से श्रेष्ठ हैं (६ ९, १०) । 'गति हनुमतो लोके को विद्यात्तर्क्येन वा', (६ ९, ११) । विभीषण को देखकर सुग्रीव ने इनसे परामर्श किया (६ १७, ६) । इन्होंने श्रीराम के समक्ष विभीषण को ग्रहण करने के मन्वन्त्र्य में अपने विचार प्रकट किये (६ १७, ५०-६६) । सुग्रीव ने श्रीराम से इनके कंधे पर बैठकर सागर पार करने का निवेदन किया (६ २२, ८२) । सारण ने बताया कि लङ्का थाकर सीता का दर्शन करने की इनकी सफलता के पीछे अङ्गद की बुद्धि कार्य कर रही थी (६ २६, १९) । 'शुक ने रावण को इनका परिचय देते हुये कहा कि बाल्यकाल में ये सूर्य को पकड़ने के लिये उछले परन्तु सूर्य तक न पहुँच कर उदयगिरि पर ही गिर पड़े । उस क्षिप्र-खण्ड पर गिरने के कारण इनकी 'हनु' कुछ बट गई जिससे ये हनुमान् के नाम से प्रसिद्ध हुये । उसने रावण को इनके द्वारा लङ्का में आग लगायी जाने की घटना का भी स्मरण कराया (६ २८, ८-१७) । 'हनुमन्त च विज्ञान्तम्', (६ २९, ३) । ये बृहस्पतिपुत्र केशरी के पुत्र थे (६ ३०, २२) । ये वायु के पुत्र थे (६ ३०, २५) । रावण ने श्रीराम का मायाचित इटा भस्मक सीता को दिखाकर बताया कि इनका भी राक्षसों ने वध कर दिया है (६ ३१, २६) । अन्य वानर वीरों की सहाय सेकर इन्होंने लङ्का के पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया (६ ४१, ४०) । इन्होंने जम्बुमाली के साप युद्ध किया (६ ४३, ७) । जम्बुमाली ने इनके वध पर प्रहार किया परन्तु इन्होंने उनका वध कर दिया (६ ४३, २१-२२) । वे भी उस स्थान पर आये जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण मूर्च्छित पड़े थे (६ ४५, ३) । इन्होंने भी श्रीराम के लिये शोक किया (६ ४६, ३) । इन्द्रजित् न

इन पर दस बाणों से प्रहार किया (६ ४६, २०) । ये श्रीराम और लक्ष्मण की रक्षा करने लगे (६ ४७, २) । इन्होंने घृच्छादा के साथ युद्ध करते हुये उमवा वध कर दिया (६ ५२, २६-३९) । अकम्पन के साथ युद्ध करने हुये इन्होंने उसका वध कर दिया (६ ५६, ८-३९) । जब रावण युद्ध-भूमि में भयकर पराक्रम दिखा रहा था तो इन्होंने उसके साथ सप्पडों का युद्ध किया (६ ५९, ५३-७४) । रावण के त्रिरुद्ध नील के पराक्रम को देखकर ये भी अत्यन्त विस्मित हुये (६ ५९, ८१) । जब रावण ने लक्ष्मण को मूर्च्छित कर दिया तो इन्होंने रावण की छाती में मुष्टिप्रहार करके उसे भूमि पर गिरा दिया और तदनन्तर लक्ष्मण को उठा कर श्रीराम के पास ले आये (६ ५९, ११४-१२०) । इन्होंने श्रीराम से अपने पीठ पर बैठकर रावण से युद्ध करने का निवेदन किया जिसे स्वीकार करते हुये श्रीराम इनकी पीठ पर बैठ गये (६ ५९, १२५-१२७) । रावण ने इन्हें आहत कर दिया (६ ५९, १३५-१३६) । ये भी पर्वत शिखर लेकर लङ्का के द्वार पर उट गये (६ ६१-३८) । ये कुम्भकर्ण से युद्ध करने के लिये अप्रसर हुये (६ ६६, ३५) । इन्होंने कुम्भकर्ण से युद्ध किया परन्तु अन्त में आहत हो गये (६ ६७, १७-२०) । जब कुम्भकर्ण ने सुग्रीव पर शूल का प्रहार किया तो इन्होंने उस शूल को पकड़ कर तोड़ दिया जिससे सब लोग इनकी प्रशंसा करने लगे (६ ६७, ६३-६६) । जब सुग्रीव को पकड़ कर कुम्भकर्ण लङ्का की ओर चला तो पहले इन्होंने उन्हे मुक्त कराने का विचार किया परन्तु बाद में यह सोचकर कि किसी की सहायता से मुक्त होने को सुग्रीव अच्छा नहीं समझेंगे, इन्होंने अपना विचार त्याग दिया (६ ६७, ७४-८१) । इन्होंने देवान्तक और त्रिशिरा का वध किया (६ ७०, २०-२६ ३३-४९) । इन्द्रजित ने इन्हें आहत कर दिया (६ ७३, ५७) । ये विभीषण के साथ हाथ में मशाल लेकर युद्धभूमि का निरीक्षण करने लगे (६ ७४, ५-९) । इन्होंने सुग्रीव आदि को युद्धस्थल में आहत पड़े देखा (६ ७४, ११) । ये जाम्बवान् की ढूँढ़ने लगे (६ ७४, १३) । युद्धस्थल में आहत जाम्बवान् ने इनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में पूछा और कहा कि यदि ये जीवित हों तो मृतसेना भी पुन जीवित हो जायगी (६ ७४, १८-२३) । ये भी जाम्बवान् के पास पहुँच गये (६ ७४, २४,) । जाम्बवान् के आदेश पर ये हिमालय से ओपधिपुक्त पर्वत ले आये और उन ओपधियों की गंध में श्रीराम, लक्ष्मण, तथा समस्त वानर पुन स्वस्थ हो गये (६ ७४, २६-६८) । ये ओपधियों से युक्त उम पर्वत को पुन हिमालय पर पहुँचा आये (६ ७४, ७३) । अनेक राक्षसों का वध हो जाने से पशुचान् सुग्रीव ने इनसे आगे की कार्ययोजना के सम्बन्ध में परामर्श

किया (६ ७५, १) । निकुम्भ के साथ युद्ध करने हुये इन्होंने उसका वध किया (६ ७७, ११-२४) । जब इन्होंने मायामयी सीता को इन्द्रजित् के साथ देखा तो पहले तो चिन्तित हुए परन्तु जब इन्द्रजित् ने उसका वध कर दिया तो अत्यन्त विषाद-ग्रस्त हो गये (६ ८१, ८-३३) । जब इन्द्रजित् को देखकर समस्त वानर पलायन करने लगे तो उन्हें प्रोत्साहित करते हुये इन्होंने घोर युद्ध आरम्भ किया (६ ८२, १-८) । सीता के वध से इनका हृदय अत्यन्त शोक-सतत था (६ ८२, ९) । यद्यपि इन्होंने इन्द्रजित् की सेना का घोर सहार किया तथापि सीता की मृत्यु से अत्यन्त शोकग्रस्त होकर इन्होंने वानरो को युद्ध से विरत कर दिया और स्वयं श्रीराम के पास आये (६ ८२, २०-२५) । युद्धविरत वानरो का कोलाहल सुनकर श्रीराम ने यह समझा कि हनुमान् अकेले ही भीषण युद्ध कर रहे हैं, अब उन्होंने शृक्षराज आदि को इनकी सहायता के लिये भेजा, परन्तु उसी समय उपस्थित होकर इन्होंने श्रीराम को सीता के वध का समाचार दिया (६ ८३, १-९) । इन्होंने जब राक्षस-सेना का भीषण सहार आरम्भ किया तो इन्द्रजित् इनका वध करने के उद्देश्य से अस्त्र-पत्थरों से युक्त होकर इनके समक्ष उपस्थित हुआ (६ ८६, २०-२९) । लक्ष्मण इनकी पीठ पर आरूढ़ होकर इन्द्रजित् से युद्ध करने लगे (६ ८८, ४) । इन्होंने लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतार कर स्वयं ही राक्षस-सेना का भीषण सहार किया (६ ८९, २५) । इन्द्रजित् का वध करने के पश्चात् लक्ष्मण इनका सहारा लेकर चलते हुये श्रीराम के पास आये और इनके पराक्रम की सराहना की (६ ९१, ३ १५) । जब लक्ष्मण के मूर्च्छित हो जाने पर श्रीराम विलाप करने लगे तो सुपेण के आदेश पर ये हिमालय से पुनः ओपधियुक्त पर्वत लाये और उन ओपधियों की गन्ध से लक्ष्मण स्वस्थ हो गये (६ १०१, ३०-४२) । श्रीराम ने रावण-वध के पश्चात् इनसे, विभीषण को आज्ञा लेकर, लङ्का में जान और सीता को सदेस देने के लिये कहा (६ ११२, २१-२५) । ये सीता में घात थोत करके लौटे और श्रीराम को उनका सदेस सुनाया (६ ११३) । इन्होंने श्रीराम से सीता को दर्शन देने का निवेदन किया (६ ११४, १-४) । ये भी सुग्रीव तथा वानरो सहित श्रीराम के साथ लङ्का से प्रस्थित हुए (६ १२२, २३) । श्रीराम के आदेश पर इन्होंने निषादराज गुह तथा भरत को श्रीराम के आगमन की सूचना दी जिससे प्रसन्न होकर भरत ने इन्हें उपहार देने की घोषणा की (६ १२५) । इन्होंने भरत को श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के वनवास से सम्बन्धित समस्त वृत्तान्त सुनाया (६ १२६) । जब भरत ने कुछ दूर इनके साथ चलने के बाद भी श्रीराम का दर्शन नहीं किया तो इनने पूछा कि इन्होंने ठीक

समाचार दिया था अथवा नहीं, परन्तु उसी क्षण इन्होंने श्रीराम के पुष्पक विमान को दिखाकर भरत की माछुा का निवारण किया (६ १२७, २०-२७) । सुग्रीवो हनुमाश्चंद महेंद्रसदृशश्रुती, (६ १२८, २१) । ये चारों समुद्रों, और पाँच सौ नदियों से श्रीराम के अभिषेक के लिये जल लाये (६ १२८, ५२ ५७) । सीता ने इन्हें कुछ भेंट देने का विचार करके श्रीराम से आज्ञा माँगी और उनकी स्वीकृति मिलने ही इन्हें वह हार दे दिया जो उन्हें श्रीराम न दिया था (६ १२८, ७९-८०) । उस हार से ये अत्यन्त सुन्नोभित हो उठे (६ १२८, ८३) । श्रीराम ने अगस्त्य से कहा कि वाल्मिन् तथा रावण हनुमान् के बल की समता नहीं कर सकते थे (७ २५, २) । 'शौर्यं दास्य बल धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनम् । विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया ॥', (७ ३५, ३) । श्रीराम ने इनके पराक्रम का उल्लेख किया (७ ३५, ४-१०) । श्रीराम ने महर्षि अगस्त्य से पूछा कि वाल्मिन् और सुग्रीव के वंश होने पर इन्होंने वाल्मिन् का भ्रम क्यों नहीं कर दिया ? (७ ३५, ११) । श्रीराम ने महर्षि अगस्त्य से इनक विषय में विस्तार से बताने का निवेदन किया (७. ३५, १२-१३) । "महर्षि अगस्त्य न बताया कि बल और पराक्रम में ये अनुलनीय हैं । इनके पिता, केशरी, मुमुरु पर्वत पर राज्य करते थे, और वहीं उनकी पत्नी, अञ्जना, व गम से वायु देव ने इन्हें जन्म दिया । जन्म के समय इनको अङ्गकान्ति घान के अग्रभाग के समान निङ्गल वर्ण की थी । एक दिन अञ्जना की अनुपम्विनि में भूख से व्याकुल हो ये बाल सूर्य को पकड़ने के लिये आकाश में उठे । अपन दन पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखकर वायु देव भी शीतल होकर इनके पीछे बले । इस प्रकार, पिता के बलसे उठठ द्रुप ये सूर्य के समीप पहुँच गए । उसी दिन राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था परन्तु जब सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में इन्होंने राहु का स्पर्श किया तो वह भाग कर इन्द्र की शरण में गया । राहु की बात सुनकर इन्द्र ने अपने वय में इन पर प्रहार किया जिनमें ये एक पर्वत पर गिर पडे और इनकी बाई टुट्टी (हनु) टूट गई । इनके इस प्रकार आहत होते ही वायु ने अपनी गति रोक कर देवों सहित ममस्त जगत् को त्तन कर दिया और इन्हें लेकर एक गुफा में चले गये (७ ३५, १४-४९) ।" ' इन्द्रादि देवताओं महित ब्रह्मा उम म्यान पर आये जहाँ वायु देवता अपने इन आहत पुत्र को गोद में लेकर बैठे थे । उम समय ब्रह्मा को वायु देवता पर अत्यन्त दया आई (७ ३५, ५९-६५) । ब्रह्मा ने इन्हें पुन जीवित कर दिया (७ ३६, ४) । ब्रह्मा ने देवताओं से इन्हें बर देने के लिये कहा जिस पर इन्द्र ने इन्हें अपने वय से अवध्य होने का वर देने द्रुपे हनु टूट जाने के कारण इन्हें हनुमान् के नाम

से प्रसिद्ध होने का वर दिया (७ ३६, ८-१२) । इसी प्रकार सूर्य, वरुण, यम, कुबेर, सङ्कर, विश्वकर्मा तथा श्वप इत्या ने भी इन्हे वर दिया (७ ३६, १३-२५) । वरों से सम्पन्न होकर ये महर्षियों के आश्रमों में जाकर उपद्रव करने लगे जिनमें भृगु और अङ्गिरा के वश में उत्पन्न महर्षियों ने कुपित होकर इन्हे यह शाप दिया कि इन्हें उस समय तक अपने वस्त्र का पता नहीं चलेगा जब तक कोई इन्हें उसका स्मरण नहीं करा देगा (७ ३६, २८-३४) । जब वाल्मि और सुग्रीव में वर हुआ तो इसी शाप के कारण वे अपने वस्त्र को नहीं जान सके (७ ३६, ४०-४२) । 'पराक्रमो-साहमतिप्रताप-सौशील्यमाधुपनयानव्यषच । गाम्भीर्यंचातुर्यंसुवीर्यैर्घैर्हनुमन-कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके ॥ बसो पुनर्वाकिरण प्रहीष्यन्मूर्यान्मुञ्ज प्रष्टुमना कपीन्द्र । उच्चद्विरेस्त-गिरि जगाम ग्रन्थ महद्वाच्यनप्रमेय ॥', (७ ३६, ४४-४५) । 'लोकक्षयेष्वेव यथान्तवस्य हनुमन स्यास्यति क पुरस्तात् ॥', (७ ३६, ४८) । श्रीराम ने सुग्रीव से इनकी प्रशंसा की (७ ३९, १६-१९) । श्रीराम ने सुग्रीव से इनपर प्रेम-दृष्टि रखने के लिये कहा (७ ४०, ३) । "इन्होंने श्रीराम से कहा 'आपके प्रति मेरा महान् स्नेह सदैव बना रहे । आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे । आपके अतिरिक्त और कहीं भी मेरा आन्तरिक अनुगमन न हो ।' (७ ४०, १५-१९) । "श्रीराम ने इन्हें हृदय से लगाकर कहा 'कपिश्रेष्ठ । ऐसा ही होगा । ससार में मेरी क्या जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति भी बमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे । तुमने मुझ पर जो उपकार किये हैं उनका मैं बदला नहीं चुका सकता।' (७ ४०, २०-२४) ।" श्रीरामने इन्हे एक उज्ज्वल हार दिया (७ ४०, २५) । श्रीराम ने चिरकाल तक ससार में प्रसन्नचित्त विचरण करने के लिये जीवित रहने का इन्हें आशी-र्वान्त दिया । (७ १०८, ३०-३१) । इन्होंने श्रीराम से कहा कि जब तक श्रीराम को पावन कथा का प्रचार रहेगा वे पृथिवी पर ही रहेंगे (७ १०८, ३२-३३) ।

२. हयग्रीव, दानवों के एक वर्ग का नाम है जिनका विष्णु ने वध किया था (४ ४२, २६) ।

१. हर, एक वाजर-भूषण का नाम है । "भयकर कर्म करनेवाले इस पानर की लम्बी पूँछ पर लाल, पीले, भूरे और सफ़ेद रंग के लम्बे लम्बे बाल थे जो सूर्य की किरणों के समान चमक रहे थे । इसके पीछे विकर-रूप संकटों और हजारों सूर्यपति लङ्का पर आक्रमण करने के लिये सन्नद्ध थे (६ २७, २-५) ।"

२. हर, एक राक्षस का नाम है जो माली का पुत्र था । यह विभीषण का भ्राता हुआ (७ ५, ४४) ।

हरिजटा, एक राक्षसी का नाम है जिसकी आँखें बिल्ली के समान भूरी थीं। इसने रावण के पराक्रम का वर्णन करते हुये सीता को उसकी भार्या बन जाने के लिये समझाया (५ २३, ९-१३)।

हरिदश्व—देखिये सूर्य ।

हरी, काषवशा की पुत्री का नाम है जिसने हरि (सिंह), तपस्वी वानर तथा गोलाङ्गुलो को उत्पन्न किया (३, १४, २१-२५)।

हर्यश्य, राजपि घृष्टनेतु के पुत्र का नाम है (१, ७१, ८)। इनका पुत्र मरु था (१ ७१, ९)।

हविष्यन्द, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है (१ ५७, ३)।

हन्तिनापुर, एक नगर का नाम है जिसके निकट वसिष्ठ के दूतों ने केकयि जाने समय गङ्गा को वार किया था (२ ६८, ३१)।

हस्तिपृष्ठक, एक ग्राम का नाम है। केकयि से लौटने समय भरत इससे होकर आये थे (२ ७१, १५)।

हस्तिमुख, एक राक्षस का नाम है। सीता की खोज करते हुये हनुमान् ने इसके भवन में प्रवेश किया (५ ६, २५)। हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५ ५४, १३)।

ह्रहा, देव गन्धर्व का नाम है जिसका भरद्वाज मुनि ने भरत का सत्कार करने के लिये आवाहन किया था (२ ९१, १६)।

हार्दिक्य, एक दानव का नाम है जिसका विष्णु ने वध किया था (७ ६, ३५)।

हिमवान्, एक पर्वत का नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा और घातुओं की निधि है (१ ३५, १४)। "इसकी पत्नी का नाम मेना था जिसके गर्भ से इसने दो पुत्रियाँ, गंगा और उमा, उत्पन्न की (१, ३५, १५-१६)।" "देवताओं के आग्रह पर इसने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से अपनी पुत्री, गङ्गा, को देवताओं को दे दिया। इसने अपनी पुत्री उमा का रुद्र के साथ विवाह किया (१ ३५, १७-२१)।" देवताओं को उमा के शाप से पीड़ित देखकर उमा सज्जित शिव इसके उत्तर भाग में एक शिखर पर आकर तपस्या करने लगे (१ ३६, २६-२७)। गंगा इनकी ज्येष्ठ पुत्री थी (१ ४१, १९; ४३, ४)। अपनी पत्नी को शाप देने के पश्चात् गौतम मुनि इसके शिखर पर आकर तपस्या करने लगे (१. ४८, ३४)। जब वसिष्ठ ने विश्वामित्र की स्तना का सहार कर दिया तो क्षिप्र होकर विश्वामित्र इससे पार्वतीभाग में आकर तपस्या करने लगे (१ ५५, १२)। "दुन्दुभि नामक दैत्य ने युद्ध करने में अपनी अममर्षता प्रकट करते हुये समुद्र में उखले

कहा : 'विशाखवन मे जो पर्वतो का राजा और भगवान् शररु का श्वसुर हैं, तपस्वी जनो का सबसे बडा आश्रय और सत्कार मे 'हिमवान्' नाम से विख्यात है, जहाँ से जल के बडे-बडे स्रोत प्रगट हुए हैं, तथा जहाँ बहुत सी कन्दरायें और झरनें हैं, वह गिरिराज हिमवान् ही तुम्हारे साप युद्ध करने मे समर्थ है । वह तुम्हे अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है ।' इस प्रकार समुद्र के कपनानुसार दुन्दुभि इसके पास आया परन्तु इसने प्रगट होकर अपने को युद्धकर्म मे अकुशल बताया जिसे सुनकर क्रुद्ध हुये दुन्दुभि ने अन्य युद्धनिपुण वीर का नाम पूछा । तदनन्तर इसने दुन्दुभि को वालिन् के पास जाने का परामर्श दिया (४ ११, १२-२३) ।" इसही बात सुनकर दुन्दुभि तत्काल वालिन् की किष्किन्धा पुरी मे जा पहुँचा (४ ११, २४) । सुग्रीव ने यहाँ विधास करने वाले वानरो को भी आमन्त्रित करने के लिये बहा (४ ३७, २) । यहाँ से एक नील की सख्या मे वानर सुग्रीव के पास उपस्थित हुये (४. ३७, २२) । वानरो ने इस पर्वत पर स्थित उस विशाल वृक्ष को देखा जो शररु की यज्ञशाला मे स्थित था (४ ३७, २७) ।

हिरण्यकशिपु, एक असुर का नाम है जिसका विष्णु ने पथ किया था (७ ६, ३४, २२, २४) ।

हिरण्यगर्भ—देखिये सूर्य ।

हिरण्यताम्र—देखिये मैताफ ।

हिरण्यरेतस्—देखिये सूर्य ।

हुताशन के दो पुत्रो, उल्कामुख और जनङ्ग, को सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने दक्षिण दिशा मे भेजा (४ ४१, ४) ।

हृष्ट, एक देव-गन्धर्व का नाम है जिनका, भरत का स्वागत करने के लिये महर्षि भरद्वाज ने आवाहन किया (२ ९१, १६) ।

हेति—ब्रह्मा ने भारम्भ मे जल की सृष्टि करने के पश्चात् प्राणियों की सृष्टि की । उन प्राणियो से जब उन्होने जल की रक्षा करने के लिये कहा तो उनमे से कुछ ने जल का यक्षण करने तथा अन्य ने उसको रक्षा करने की वान कही । जिन्होने यक्षण की बात कही वे 'यस', तथा जिन्होने रक्षा की बात कही वे 'राक्षस' कहलाये । इन्ही आदि राक्षसो मे से एक का नाम हेति, ओर दूसरे का प्रहेति था । हेति ने काल की कुमारी भगिनी, भया, के साथ विवाह कर के उसके गर्भ से एक पुत्र, विद्युत्नेत्र, को जन्म दिया । हेति ने अपने इस पुत्र का सन्ध्यापुत्री सालवटडूटा के साथ विवाह कर दिया (७ ४, १२-२०) ।

हेमगिरि, सिन्धुनद और समुद्र के सगम पर स्थित सी शिखरो से युक्त

एक महान् पर्वत का नाम है। इसके क्षत्र में सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने सुपेण आदि वानरो को भेजा था (४ ४२, १४)। देखिये सोमगिरि।

हेमचन्द्र, विशाल के पुत्र का नाम है (१ ४७, १२)।

हेमन्त, एक ऋषि का नाम है जिसका लक्ष्मण ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया (३ १६, १-३६)।

हेममाली, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के विरुद्ध युद्ध के लिये खर के साथ आया (३, २३, ३३)। इसने खर के साथ श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, २७)। श्रीगम ने इसका वध कर दिया (३ २६, २९-३५)।

हेमा, एक अप्सरा का नाम है। महर्षि भरद्वाज ने भरत का आतिथ्य-सत्कार करने के लिए इसका आवाहन किया था (२ ९१, १७)। "यह मय दानव की प्रेयसि थी। देवेश्वर इंद्र ने मय का वध करके ऋक्षविल में स्थित उसके समस्त भवन आदि को हेमा की प्रदान कर दिया। तदन्तर हेमा ने अपनी सखी स्वयंप्रभा को उस भवन की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया (४. ५१, १४-१७)।" एक समय देवताओं ने इसे मय दानव को समर्पित कर दिया। मय इसके साथ सहस्र वर्षों तक रहा किन्तु एक दिन यह देवों के कार्य से स्वर्ग चली गई और फिर नहीं लौटी। मय ने इसके लिये एक सुवर्ण का नगर निर्मित किया जहाँ इसके चले जाने के पश्चात् वह विद्योप में निवास करता था। इसने मय के दो पुत्रों तथा एक पुत्री, मन्दोदरी, को जन्म दिया (७ १२, ६-१२ १८)।

हैहय, एक देश का नाम है जहाँ के राजा, असित के साथ शत्रुता रखते थे (१ ७० २७, २ ११०, १५)। 'अमात्या क्षिप्रमाख्यात हैहयस्य नृपस्य वै,' (७ ३२, २६)। 'हैहयाधिपयोधाना वेग आसीत्पुदाहण', (७ ३२, ३५)। 'हैहयाधिप' (७ ३२, ४६, ३३, ६)।

ह्लादिनी, एक नदी का नाम है जिसे केकय से लौटते समय भरत ने पार किया था (२ ७१, २)।

ह्रस्वर्कण, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में सीता की खोज करते हुये हनुमान् न प्रवेश किया (५ ६, २४)। हनुमान् ने इसके भवन में आग लगा दी (५ ५४, १२)।

परिशिष्ट

(परिशिष्टों में दिये गये प्रत्येक नाम बान्मीकिरामायण में अनेक स्थानों पर आते हैं, परन्तु उनके सब सन्दर्भों का उल्लेख अनावश्यक समझ कर केवल एक-एक स्थान का उल्लेख किया गया है) ।



परिशिष्ट-१

वाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले पशु-पक्षियों के नाम

अत्यूह २ १०३, ४३	गोघा ४ १७ ३७
अर्जुन ३ ७५ १२	गोमायु ३ २३, ९
इन्द्रगोप ४ २८ २४	गोलाङ्गूल ३ १४ २५
ईहामृग ६ ९९ ४२	गोह ३ ४७, २३, गीता प्रेस सस्करण
उलूक २ ११४, २	चक्रवाक ३ ११, ३
ऊँट ७ ७, ४७	चमर . ३ १४, २३
श्रृष २ २५, १९	नलमीन ३ ७३, १४
एकशत्य ५ ११, १७	पद्मग ३ १४, २८
कङ्क ३ २३, ९	पुस्कोकिल २. १०३, ४३
कच्छप ७ ७, ४८	प्लव . २ १०३, ४३
कादम्ब ३ ११, ६	विटाल २ ११४, २
कारण्डव २ १०३, ४३	भास ३ १४, १८
कीर ३ ७५, १२, गीता प्रेस स०	मकर ६ ९९ ४३
कुङ्कुट ५ ११, १५	मयूर ३ ४७, ४७
कुटज ४ २८, १४	महिष २ २५, १९
कूर्म : ४ १७, ३७	मृग २ ९४, ७
कृकल ५ ११ १७	मेघ ५ ११, १७ गीता प्रेस सस्करण
कोपटिक ३ ७५, १२	रुह ३ ४७, २३, गीता प्रेस सस्करण
कौटव २ १०३, ४३	रोहित ३ ७३, १४
खर ७ ७ ४७	बभ्रुण्ड ३ ७३, १४, गीता प्रेस स०
गज २ ११४, २१	बराह २ १०३, ४२
गवय २ १०३ ४२	वाघ्रीणस ५ ११, १६
गाम २ ११४, ९	वानर ३ ११, ७७
गृध्र ३ १४ १	वापस ३ ४७ ४७
गोकर्ण २ १०३ ४२	वृषभ २ ११४, ९

(४२६)

व्याघ्र २ २५, १९
शाल्य ५ ११, १६
शाल्यक ४ १७, ३७
शश ४ १७ ३७
शमक ५ ११, १७
शिशुमार ७. ६, ४७
शृगाल ६ ९९, ४१

शयेन ३ १४, १८
श्वान ६ ९९, ४३
सारस . ३ ११, ३
सिंह . २ २५, १९
सृमर २ १०३, ४२
हस २ १०३, ४३

परिशिष्ट-२

वाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले पेड़-पौधों के नाम

अगुरु २, ११४, २०	कुरष्ट ४. १, ८०
अग्निमुख ३ ७३, ४	कुरव ३ ६०, २१, गीता प्रेम स०
अङ्गोल ४ १ ८०	कुतमाल ४. २७, १८
अतिमुक्तक : ४ १७, १७	केतकी ३. १५, १७
अरविन्द ३ ७५, २१	कोविदार २. ९६, १८
अरिष्ट २ ९४, ९	रादिर ३. १५, १८
अशोक ३ ७३, ४	खजूर ३. १४, १६
अश्वकर्ण २ ९९, १९	शोधूम ३. १६, १६
अश्वत्थ ३ ७३, ३	चन्दन : २. ११४, २०
अमन २ ९४, ८	चम्पक : ३ १५, १७
आम : २ ९४, ८	चिरिबिल्व : ३. ११, ७५
औवला : २ ९४, ९	चूणक : ४ १, ८०
हृद्गदो : २ १०४, ८	जम्बू : २. १४, ८
उत्पल : ३ ७५, २१	जलवेत : ४. २७, १८
उद्दालक ४ १, ८२	तमाल : ३. १५, १६
कदम्ब २ ९४, ९	ताल : २. ९९, १९
कदली ३ ३५, १३	निनिग २ ९४, ८
करङ्ग ६ ४, ७५	तिन्दुक २ ९४, ८
करवीर ३ ७३, ४	तिमिद ४ २७, १८
करीर ६ २२, ५८	तिलक २. ९४, ९
कशिका : ३. ६०, २०	दाडिम : ६ २२, ५८
कपूर ४. २८, ८	धन्वन : २ ९४, ९
काशमीर २. ९४, ९	धव : २. ९२, ८
किष्कुक : ३. १५, १८	नरकमाल : ३ ७३, ४
कुन्द ३. ७५, २४	नागवृष ३ ७३, ४
कुमुद . ४. ३०, ४८	

नारिकेल ३ ३५, १३	मालती ३ ७१, २४
निचुल ३ ७५, २४	मुक्तक ३ ७५, २४
नीप ४ २७, १८	मुचुकुन्द ४ १, ८१
नील ३ ७३, ४	यव ३ १६, १६
नीलकमल ३ ७५, २०	रक्त कुरवक ४ १ ८२
नीलागोक ६ ४, ८४	रक्त चन्दन ३ ७३, ४
नीवार ३ ११, ७५	रञ्जक ६ ४, ८२
न्यग्रोव ३ ७३, ३	लकुच ३ १५, १८
पदाक ४ १, ७९	लोघ्न २ ९४, ८
पनस २ ९४, ८	वज्जुल ३ ११, ७१
पर्णास ३ १५, १८ गोता प्रेस से०	बट ३ ७५, २३
पाटल ३ १५ १८	वरण २ ९४, ९
पारिमद ३ ७३, ४	वारुणी २ ११४, २०
पिप्पली ३ ११, ३९	वासन्ती ४ १, ७७
पुन्नाग ३ १५, १६	विभीनक ६ ४, ५८ -
प्रियङ्गु ७ २६ ५	वेणु २ ९४, ८
प्रियाल २ ९४, ८	यमी ३ १५, १८
प्लस ३ ७३, ३	शात्मली २ ६८, १९
बकुल ४ १, ७८	शिरीष ४ १, ८२
बाघुजीव ४ ३०, ६२	शिगया ४ १, ८२
बीजक २ ९४, ९	सप्तपर्ण ३ ७५, २४
बेर २ ९४, ९	सरल ४ २७, १७
बेल २ ९४, ८	सत्र ४ २७, १०
बैत २ ९४, ९	साल (साल मी) २ ९६, ११
भद्रीर ३ ७५, २४	सिन्दुवार ४ १, ७७
भव्य , २ ९४, ८	सौगधिक ३ ७५, २०
मधुक २ ९४, ९	स्वल बैत ४ २७, १८
मन्दार ७ २६, ५	स्वन्दन ३ १५, १८
मल्लिका ४. २, ७६	हिनाल ४ १, ८३
माधवी ४ १, ७७	

परिशिष्ट-३

वाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले अस्र-शस्त्रों के नाम

अञ्जलिक ६ ४५ २३
 अलक्ष १ २८ ५
 अवाहमुत्त १ २८, ४
 अशानि १ २७, ९
 आग्नेयास्त्र (शिवरास्त्र भी)
 १ २७, १०
 आवरण १ २८ ९
 षट्पि ६. ३१, २२
 ऐन्द्रचक्र १ २७, ५
 शैवीकास्त्र १ २७, ६
 कङ्काल १, २७, १२
 कपाल १ १७, १२
 कर्ण ३ २६, ३१
 कामरश्मि १ २८, ९
 कामरूप १ २८, ९
 कामुक ३ २२, १९
 कालचक्र १. २७, ५
 कालपाश १ २७, ८
 किङ्किणी १ २७ १२
 क्रीचान्त्र १ २७, ११
 क्षुर ३ २६, ७
 क्षुरप्र ६. ७६ ६
 खड्ग ३ २२, १८
 गदा (मोदकी) १ २७ ७
 गदा (शिलरी) १ २७, ७
 जुम्भक १ २८, ९

ज्योतिष १ २८, ६
 तामस १ २७, १७
 तेजप्रभ १ २७, १८
 तीमर ३ २२ १८
 विशूल १ २७, ६
 दण्ड ६ ३१, २२
 दण्डचक्र १ २७, ५
 वशाचीय १ २८, ५
 वशास १ २८, ५
 वारण १ ५६, ८
 वारण १ २७, १९
 दुन्दुनाम १. २८, ६
 हठनाभ १ २८ ५
 र्वत्पनाशक १ २८, ६
 धा १ २८, ८
 धनुष ३ २२, १९
 धर्मपाश १. २७, ८
 धान्य १ २८, ८
 धृतिमाली १ २८, ७
 धृष्ट १ २८, ४
 नन्दन १ २७ १३
 नाराय ३ २८, १०
 नारायणास्त्र १ २७, ९
 नालीक ३ २८, १०
 निष्कलि १ २८, ७
 नैरास्य १ २८, ६

पट्टिसा १ ५४ २२	रति १ २८, ८
पञ्चनाभ १ २८, ६	रभस १ २८ ४
पमान १ २८, ९	रविर १ २८, ७
परधीर १ २८, ८	रौद्र १ ५६, ६
पराङ्मुख १ २८ ४	लक्ष्य १ २८ ५
परिष ३ २२, १९	वज्रास्त्र १ २७, ६
परशु ३ २२ १८	वत्सदन्त ३ ४५, २३
पशुपत १ ५६ ६	वस्त्र १ २८, ९
पिन्ध १ २८ ८	वपन १ २७, १५
पिनात्र १ २७, ९	वामव्यास्त्र १ २७ १०
प्रनिहारतर १ २८, ४	वारुणवासा १ २७, ८
प्रसामत १ २७, १४	विकृणि ३, २८, १०
प्रन्वापन १ २७, १४	विघ्न १ १८, ८
प्रास ३ २५ ८	विनिद्र १ २८, ६
ब्रह्मसिरस १ २७, ६	विपाठ : ६. ७६, ६
ब्रह्मास्त्र १ २७ ६	विमल १ २८, ६
भगास्त्र १ २७, १९	विरह्य १ २८, ७
भिविद्यान् ६ ५३, ८	विलापन १ २७, १५
मल्ल ६ ४५ २३	विष्णुचक्र १ २७, ५
मकर १ २८, ८	वृत्तिमान् १ २८, ७
मथन १ ५६, १०	शकुन १ २८, ६
महानाम १ २८, ६	शतप्री ६ ८६, २२
महाबाहु १ २८, ७	शतवक्त्र १ २८, ५
मादन १ २७, १५	शानोदर १ २८, ५
मानवास्त्र १ २७, १६, गीता प्रेस स०	शान्य ६ ७६, ६
मायामय १ २७, १८	शिलीमुख ६ ७६, ६
मुद्गर ३ २५, १२	शिविर १ २७, १९
मुमल १ २७, १२	शोनेपु १ २७, १९
मोट १. २८, ९	शुक्लवाहु १ २८, ७
मोहन १ २७ १४	शूल ७ ६३, २५
मोहनाम्न १ २७, १६	शोयन १ २७, १५
मौसल १ २७, १७	

(४३१)

सताग्नः १ २७, १५
सर्वतः १. २७, १७
सत्य १ २७, १८
सत्यवोनि १ २८, ५
सत्यवान् १ २८, ५
सार्पनाथ १ २८, ९
सावित्री १ २८, ७

सिंहद्वार ६ ४५, २३
मुनाभः १ २८, ५
मौनमः १ २७, १७
सौम्यः १. २७, १५
स्वनाभ १. २८, ६
हृषिकेश १. २७, ११

